

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

## भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला

### प्राकृत ग्रंथांक ५

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध भागमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासंभव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

ग्रन्थमाला सम्पादक

डॉ० हीरालाल जैन,

एम० ए०, डी० लिट्

डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय,

एम० ए०, डी० लिट्

प्रकाशक

अयोध्याप्रसाद गोयलीय,

मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ

दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस

स्थापनाब्द  
फाल्गुन कृष्ण ९  
वीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २०००  
१८ फरवरी सन् १९४४

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी



भारतीय ज्ञानपीठ, काशी



JNANAPITHA MURTIDEVI JAINA GRANTHAMALA  
PRAKRIT GRANTHA No. 5

---

# MAHABANDHO

[ MAHADHAVAL SIDDHANTA SHASTRA ]


2. Bidio Tthidi bandhahiyaro

*Vol. III*

STHITI BANDHADHIKARA

WITH

HINDI TRANSLATION



*Editor*

Pandit, PHOOL CHANDRA, *Siddhant Shastri.*



*Published by*

*Bharatiya Jnanapitha, Kashi*

---

*First Edition* }  
*1000 Copies.* }

JYESHTHA VIR SAMVAT 2480  
VIKRAMA SAMVAT 2011  
JUNE 1954

{ *Price*  
{ *Rs. 11/-*

# Bharatiya Jnana-Pitha Kashi

FOUNDED BY

**SAHU SHANTI PRASAD JAIN**

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

**SHRI MURTI DEVI**

**BHARATIYA JNANA-PITHA MURTI DEVI  
JAIN GRANTHAMALA**

**PRAKRIT GRANTHA NO. 5**

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL,  
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS  
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHIRANSA, HINDI,  
KANNADA AND TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN  
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR  
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT  
SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

*General Editors*

**Dr. Hiralal Jain, M. A. D. Litt.  
Dr. A. N. Upadhye, M. A. D. Litt.**



*Publisher*

**AYODHYA PRASAD GOYALIYA**  
Secy., BHARATIYA JNANAPITHA,  
DURGAKUND ROAD, BANARAS

*Founded in*  
**Phalgun Krishna 9.** }  
**Vira Sam. 2470** }

*All Rights Reserved.*

{ **Vikrama Samvat 2000**  
18th Febr. 1944

## सम्पादकीय

आजसे लगभग सवा वर्ष पूर्व स्थितिबन्धका पूर्व भाग सम्पादित होकर प्रकाशमें आया था। यह उसका शेष भाग है। भारतीय ज्ञानपीठकी ओरसे सब तरहकी सुविधाएँ प्राप्त होने पर भी इसके सम्पादनमें अपने वैयक्तिक कारणोंसे हमें पर्याप्त समय लगा है इसके लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं।

### सहयोग

श्रीयुत बन्धु रतनचन्द्रजी मुख्तार व बन्धुवर नेमिचन्द्रजी वकील सहारनपुर षट्खण्डागम और कषाय-प्राभृतके विशेष अभ्यासी हैं। श्री रतनचन्द्रजीने तो एक तरहसे गार्हस्थिक भ्रंशुटोसे अपनेको मुक्त ही कर लिया है और आजीविकाको तिलाञ्जलि दे दी है। थोड़े बहुत साधन जो उनके पास बच रहे हैं ऊँहीसे वे अपनी आजीविका चलाते हैं। जीवनमें सादगी और निष्कपट सरल व्यवहार उनके जीवनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस वर्ष दस लक्ष्ण पर्वके दिनोंमें हम सहारनपुर आमन्त्रित किये गये थे, इसलिए निकटसे हमें उनके जीवनका अध्ययन करनेका अवसर मिला है। इस आधारसे हम कह सकते हैं कि वे घरमें रहते हुए भी साधु जीवन बिता रहे हैं। योगायोगकी बात है कि इन्हें पत्नी भी ऐसी मिली हुई है जो इनके धार्मिक कार्योंमें पूरी साधक हैं। यो तो दोनों बन्धु मिलकर इन महान् ग्रन्थोंका स्वाध्याय करते हैं परन्तु श्री रतनचन्द्रजीका अभ्यास तगड़ा है और इन ग्रन्थोंके सम्पादनमें उनके परामर्शकी आवश्यकता अनुभवमें आती है। वे यह इच्छा तो रखते हैं कि इन ग्रन्थोंके प्रकाशनके पहले हमें उनके स्वाध्यायका अवसर मिल जाय तो उत्तम हो और ऐसा करनेमें लाभ भी है पर कई कारणोंसे इस व्यवस्थाके जमानेमें कठिनाई जाती है। स्थितिबन्धका अन्तिम कुछ भाग अवश्य ही उन्होंने देखा है और उनके सुभावोंसे लाभ भी उठाया गया है। आशा है भविष्यमें इस सुविधाके प्राप्त करनेमें सुधार होगा और उनका आवश्यक सहयोग मिलता रहेगा।

### शुद्धि-पत्रक

श्री रतनचन्द्रजीने प्रकृतिबन्ध और स्थितिबन्धके पूर्वभागका शुद्धि-पत्रक तैयार करके हमारे पास भेजा है। उसमें आवश्यक संशोधन करके मुद्रित कर देनेमें लाभ भी है। किन्तु इधर हमारे मित्र श्रीयुत लाला राजकृष्णजी देहलीके निरन्तर प्रयत्न करनेके फलस्वरूप मूडबिद्रीसे कनडी मूल ताडपत्रीय प्रतिबंधोंके फोटो देहली वीरसेवा मन्दिरमें आ गये हैं। श्री लाला राजकृष्णजीने दौड़ धूप करके यह काम तो बनाया ही है और इसमें उन्हें श्रीयुत बाबू छोटेलालजी कलकत्ता वालोंका भी पूरा सहयोग मिला है। किन्तु सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि लाला राजकृष्णजी की पत्नीका इन ग्रन्थोंके उद्धार कार्यमें विशेष हाथ रहा है। वे स्वयं इन महानुभावोंके साथ मूडबिद्री गईं और हर तरहकी कमीकी पूर्तिमें साधक बनीं तभी यह काम हो सका है। अतएव इस भागके साथ हमने पूर्व भागोंका शुद्धिपत्रक नहीं जोड़ा है, क्योंकि इन ग्रन्थोंके उत्तर भारतमें सुलभ हो जानेसे हमारा विचार है कि एक बार प्रकाशित और अप्रकाशित भागका शान्तिसे इन मूल ग्रन्थोंके साथ मिलान कर लिया जाय और तब जाकर प्रकाशित भागोंमें जो कमी रह गई हो उसे प्रकाशमें लाया जाय। हमें विश्वास है कि हमारे साथी हमारे इन विचारोंका समर्थन करेंगे।

### आवश्यक निवेदन

हमें भारतीय ज्ञानपीठके सुयोग्य मन्त्री श्रीयुत अयोध्याप्रसादजी गोयलोयने जितनी तत्परतासे यह कार्य करनेके लिए सौंपा था उतनी तत्परता हम इस काममें दिखा नहीं सके। आशा है वे हमारी इस कमजोरीकी ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे और जिस तरह अभी तक सहयोग देते आये हैं देते रहेंगे।

अन्तमें हमें समाजसे इतना ही निवेदन करना है कि दिगम्बर परम्परामें इन महान् ग्रन्थोंका बड़ा महत्त्व है। द्वादशांग बाणीसे इनका सोचा सम्बन्ध है। एक समय था जब हमारे पूर्वज ऐसे महान् ग्रन्थोंकी लिपि कराकर उनकी रक्षा करते थे किन्तु वर्तमान कालमें हम उन्हें स्वल्प निष्ठावर देकर भी अपने यहाँ स्थापित करनेमें सकुचाते हैं। यह शङ्का की जाती है कि हम उन्हें समझते नहीं बुलाकर क्या करेंगे। किन्तु उनकी ऐसी शङ्का करना निर्मूल है। ऐसा कौन नगर या गाँव है जहाँके जैन गृहस्थ तात्कालिक उत्सवमें कुछ न कुछ खर्च न करते हों। जहाँ उनकी यह प्रवृत्ति है वहाँ जैनधर्मके मूल साहित्यकी रक्षा करना भी उनका परम कर्तव्य है। कहते हैं कि एक बार धार रियासतके दीवानको वहाँके जैन बन्धुओंने जैन मन्दिरके दर्शन करनेके लिए बुलाया था। जिस दिन वे आनेवाले थे उस दिन मन्दिरजीमें विविध उपकरणोंसे खूब सजावट की गई थी। जिन उपकरणोंकी धारमें कमी थी वे इन्दौरसे बुलाये गये थे। दीवान सा० आये और उन्होंने श्री मन्दिरजी को देखकर यह अभिप्राय व्यक्त किया कि जैनियोंके पास पैसा बहुत है। अन्तमें उन्हें वहाँका शास्त्र भण्डार भी दिखलाया गया। शास्त्र भण्डारको देखकर दीवान सा० ने पृच्छा कि ये सब ग्रन्थ किस धर्मके हैं। जैनियोंकी ओरसे यह उत्तर मिलने पर कि ये सब जैनधर्मके ग्रन्थ हैं दीवान सा० ने कहा कि यह जैनधर्म है।

इससे स्पष्ट है कि साहित्य ही धर्मकी अमूल्य निधि है। महान्से महान् कीमत देकर भी यदि इसकी रक्षा करनी पड़े तो करनी चाहिए। गृहस्थोंका यह परम कर्तव्य है। हम यह शिकायत तो करते हैं कि मुसलिम बादशाहोंने हमारे ग्रन्थोंको ईधन बनाकर उनसे पानी गरम किया किन्तु जब हम उनकी रक्षा करनेमें तत्पर नहीं होते और उन्हें भण्डारोंमें सड़ने देते हैं या उनके प्रकाशित होने पर उन्हें बुलाकर अपने यहाँ स्थापित नहीं करते तब हमें क्या कहा जाय ? क्या हमारी यह प्रवृत्ति उनकी रक्षा करनेकी कही जा सकती है ? स्पष्ट है कि यदि हमारी यही प्रवृत्ति चालू रही तो हम भी अपनेको उस दोषसे नहीं बचा सकते जिसका आरोप हम मुसलिम बादशाहों पर करते हैं। शास्त्रकारोंने देव और शास्त्रमें कुछ भी अन्तर नहीं माना है। अतएव हम गृहस्थोंका कर्तव्य है कि जिस तरह हम देवकी प्रतिष्ठामें धन व्यय करते हैं उसी प्रकार साहित्यकी रक्षामें भी हमें अपने धनका व्यय करनेमें कोई न्यूनता नहीं करनी चाहिए। आशा है समाज अपने इस कर्तव्यकी ओर सावधान होकर पूरा ध्यान देगी।

हमने इस भागके सम्पादन आदिमें पूरी सावधानी बरती है फिर भी गार्हस्थ्यिक भङ्गोंके कारण त्रुटि रह जाना स्वाभाविक है। आशा है स्वाध्यायप्रेमी जहाँ जो कमी दिखाई दे उसकी सूचना हमें देनेकी कृपा करेंगे ताकि भविष्यमें उन दोषोंको दूर करनेमें हमें प्रेरणा मिलती रहे।

—फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

## प्रकाशन-व्यय

१४६१) कागज २२ × २६ = २८ पौण्ड

७१ रीम ६ दस्ता

१७८७) छपाई ६३॥ फार्म

११००) जिल्द बँधार्ई

४०) कवर कागज

५०) कवर छपाई

२५१०) सम्पादन

३००) कार्यालय व्यवस्था

२२५) भेंट, आलोचना, १०० प्रति

१५०) पोस्टेज ग्रंथ भेंट मेजनेका

३०००) कमीशन, विज्ञापन, बिक्री आदि

कुल लागत ११२५३)

१००० प्रति छपी। लागत एक प्रति ११।)

मूल्य ११ रु०

## प्रशस्ति

स्थितिबन्धके अन्तमें एक प्रशस्ति आती है वह इस प्रकार है—

यो दुर्जयस्मरमदोत्कटकुम्भिकुम्भ-

संचोदनोत्सुकतरोप्रसृगाधिराजः ।

शल्यत्रयादपगतस्त्रयगारवारिः

संजातवान्स भुवने गुणभद्रसूरिः ॥ १ ॥

दुर्वारमारमदसिन्धुरसिन्धुरारिः

शल्यत्रयाधिकरिपुस्त्रयगुप्तियुक्तः ।

सिद्धान्तवाधिपरिवर्धनशीतरश्मिः

श्रीमाधनंदिमुनिपोऽजनि भूतलेऽस्मिन् ॥ २ ॥

वरसम्यक्त्वद् देशसंयमद् सम्यग्बोधदत्यन्तभा-

सुरहारत्रिकसौख्यहेतुवेनिसिर्दादानदौदार्यदे- ।

लुतरदिगीतने जन्मभूमियेनुतं सार्नददिं कर्तुंभू-

भरमेतुं पोगलुत्तमिर्पुदभिमानाधीननं सेननं ॥ ३ ॥

सुजनते सत्यमोलपु गुणोन्नति पंपु जैनमा-

गंजगुणमैब सद्गुणविन्यधिकं तनगोप्पनूतनध-

मंजनिवनेंदु कित्ते सुमदीधरे मेदिनिगोप्पितोब्बे चि-

राजसमरूपनं नेगल्द सेनननुद्धगुणप्रधाननं ॥ ४ ॥

अनुपमगुणगणदत्तिब-

मंन शीलनिदानमेसेक जिनपदसत्को- ।

कनदशिलीमुखि येने मां-

तनदिदं मल्लिकब्बे ललनारत्नं ॥ ५ ॥

जो दुर्जय स्मररूपी मदनमत हाथीके गण्डस्थलके विदारण करनेमें उत्सुक सिंहके समान हैं, जिन्होंने तीन शल्योंको दूर कर दिया है और जो तीन गारवोंके शत्रु हैं वे गुणभद्रसूरि इस लोकमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुए ॥ १ ॥

जो दुर्वार माररूपी मदनिहल हाथीके समान हैं तथा जो तीन शल्योंके लिए शत्रुके समान है, जो तीन गुप्तियोंके धारक हैं और जो सिद्धान्तरूपी समुद्रकी वृद्धिके लिए चन्द्रमाके समान हैं वे श्रीमाधनन्दि आचार्य इस भूतलपर हुए ॥ २ ॥

सच्चरित्र, संयमी, सम्यग्ज्ञानवान्, सबको सुख देनेवाले, दानी, उदार और अभिमानी सेनकी बहुत ही आनन्दसे सभी लोग प्रशंसा करते थे ॥ ३ ॥

सौजन्य, सत्य सद्गुणोंकी उन्नति और जैनमार्गमें रहना इन सद्गुणों से युक्त, स्मरके समान सुन्दर गुण प्रधान सेन नवीन धर्मात्मज कहलाता था ॥ ४ ॥

अनुपम गुणगणयुक्त, सुशील, जिनपदभक्त, स्त्रीरत्न मल्लिकब्बा उसकी पत्नी थीं ॥ ५ ॥



आ वनितारत्नद पैं-

पावंगं पोगललरिदु जिनपूजेयना- ।

ना विधद दानदमलिन-

भावदोला मल्लिकब्बेयं पोल्ववरारु ॥ ६ ॥

श्रीपंचमियं नोतु-

द्यापनमं माडि बरसि राद्धान्तमना ।

रूपवती सेनवधू जित-

कोपं श्रीमाधनदि-यतिपतिगित्तल् ॥ ७ ॥

उस वनितारत्नकी जिनपूजाके बारेमें प्रशंसा कौन कर सकता है, उस मल्लिकब्बाके समान भक्त कोई थी ही नहीं ॥ ६ ॥

जिन सिद्धान्तको माननेवाली रूपवती उस सेनपत्नीने श्रीपञ्चमीका उद्यापनकर जितक्रोष माधनन्दि यतीश्वरको लिखवाकर यह ( सिद्धान्त ग्रन्थकी प्रति ) दी है ॥ ७ ॥

इस प्रशस्तिमें चार व्यक्तियोंका नामोल्लेख सहित गुणकीर्तन किया गया है—गुणभद्रसूरी, आचार्य माधनन्दि, सेन और उसकी पत्नी मल्लिकब्बा ।

मल्लिकब्बा सेनकी पत्नी थी । पं० सुमेरुचन्द्रजी दिवाकरने भी प्रथम भागकी भूमिकामें यह प्रशस्ति उद्धृत की है । उन्होंने सत्कर्मपञ्जिकाके आधारसे 'सेन' का पूरा नाम शान्तिषेण निर्दिष्ट किया है । यह तो स्पष्ट है कि मल्लिकब्बा सेनकी पत्नी थीं । परन्तु गुणधर मुनि और माधनन्दि आचार्यका परम्पर और इनके साथ क्या सम्बन्ध था यह हमसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता है । मात्र प्रशस्तिके अन्तिम श्लोकसे यह ज्ञात होता है कि मल्लिकब्बाने श्रीपञ्चमीव्रतके उद्यापनके फलम्बुरूप सिद्धान्तग्रन्थकी प्रतिलिपि कराकर वह श्री माधनन्दि आचार्यको भेंट की ।

ऐतिहासिक दृष्टिसे इस प्रशस्तिका बहुत महत्त्व है अतएव इसकी छानबीनकी विशेष आवश्यकता है ।



## विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१५ बन्धसन्निकर्ष	१-२०२	अन्तरके दो भेद	२५६
बन्धसन्निकर्षके भेद	१	उत्कृष्ट अन्तर	२५६-२५८
उत्कृष्ट सन्निकर्ष	१-११५	जघन्य अन्तर	२५६-२६०
स्वस्थान	१-५७	२३ भागप्ररूपणा	२६१
परस्थान	५७-११५	भावके दो भेद	२६१
जघन्य सन्निकर्ष	११५-२०२	उत्कृष्ट भाव	२६१
अर्थपद	११५-११८	जघन्य भाव	२६१
स्वस्थान	११८-१६४	२४ अल्पबहुत्व	२६१
परस्थान	१६४-२०२	अल्पबहुत्वके दो भेद	२६१
१६ नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय	२०२-२०७	जीव अल्पबहुत्व	२६१
भंगविचयके दो भेद	२०२	जीव अल्पबहुत्वके तीन भेद	२६१
उत्कृष्ट भंगविचय	२०२-२०३	उत्कृष्ट जीव अल्पबहुत्व	२६१-२६२
जघन्य भंगविचय	२०३-२०४	जघन्य जीव अल्पबहुत्व	२६२-२६३
१७ भागाभागप्ररूपणा	२०४-२०६	जघन्यात्कृष्ट जीव अल्पबहुत्व	२६३-२७०
भागाभागके दो भेद	२०४	स्थिति अल्पबहुत्व	२७०
उत्कृष्ट भागाभाग	२०४-२०५	स्थिति अल्पबहुत्वके तीन भेद	२७०-२७२
जघन्य भागाभाग	२०५-२०६	उत्कृष्ट स्थिति अल्पबहुत्व	२७०
१८ परिमाणप्ररूपणा	२०६-२१३	जघन्य स्थिति अल्पबहुत्व	२७०
परिमाणके दो भेद	२०६	जघन्योत्कृष्ट स्थिति अल्पबहुत्व	२७०-२७२
उत्कृष्ट परिमाण	२०६-२०६	भूयःस्थिति अल्पबहुत्व	२७२
जघन्य परिमाण	२०६-२१३	भूयःस्थिति अल्पबहुत्वके दो भेद	२७२
१९ क्षेत्रप्ररूपणा	२१३-२१७	स्वस्थान अल्पबहुत्व	२७२-२६२
क्षेत्रके दो भेद	२१३	उत्कृष्ट	२७२-२८२
उत्कृष्ट क्षेत्र	२१३-२१५	जघन्य	२८३-२८३
जघन्य क्षेत्र	२१५-२१७	परस्थान अल्पबहुत्व	२८३-३२३
२० स्पर्शनप्ररूपणा	२१७-२१३	परस्थान अल्पबहुत्वके दो भेद	२८३
स्पर्शनके दो भेद	२१७	उत्कृष्ट परस्थान अल्पबहुत्व	२८३-३०२
उत्कृष्ट स्पर्शन	२१७-२३३	जघन्य परस्थान अल्पबहुत्व	३०२-३२३
जघन्य स्पर्शन	२३३-२४३	भुजगारबन्ध	३२४
२१ कालप्ररूपणा	२४३-२५६	भुजगारबन्धके १३ अनुयोगद्वार	३२४-३६३
कालके दो भेद	२४३	समुत्कीर्तनानुगम	३२४-३२८
उत्कृष्ट काल	२४३-२४६	स्वामित्वानुगम	३२८-३३३
जघन्य काल	२४६-२५६	कालानुगम	३३३-३३६
२२ अन्तरप्ररूपणा	२५६-२६०	अन्तरानुगम	३३६-३६१

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
नाना जीवोंकी अपेक्षा		स्वामित्व	४०६-४१६
भंगविचयानुगम	३६१-३६३	काल	४१७-४१८
भागाभागानुगम	३६०-३६४	अन्तर	४१८-४४४
परिमाणानुगम	३६४-३६५	नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय	४४५-४४६
क्षेत्रानुगम	३६५-३६७	भागाभाग	४४६-४४८
स्पर्शानुगम	३६७	परिमाण	४४८-४५२
कालानुगम	३६०	क्षेत्र	४५३-४५५
अन्तरानुगम	३६०-३६५	स्पर्शन	४५५-४७३
भावानुगम	३६५	काल	.....
अल्पबहुत्वानुगम	३६५-३६३	अन्तर	.....
पदनिक्षेप	३६६	भाव	.....
पदनिक्षेपके तीन अनुयोगद्वारा	३६४	अल्पबहुत्व	४७३-४८५
समुत्कीर्तना	३६४	अध्यवसान समुदाहार	४८५
स्वामित्व	३६५-४०३	अध्यवसान समुदाहारके तीन भेद	४८५
स्वामित्वके दो भेद	३६५	प्रकृति समुदाहार	४८६
उत्कृष्ट स्वामित्व	३६५-३६८	प्रकृति समुदाहारके दो भेद	४८६
जघन्य स्वामित्व	३६८-४०२	प्रमाणानुगम	४८६
जघन्योत्कृष्ट स्वामित्व	४०२-४०३	अल्पबहुत्व	४८६-४८४
अल्पबहुत्व	४०३-४०४	जीवोंके दो भेद	४८६
अल्पबहुत्वके दो भेद	४०३	अल्पबहुत्वके दो भेद	४८६
उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	४०३-४०४	स्वस्थान अल्पबहुत्व	४८६-४८२
जघन्य अल्पबहुत्व	४०४	परस्थान अल्पबहुत्व	४८२-४८४
वृद्धिबन्ध	४०४	.....	.....
वृद्धिबन्धके १३ अनुयोगद्वारा	४०४	.....	.....
समुत्कीर्तना	४०५-४०६	जीवसमुदाहार	४८४-४८५



सिरिभगवंतभूदबलिभडारयपणीदो

## महाबंधो

विदियो द्विदिबंधाहियारो

बंधसणियासपरूवणा

१. सणियासं दुविधं—जहणायं उक्कस्सयं च । उक्कस्सं दुविधं—सत्थाणं पर-  
त्थाणं च । सत्थाणे पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० आभिणिवोधिगणाणा-  
वरणीयस्स उक्कस्सद्विदिवंधंतो चदुएणं णाणावरणीयाणं णियमा बंधगो । तं तु०  
'उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा । उक्कस्सादो अणुक्कस्सा समयूणमादिं कादूण याव  
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागहीणं बंधदि । एवं चदुएणं णाणावरणीयाणं  
णवएणं दंसणावरणीयाणमएणमएणं । तं तु० ।

बन्धसन्निकर्षप्ररूपणा

१. सन्निकर्ष दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्ट सन्निकर्ष दो प्रकारका है—  
स्वस्थान और परस्थान । स्वस्थान सन्निकर्षका प्रकरण है । वह दो प्रकारका है—ओघ और  
आदेश । ओघसे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला  
जीव चार ज्ञानावरणीय कर्मोंका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट भी  
करता है और अनुत्कृष्ट भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट करता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट  
स्थितिवन्ध एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग हीन तक करता है ।  
इसी प्रकार चार ज्ञानावरणीय और नौ दर्शनावरणीय कर्मोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना  
चाहिए । किन्तु वह उत्कृष्ट भी करता है और अनुत्कृष्ट भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट करता  
है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक  
बाँधता है ।

२. सादस्स उक्कस्सद्विदिबंधंतो असादस्स अबंधगो । असाद० उक्क०द्विदि-  
बंधंतो सादस्स अबंधगो ।

३. मिच्छत्त० उक्कस्सद्विदिबंधंतो सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०  
णियमा बंधगो । तं तु० । एवमणमणस्स । तं तु० । इत्थिवे० उक्कस्सद्विदिबंधंतो  
मिच्छत्त-सोलसकसाय-अरदि-सोग-भय-दुगुं० णियमा बंधगो । णियमा अणु०  
चदुभागूणं बंधदि । पुरिस० उक्क०द्विदिबंधंतो मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं० णि०  
वं० । णिय० अणु० दुभागूणं बंधदि । हस्स-रदि० सिया बंधदि सिया अबंधदि ।  
यदि बंधदि तं तु० समयूणमादि कादूण याव पल्लिदो० असं० । अरदि-सोग० सिया  
बंध० सिया अबंध० । यदि बंध० णियमा अणु० दुभागूणं बंधदि । हस्स० उक्कस्स०  
बंध० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं० णिय० वं० । णिय० अणु० दुभागूणं  
बंधदि । इत्थिवे० सिया वं० सिया अबंध० । यदि बंध० णिय० अणु० तिभागूणं

२. सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव असातावेदनीयका  
अबन्धक होता है । असातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सातावेद-  
नीयका अबन्धक होता है ।

३. मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकवेद,  
अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट  
भी करता है और अनुत्कृष्ट भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट करता है तो उसे एक समय  
न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है । इसी प्रकार सोलह कषाय  
आदि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आश्रय करके परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।  
किन्तु वह उत्कृष्ट भी करता है और अनुत्कृष्ट भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट करता है तो  
उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक  
बाँधता है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय,  
अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट  
चार भाग न्यून बाँधता है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व,  
सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है । जो नियमसे  
अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून बाँधता है । हास्य और रतिका कदाचित् बन्ध करता है और  
कदाचित् नहीं बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्ध करता है  
और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है तो  
उसे एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है । अरति  
और शोकका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् नहीं बन्ध करता है । यदि बन्ध करता  
है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है । हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका  
बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करने-  
वाला होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है । स्त्रीवेदका  
कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियम  
से अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता  
है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक

बंधदि । पुरिस० सिया बं० सिया अबं० । यदि बं० तं तु० । एवुंस० सिया वं० सिया अबं० । यदि बं० णिय० अणु० दुभागूणं बंधदि । रदि णिय० । तं तु० । एवं रदीए वि ।

४. णिरयायु० उक्त्सद्विदिबंधंतो तिरिण आयूणं अबंधगो । एवमण-  
मणस्स अबंधगो ।

५. णिरयग० उक्त्सद्विदिवं० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-हुंडसंठा०-वेउव्वि०-  
अंगो०-वण०४-णिरयाणु०--अगुरु०४--अप्पसत्थ०--तस०४--'अधिरादिद्धक-णिमि०  
णिय० बं० । तं तु० । एवं वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-णिरयाणु० ।

६. तिरिक्खवग० उक्त्सद्विदिबंधं० ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण०४-  
तिरिक्खाणु०-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अधिरादिपंच०-णिमि० णिय० । तं  
तु० । एइदि०-पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-

होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो वह नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है । नपुंसकवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । रतिका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४. नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तीन आयुओंका अबन्धक होता है । इसी प्रकार परस्परमें अबन्धक होता है ।

५. नरकगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, नरक-गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्टस्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो वह उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है । इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्या-  
नुपूर्वीकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

६. तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है । एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, आतप, उद्योत,

थावर-दुस्सर० सिया बंध० सिया अबंध० । यदि बंध० । तं तु० । एवं  
ओरालि०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० ।

७. मणुसगदि० उक्कस्सट्टिदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क० ओरा०अंगो०-  
वणण०४-अगु०-उप०-तस-वादर-पत्तेय०-अधिरादिपंच०-णिमि० णिय० बं० ।  
णिय० अणु० चदुभागुणं बंधदि । दोसंठा०-दोसंघ०-अपज्ज० सिया वं० सिया  
अबंधं० । यदि वं० संवेज्जदिभागुणं बंधदि । हुंडसं०-असंपत्त०-पर०-उस्सा०-अप्प-  
सत्थ०-पज्ज०-दुस्स० सिया वं० सिया अबंधं० । यदि वं० णिय० अणु० चदु-  
भागुणं बंधदि । मणुसाणुपु० णिय० वं० । तं तु० । एवं मणुसाणु० ।

८. देवगदि उक्क०ट्टिदिवंधं० पंचिदि०-वेउत्वि०-तेजा०-क०-वेउत्वि०अंगो०-  
वणण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णिय० वं० । णिय० अणु० दुभागुणं बंधदि ।  
समचदु०-देवाणु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० णि० वं० । तं तु० । थिर-सुभ-जस०

अप्रशस्त विहायोगति, व्रस, स्थावर और दुस्वरका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्  
अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और  
अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो वह  
उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भग न्यून तक बाँधता है ।  
इसी प्रकार औदारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत इन प्रकृतियोंके आश्रयसे सन्निकर्ष  
जानना चाहिए ।

७. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक  
शरीर, तेजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात,  
व्रस, वादर, प्रत्येकशरीर, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक  
होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट चार भाग न्यून बाँधता है । दो संस्थान, दो संहनन और  
अपर्याप्त इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि  
बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातवां भाग न्यून बाँधता है । हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्ता-  
सृपाटिकासंहनन, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त और दुस्वर इन प्रकृ-  
तियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है  
तो नियमसे अनुत्कृष्ट चार भाग न्यूनका बन्धक होता है । मनुष्यगत्यानुपूर्विका नियमसे  
बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका  
भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो वह उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक  
समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक बाँधता है । इसी प्रकार मनुष्य-  
गत्यानुपूर्विके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

८. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक  
शरीर, तेजसशरीर, कर्मणशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, व्रस-  
चतुष्क और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट दो  
भाग न्यूनका बन्धक होता है । समचतुरस्र संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति,  
सुभग, सुस्वर और आदेय इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका  
भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका  
बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका

सिया वं० सिया अबं० । यदि वं० तं तु० । अथिर-असुभ-अजस० सिया वं० सिया अबं० । यदि वं० णिय० अणु० दुभागूणं बंधदि । एवं देवाणुपु० ।

६. एइंदियस्स उक्क०ट्टिदिवं० तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं० वरण०४-तिग्गिक्खाणु०-अगु०४-थावर-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच०-णिमि० णिय० वं० । तं तु० । आदाउज्जो० सिया वं० सिया अबं० । यदि वं० । तं तु० । एवं आदाव-थावर० ।

१०. वीइंदि० उक्क०ट्टिदिवं० तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-वरण०४-तिग्गिक्खाणु०-अगु०-उप०-तस०-वादर-पत्ते०-अथिरादिपंच०-णिमि० णिय० वं० । अणु० संखेज्जदिभागूणं बंधदि । पर०-उस्सा०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-पज्ज०-अपज्ज०-दुस्सर सिया वं० । तं तु० । असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक बाँधता है। स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एकसमय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक बाँधता है। अस्थिर, अशुभ और अयशः-कीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यूनका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

९. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर आदि पांच और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो वह नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है। आतप और उद्योत इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो वह नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक बाँधता है। इसी प्रकार आतप और स्थावर प्रकृतियोंके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१०. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पष्टिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, अस, बादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्तवि-हायोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त और दुःस्वर, इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। किन्तु यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका



एवं तीईं०-चदुरिं० ।

११. पंचिदि० उक्क० द्विदिवं० तेजा०-क०-हुंडसं०-वण०४-अगु०४-अप्प-सत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध०-णिमि० णिय० । तं तु० । णिरय-तिरिक्खगदि-ओरालि०-वेउव्वि०-ओरालि०-वेउव्वि०-अंगो०-असंपत्त०-दो-आणु०-उज्जो० सिया बं० सिया अवं० । यदि बं० तं तु० । एवं तस० ।

१२. आहार० उक्क० द्विदिवं० देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०-अंगो०-वण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्ध०-णि० बं० । णि० अणु० संखेज्जगुणहीणं बंधदि । आहार०-अंगो० णिय० । तं तु० । तित्थय० सिया बं० सिया अवं० । यदि बं० णि० अणु० संखेज्जगुणहीणं बंधदि । एवं आहारअंगोवं० ।

बन्धक होता है तो वह उत्कृष्टसे अनुकृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक बाँधता है । इसी प्रकार त्रीन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जातिके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

११. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुकृष्ट भी बाँधता है; यदि अनुकृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टसे अनुकृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक बाँधता है । नरकगति, तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका-संहनन, दो आनुपूर्वी और उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुकृष्ट भी बाँधता है; यदि अनुकृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टसे अनुकृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक बाँधता है । इसी प्रकार त्रस काय प्रकृतिके सन्बन्धसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१२. आहारक शरीरकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुकृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । आहारक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुकृष्ट भी बाँधता है; यदि अनुकृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टसे अनुकृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक बाँधता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुकृष्ट संख्यातगुण हीन बाँधता है । इसी प्रकार आहारक आङ्गोपाङ्गके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

बं० सिया अवं० यदि बं० णिय० अणु० संखेज्जिभागु० । अपज्ज० सिया बं० सिया अवं० यदि बं० तं तु० । एवं तीईदि० इति पाठः ।

१३. तेजा० उक्क०ट्टिदिवं० कम्मइ०-हुंडसं०-वण्ण०४-अगु०४-वादर-  
पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच०-णिमि० णिय० । तं तु० । णिरयगदि-तिरिक्खग०-  
एइंदि०-पंचिदि०-दोसरीर-दोअंगो०-असंपत्त०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-  
तस-थावर-दुस्सर० सिया वं० सिया अबं० । यदि वं० । तं तु० । तेजइगभंगो  
कम्मइ०-हुंडसं०-वण्ण०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच०-णिमि० चि ।

१४. समचदु० उक्क०ट्टिदिवं० पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-  
णि० णिय० । अणु० दुभागूणं० । तिरिक्खग०-दोसरी०-दोअंगो०-असंप०-तिरि-  
क्खाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-अथिरादिद्व० सिया वं० सिया अबं० । यदि वं०  
णियमा अणु० वं० दुभागूणं० । मणुसगदिदुगं सिया वं० सिया अबं० । यदि  
वं० णि० अणु० तिभागूणं० वं० । देवगदि वज्ज० देवाणु०-पसत्थ०-थिरादिद्वक०

१३. तैजसशरीर की उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव कर्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है, जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है; यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो नियम से उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक बाँधता है। नरकगति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय-जाति, पञ्चेन्द्रियजाति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, असंप्राप्तासृपाटिका संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर, और दुःस्वर प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है, यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक बाँधता है। इसी प्रकार तैजसशरीरके समान कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण प्रकृतियोंके आश्रयसे सन्नि-  
कर्ष जानना चाहिए।

१४. समचतुरस्र प्रकृति की उत्कृष्ट स्थितिका बन्धकरनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है। तिर्यञ्चगति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, असंप्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छह प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यूनका बन्धक होता है। मनुष्यगति द्विकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है। देवगतिको छोड़कर देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति और स्थिर आदि छहका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो नियमसे एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। चार संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक

सिया बं० सिया अवं० । यदि बं० तं तु० । चदुसंघ० सिया बं० सिया अवं० ।  
 यदि बं० णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं बं० । एवं पसत्थवि०-सुभग-मुस्सर-आदेज्ज० ।  
 १५. एण्णोद० उक्क०द्विदिवं० पंचिदि०-आरालि०-तेजा०-क०-आरालि०-  
 अंगो०-वण्ण०४-अणु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्व०-णिमि० णिय० बं० ।  
 णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं० । तिरिक्ख-मणुसग०-चदुसंघ०-दोआणु०-उज्जो०  
 सिया बं० सिया अवं० । यदि बं० णिय० अणु० संखेज्जदिभागूणं बं० । वज्ज-  
 णारा० सिया बं० सिया अवं० । यदि बं० तं तु० । एवं वज्जणारायण० । एवरि  
 दो गदि-चदुसंघा०-दोआणु०-उज्जो० सिया बं० सिया अवं० । यदि बं० णिय०  
 अणु० संखेज्जदिभागू० । सादि० एवं चेव । एवरि णारायणं सिया० । तं तु० ।  
 एवं णारायणं ।

१६. खुज्जसंठाणं उक्क०द्विदिवं० तिरिक्खग०-पंचिदि०-आरालि०-तेजा०-क०-  
 आरालि०-अंगो०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अणु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्व०-  
 होता है । इसी प्रकार प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंके आश्रयसे  
 सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१५. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय  
 जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क,  
 अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण प्रकृ-  
 तियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका  
 बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, चार संहनन, दो आनुपूर्वी, और उद्योत प्रकृ-  
 तियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है  
 तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । वज्जनाराचसंहननका  
 कदाचित् बन्धक होता और कदाचित् अवन्धक होता है । यदि बन्धक होना है तो उत्कृष्ट  
 स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट  
 स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग  
 न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वज्जनाराचसंहननके आश्रयसे सन्निकर्ष  
 जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि दो गति, चार संस्थान, दो आनुपूर्वी और उद्योतका  
 कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे  
 अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार स्वाति संस्थानके  
 आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वह नाराचसंहननका कदाचित्  
 बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट बन्धक  
 भी होता है और अनुत्कृष्ट बन्धक भी होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो  
 एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है ।  
 इसी प्रकार नाराचसंहननके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१६. कुब्जक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चे-  
 न्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क,  
 तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह  
 और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग

णिमि० णिय० संखे०भागू० । दोसंघ०-उज्जो० सिया वं० सिया अबं० । [ यदि वं० णिय० ] संखेज्ज०भागू० । अद्दणारा० सिया० । तं तु० । एवं अद्दणारा० । एवं वामण० । एवरि असंपत्त० सिया० संखेज्ज०भागू० । खीलिय० सिया वं० । तं तु० । एवं० खीलिय० ।

१७. ओरालि०अंगो० उ०ट्टि०वं० तिरिक्खग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-असंप०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध०-णिमि० णिय० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं असंप० ।

१८. वज्जरि० उक्क०ट्टिदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि० अंगो०-वण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णिय० वं० । णि० अणु० दुभागू० । तिरिक्खगदि-हुंड०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-अथिरादिद्ध० सिया वं० सिया

न्यून स्थितिका बन्धक होता है। दो संहनन और उद्योत प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। अर्धनाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट बन्धक भी होता है और अनुत्कृष्ट बन्धक भी होता है। यदि अनुत्कृष्ट बन्धक होता है तो नियमसे एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार अर्धनाराचसंहननके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार वामन संस्थानके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह असम्प्राप्तासृपाटिका संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। कीलक संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार कीलक संहननके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१७. औदारिक आङ्गोपाङ्गकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योत प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार असम्प्राप्तासृपाटिकासंहननके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१८. वज्रर्षभनाराचकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति और अस्थिर आदि छह प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और

अवं० । यदि वं० णिय० अणु० दुभागू० । मणुसग०-मणुसाणु० सिया वं० सिया  
अवं० । यदि वं० णिय० अणु० तिभागू० । समचदु०-पसत्थ०-थिरादिदु० सिया  
वं० सिया अवं० । यदि वं० । तं तु० । चदुसंटा० सिया वं० सिया अवं० । यदि वं०  
णियमा अणु० संखेज्जदिभागू० ।

१६. उज्जो० उक्क० द्वि० वं० तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-  
वणण०४-तिरिक्खाणु०-अणु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०--अथिरादिपंच०--णिमि० णि०  
वं० । तं तु० । एइंदि०-पंचिदि०-ओरालि०-अंगो०-असंप०-अप्पसत्थ०--तस०--थावर--  
दुस्सर० सिया वं० सिया अवं० । यदि वं० तं तु० ।

२०. अप्पसत्थ० उक्क० द्विदि० वं० पंचिदि०-तेजा०-क०-हुंड०-वणण०४-  
अणु०४-तस०४-अथिरादिदु०-णिमि० णिय० वं० । तं तु० । णिरयगदि-तिरिक्ख-

कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति और स्थिर आदि छह प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । चार संस्थानोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियम से अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।

१९. उद्योत प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु-चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो एकसमय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । एकेन्द्रियजाति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पष्टिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, प्रस, स्थावर और दुःस्वर प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ।

२०. अप्रशस्त विहायोगतिकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगति, तिर्यञ्चगति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त विहायोगति, दो आनुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता

गदि-दोसरी०-दोअंगो०-अप्पसत्थ०-दोआणु०-उज्जो० सिया बं० सिया अबं० ।  
यदि बं० । तं तु० । एवं दुस्स० ।

२१. सुहुम० उक्क०द्विदि०बं० तिरिक्खग०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावर०-अथिरादिपंच०-णिमि० णिय० बं० । अणु० संखेज्जदिभागू० । पर०-उस्सास-पज्जत्त-पत्ते० सिया बं० सिया अबं० । यदि बं० णि० अणु० संखेज्जदिभागू० । एवं साधारण० ।

२२. अपज्ज० उक्क०द्विदिबं० तिरिक्खगदि-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं० वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-अथिरादिपंच०-णिमि० णिय० । अणु० संखेज्जदिभागूणं बंधदि । एइंदि०-पंचिदि०-ओरालि०-अंगो०-तस-थावर-बादर-पत्ते० सिया बं० सिया अबं० । यदि बं० णिय० अणु० संखेज्जदिभागूणं बंधदि । वीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिं०-सुहुम-साधार० सिया बं० सिया अबं० । यदि बं० । णि० तं तु० ।

२३. थिरणाम उक्क०द्विदिबं० तेजा०-क०-वण०४-अगु०-उप०-परघाद-  
और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार दुस्वर प्रकृतिके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२१. सूक्ष्म प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त और प्रत्येक प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार साधारण प्रकृतिके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२२. अपर्याप्त प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरु-लघु, उपघात, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन बाँधता है । एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, त्रस, स्थावर, बादर और प्रत्येक इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन बाँधता है । द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, सूक्ष्म और साधारण प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है ।

२३. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त और निर्माण इन प्रकृ-

उस्सास-पज्ज०-णिमि० णिय० वं० अणु० दुभागूणं वंधदि । तिरिक्खगदि-एइंदि० पंचिदि०--आरालि०--वेउव्वि०--हुंडसं०--दोअंगो०--असंप०--तिरिक्खाणु०--आदा--उज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावर-वादर-पत्ते०-असुभादिपंच० सिया वं० सिया अवं० । यदि वं० णि० अणु० दुभागूणं० । मणुसगदि-मणुसाणु० सिया वं० सिया अवं० । यदि वं० णिय० अणु० तिभागू० । देवगदि-समचदु०-वज्जरि० देवाणुपु०-पसत्थ०-सुभादिपंच० सिया वं० सिया अवं० । यदि वं० तं तु० । वेइंदि० तेइं०-चदुरिं०--चदुसंठा०--चदुसंघ०-सुहुम-साधार० सिया वं० सिया अवं० । यदि वं० णिय० अणु० संखेज्जदिभागू० । एवं सुभ० ।

२४. जसगि० उक्क०ट्टि०वं० तेजा०-क०-वणण०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० वं० । णि० अणु० दुभागू० । तिरिक्खगदि-एइंदि०-पंचिदि०-आरालि०-वेउव्वि०-हुंडसं०--दोअंगो०--असंपत्त०--तिरिक्खाणु०--अदाउज्जो०--अप्प-सत्थ०-तस-थावर-अथिरादिपंच० सिया वं० सिया अवं० । यदि वं० णिय० अणु० दुभागू० । मणुसगदिदुर्गं सिया वं० सिया अवं० । यदि वं० णिय० अणु०

तियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून बाँधता है । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, हुण्डसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर, वादर, प्रत्येक और अशुभादि पाँच इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति और शुभादि पाँच इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो नियमसे वह उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, चार संस्थान, चार संहनन, सूक्ष्म और साधारण इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यूनका बन्धक होता है । इसी प्रकार शुभ प्रकृतिके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२४. यशःकीर्ति प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, हुण्डसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर और अस्थिर आदि पाँच इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यूनका बन्धक होता है । मनुष्यगतिद्विकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्

तिभागू० । देवगदि-समचदु०-वज्जरिसभ०-देवाणु०-पसत्थ०-धिरादिपंच सिया वं०  
सिया अवं० । यदि वं० तं तु० । वीइं०-तीइं०-चदुरिं०-चदुसंठा०-चदुसंध० सिया  
वं० सिया अवं० । यदि वं० णिय० अणु० संखेज्जदिभागू० ।

२५. तिथय० उक्क०ट्टिदिवंधं०-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-  
वेउव्वि०-अंगो०-वण०४-देवाणु०-अणु०-४-पसत्थ०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-  
आदे०-अजस०-णिमि० णिय० । अणु० संखेज्जदिगुणहीणं वं० ।

२६. उच्चा० उक्क०ट्टिदिवंधं० एीचा० अबंधगो । एीचागो० उक्क०ट्टिदिवं०  
उच्चा० अबंधगो ।

२७. दाणंतरा० उक्क०ट्टिदिवं० चदुएणं अंतरा० णिय० । तं तु उक्कस्सा वा  
अणुक्कस्सा वा । उक्कस्सादो अणुक्कस्सा समयूणमादिं कादूण पत्तिदोवमस्स असंखेज्ज०  
भागूणं वंधदि । एवं अणोएणस्स । तं तु० ।

२८. आदेसेण एणइएसु पंचणा०-एवदंसणा०-सादासा०-मोहणीय०-छब्बीस-

अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यूनका बन्धक  
होता है । देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रपंभनाराचसंहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त  
विहायोगति और स्थिर आदि पाँच इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्  
अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्टका भी  
बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय  
न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । द्वीन्द्रिय जाति,  
त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, चार संस्थान और चार संघनन इन प्रकृतियोंका कदाचित्  
बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे  
अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।

२५. तीर्थंकर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय  
जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग,  
वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर,  
अशुभ, सुभग, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है ।  
जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है ।

२६. उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव नीचगोत्रका अबन्धक  
होता है । नीचगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव उच्चगोत्रका अबन्धक होता है ।

२७. दानान्तरायकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार अन्तराय प्रकृतियोंका  
नियमसे बन्धक होता है । वह उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । यदि  
अनुत्कृष्ट बाँधता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असं-  
ख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पाँचों अन्तरायोंका परस्पर  
सन्निकर्ष जानना चाहिए । वह उत्कृष्ट भी होता है और अनुत्कृष्ट भी होता है यदि अनुत्कृष्ट  
होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून  
तक होता है ।

२८. आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असाता-  
वेदनीय, छब्बीस मोहनीय, दो आयु, दो गोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका भङ्ग



दोआयु०-दोगोद०-पंचंत० ओघं । तिरिक्खग० उक्क०द्विदि०-वं० पंचिदि०-  
ओरालि०-तेजा०-क०-हुं'डसं०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-वण०४-तिरिक्खाणु०-  
अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध०-णिमि० णि० वं० । तं तु० । उज्जो०  
सिया बं० । तं तु० । एवमेदाओ सव्वाओ एक्केक्केण सह । तं तु० । सेसं ओघेण  
साधेदव्वं । एवं ङ्सु पुढवीसु । सत्तमाए सो चेव भंगो । एवरि मणुसगदि-मणु-  
साणु०-उच्चा० तित्थयरभंगो । सेसाओ तिरिक्खगदिसंजुत्तं कादव्वं ।

२६. तिरिक्खेसु पंचणा०-एवदंसणा०-सादासा०-मोहणीय०-छब्बीस०-  
चदुआयु०-दोगोद०-पंचंत० ओघं । णिरयगदि उक्क०द्विदि०-वं० पंचिदि०-  
वेउव्विय-तेजा०-क०-हुं'डसं०-वेउव्वि०अंगो०-वण०४-णिरयाणु०-अगु०४-अप्प-  
सत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध०-णिमि० णि० वं० । तं तु० । एवमेदाओ एक-

ओघके समान है । तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्रा-  
प्तसृष्टिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति,  
त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है जो  
उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । किन्तु उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे  
लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है । उद्योतको कदाचित् बाँधता है और  
कदाचित् नहीं बाँधता है । जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । यदि  
अनुत्कृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ  
भाग न्यून तक बाँधता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर एक-एक प्रकृतिके  
साथ सन्निकर्ष होता है । ऐसी अवस्थामें इन प्रकृतियोंको उत्कृष्ट भी बाँधता है और  
अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । किन्तु उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असं-  
ख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है । शेष सन्निकर्ष ओघके समान साध लेना चाहिए ।  
इसी प्रकार छह पृथिवियोंमें जानना चाहिए । सातवीं पृथिवीमें यही भङ्ग है । इतनी  
विशेषता है कि मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग तीर्थकर प्रकृतिके  
समान है । यहाँ शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सन्निकर्ष कहते समय तिर्यञ्च-  
गतिके साथ कहना चाहिए ।

२९. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय,  
छब्बीस मोहनीय, चार आयु, दो गोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान  
है । नरकगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस  
शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी,  
अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण  
प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता  
है । किन्तु उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक  
बाँधता है । इसी प्रकार परस्पर इन प्रकृतियोंका सन्निकर्ष होता है । जो उत्कृष्ट भी बाँधता  
है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । किन्तु उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका  
असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक बाँधता है । तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव

मेक्कस्स । तं तु० । तिरिक्खवग० उक्क०ट्टिदिबं० तेजा०-क०-हुंडसं०-वगण०४-  
अगु०-उप०-अथिरादिपंच०-णिमि० णि० वं० । अणु० संखेज्जभागूणं० ।  
चदुजादि-वामणसंठा०-ओरालि०अंगो०-खीलियसंघ०-असंपत्त०--आदाउज्जो०-थावर-  
सुहुम-अपज्ज०-साधार० णियमा वं० । तं तु० । पंचिदि०-हुंडसं०-पर०-  
उस्सा०-अप्पसत्थ०-तस०४-दुस्सर सिया वं० सिया अबं० । यदि वं० णिय०  
अणु० संखेज्जदिभागूणं० । ओरालि०-तिरिक्खाणु० णियमा० । तं तु० । एवं  
ओरालि०-तिरिक्खाणु० । सेसं मूलोघं । एवरि किंचि विसेसो, अट्टारसियाओ  
णादन्वाओ । एवं पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-जोणिणीसु ।

३०. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० पंचणा०-एवदंसणा०-सादासादा०-दोआयु०-  
दोगोद०-पंचंत० ओघं । मिच्छत्त उक्क०ट्टिदिबं० सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-  
भय-दुगुं० णिय० । तं तु० । एवमेदाओ अणमणस्स । तं तु० ।  
इत्थि० उक्क०ट्टिदिबं० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं० णिय० वं० । णिय०

तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून बाँधता है । चार जाति, वामन संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, कीलक संहनन, असम्प्राप्तासृप टिका संहनन, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इन प्रकृतियोंको नियमसे बाँधता है । जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । किन्तु उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क और दुःस्वर इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून बाँधता है । औदारिकशरीर और तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । किन्तु उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है । इसी प्रकार औदारिक शरीर और तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका आश्रय करके सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष सन्निकर्ष मूलोघके समान है । किन्तु कुछ विशेषता है कि अठारह कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति-बन्धवाली प्रकृतियाँ जाननी चाहिए । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके जानना चाहिए ।

३०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नै दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु, दो गोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंका भङ्ग ओघकेसमान है । मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति शोक, भय और जुगुप्सा इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । किन्तु उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । जो उत्कृष्ट भी होता है और अनुत्कृष्ट भी होता है । किन्तु उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक होता है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे

अणु० संखेज्जदिभागू० । हस्स-रदि-अरदि-सोग सिया बं० सिया अवं० । यदि बं० णिय० अणु० संखेज्जदिभागू० । एवं पुरिस० । हस्स० उक्क० द्विदिवं० मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-भय-दुगुं० णिय० बं० । णि० अणु० संखेज्जदिभागू० । रदि० णियः बं० । तं तु० । एवं रदीए ।

३१. तिरिक्खगदि० उक्क० द्विदिवं० एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावरादि०४-अथिरादिपंच०-णिमि० णि० बं० । णि० तं तु० । एवमेदाओ अएणमएणस्स । तं तु० ।

३२. मणुसग० उक्क० द्विदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-वएण०४-अगु०-उप०-तस-वादर-अपज्ज०-पत्ते०-अथिरा-दिपंच०-णिमि० णिय० णिय० बं० । अणु० संखेज्जदिभागू० । मणुसाणु० णिय० । तं तु० । एवं मणुसाणु० ।

बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है। हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार पुरुषवेदके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए। हास्य प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। रतिका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट बन्धक भी होता है और अनुत्कृष्ट बन्धक भी होता है। यदि अनुत्कृष्ट बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिवन्धका बन्धक होता है। इसी प्रकार रतिके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३१. तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव एकेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अघुरुलघु, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो नियमसे एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है।

३२. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, अघुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। किन्तु उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यानुपूर्विके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३३. वीइंदि० उक्क०ट्टिदिवं० तिरिक्खवग०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-  
वरण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-वादर--अपज्ज०-पत्तेग०-अथिरादिपंच०-णिमि०  
णिय० वं० । अणु० संखेज्जदिभागू० । ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-तस० णिय० ।  
तं तु० । एवं ओरालि०अंगो०-असंप०-तस० ।

३४. तीइंदि० उक्क०ट्टिदिवं० तिरिक्खवग०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-  
ओरालि०अंगो०-असंप०-वरण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-तस-वादर--अपज्ज०-  
पत्तेग०-अथिरादिपंच०-णिमि० णिय० वं० । णिय० अणु० संखेज्जदिभागू० ।  
एवं चदुरिं०-पंचिदि० ।

३५. समचदु० उक्क०ट्टिदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-  
अंगो०-वरण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णिय० वं० । णिय० अणु० संखेज्जदि-  
भागू० । तिरिक्ख-मणुसगदि०-पंचसंध०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-थिराथिर-  
सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-जस०-अजस० सिया वं० सिया अवं० । यदि वं०  
णिय० अणु० संखेज्जदिभागू० । वज्जरिसभ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया

३३. द्वीन्द्रिय जातिको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक-  
शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु,  
उपघात, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण प्रकृतियोंका नियम-  
से बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। औदा-  
रिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन और त्रस इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक  
होता है। जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। किन्तु उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट  
एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है।  
इसी प्रकार औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन और त्रसकाय इन प्रकृतियोंके  
आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३४. त्रीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक  
शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका  
संहननन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक  
शरीर, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो  
नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय  
जाति और पञ्चेन्द्रिय जातिके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३५. समचतुरस्रसंस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति,  
औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-  
चतुष्क, त्रसचतुष्क, और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे  
अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, पाँच  
संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग,  
दुस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और  
कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग  
न्यून स्थितिका बन्धक होता है। वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर,  
और आदेय इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है।

वं० सिया अवं० । यदि वं० तं तु० । एवं वज्जरिसभ०-पसत्थ०-[ सुभग ]-  
सुस्सर-आदे० ।

३६. एगगोद० उक्क० द्विदिवं० पंचिदिय०-आरालि०-तेजा०-क०-आरालि०-  
अंगो०-वएण०४-असंपत्त०-तस०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णिमि० णिय० वं० ।  
णि० अणु० संखेज्जदिभागू० । तिरिक्खगदि-मणुसगदि-चदुसंघ०-दोआणु०-उज्जोव०-  
थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया वं० मिया अवं० । यदि वं० णि० अणु०  
संखेज्जदिभागू० । वज्जणारा० सिया वं० । तं तु० । एवं वज्जणारायणं । सादीए  
वि एसेव भंगो । एवरि एारायण० तं तु० । एवं एारायणं वि ।

३७. खुज्ज० उक्क०द्विदिवं० तिरिक्खगदि-पंचिदि०-आरालिय-तेजा०-क०-  
आरालि०अंगो०-वएण०४-तिरिक्खाणु० अणु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-दूभग-दुस्सर-  
अणादे०-णिमि० णि० वं० । णि० अणु० संखेज्जदिभागू० । दोगदि-दोसंघ०-दो-

यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । यदि अनु-  
त्कृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ  
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त-  
विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३६. न्युत्रोधपरिमण्डल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय  
जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क,  
असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, त्रस चतुष्क, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और निर्माण इन  
प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका  
बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, चार संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर,  
अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक  
होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्या-  
तवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । वज्रनाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता  
है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और  
अनुत्कृष्ट भी बाँधता है । यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे  
लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तककी स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वज्र-  
नाराचसंहननके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा स्वाति संस्थानका भी यही भङ्ग  
होताहै । इतनी विशेषता है कि इसके नाराचसंहननका उत्कृष्ट बन्ध भी होता है और अनुत्कृष्ट  
बन्ध भी होता है । यदि अनुत्कृष्ट बन्ध होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे  
लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इन प्रकार नाराच-  
संहननके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३७. कुब्जक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय  
जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क,  
तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, दुर्भग, दुस्वर, अना-  
देय और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्या-  
तवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । दो गति, दो संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत,

आणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया वं० सिया अवं० । यदि वं० णिय० अणु० संखेज्जदिभागू० । अद्दणारा० सिया वं० । तं तु० । एवं अद्दणारा० । एवं वामणसंठाणं वि । एवरि खीलियसंघ० सिया वं० । तं तु० । एवं खीलिय० ।

३८. पर० उक्क०ट्टिदिवं० तिरिक्खग०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं० वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावर-सुहुम-साधारण-दुभग-अणादे०-अजस०-णिमि० णिय० अणु० संखेज्जदिभागू० । उस्सास-पज्जत्त० णियमा० । तं तु० । अथिर-असुभ० सिया वं० संखेज्जदिभागू० । एवं उस्सास-पज्जत्त-थिर-सुभणामाणं ।

३९. आदाव० उक्क०ट्टिदिवं० तिरिक्खगदि-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-दुभग-अणादे०-

स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। अर्धनाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार अर्धनाराचसंहननके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार वामन संस्थानके आश्रयसे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह कीलक संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार कीलक संहननके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३८. परघातकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। उल्लास और पर्याप्त इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट का भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। अस्थिर अशुभका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार उल्लास, पर्याप्त, स्थिर, और शुभ प्रकृतियोंके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३९. आतपकी उत्कृष्ट स्थितिकी बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय और निर्माण

णिमि० णिय० वं० । णिय० अणु० संखेज्जदिभागू० । थिराथिर-सुभासुभ-  
अजस० सिया वं० सिया अबं० । यदि वं० णिय० अणु० संखेज्जदिभागू० ।  
जसगि० सिया० । तं तु० । एवं उज्जोवं जसगितीए वि ।

४०. अप्पसत्थ० उक्क०ट्टिदिबं० तिरिक्खगदि-बीईदि०-ओरालिय-तेजा०-  
क०-हुंडसं०-ओरालि०अंगो०-असंप०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अणु०४-तस०४-दूभग-  
अणादे०-णिमि० णि० वं० । णिय० अणु० संखेज्जदिभागू० । उज्जो०-थिरा-  
थिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया वं० । यदि वं० संखेज्जदिभागू० । दुस्सर०  
णिय० । तं तु० । एवं दुस्सर० ।

४१. वादर० उक्क०ट्टिदिबं० तिरिक्खगदि-एईदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-  
वण०४-तिरिक्खाणु०-अणु०-उप०-थावर-सुहुम-अपज्जत्त०-अथिरादिपंच०-णिमि०  
णिय० वं० । णि० अणु० संखेज्जदिभागू० ।

४२. मणुस०-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मणुसअपज्जत्त० तिरिक्खगदिभंगो ।

प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । यशः कीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्टका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार उद्योत और यशःकीर्तिके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४०. अप्रशस्त चिहायोगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, द्वीन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, असम्प्रामाण्यपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, दुर्भग, अनादेय और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । दुःस्वर प्रकृतिका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्टका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार दुःस्वर प्रकृतिके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४१. वादर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, मूढम, अपर्याप्त, अस्थिर आदि पांच और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।

४२. सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें तिर्य-

णवरि आहारदुगं तित्थयरं ओघं ।

४३. देवगदीए देवेसु णाणावर०-दंसणावर०-वेदणी०-मोहणी०-आयुग०-  
गोद०-अंतराइ० ओघं । तिरिक्खग० उक्क०ट्टिदिबं० ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-  
वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अथिरादिपंच-णिमि० णि०  
वं० । णि० तं तु० । एइंदि०-पंचिदि-ओरालि०अंगो०-असंपत्तसेव०-आदाउज्जो०-  
अप्पसत्थ०-तस-थावर-दुस्सर० सिया वं० । यदि वं० तं तु० । एवमेदाणि एक-  
मेक्कस्स । तं तु० । सेसाणं णेरइयभंगो ।

४४. भवण०-वाणवें०-जोदिसि०-सोधम्मीसाण त्ति तिरिक्खगदि० उक्क०ट्टिदि-  
वं० एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-थावर-बादर-  
पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच-णिमि० णि० वं० । णि० तं तु० । आदाउज्जोव०

अगतिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आहारक दिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है ।

४३. देवगतिमें देवोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, गोत्र और अन्तराय इनके अग्रान्तर भेदोंका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्टका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आंगोपांग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, अस, स्थावर और दुःस्वर इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष होता है । जो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्टका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

४४. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म—पेशान कल्पके देवोंमें तिर्यञ्चगति-  
की उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर  
कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, स्थावर, बादर,  
पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर आदि पांच और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक  
होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक  
होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक  
समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । आतप और  
उद्योत प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक



सिया० । तं तु० । एवमेदाणि एकमेकस्स । तं तु० । पंचिदिय० उक्क०द्विदिवं०  
तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०--अगु०४-वादर-पज्जत्त-  
पत्तेय०-अथिरादिपंच-णिमि० णि० वं० । णि० अणु० संवेज्जदिभागू० । हुण्ड०-  
उज्जो० सिया० संवेज्जदिभागू० । वामणसंठा०-खीलियसंध०-असंपत्त० सिया० ।  
तं तु० । ओरालि०अंगो-अप्पसत्थ०-नम-दुस्सर० णिय० वं० । तं तु० । एवमेदाणि  
एकमेकस्स । तं तु० । सेसाणं देवोघं ।

४५. सणक्कमार याव सहस्सार त्ति णारयोघं । आणद याव एवगेवज्जा त्ति  
णाणाव०-दंसणाव०-वेदणी०-गोद०-अंतरा० ओघं । मिच्छ० उक्क०द्विदिवं० सोल-

होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्टका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष होता है और ऐसी अवस्थामें वह जीव उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । पञ्चेन्द्रिय जानिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । हुण्ड संस्थान और उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । वामन संस्थान, कीलक संहनन और असम्प्राप्तासृपाटिका संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त-विहायोगति, त्रस और दुःस्वरका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इस प्रकार इनका परस्पर एक दूसरेका सन्निकर्ष होता है और तब उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है ।

४५. सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । आनत कल्पसे लेकर नौ त्रैवेयकतकके देवोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, गोत्र और अन्तरायके अवान्तर भेदोंका भङ्ग ओघके समान है । मिथ्यात्वकी

मक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं० णिय० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० । इत्थि० उक्क०ट्टिदिबं० मिच्छ०-सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दुगुं० णिय० वं० । णि० अणु० संखेज्जदिभागू० । पुरिस० उक्क०ट्टिदिबं० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं० णिय० वं० । णिय० संखेज्जदिभागू० । हस्स०-रदि० सिया । तं तु० । अरदि-सोग० सिया० संखेज्जदिभागू० । हस्स० उक्क०ट्टिदिबं० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं० णिय० वं० संखेज्जदिभागू० । पुरिस० सिया० । तं तु० । इत्थि०-णवुंस० सिया० संखेज्जदिभागू० । रदि० णिय० वं० । तं तु० । एवं रदीए वि० ।

उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष होता है और तब इनकी उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। हास्य और रतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। अरति और शोकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। हास्य की उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। रतिका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्टस्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार रतिकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४६. मणुसगदि० उक्क०द्विदिबं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-कम्मइय०-हुं०-ओरालि०अंगो०-असंपत्तसेव०-वरण०४-मणुसाणु०-अगु०४-अपसत्थ०-तस०४-अथिरादि०-णि० णिय० वं० । णि० तं तु० । एवमेदाओ एकमेक्कस्स । तं तु० ।

४७. समचदु० उक्क०द्विदिबं० मणुसग०-पंचिदिय-ओरालिय-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वरण०४-मणुसाणु०-अगु०४-तस०४-णिमि० णिय० संखेज्जदि-भागू० । वज्जरिसभ०-पसत्थ०-थिरादि० सिया० । तं तु० । पंचसंघ०-अथिरादि-० सिया० संखेज्जदिभागूणं० । याओ तं तु समचदुरसंठाणेण ताओ समचदुर० सेसभंगाओ । सेसपगदीणं मणुसगदिसहगदाओ णिय० संखेज्जदिभागू० । याओ सियाओ वं० ताओ तं तु० वा संखेज्जदिभागूणं वा वंशदि । तिन्थयरं देवभंगो ।

४६. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धकहोता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए और तब उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ।

४७. समचतुरस्र संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अस चतुष्क और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । वज्रर्षभ नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, और स्थिर आदि छहका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धकहोता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । पांच संहनन और अस्थिर आदि छहका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । यहां पर जिन प्रकृतियोंका समचतुरस्र संस्थानके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है या एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है उनका समचतुरस्र संस्थानके समान भङ्ग जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका मनुष्यगतिके साथ नियमसे संख्यातवां भाग न्यून अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । उसमें भी जिनका कदाचित् बन्ध होता है उनका या तो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिबन्ध होता है या संख्यातवां भाग न्यून स्थितिबन्ध होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग देवोंके समान है ।

१. मूलप्रतौ—द्विदिबं० पंचणा० ओरा इति पाठः ।

४८. अणुदिस याव सव्वट्ठा त्ति पंचणा०-द्वंदसणा०-सादासा०-वारसक०-सत्तणोक०-पंचंत० ओपं । मणुसगदि० उक्क०द्विदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०--ओरालि०-अंगो०--वज्जरिसभ०--वएण०४--मणुसाणु०--अगु०४--पसत्थ०-नस०-४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि० णिय० । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेक्कस्स । तं तु० । थिर० उक्क०द्विदिवं० मणुसगदि० णियमा संखेज्जदिभागू० । एवं धुवियाओ सव्वाओ । सुभ-जस० सिया० तं तु० । असुभ-अजस०-तित्थय० सिया० संखेज्जदिभागू० वं० । एवं सुभ-जसगित्ति० ।

४९. सव्वएइंदि०-सव्वविगलिंदि० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । एवरि वीचारट्ठाणाणि णादव्वाणि भवन्ति । पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्ता० सव्वपगदीणां ओपं ।

४८. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय और पाँच अन्तरायका भङ्ग ओघके समान हैं। मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्र-र्षभ नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष होता है। जो उत्कृष्ट भी होता है और अनुत्कृष्ट भी होता है। यदि अनुत्कृष्ट होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका होता है। स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगतिका नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार सब ध्रुव प्रकृतियोंको अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। शुभ और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। अशुभ, अयशःकीर्ति और तीर्थङ्कर इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्तिकी अपेक्षा सन्निकर्ष कहना चाहिए।

४९. सब एकेन्द्रिय और सब विकलेन्द्रिय जीवोंका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके वीचार स्थान ज्ञातव्य हैं। पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त

१. मूलप्रती पंचिदिय-तस अपज्जत्ता इति पाठः ।

पंचिन्द्रियअपज्जत्ता० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । पंचकायाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं तिरिक्ख-  
अपज्जत्तभंगो । एवरि एइंदिय-पंचकायाणं यम्हि संखेज्जदिभागहीणं तम्हि असं-  
खेज्जदिभागहीणं बंधदि । तस-तमपज्जत्ता० ओघं । तसअपज्जत्ता० तिरिक्ख-  
अपज्जत्तभंगो । पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि० ओघं । आंरालिकायजोगि०  
मणुसभंगो ।

५०. आंरालियमिस्से देवगदि० उक्क०ट्टिदिवं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-  
वणण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि०  
णिय० । अणु० णि० संखेज्जगुणहीणं० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु०-  
णियमा । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एदाओ पगदीओ तित्थयेण सह  
एकमेकस्स तं तु० कादव्वा । सेसाणं पंचिन्द्रियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

५१. वेउव्वियका० देवोघं । एवं चेव वेउव्वियमिस्स० । एवरि याओ तं तु०

जीवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । तथा पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंका भङ्ग  
तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । पाँच स्थावर काय तथा इनके पर्याप्त आंर अपर्याप्त जीवोंमें  
सन्निकर्षका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि सब एकेन्द्रिय और  
पाँचों स्थावर कायिक जीवोंके, जिनका संख्यातवां भाग हीन बन्ध कहा है उनका, असंख्या-  
तवां भाग हीन बन्ध होता है । त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके  
समान है । तथा त्रस अपर्याप्तकोंके तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । पाँचों मनोयोगी,  
पाँचों वचनयोगी और काययोगी जीवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । तथा  
औदारिक काययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है ।

५०. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला  
जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरु-  
लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशः-  
कीर्ति और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट  
संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देव-  
गत्यानुपूर्वी इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक  
होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है  
तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक  
स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अब-  
न्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट  
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे  
अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता  
है । इन प्रकृतियोंको तीर्थंकर प्रकृतिके साथ परस्पर उत्कृष्ट स्थितिके बन्धरूपसे और एक  
समय कम पत्यके असंख्यातवें भाग न्यून तक अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धरूपसे करना चाहिए ।  
शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

५१. वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है ।  
इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो पर-

पगदीओ ताओ एकमेकस्स तं तु० । सेसाओ संखेज्जदिभागूणा वंधदि ।

५२. आहार०-आहारमि० पंचणा०-द्वंदसणा०-दोवेदणी०-पंचंत० ओधं ।  
क्रोधसंज० उक्क०ट्टिदिबं० तिणिएसंज०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं० णिय० वं० ।  
तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० । हस्स० उक्क०ट्टिदिबं० चदुसंज०-पुरिस०-  
भय-दुगुं० णिय० संखेज्जदिभागूणां वं० । रदी० णिय० । तं तु० । एवं रदीए ।

५३. देवगदि० उक्क०ट्टिदिबं० पंचिंदियादिपगदीओ णिय० वं० । तं तु० ।  
तित्थय० सिया० । तं तु० । एवं देवगदिसहगदाओ एकमेकस्स । तं तु० । थिर०

स्पर उत्कृष्ट स्थितिबन्धवाली या एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका यह जीव परस्पर या तो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है या उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है और शेषका संख्यातवां भाग न्यून स्थितिबन्ध करता है ।

५२. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, दो वेदनीय और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । क्रोध संज्वलनकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तीन संज्वलन, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय और जुगुत्साका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष होता है । और तब इनकी उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय और जुगुत्साका नियमसे बन्धक होता है । जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । रतिका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भागहीनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिके आश्रयसे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५३. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवगतिके साथ बँधनेवाली प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष होता है । तब यह जीव उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका

उक्०द्विदिवं० देवगदिअट्टावीसं गिय० वं० । संखेज्जदिभा० । सुभ-जस० सिया० । तं तु० । असुभ-अजस० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं सुभ-जस० । तिन्थ० उक्०-द्विदिवं० देवगदि-पंचिदि०आदिअट्टावीसं पगदीओ गिय० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

५४. कम्मइ० पंचणा०-एवदंसणा०-सादासा०-गोद०-पंचंत० ओघं । मिच्छ० उक्०द्विदिवं० सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं० । गिय० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० । इत्थिवे० उक्०द्विदिवं० मिच्छ०-सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दुगुं० गिय० संखेज्जदिभागूणं वं० । पुरिस० उक्०द्विदिवं० इत्थिभंगो । हस्स-रदि० सिया० । तं तु० । अरदि-सोग सिया० संखेज्जदिभागूणं० । हस्स०

बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । शुभ और यशःकीर्ति प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । अशुभ और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तीर्थंकर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगति और पञ्चेन्द्रिय जाति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है ।

५४. कर्मण काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता-असाता वेदनीय, दो गोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सबका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । इनमेंसे किसी एककी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक शेषकी उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति शोक, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है । जो अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । यह हास्य और रतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टका अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । अरति

उक्क०द्विदिवं० मिच्छ०-सोलसक०-भयदुगुं० णिय० संखेज्जदिभागू० । इत्थि०-  
णवुंस० सिया वं० संखेज्जदिभागू० । पुरिसवे० सिया० । तं०तु० । रदि० णिय० ।  
तं तु० । एवं रदीए ।

५५. तिरिक्खग० उक्क०द्विदिवं० एइदि०-पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-  
पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावर-वादर-सुहुम-पज्जत्त-पत्तेय०-  
साधार०-दुस्सर० सिया० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-तिरि-  
क्खाणु०-अगु०-उप०-अथिरादिपच०-णिमि० णियमा० । तं तु० । एवं तिरिक्खगदि-  
भंगो ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-अथिरादिपंच-  
णिमिण० त्ति ।

और शोकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । पुरुष-वेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । रतिका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिके आश्रयसे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५६. तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, प्रत्येक, साधारण और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके आश्रयसे सन्निकर्षका भङ्ग तिर्यञ्च गतिके समान जानना चाहिए ।



५६. मणुसगदि० उक्०द्विदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-  
अंगो०-वण्ण०४-अगु०-उप०-तस-वादर-पत्ते०-अथिरादिपंच-णिमि० णिय० वं० ।  
णि० अगु० संवेज्जदिभागू० । तिरिणसंठा०-तिरिणसंघ०-अप्पसत्थ०-पर०-उस्सा०-  
पज्जत्तापज्जत्त०-दुस्सरं सिया मंवेज्जदिभागू० । मणुसाणु० णिय० । तं तु० ।  
एवं मणुसाणु० ।

५७. देवगदि० उक्०द्विदिवं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०--वण्ण०४-  
अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-अथिर- असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णि० णिय०  
संवेज्जगुणहीणं वं० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु० णि० वं० । णि० तं  
तु० । तित्थयरं सिया० । तं तु० । एवं देवगदि०४ ।

५८. एइदि० उक्०द्विदिवं० तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-

५६. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। तीन संस्थान, तीन संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, अपर्याप्त और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगत्यानुपूर्विका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्विके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

५७. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्विका इनका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थिति का भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थिति का बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगति चतुष्कके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

५८. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्विका, अगुरुलघु,

वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-अथिरादिपंच-णिमि० णि० वं० । तं तु० ।  
पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय०-साधार० सिया० ।  
तं तु० । एवं थावर० । बीई०-तीईदि०-चदुरिं०-चदुसंठा०-चदुसंघ०-अपज्ज० ओघं ।

५६. समचदु० उक्क०द्विदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-  
वण्ण०४-तस०४-णिमि० णिय० संखेज्जदिभागूणं० । दोगदि-पंचसंघ०-दोआणुपु०-  
उज्जो०-अप्पसत्थ०-अथिरादिद्व० सिया० संखेज्जदिभागू० । वज्जरि०-पसत्थ०-  
थिरादिद्व० सिया० । तं तु० । एवं वज्जरिस०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस० ।

६०. पंचिदि० उक्क०द्विदिवं० तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-  
ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-

उपघात, अस्थिर आदि पांच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। परघात, उक्कास, आतप, उद्योत, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका आलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिय जाति, चार संस्थान, चार संहनन और अपर्याप्त इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका आलम्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके समान जानना चाहिए।

५९. समचतुरस्र संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, असचतुष्क और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। दो गति, पांच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छह इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। वज्र-पर्षभ नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति और स्थिर आदि छह इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वज्रपर्षभ नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, और यशःकीर्ति इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

६०. पञ्चेन्द्रियजातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड सस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्त-सृपाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति,

अथिरादिद्व०-णि० णिय० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं पंचिदियभंगो  
 ओरालि० अंगो०-असंपत्त०-पर०-उस्सा०-अप्पसत्थ०-तस०४-दुस्सरा ति । एववरि  
 पर०-उस्सा०-वादर-पज्जत्त-पत्ते० उक्क०द्विदिवं० एइंदि०-पंचिदि०-ओरालि० अंगो०-  
 अप्पसत्थ०-तस-थावर-दुस्सर सिया० । तं तु० ।

६१. आदाव० उक्क०द्विदिवं० तिरिक्खगदि-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-  
 वरण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच-णिमि०  
 णिय० वं० । तं तु० । उज्जो० तिरिक्खगदिभंगो । एववरि सुहुम-अपज्जत्त-  
 साधारणं वज्ज० ।

६२. सुहुम० उक्क०द्विदिवं० तिरिक्खगदि-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-  
 वरण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावर-अपज्जत्त-साधारण-अथिरादिपंच-णिमि०

असचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योत प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विहायोगति, अस चतुष्क और दुःस्वर इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येक प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त विहायोगति, अस, स्थावर और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है ।

६१. आतपकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योत प्रकृतिका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंको छोड़कर इसका सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

६२. सूक्ष्म प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च-  
 गत्यानुपूर्वा, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर आदि पांच और

णिय० बं० । तं तु० । एवं अपज्जत्त-साधारण० ।

६३. थिर० उक्क० द्विदिवं० दोगदि-एईदि०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-  
पंचसंघ०-दोआणु०--आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावर-बादर-सुहुम-पत्तेय०-  
साधार०-असुभादिपंच० सिया० संखेज्ज०-भागूणं बं० । ओरालि०-तेजा०-क०-  
वण०४-अगु०४-पज्जत्त-णिमि० णि० बं० संखेज्जभागू० । समचदु०-वज्जरि-  
सभ०-पसत्थ०-सुभगादिपंच सिया० । तं तु० । एवं थिरभंगो सुभ-जसगि० ।  
एवरि जसगित्तीए सुहुम-साधारणं वज्ज ।

६४. तित्थय० उक्क० द्विदिवं० मणुसगदिपंचग० सिया० संखेज्जदिभागहीणं  
बं० । देवगदि०४ सिया० । तं तु० । पंचिदियाओ धुविगाओ अथिर-असुभ-सुभग-

निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

६३. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, पांच संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, प्रत्येक, साधारण और अशु-भादि पांच इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, पर्याप्त और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, और सुभग आदि पांचका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार स्थिर प्रकृतिके समान शुभ और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिकी अपेक्षा सन्निकर्ष कहते समय सूक्ष्म और साधारण इन दो प्रकृतियोंको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

६४. तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति पञ्चकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । देवगतिचतुष्कका कदा-चित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति आदि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियां तथा अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और अयशःकीर्ति

सुस्सर-आदे०-अज० णि० वं० अणु० संखेज्जदिभागहीणं० ।

६५. इत्थिवे० पंचणा०-एवदंसणा०-दोवेद-मोहणी०-छब्बीस-आयु० ४-दोगोद०-पंचंत० ओघं । णिरयगदि० उक्क०द्विदि०वं० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-हुंड०-वेउव्वि०अंगो०-वणण०४-णिरयाणु०-अणु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिछ०-णिमि० णिय० वं० । तं तु० । एवं णिरयगदिभंगो पंचिदि०-वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो०-णिरयाणु०-अप्पसत्थ०-तस-दुस्सर त्ति ।

६६. तिरिक्खग० उक्क०द्विदिवं० एइंदिय-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वणण०४-तिरिक्खाणु०-अणु०४-थावर-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच-णिमि० णिय० वं० । तं तु० । आदाउज्जो सिया० । तं तु० । एवं तिरिक्खगदिभंगो एइंदि०-ओरालि०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-थावर त्ति ।

इनका नियमसे बन्धक होता है । जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है ।

६५. स्त्रीवेदवाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेद, मोहनीय छब्बीस, आयु चार, दो गोत्र और पांच अन्तराय इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सन्निकर्ष ओघके समान है । नरकगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हुण्ड संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नरकगतिके समान पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुःस्वर इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

६६. तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । आतप और उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगतिके समान एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत और स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

६७. मणुसगदि० उक्कट्टिदिवं० ओघं । एवरि ओरालि०अंगो० णिय० वं० संखेज्जदिभागू० । दोसंठा०-तिण्णिसंघ०-अपज्ज० सिया० संखेज्जदिभागू० ।

६८. देवगदि० उक्क०ट्टिदिवं० ओघं । बीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिं० उक्क०ट्टिदि० ओघं । एवरि विसेसो, ओरालि०अंगो०-असंपत्तसे० णिय० । तं तु० । आहार०-आहार०अंगो० ओघं ।

६९. तेजइग० उक्क०ट्टिदिवं० कम्मइ०-हुंडसं०-वण्ण४-अगु०[४]-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच०-णिमि०-णिय० वं० । तं तु० । णिरयगदि-एइंदि०-पंचिदि०-ओरालि०-वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावर--दुस्सर० सिया० । तं तु० । एवं तेजा०भंगो कम्मइग०-हुंड०-वण्ण०४-अगु०४-बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अथिरादिपंच-णिमिण ति ।

६७. मनुष्यगतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार करनेपर वह ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि औदारिक आङ्गोपाङ्गका यह नियमसे बन्धक है । जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक है । दो संस्थान, तीन संहनन और पर्याप्त इनका कदाचित् बन्धक है और कदाचित् अबन्धक है । यदि बन्धक है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक है ।

६८. देवगतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार करनेपर वह ओघके समान है । द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार करनेपर वह ओघके समान है । इतना विशेष है कि औदारिक आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तास्पष्टिका संहननका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । आहारक शरीर और आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार करनेपर वह ओघके समान है ।

६९. तैजस शरीरकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव कार्मण शरीर, हुण्ड-संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तैजस शरीरके समान कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

७०. समचतु० उक्क०द्विदि० ओघं । एवरि ओरालि०अंगो०-असंपत्त० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे० । एग्गोद०-सादि०-खुज्ज-संठा० ओघं ।

७१. वामणसंठा० उक्क०द्विदि० ओरालि०अंगो० एणिय० । तं तु० । खीलियसंघ०-असंप० सिया० । तं तु० । सेसं ओघं ।

७२. ओरालि०अंगो० उक्क०द्विदि० तिरिक्खवादि-ओरालिय-तेजा०-क०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-तस-बादर-पज्जत्त०-अथिरादिपंच-णिमि० णि० बं० संखेज्जदिभागू० । वीईदि०-तीईदि०-चदुरिं०-वामण०-खीलिय०-असंप०-अपज्ज० सिया० । तं तु० । पंचिदि०-हुंड०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-पज्जत्त०-दुस्सर

७०. समचतुरस्र संस्थानके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार करने पर वह ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि औदारिक आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तासृपाटिका संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेय इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष कहना चाहिए। न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान, स्वाति संस्थान और कुब्जक संस्थानके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार करने पर वह ओघके समान है।

७१. वामन संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव औदारिक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। कीलक संहनन और असम्प्राप्तासृपाटिका संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। शेष सन्निकर्ष ओघके समान है।

७२. औदारिक आङ्गोपाङ्गकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, पर्याप्त, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, कीलक संहनन, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन और अपर्याप्त इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। पञ्चेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, परघात, उल्लास, उद्योत, अप्रशस्त

सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं असंपत्त० । वज्जरि० ओघं । एवरि विसेसो ओरालि०अंगो० णिय० संखेज्जदिभागू० ।

७३. सुहुम-अपज्जत्त-साधारणं ओघं । एवरि विसेसो । पज्जत्त० उक्क०द्विदिवं० ओरालि०अंगो०-असंपत्तसे० आदेसेण सिया० । तं तु० । धिर० ओघं । एवरि विसेसो, ओरालि०अंगो०-असंपत्त० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं सुभ०-जसगि० । तित्थय० ओघं ।

७४. पुरिसवेदे सन्वाणं ओघं । एवुंसग० सत्तएणं ओघं । णिरयगदि० ओघं । तिरिक्खगदि० उक्क०द्विदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-वरण०-४-तिरिक्खाणु०-अगु०-४-अप्पसत्थ०-तस०-४-अथिरादिच्च०-

विहायोगति, पर्याप्त और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार असम्प्राप्तास्पष्टिका संहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए । वज्रर्षभनाराच संहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है । इतना विशेष है कि औदारिक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है ।

७३. सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है । किन्तु यहां विशेष जानकर कहना चाहिए । पर्याप्तकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव औदारिक आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तास्पष्टिका संहननका आदेशसे कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि औदारिक आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तास्पष्टिका संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए । तोर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है ।

७४. पुरुषवेदवाले जीवोंके सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है । नपुंसक वेदवाले जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है । नरकगतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है । तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पष्टिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, प्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता



णिमि० णिय० वं० । तं तु० । [ उज्जो० सिया० । तं तु० । ] एवं ओरालि०-  
ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-तिरिक्खाणु०-उज्जोव त्ति । मणुसगदि-देवगदि० ओघं ।

७५. एइंदि० उक्क०ट्टिदिवं० निरिक्खगदि-ओरालि०-तेजा०-क०-हुं०ड०-  
वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अणु०-उप०-अथिरादिपंच-णिमि० [ णिय० वं० । णिय०  
अणु० ] संखेज्जदिभागू० । पर०-उस्सा०-उज्जो०-वादर-पज्जत्त-पत्तेय० सिया०  
संखेज्जदिभागू० । आदाव-सुहुम-अपज्जत्त-साधारणं सिया० । तं तु० । थावर०  
णिय० वं० । तं तु० । एवं थावर० । वीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिं० ओघं ।

७६. पंचिदि० उक्क०ट्टिदिवं० तेजा०-क०-हुं०ड०-वण्ण०४-अणु०४-अप-

है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो कदाचित् उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और कदाचित् अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार औदारिक शरीर, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और उद्योत इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए । मनुष्य गति और देवगतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है ।

७५. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । परघात, उल्लास, उद्योत, वादर, पर्याप्त और प्रत्येक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । स्थावर प्रकृतिका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए । द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रियजातिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है ।

७६. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क,

सत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध०-णिमि० णिय० बं० । तं तु० । णिरयगदि-तिरिक्ख-  
गदि-ओरालिय-वेउन्विय०-दोअंगो०-असंपसत्त०-दोआणु०-उज्जो० सिया० । तं  
तु० । एवं पंचिदियजादिभंगो तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-  
अथिरादिद्ध०-णिमिण त्ति । पंचसंठा०-पंचसंघ० ओघं ।

७७. आदाव० उक्क०ट्टिदिबं० तिरिक्खगदि-ओरालिय-तेजा०-क०-हुंड०  
वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अथिरादिपंच-णिमि० णि० बं०  
संखेज्जदिभागू० । एइंदिय-थावर० णिय० । तं तु० । पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-  
आदेज्ज० ओघं । सुहुम-अपज्जत्त-साधार० ओघं । एवरि अपज्जत्तस्स एइंदि०-  
थावर० सिया० । तं तु० ।

अस्थिर आदि छुह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी  
बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक  
होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग  
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगति, तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर,  
दो आङ्गोपाङ्ग, असम्प्रातास्पटिका संहनन, दो आनुपूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक  
होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी  
बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका  
बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां  
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान तैजस  
शरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति,  
त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छुह और निर्माण इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर  
सन्निकर्ष जानना चाहिए । पाँच संस्थान और पाँच संहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन  
लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है ।

७७. आतपकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर,  
तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क,  
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है ।  
जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । एकेन्द्रिय जाति और स्थावर  
इनका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट  
स्थितिका भी बन्धक होता है । किन्तु यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे  
एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । प्रशस्त  
विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेय इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निक-  
र्ष ओघके समान है । तथा सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका  
अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अपर्याप्तके साथ एके-  
न्द्रिय जाति और स्थावर प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक  
होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट  
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे  
उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थिति  
का बन्धक होता है ।

७८. थिर० उक्क०ट्टिदिवं० ओघं । एवरि विसेसो, एइंदि०-आदाव-थावर० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं सुभ-जस० । तित्थय० ओघं ।

७९. अवगदवे० आभिणिवो० उक्क०ट्टिदिवं० चदुणाणा० णि० । णि० उक्कस्सा । एवं चदुणाणा०-चदुदंसणा०-चदुसंजल०-पंचंत० ।

८०. क्रोधादि०४-मदि०-सुद०-विभंग० ओघं । आभि०-सुद०-ओधि० व्णएणं कम्माणं ओघं । अपच्चक्खाणा०'कोध० उक्क०ट्टिदिवं० एक्कारसक०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं० णि० वं० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स० । तं तु० । हस्स० उक्क०ट्टिदिवं० वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगुणहीणं वं० ।

७८. स्थिर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओघके समान है। इतना विशेष है कि एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके आश्रयसे सन्निकर्ष ओघके समान है।

७९. अपगतवेदवाले जीवोंमें अभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

८०. क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभङ्गज्ञानी जीवोंमें अपनी अपनी सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष ओघके समान है। अभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुताज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें छह कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके आश्रयसे सन्निकर्ष ओघके समान है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव ग्यारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय और जुगुत्सा इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुत्साका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुण हीन स्थितिका बन्धक होता है। रतिका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका

रदि० णिय० वं० । तं तु० । एवं रदीए ।

८१. मणुसग० उक्क०ट्टिदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-वएण०४-मणुसाणु०-अगु०४--पसत्थवि०-तस०४--अथिर--असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अज०-णिमि० णि० वं० । तं तु० । एवं मणुसगदि-भंगो ओरालि०-ओरालि०अंगो-वज्जरिसभ०-मणुसाणु० ।

८२. देवगदि० उक्क०ट्टिदिवं० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-वएण०४-देवाणु०-अगु०४--पसत्थ०--तस०४--अथिर--असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि० णिय० । तं तु० । तित्थय० सिया वं० । तं तु० । एवं देवगदिभंगो वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो०-देवाणु०-तित्थय० ।

८३. पंचिदि० उक्क०ट्टिदिवं०<sup>१</sup> तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगु०४-पस-असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

८१. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ-नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगतिके समान औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

८२. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एकसमय न्यून स्थितिसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवगतिके समान वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थंकर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

८३ पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कर्मण

१. मूलप्रतौ वं० पंचिदि० तेजा-इति पाठः ।

त्थवि०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-अजस०-णिमि० बं० । तं तु० । मणुसग०-देवग०-ओरालि०-वेउव्वि०-दोअंगोवं०-वज्जरि०-दोआणु०-तित्थय० सिया० । तं तु० । एवं पंचिदिय-भंगो तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-अजस०-णिमिण ति । आहार०-आहार०अंगो ओघं ।

८४. थिर० उक्क०द्विदिवं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० बं० संवेज्जगुणहीणं बं० । मणु-सगदि-देवगदि-ओरालि०-वेउव्वि०-दोअंगो०-वज्जरिस०-दोआणु० सिया० संवेज्ज-गुणहीणं बं० । सुभ-जसगिति० सिया० । तं तु० । असुभ-अजस०-तित्थ० सिया०

शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगति, देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ-नाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और तीर्थकर इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। आहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है।

८४. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगति, देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और दो आनुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। शुभ और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थिति भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। अशुभ, अयशःकीर्ति और तीर्थकर इनका

संवेज्जगुणहीणं वं० । एवं सुभ-जसगिति० ।

८५. मणपज्जव० छरणं कम्माणं ओघं । कोधसंज० उक्क०ट्टि० तिण्णिसंज० पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं० णि० वं० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० । हस्स० उक्क०ट्टिदिवं० चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं० णि० वं० संवेज्जगुण-हीणं० । रदि० णिय० वं० । तं तु० । एवं रदीए ।

८६. देवगदि० उक्क० ट्टिदिवं० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु० वेउव्वि०-अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४--पसत्थ०-तस०४--अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-अजस०-णिमि० णि० वं० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

८५. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें ब्रह्म कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है । क्रोध संज्वलनकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तीन संज्वलन, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु तब वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । रतिका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

८६. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । इसी प्रकार इनमेंसे प्रत्येकके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु तब वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थंकर प्रकृतिका

तित्थय० सिया० । तं तु० । आहार०-आहार०अंगो० ओघं ।

८७. थिर० उक्क०द्विदिवं० देवगदिअट्टावीसं तिण्णियुगलं वज्ज० णिय०  
वं० संखेज्जदिगुणहीणं वं० । मुभ०-जस० सिया० । तं तु० । अमुभ-अजस०-तित्थय०  
सिया० संखेज्जगुणहीणं० । एवं मुभ-जस० ।

८८. तित्थय० उक्क०द्विदिवं० देवगदिअट्टावीसं णिय० वं० । तं तु० ।  
सामाइ०-खेदो०-परिहार० [ मणपज्जवभंगो ] ।

८९. सुहुमसं० आभिणिवो० उक्क०द्विदिवं० चदुणा० णिय० वं० उक्कस्सा ।  
एवमणमणस्स । एवं चदुदं०-पंचंत० । संजदासंजद० परिहारभंगो । असंजद-  
चक्खुदं०-अचक्खुदं० ओघं । ओधिदं० ओधिणाणभंगो । किरणाए णवुंसगभंगो ।

कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । आहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके आश्रयसे सन्निकर्ष ओघके समान है ।

९०. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तीन युगलोंको छोड़कर देवगति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । शुभ और यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । अशुभ, अयशःकीर्ति और तीर्थंकर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात-गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्ति इनके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

९१. तीर्थंकर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगति आदि अट्टा-ईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत और परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके जानना चाहिए ।

९२. सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरणका नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आश्रय लेकर परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । संयतासंयतोंका भङ्ग परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके समान है । असंयत, चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । अवधिदर्शनी जीवोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । कृष्ण लेश्यामें नपुंसकवेदी जीवोंके समान भङ्ग है ।

६०. णील-काऊणं सत्तएणं कम्माणं ओघं । णिरयगदि० उक्क० द्विदि० वं० पंचि-  
दिय-तेजा०--क०--हुंड०-वणण०४-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध० णिमि०  
णिय० वं० । णि० अणु० संखेज्जगुणहीणं० । वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-णिर-  
याणु० णिय० वं० । तं तु० । एवं वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-णिरयाणु० ।

६१. तिरिक्खगदि० उक्क० द्विदि० वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०क०-हुंड०-  
ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-वणण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-अप्पस०-तस०४-अथि-  
रादिद्ध०-णिमि० णि० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एक-  
मेक्कस्स । तं तु० । मणुसगदिदुग-पंचसंठा-पंचसंघ०-पसत्थ०-थिरादिद्ध० णिरयभंगो ।

९०. नील और कापोत लेश्यामें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है। नरकगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्विका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

९१. तिर्यञ्जगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्विका, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके आश्रयसे परस्पर सन्निकर्ष होता है। ऐसी अवस्थामें वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगतिकी पाँच संस्थान, पाँच संहनन, प्रशस्त विहायोगति और स्थिर आदि छह इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके आश्रयसे सन्निकर्ष सामान्य नागक्रियोंके समान है।



६२. देवगदि० उक्क०द्विदिवं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगु-  
४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० वं० । णिय० अणु० संखे-  
ज्जगुणहीणं० । वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो० णि० वं० अणु० संखेज्जदिगुणहीणं० ।  
देवाणु० णिय० वं० । तं तु० । थिराथिर-सुभामुभ-जस०-अजस० सिया० णि०  
वं० । णि० अणु० संखेज्जगुणहीणं० । एवं देवाणु० ।

६३. एइदि० उक्क०द्विदिवं० तिरिक्खगदि-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-  
४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-दुभग-अणादे०-णिमि० णि० वं० । णि० अणु० संखे-  
ज्जगुणहीणं० । पर०-उस्सा-उज्जो०-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-थिराथिर-सुभामुभ-जस०-अज-  
स०-सिया वं० । यदि वं० णिय० अणु० संखेज्जगुणहीणं० । आदाव-सुहुमादि-  
तिण्णिण० सिया० । तं तु० । थावर० णिय० । तं तु० । एवं थावर० ।

९२. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरन्ध्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहा-  
योगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक  
होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक  
शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात  
गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। देवगन्यानुपूर्विका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु  
वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि  
अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर  
पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर, अस्थिर, शुभ,  
अशुभ, यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि  
बन्धक होता है तो अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देव-  
गन्यानुपूर्विके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

९३. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदा-  
रिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी,  
अगुरुलघु, उपघात, दुर्भग, अनादेय और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता  
है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक होता है। परघात, उच्छ्वास,  
उद्योत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशः-  
कीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि  
बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। आतप  
और सूक्ष्म आदि तीनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि  
बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक  
होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे  
लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थावर प्रकृतिका  
नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट  
स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट-  
की अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका  
बन्धक होता है। इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष  
जानना चाहिए।

६४. बीइंदि० उक्क०ट्टिदि०वं० तिरिक्खगदि०ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-वणण०४-तिरिक्खा०-अगु०-उप०-तस-वादर-पत्ते०-दूभग--अणादे०-णिमि० णि० वं० संखेज्जगुणहीणं० । पर०-उस्सा०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-पज्ज०-थिराथिर-सुभासुभ-दुस्सर-जस०-अजस० सिया० संखेज्जगुणहीणं० । अपज्ज० सिया० । तं तु० । एवं तीइंदि०-चदुरि० ।

६५. आदाव० उक्क०ट्टिदि०वं० तिरिक्खगदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वणण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-दूभग-अणादे०-णिमि० णि० अणु० संखेज्जगुणहीणं० । एइंदि०-थावर० णिय० । तं तु० । थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया वं० । यदि वं० संखेज्जगुणहीणं० ।

६६. पर०- अपज्ज० उक्क०ट्टिदि०वं० तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-सं०-वणण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-अथिरादिपंच-णिमि० णिय० संखेज्जगुण-

९४. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय और और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यात गुण हीन स्थितिका बन्धक होता है। परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुःस्वर, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक होता है। अपर्याप्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए।

६९. आतपकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है।

९६. परघात और अपर्याप्त प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर आदि पांच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो

ही० । चदुजादि-थावर-सुहुम-साधारण० सिया० । तं तु० । पंचिदि०-ओरालि०-अंगो-  
असंपत्त०-तस०-बादर-पत्ते० सिया० संखेज्जगुणहीणं० । मणुसगदि-मणुसाणु०  
सिया० संखेज्जगुणहीणं० ।

६७. तिन्थय० णिरयगदिभंगो । एवरि एलीए तिन्थय० देवगदिसंजुत्तं भाणि-  
दव्वं । एवरि थिराथिर-मुभामुभ-जस०-अजस० सिया० संखेज्जगुणहीणं । एवं  
धुविगाणं पि णिय० संखेज्जगुणहीणं० ।

६८. तेऊण सत्तएणं कम्माणं आंधं । देवगदि० उक्क०-द्विदिवं० पंचिदि०-तेजा०  
क०-समचदु०-वएण०-४-अगु०-४-पसत्थ०-तम०-४-मुभग-मुससर-आदे०-णिमि० वं०  
संखेज्जगुणहीणं० । वेउच्चि०-अंगो०-देवाणु० णि० वं० । तं तु० । थिराथिर-मुभा-  
मुभ-जस०-अजस० सिया० संखेज्जगुणहीणं० । एवं देवगदिभंगो वेउच्चि०-वेउच्चि०

अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। चार जाति, स्थावर, मूक्ष्म और साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तागृपाटिका संहनन, वस, बादर और प्रत्येक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वाका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है।

९७. तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नरकगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि नील लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सन्निकर्ष कहते समय देवगतिके साथ कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भी नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है।

९८. पात लेश्यामें गान कर्मोंका भङ्ग आप्तके समान है। देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तंजन शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, वस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक हाता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वा इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक हाता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक हाता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक हाता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक हाता है। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक हाता है और कदाचित् अबन्धक हाता है। यदि बन्धक हाता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्टसंख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक हाता है। इसी प्रकार देवगतिके समान वैक्रियिक

अंगो०-देवाणु० । आहार०-आहार०अंगो० ओघं । सेसं सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि । एवरि एइंदि०-आदाव-थावरं वज्ज० ।

६६. मुक्काए छरणं कम्माणं ओघं । मोहणी० आणदभंगो । देवगदि० उक्क० द्विदिवं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-मुस्सर-आदे०-णिमि० णि० वं० । णि० अणु० संखेज्जगुणहीणं० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणुपु० णि० वं० । तं तु० । थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० संखेज्जगुणहीणं० । एवं वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणुपु० । सेसाणं आणदभंगो । भवसिद्धिया० ओघं । अब्भवसिद्धिया० मदिभंगो । सम्पादिही० ओधिभंगो ।

१००. खड्गस० सत्तएणं कम्माणं ओधिभंगो । मणुसगदि० उक्क०द्विदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-वण०४-

शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। आहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके आश्रयसे मन्त्रिकर्षओघके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्टस्थितिवन्धके आश्रयसे सन्निकर्ष सौधर्म कल्पके समान है। इसी प्रकार पञ्चलेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर इन तीन प्रकृतियोंको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए।

९९. शुक्ल लेश्यामें छह कर्मोका भङ्ग ओघके समान है। मोहनीय कर्मका भङ्ग आनत कल्पके समान है। देवगतिको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मणशरीर समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष आनत कल्पके समान है। भव्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओघके समान है। अभव्य जीवोंमें मन्थज्ञानियोंके समान है तथा सम्यग्दृष्टियोंमें अवधिज्ञानियोंके समान है।

१००. ज्ञायिक सम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोका भङ्ग अवधिज्ञानियोंके समान है। मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क,

मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-अजस०-  
णिमि० णिय० वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवं ओरालि०-ओरालि०  
अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० ।

१०१. देवगदि० उक्क०ट्टिदिवं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-  
अगु०४-पसत्थ०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि० णि०  
वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो०-देवाणुपु०-णि०  
वं० । तं तु० । एवं वेउव्वियदुग-देवाणुपु० ।

१०२. पंचिदि० उक्क०ट्टिदिवं० तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-  
तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-अजस०-णिमि० णि० वं० । तं तु० ।

अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्णभ नाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१०१. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, अस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक द्विक और देवगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१०२. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, अस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे बन्धक

मणुसगदि-देवगदि-ओरालि०-वेउन्वि०-[ दो ]अंगो०-वज्जरि०-दोआणु०-तित्थय०  
सिया० । तं तु० । एवमेदे पंचिंदियभंगो ।

१०३. थिर० उक्क०ट्टिदिबं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वणण०४-अगु०४-  
पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णिय० संखेज्जदिभागू० । दोगदि-  
दोसरीर-दोअंगो०-वज्जरि०-दोआणु०-असुभ-अजस०-तित्थय० सिया० संखेज्जदि-  
भागू० । सुभग-जसगि० सिया० । तं तु० । एवं थिरभंगो सुभ-जस० ।

१०४. वेदग०-उवसमस० ओधिभंगो । एवरि उवसम० तित्थय० उक्क०-  
ट्टिदिबं० देवगदि-पंचिदि०-वेउन्विय०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउन्वि०-अंगो०-वणण०४-  
देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-अजस०-

होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगति, देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी तथा तीर्थकर प्रकृतिका स्यात् बन्धक होता है और स्यात् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१०३. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायो-  
गति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ नाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, अशुभ, अयशःकीर्ति और तीर्थङ्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । सुभग और यशः-  
कीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार स्थिर प्रकृतिके समान शुभ और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१०४. वेदक सम्यक्त्व और उपशम सम्यक्त्वमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि उप-  
शम सम्यक्त्वमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगति, पञ्चे-  
न्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे बन्धक

णिमि० णि० वं० । णि० अणु० संखेज्जगुणही० ।

१०५. सामणे छणं कम्माणं ओघं । अणानाणुबंधिकोध० उक्क०द्विदिवं०  
पणणारसक०-इत्थि०-अरदि-मोग-भय-दुगुं० णि० वं० । णि० तं तु० । एवमेदाओ  
एकमेकस्स । तं तु० । पुरिस० उक्क०द्विदिवं० सोलसक०-भय-दुगुं० णि० वं०  
संखेज्जदिभागू० । हस्स-रदि० मिया० । तं तु० । अरदि-मोग सिया० संखेज्जदि-  
भागू० । हस्स० उक्क०द्विदिवं० सोलसक०-भय-दुगुं० णिय० वं० संखेज्जदिभागू० ।  
इत्थि० सिया० संखेज्जदिभागू० । पुरिस० मिया० । तं तु० । रदि० णियमा० ।  
तं तु० । एवं रदीए वि ।

होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है ।

१०५. सासादन सम्यक्त्वमे छह कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । अनन्तानुबन्धी  
क्रोधकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पन्द्रह कपाय, खीवेद, अरति, शोक, भय  
और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता  
है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है  
तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग  
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष  
जानना चाहिए । ऐसी अवस्थामें वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट  
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट  
की अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थिति-  
का बन्धक होता है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कपाय, भय  
और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन  
स्थितिका बन्धक होता है । हास्य और रतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्  
अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट  
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी  
अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भागहीनतक स्थितिका बन्धक  
होता है । अरति और शोकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है ।  
यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका बन्धक होता है ।  
हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कपाय, भय और जुगुप्साका  
नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।  
खीवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता  
है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदका  
कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो  
उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि  
अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय  
न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग हीनतक स्थितिका बन्धक होता है । रतिका नियमसे  
बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक  
होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट  
एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग हीनतक स्थितिका बन्धक होता  
है । इसी प्रकार रतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा भी सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१०६. तिरिक्खगदि० उक्क०ट्टिदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-वामण-  
संठा०-ओरालि०अंगो०-खीलियसंघ०-वणण०४-तिरिक्खाणु०--अगु०४-अप्पसन्थ०-  
तस०४-अधिरादिद्ध०-णिमि० णि० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ  
एकमेकस्स । तं तु० ।

१०७. मणुसगदि० उक्क०ट्टिदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-  
अंगो०-वणण०४-अगु०-अप्पसन्थावि०-तस०४-अधिरादिद्ध०-णिमि० णि० संखेज्जदि-  
भागू० । । खुज्जसं०-वामणसं०-अद्ध०-खीलिय० सिया० संखेज्जदिभागू० । मणु-  
साणु० णि० । तं तु० । एवं मणुसाणु० ।

१०८. देवगदि० उक्क०ट्टिदिवं० पंचिदि०-तेजा०-क०-वणण०४-अगु०४-तस०४-

१०६. तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वामन संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, कीलक संहनन, वर्णचतुष्क. तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक हाता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष होता है और तब वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक हाता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है।

१०७. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदा-  
रिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, अप्र-  
शस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक  
होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। कुब्जक  
संस्थान, वामन संस्थान, अर्द्धनाराच संहनन और कीलक संहनन इनका कदाचित् बन्धक  
होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट  
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक  
होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी  
बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा  
अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक  
होना है। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष  
जानना चाहिए।

१०८. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस  
शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माण इनका नियमसे



णिमि० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । वेउन्वि०-समचदु०-वेउन्वि०अंगो०-देवाणु०-  
पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे० णिय० । तं तु० । थिर-सुभ-जसगि० सिया० ।  
तं तु० । अथिर-असुभ-अजस० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं वेउन्वि०-वेउन्वि०  
अंगो०-देवाणु० ।

१०६. समचदु० उक्क० द्विदिवं० पंचिदि०-तेजा०-क०-वरण०४-अगु०४-तस०४-  
णिमि० णि० संखेज्जदिभागू० । तिरिक्खगदि-मणुसगदि-ओरालि०-ओरालिअंगो०-  
चदुसंध०-दोआणु०-अप्पसत्थवि०-अथिरादिद्ध० सिया० संखेज्जदिभागू० । देवगदि-  
वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो०-वज्जरिस०-देवाणु०-पसत्थवि०-थिरादिद्ध० सिया० । तं तु० ।  
एवं समचदु०अंगो पसत्थवि०-थिरादिद्ध० ।

बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहा-  
योगति, सुभग, सुस्वर और आदेय इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट  
स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट  
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर  
पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिका  
कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो  
उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि  
अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे  
लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । अस्थिर, अशुभ  
और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक  
होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार  
वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा  
सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१०६. समचतुरस्र संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय  
जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क और निर्माण  
इनका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका  
बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, चार  
संहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छह इनका कदाचित् बन्धक  
होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट  
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक  
आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति और स्थिर आदि  
छह इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता  
है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ।  
यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक  
समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी  
प्रकार समचतुरस्र संस्थानके समान प्रशस्त विहायोगति और स्थिर आदि छहके उत्कृष्ट  
स्थितिबन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

११०. एग्गोद० उक्क०ट्टिदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०  
अंगो०-वएण०४-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध०-णिमि० णिय० वं०  
संखेज्जदिभागू० । तिरिक्खगदि-मणुसगदि-तिरणसंघ०--दोआणु०-उज्जो० सिया०  
संखेज्जदिभागू० । वज्जणारा० सिया० । तं तु० । एवं वज्जणारायणं । एवं सादियं  
पि । एवरि णारायणं सिया० । तं तु० । [ एवं ] णारायणं ।

१११. खुज्ज० उक्क०ट्टिदिवं० तिरिक्खगदि-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-  
ओरालि०अंगो०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-अप्पसत्थ०--तस०४-अथिरादिद्ध०-  
णिमि० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । खीलिय०-उज्जो० सिया० संखेज्जदिभागू० ।  
अद्दणारा० सिया० । तं तु० । एवं अद्दणारा० ।

११०. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवां भागहीन अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, तीन संहनन, दो आनुपूर्वी और उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवां भागहीन अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । वज्रनाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग हीनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वज्रनाराचसंहननके उत्कृष्ट स्थिति बन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष कहना चाहिए । तथा इसी प्रकार स्वातिसंस्थानके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह नाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नाराच संहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१११. कुब्जक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । कोलक संहनन और उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । अर्धनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग हीन तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अर्धनाराच संहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

११२. सम्मामि० अधिभंगो । मिच्छे मदिभंगो । सण्ण० मूलोघं । अस-  
एणीमु पंचणा०-एवदंमणा०-मोहणी०-छ्वीस-चदुआयु०-दोगोद०-पंचंत० पंचदिय-  
तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । णिरयगदिसंजुत्ताणं णामपगदीणं तिरिक्खोघं । तिरिक्ख-  
गदि० उक्क०द्विदिवं० तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-अगु०-उप०-अथिरादिपंच-णिमि०  
णि० संखेज्जदिभागू० । एइदि०-ओरालि०-तिरिक्खाणु०-थावर-मुहुम-अपज्ज०-  
साधार० णि० । तं तु० । एवमेदासिं तंतु० पदिदाणं सरिसो भंगो ।

११३. मणुमग० उक्क०द्विदिवं० मणुसाणु० णि० । तं तु० । सेसाणं  
संखेज्जदिभागू० ।

११४. देवगदि० उक्क०द्विदिवं० पंचिदि०-वेउच्चि-तेजा०-क०-वेउच्चि०अंगो०-  
वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णि० णि० संखेज्जदिभागू० । समचदु०-देवाणु०-पसत्थ०-  
मुभग-मुम्मर-आदे० णिय० । तं तु० । थिराथिर-मुभामुभ-जस०-अजम० सिया०

११२. सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें अधिज्ञानियोंके समान भङ्ग है । मिथ्यादृष्टि  
जीवोंमें मत्तज्ञानियोंके समान भङ्ग है । संक्षी जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है ।  
असंक्षी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, छव्वीस मोहनीय, चार  
आयु, दो गोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके  
समान है । नरकगति सहित नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है ।  
तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव नैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड  
संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इनका नियमसे  
बन्धक होता है जो नियमसे अनुकृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है ।  
एकेन्द्रिय जाति, आदरिक्क शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, सुद्धम, अपर्याप्त और साधारण  
इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुकृष्ट  
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुकृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे  
उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुकृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक  
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार 'तं तु' रूपसे कही गई इन प्रकृतियोंका  
सदृश भंग होता है ।

११३. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगत्यानुपूर्वीका  
नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुकृष्ट स्थितिका  
भी बन्धक होता है । यदि अनुकृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा  
अनुकृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक  
होता है । तथा शेष प्रकृतियोंको अनुकृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।

११४. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक  
शरीर, नैजस, शरीर, कार्मण शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क,  
प्रस चतुष्क और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुकृष्ट संख्यातवाँ  
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । समचतुरस्र संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहा-  
योगति, मुभग, सुखर और आदेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी  
बन्धक होता है और अनुकृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुकृष्ट स्थितिका  
बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुकृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका

संखेज्जदिभागू० । एवं देवाणु० । चदुजादि० पंचिदिय०तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

११५. समचदु० उक्क०ट्टिदिवं० पंचिदि०-तेजा०-क०-वएण०४-अगु०४-तस०४-एण० णिय० संखेज्जदिभागू० । दोगदि-दोसरर-दोअंगो०-पंचसंघ०-दोआणु०-उज्जोव-अप्पसत्थ०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-जस०-अजस० सिया० संखेज्जदिभागू० । देवगदि-वज्जरि०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० । तं तु० ।

११६. चदुसंठा०-ओरालि०अंगो-चदुसंघ०-आदाउज्जो०-थिर-सुभ-जसगि० अपज्जत्तभंगो । आहार० ओघं । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं उक्कस्स-सत्थाण-सण्णियासं समत्तं ।

११७. उक्कस्सपरत्थाणसण्णियासे पगदं । एत्तो उक्कस्सपरत्थाणसण्णियास-साधण्हं अट्टपदभूदसमासलक्खणं वत्तइस्सामो । तं जहा—पंचिदियसएणीणं

असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशः-कीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थिति बन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए । चार जातिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

११५. समचतुरस्र संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कर्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, व्रस चतुष्क और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । देवगति, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेय इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ।

११६. चार संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, चार संहनन, आतप, उद्योत, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इनका भङ्ग अपर्याप्तके समान है । आहारक जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । तथा अनाहारक जीवोंका भंग कर्मणकाययोगी जीवोंके समान है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वस्थान सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

११७. अब उत्कृष्ट परस्थान सन्निकर्षका प्रकरण है । अतएव आगे उत्कृष्ट परस्थान सन्निकर्षकी सिद्धिके लिए अर्थपदभूत समास लक्षणको बतलाते हैं । यथा—पञ्चेन्द्रिय

अपज्जत्ताणं मिच्छादिद्वीणं अन्धवसिद्धियपाओग्गं अंतोकोडाकोडिपुधत्तं बंधमाणस्स  
द्विदिउत्सरणं । तदो सागरोवमसदपुधत्तं उस्सरिदूण मणुसायु० बंधओच्छेदो ।  
तदो सागरोवमसदपुधत्तं उस्सरिदूण तिरिक्वायु० बंधवांच्छेदो । तदो सागरोवम०  
उस्सरिदूण उच्चागोदं बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण पुरिस०-समचटु०-  
वज्जरिसभ०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे० एदाओ सत्त पगदीओ एकदो बंध-  
वोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण णग्गोद०-वज्जणारा० एदासिं दोपगदीणं  
एकदो बंधओच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण सादिय०-णारायण० एदाओ  
दोपगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण इत्थिवे० बंध-  
वोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण खुज्जसंठा०-अद्वणारा० एदाओ दोपग-  
दीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण वामणसंठा०-खीलियसंध०  
एदाओ दोपगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण मणुसग०-  
मणुसाणु० पज्जत्तसंजुत्ताओ दोपगदीओ बंधवांच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरि-  
दूण पंचिदिय० पज्जत्तसंजुत्त० बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण चटुरि-  
दिय० पज्जत्तसंजुत्त० बंधवांच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण तेइंदिय० पज्जत्त-  
संजुत्त० बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण वेइंदिय०-अप्पसत्थ०-दुस्सर०

संज्ञी पर्याप्त मिथ्यादृष्टियोंमें अभव्योंके योग्य अन्तःकोडाकोड़ी पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका बन्ध  
करनेवाले जीवके स्थितिका उत्सरण होता है । इससे आगे सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण स्थिति  
का उत्सरण करके मनुष्यायुकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण  
स्थितिका उत्सरण होनेपर तिर्यञ्चायुकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर  
पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर उच्चगोत्रकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ  
सागर पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर पुरुषवेद, समचतुरन्ध संस्थान, वज्रर्षभ-  
नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेय इन सात प्रकृतियोंकी  
एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होनेपर न्यग्रोध  
परिमण्डल संस्थान और वज्रनाराच संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति  
होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होनेपर स्वाति संस्थान और नाराचसंहनन  
इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्ध व्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण  
स्थितिका उत्सरण होनेपर खी वेदकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्व  
प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर कुब्जक संस्थान और अर्धनाराचसंहननकी एक साथ  
बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर  
वामन संस्थान और कीलक संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है ।  
इससे सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर पर्याप्त प्रकृतिसे संयुक्त मनुष्य-  
गति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर  
पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर पर्याप्त प्रकृतिसे संयुक्त पञ्चेन्द्रिय जातिकी  
बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर पर्याप्त संयुक्त चतु-  
रिन्द्रिय जातिकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर  
पर्याप्त संयुक्त त्रीन्द्रियजातिकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्स-

पज्जत्त० एदाओ तिरिण पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण बादरएइंदियपज्जत्त०-पत्तेग०-आदाउज्जो०-जसगि० एदाओ पंच पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण बादरएइंदियपज्जत्त-साधारण० एदाओ दोपगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिदूण सुहुमेइंदिय-पज्जत्त-पत्तेय० एदाओ दोपगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिदूण सुहुमेइंदियपज्जत्त-साधार०-पर०-उस्सा०-थिर०-सुभ० एदाओ छ-पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिदूण मणुसग०-मणुसाणु० अपज्जत्तसंजुत्ताओ दुवे पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण पंचिदियअपज्जत्त० बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण चदुरिंदियअपज्जत्त० बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० [उस्सरि०] तेइंदियअपज्जत्त० बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिदूण वेइंदियअपज्जत्त-ओरालि० अंगो०-असंपत्त०-तस० एदाओ चत्तारि पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिदूण बादरेइंदियअपज्जत्त० पत्तेयसंजुत्ताओ दो पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिदूण बादरेइंदिय-अपज्जत्त० साधारणसंजुत्ताओ एदाओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिदूण सुहुमे-इंदियअपज्जत्त० पत्तेग०-संजुत्ताओ एदाओ दोणिण पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो ।

रण हो कर पर्याप्त संयुक्त द्वीन्द्रिय जाति, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वर इन तीन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर पर्याप्त संयुक्त बादर एकेन्द्रिय जाति, प्रत्येक, आतप, उद्योत और यशःकीर्ति इन पाँच प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त और साधारण इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और प्रत्येक इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, साधारण, परघात, उच्छ्वास, स्थिर और शुभ इन छह प्रकृतियोंको एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर अपर्याप्त संयुक्त मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर अपर्याप्त संयुक्त पञ्चेन्द्रिय जातिकी बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर अपर्याप्त संयुक्त चतुरिन्द्रिय जातिकी बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर अपर्याप्त संयुक्त त्रीन्द्रिय जातिकी बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर अपर्याप्त संयुक्त द्वीन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन और प्रस इन चार प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त और प्रत्येक संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त और साधारण संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त और प्रत्येक संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण

तदो सागरो० उस्सरिदूण सादाव०-हस्स-रदि० एदाओ तिणिएण पगदीओ अपज्जत्त-संजुत्ताओ एकदो बंधवोच्छेदो । एत्तो सेसाणं पयडीणं एकदो बंधवोच्छेदो होहिदि-त्ति उक्कस्सए द्विदिवंधे । एवमपज्जत्तबंधवोच्छेदा भवति । एवं सव्वअपज्जत्ताणं ।

११८. उक्कस्सपरत्थाणसणिएणयासे पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघेण आभिणिवोधि० उक्कस्सद्विदिवंधंतो चदुणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोल-सक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वणण०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अधिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० । तं तु० उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा । उक्कस्सादो अणुक्कस्सा समयणमार्दिं कादूण याव पत्तिदोवमस्स असंखेज्जदिभागूणं बंधदि । णिरयायु० सिया बंधदि सिया अबंधदि । यदि बंधदि णियमा उक्कस्सा । आवाधा पुण भयणिज्जा । णिरय-तिरिक्खगदि-एइंदिय-पंचिदि०-ओरालि०-वेउव्वि०-दोअंगो०-असंपत्त०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावर-दुस्सर सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेक्कस्स । तं तु० कादव्वा ।

होकर अपर्याप्त संयुक्त सातावेदनीय, हास्य और रति इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे आगे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होनेपर शेष प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होगी । इस प्रकार अपर्याप्त संयुक्त प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तकोंके जानना चाहिए ।

११८. उत्कृष्ट परस्थान सन्निकर्षका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आभिनिबोधिकज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । उसमें भी उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । नरकायुका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । परन्तु आवाधा भङ्गनीय है । नरकगति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पष्टिका संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, व्रस, स्थावर और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । जो उत्कृष्ट भी होता है और अनुत्कृष्ट भी होता है । उसमें भी उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ।

११६. सादावे० उक्क०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-  
दुगुं०-तेजा०-क०-वण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० णियमा वं० । णि०  
अणु० । उक्क० अणु० दुभागूणं वंधदि । इत्थिवे०-मणुसगदि०-मणुसाणु० सिया  
वं० सिया अवं० । यदि वं० णिय० अणु० । उक्क० अणु० तिभागूणं० । पुरिस०-  
हस्स-रदि-देवगदि-समचदु०-वज्जरिस०-देवाणु०-पसत्थ०-थिरादिद्ध०-उच्चा० सिया  
वं० । तं तु० । एवुंस०-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-एइदि०-पंचिदि०-ओरालि०-  
वेउच्चि०-हुंडसं०-दोअंगो०-असंपत्त०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-  
अप्पसत्थ० तस-थावर-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिद्ध०-णीचा० सिया० दुभागू० ।  
तिणियाजादि०-चदुसंठा०-चदुसंघ०-सुहुम-अपज्ज०-साधार० सिया० संखेज्जदि  
भागू० । एवं हस्स-रदीणं ।

१२०. इत्थि० उक्क०ट्टिदि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोल-  
सक०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-

११९. सातावेदनोयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-  
वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क,  
अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है ।  
किन्तु वह नियमसे अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । जो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा  
अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । स्त्रीवेद, मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानु-  
पूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक  
होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है जो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट  
तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, समचतुरस्र  
संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह  
और उच्चगोत्र इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता  
है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका  
भी बन्धक होता है । उसमें भी उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका  
असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । नपुंसक वेद, अरति, शोक, तिर्य-  
ञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, हुण्डसंस्थान,  
दो आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास,  
आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि  
छह और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है ।  
यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तीन  
जाति, चार संस्थान, चार संहनन, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनका कदाचित् बन्धक  
होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट  
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार हास्य और रतिके उत्कृष्ट  
स्थितिबन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१२०. स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्श-  
नावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय  
जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क.



वण्ण०४-अणु०४-अप्पसत्थ० तस०४-अथिरादिद्ध०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णिय०  
वं० । णि० अणु० । उक्क० अणु० चदुभागू० । तिरिक्खवग०-हुंडसं०-असंपत्त०-  
तिरिक्खाणु०-उज्जो० सिया० । यदि० चदुभागू० । मणुसग०-मणुसाणु० सिया० ।  
तं तु० । खुज्ज०-वामणसंठा०-अद्दणारा०-खीलियसं० सिया० संखेज्जदिभागू० ।

१२१. पुरिस० उक्क०द्विदि०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-  
भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अणु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० णि० वं० ।  
णि० अणु० द्दुभागू० । सादावे०-हस्स-रदि०-देवगदि०-समचदु०-वज्जरि०-देवाणु०-  
पसत्थ०-थिरादिद्ध०-उच्चा० सिया० । तं तु० । असादा०-अरदि०-सोग-तिरिक्खवग०-  
ओरालि०-वेउठ्वि-हुंड०-दोअंगो०-असंपत्त०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-  
अथिरादिद्ध०-णीचा० सिया० द्दुभागू० । मणुसग० मणुसाणु० सिया० तिभागूणं

अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीच गोत्र और पांच अन्तराय इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। जो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, अर्धनाराच संहनन और कीलक संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है।

१२१. पुरुष वेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीय, हास्य, रति, देवगति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। असातावेदनीय, अरति, शोक, तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, हुण्ड संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्या-

बं० । चदुसंठा०-चदुसंघ० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं पुरिसवेदभंगो समचदु०-  
पसत्थ०-सुभग०-सुस्सर-आदेज्ज ति ।

१२२. णिरयायु० उक्क०ट्टिदि०बं० पंचणा०-णवदंसणा-असादावे०-मिच्छत्त-  
सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुंगुं०-णिरयग०-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-  
हुंडसं०-वेउव्वि०-अंगो०-वणण०४-णिरयाणु०-अगु०४-अप्पसत्थवि०--तस०४-अथि-  
रादिद्ध०-णिमि०-णीचागो०-पंचंत० णि० । तं तु० उक्क० अणु० तिट्ठाणपदिदं  
बंधदि । असंखेज्जभागहीणं वा संखेज्जदिभागहीणं वा संखेज्जदिगुणहीणं वा ।

१२३. तिरिक्खायु० उक्क०ट्टिदि०बं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०--ओरालि०-अंगो०--  
वज्जरिसभ०--वणण०४-तिरिक्खाणु०--अगु०४-पसत्थवि०--तस०४-सुभग०-सुस्सर--  
आदे०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० । णि० अणु० संखेज्जदिगुणहीणं बं० ।  
सादासा०-इत्थिवे०-पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-उज्जो-थिराथिर--सुभासुभ--जस०--

नुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । चार संस्थान और चार संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेय इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१२२. नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीच गोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो तीन स्थान पतित स्थितिका बन्धक होता है । या तो असंख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है, या संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है या संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है ।

१२३. तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात

अजस० सिया० संखेज्जदिगुणहीणं० । मणुसायु० तिरिक्खायुभंगो । एवरि  
णीचागो० वज्ज० । उच्चा०' णि० वं० संखेज्जदिगुणहीणं ।

१२४. देवायु० उक्क०द्विदिवं० पंचणा० छदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिसवे०-  
हस्स-रदि-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि० तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-  
वणण०४ देवाणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४ थिरादिछ०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत०-  
णि० वं० संखेज्जगुणहीणं० । तित्थय० सिया वं० संखेज्जगुणही० ।

१२५. णिरयगदि० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-  
सालसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-हुंडसंठा०-  
वेउव्वि०अंगो०-वणण०४-णिरयाणु०-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४ अथिरादिछ०-  
णिमि०-णीचा०-पंचंत० णिय० । तं तु० । णिरयायु० सिया वं० सिया अवं० ।  
यदि वं० णि० उक्क० । आवाधा पुण भयणज्जा । एवं णिरयगदिभंगो वेउव्वि०-  
वेउव्वि०अंगो०-णिरयाणु० ।

गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यायुका भङ्ग तिर्यञ्चायुके समान है । इतनी  
विशेषता है कि नीचगोत्रका छोड़कर जानना चाहिए । उच्च गोत्रका नियमसे बन्धक  
होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक होता है ।

१२४. देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, छह दर्श-  
नावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति,  
पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान,  
वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति,  
त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे  
बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है ।  
तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक  
होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है ।

१२५. नरकगतिका उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ  
दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय,  
जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, शरीर, तेजसशरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान,  
वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति,  
त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे  
बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक  
होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट  
एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ।  
नरकायुका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता  
है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । परन्तु आवाधा भजनीय है । इसी प्रकार  
नरकगतिके समान वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वीकी प्रमुखता-  
से सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१२६. तिरिक्खगदि० उक्क०ट्टिदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचागो००-पंचंत०णिय० वं० । तं तु० । एइंदि०-पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावर-दुस्सर० सिया० । तंतु० । एवं ओरालि०-[ओरालि०अंगो०]-तिरिक्खाणु० उज्जो० ।

१२७. मणुसगदि० उक्क०ट्टिदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिंदि०[ओरालि०]-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण०४-अगु०-उप०-तस-वादर-पत्ते०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंतरा०णिय० वं० चदुभागू० । इत्थिवे० सिया० । तंतु० । एवुंस०-हुंडसं०-असंपत्त०-पर०-उस्सा०-

१२६. तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, आसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियोंकी प्रमुखतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१२७. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, आसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रीवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। नपुंसक वेद, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है।

अप्पसत्थ०-पज्जत्त०-दुस्सर० सिया० चटुभागू० । दोसंठा०-दोसंघ०-अपज्जत्त०  
सिया० संखेज्जगु० । मणुसाणु० णिय० वं० । णि० तं तु० । एवं मणुसाणु० ।

१२८. देवगदि० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-  
दुंगुं०-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-वेउव्वि०-अंगो०-वणण०४-अगु०४-तस०४-  
णिमि०-पंचंत० णि० वं० दुभागू० । सादावे०-पुरिस०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस०-  
सिया० । तं तु० । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० सिया० दुभागूणं  
वं० । इत्थिवे० सिया० तिभागू० । समचदु०-देवाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-  
उच्चा० णिय० वं० । तं तु० । एवं देवाणु० ।

१२९. एइंदि० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-  
सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-ओरालिय०-तेजा०-क०-

दो संस्थान, दो संहनन और अपर्याप्त इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अब-  
न्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणा हीन स्थितिका  
बन्धक होता है । मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी  
बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका  
बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका  
असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी  
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१२८. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्श-  
नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस  
शरीर, कर्मण शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क,  
निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग  
न्यून स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, स्थिर, शुभ और  
यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक  
होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता  
है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक  
समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है ।  
असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक  
होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो  
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । स्त्री वेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्  
अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका  
बन्धक होता है । समचतुरस्र संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर,  
आदेय और उच्चगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता  
है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो  
उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट नियमसे एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग  
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष  
जानना चाहिए ।

१२९. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ  
दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगु-

हुंड०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-वादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अथिरादिपंच-  
णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । आदाउज्जो० सिया० । तं तु० । एव-  
मादाव-थावर० ।

१३०. बीइंदि० उक्त्तुदिदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-साल-  
सक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-ओरालिय०-तेजा०-क०-हुंड०-  
ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-तस-वादर-पत्तेय०-  
अथि रादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० संखेज्जदिभागू० । पर०-उस्सा०-उज्जो०-  
अप्पसत्थ०-वज्ज०-दुस्सर० सिया० संखेज्जदिभागू० । अपज्जत्त० सिया० । तं  
तु० । एवं बीइंदि० तीइंदि०-चदुरिंदि० ।

प्सा, तिर्यञ्जगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क,  
तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच.  
निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका  
भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका  
बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका  
असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। आतप और उद्योतका कदाचित्  
बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थिति-  
का भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका  
बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका  
असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार आतप और स्थावर  
प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१३०. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ  
दर्शनावरण, असाता वेदनोय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय,  
जुगुप्सा, तिर्यञ्जगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदा-  
रिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु,  
उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय  
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट सख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक  
होता है। परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, वज्रर्षभ नाराच संहनन और  
दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक  
होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। अपर्याप्त  
प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक  
होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता  
है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट  
एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है।  
इसी प्रकार द्वीन्द्रिय जातिके समान त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे  
सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१३१. पंचिन्द्रियस्स उक्कं द्विद्विं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । णिरयाणु० णाणावरणभंगो । णिरयगदि-तिरिक्खगदि-ओरालि०-वेउव्वि०-दोअंगो०-असंपत्त०-दोआणु०-उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं पंचिन्द्रियभंगो अप्पसत्थ०-तस-दुस्सर० ।

१३२. आहारसरी० उक्कं द्विद्विं० पंचणा०-द्वदंसणा०-सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०-अंगो०-वण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्ध०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संवेज्जगुणही० । आहार०-अंगो० णि० वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० संवेज्जगुणहीणां० । एवं आहार०-अंगो० ।

१३१. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । नरक गत्यानुपूर्विका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । नरकगति, तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, असम्प्रातास्पष्टिका संहनन, दो आनुपूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुःस्वर प्रकृतियोंकी प्रमुखतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१३२. आहारक शरीरकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुष वेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुण हीन स्थितिका बन्धक होता है । आहारक शरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार आहारक आङ्गोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१३३. एग्गोद० उक्क०ट्टिदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-  
सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-  
वएण०४-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि०  
वं० संखेज्जदिभाग० । इत्थि०-एवुंस०-तिरिक्खग०-मणुसग०-चदुसंध०-दोआणु०-  
उज्जो० सिया० संखेज्जदिभाग० । वज्जणारा० सिया० । तं तु० । एवं वज्जणा-  
रायण० । सादिय० एवं चेव । एवरि एणाराय० सिया० । तं तु० । [ एवं एणारायणं । ]

१३४. खुज्ज० उक्क०ट्टिदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोल-  
सक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-  
ओरालि०अंगो०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध०-  
णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० संखेज्जदिभागूणं० । दोसंध०-उज्जोव०

१३३. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच  
ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, अरति, शोक, भय,  
जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गो-  
पाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह,  
निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनु-  
त्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। स्त्री वेद, नपुंसक वेद, तिर्यञ्जगति,  
मनुष्यगति, चार संहनन, दो आनुपूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और  
कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग  
न्यून स्थितिका बन्धक होता है। वज्र नाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदा-  
चित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और  
अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियम-  
से उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक  
स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वज्रनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना  
चाहिए। स्वाति संस्थानकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी  
विशेषता है कि यह नाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक  
होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थिति  
का भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी  
अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका  
बन्धक होता है। इसी प्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१३४. कुब्जक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण,  
नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक,  
भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्जगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर,  
औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायो-  
गति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियम-  
से बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है।  
दो संहनन और उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि  
बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है।



सिया० संवेज्जदिभाग० । अद्दणारा० सिया० । तं तु० । एवं अद्दणारा० ।  
वामणसंठा० तं चेत्र । एवरि खीलिय० सिया० । तं तु० । असंपत्त०-उज्जो०  
सिया० संवेज्जदिभाग० । एवं खीलिय० ।

१३५. ओरालि० अंगो० उक्क० द्विदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-  
मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि--सोग--भय--दुगुं०--तिरिक्खगदि--पंचिदियजादि--  
ओरालिय०-तेजा०-क०-हुंड०-असंपत्त०-वणण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-अप्पसत्थ०-  
तस०४-अधिरादि०-एभि०-एणीचागो०-पंचंत० एणिय० वं० । तं तु० । उज्जो०  
सिया० । तं तु० । एवं असंपत्त० ।

१३६. वज्जरि० उक्क० द्विदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-

अर्धनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अर्धनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । वामन मंस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि यह कीलक संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन और उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार कीलक संहननकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१३५. औदारिक आङ्गोपाङ्गकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञाना-  
वरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक  
भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर,  
हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतु-  
ष्क, अप्रशस्त विहायोगति, वस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच  
अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और  
अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे  
उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक  
स्थितिका बन्धक होता है । उद्योत प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक  
होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट  
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी  
अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका  
बन्धक होता है । इसी प्रकार असम्प्राप्तासृपाटिका संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना  
चाहिए ।

१३६. वज्रर्षभ नाराच संहननकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञाना-

भय-दुगुं०-पंचिदि०-[ओरालि]०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-वण००४-अगु०४-तस०  
४-णिमि०-पंचंत० णि० वं० दुभागू० । सादा०-पुरिस०-हस्स-रदि-समचदु०-पसत्थ०-  
थिरादिद्व०-उच्चा० सिया० । तं तु० । असादा०-णवुंसं०-अरदि-सोग-तिरिक्खग०-  
हुंडसं०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-अथिरादिद्व०-णीचागो० सिया०-दुभागू० ।  
इत्थि०-मणुसग०-मणुसाणु०-सिया०-तिभागू० । चदुसंठा० सिया संखेज्जदिभागू०-बंधदि ।

१३७. सुहुम० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोल-  
सक०-णवुंसग०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइंदिय०--ओरालि०--तेजा०--  
क०-ओरालि०-हुंडसं०-वण००४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-उप०-थावर-अथिरादिपंच-  
णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । पर०-उस्सा०-पज्जत्त-पत्तेग०  
सिया० संखेज्जदिभागू० । अपज्जत्त-साधारण० सिया० । तंतु० । एवं साधारण० ।

वरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतुरम्ब संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । असाता वेदनीय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, तिर्यञ्चगति, हुण्ड संस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । स्त्रीवेद, मनुष्य गति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । चार संस्थानका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।

१३८. मूत्रमकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-  
वरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,  
तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गो-  
पाङ्ग, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, उपघात, स्थावर,  
अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है  
जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । परघात, उच्छ्वास,  
पर्याप्त और प्रत्येक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है ।  
यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता  
है । अपर्याप्त और साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता  
है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका  
भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा  
अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक  
होता है । इसी प्रकार साधारण प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१३८. अपञ्जत्त० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-  
सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग--भय--दुगुं०--तिरिक्खग०--ओरालि०--तेजा०--क०--  
हुंडसं०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०--अथिरादिपंच-णिमि०--णीचा०--पंचंत०  
णिय० वं० संखेज्जदिभागू० । एइंदि०-पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-तस-  
थावर-वादर-पचेय० सिया० संखेज्जदिभागू० । तिणिएजादि-मुहुम-साधारणं  
सिया० । तं तु० ।

१३९. थिर० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-  
दुगुं०-तेजा०-क०-वएण०४-अगु०४-पञ्जत्त-णिमि०-पंचंत० णि० वं० दुभागू० ।  
सादा०-पुरिस०-हस्स-रदि-देवगदि-समचदु०-वज्जरिस०-देवाणु०-पसत्थ०-सुभादि-  
पंच०-उच्चा० सिया० । तं तु० । असाद०-एवुंस-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-एइंदि०-  
पंचिदि०-ओरालिय०-वेउव्विय०--हुंडसं०-दोअंगो०-असंपत्त०--तिरिक्खाणु०-आदा-

१३८. अपर्याप्त प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्च गति, औदारिकशरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीच गोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थिति का बन्धक होता है । एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृ-पाटिका संहनन, वस, स्थावर, वादर और प्रत्येक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तीन जाति, मूक्ष्म और साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है, यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्टस्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है ।

१३९. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, पर्याप्त, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, शुभ आदि पाँच और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । असाता वेदनीय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, हुण्ड संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायो-

उज्जो०--अप्पसत्थ०--तस--थावर--वादर--पत्तेय०--असुभादिपंच--णीचा० सिया०  
दुभागू० । इत्थि०-मणुसगदि-मणुसाणु० सिया० तिभागू० । तिणियाजादि-चदुसंठा०-  
चदुसंघ०-सुहुम-साधार० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं सुभ-जस० । एवरि'  
अजस०-सुहुम-साधारणं वज्ज ।

१४०. तित्थय० उक्क०ट्टिदिवं० पंचणा०-द्वंदंसाणा०-असादा०-वारसक०-  
पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०--वेउत्वि०--तेजा०--क०--समचदु०--  
वेउत्वि०-अंगो०-वण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०--तस०४--अथिर--असुभ--सुभग--  
सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० संखेज्जगुणही० ।  
उच्चा० पुरिसवेदभंगो । एवरि तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जोवं वज्ज ।

१४१. आदेसेण एरइएसु आभिणिबोधियणाणा० उक्क०ट्टिदिवं० चदुणा०-  
एवदंसाणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरि-  
क्खगदि--पंचिदि०--ओरालि०--तेजा०--क०--हुंड०--ओरालि०-अंगो०--असंपत्त०---

गति, त्रस स्थावर, वादर, पर्याप्त, अशुभ आदि पाँच और नीचगोत्र इनका कदाचित्  
बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनु-  
त्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । स्त्रीवेद, मनुष्यगति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी  
इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो  
नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तीन जाति, चार संस्थान,  
चार संहनन, सूक्ष्म और साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक  
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका  
बन्धक होता है । इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।  
इतनी विशेषता है कि अयशःकीर्ति, सूक्ष्म और साधारण इन प्रकृतियोंको छोड़ कर यह  
सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

१४०. तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह  
दर्शनावरण, असाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुष वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देव-  
गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान,  
वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति,  
त्रस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और  
पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन  
स्थितिका बन्धक होता है । उच्चगोत्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान है । इतनी विशेषता है कि  
इसके तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत इन तीन प्रकृतियोंको छोड़कर सन्निकर्ष  
कहना चाहिए ।

१४१. आदेशसे नारकियोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध  
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय,  
नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर,  
तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्रानासृपाटिका संह-

१. मूलप्रती एवरि जस० इति पाठः ।

वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध०-णिमि०-णीचा०-  
पंचंत० णि० वं० । तं तु० । उज्जो० । सिया० । तं तु० । एवभेदाओ एकक-  
मेक्कस्स । तं तु० ।

१४२. सादा० उक्क०द्विदिबंधं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-  
दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-वण०४-अगु०४-तस०४-  
णिमि०-पंचंत०-णि० वं० णि० दुभागू० । इत्थि०-मणुसगदि०-मणुमाणु० सिया०  
वं० तिभागू० । एवुंस०-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-हुंड०-असंपत्त०-तिरिक्खाणु०-  
उज्जो०-अप्पसत्थ०-अथिरादिद्ध०-णीचा० सिया० दुभागू० । पुरिस०-हस्स-रदि-  
समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-थिरादिद्ध०-उच्चा० सिया० । तं तु० । चदुसंठा०-चदु-

नन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, प्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। और ऐसी अवस्थामें यह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है।

१४२. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जाँव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रस चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है स्त्रीवेद, मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। नपुंसकवेद, अरति, शोक, तिर्यञ्च गति, हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभ नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। चार संस्थान और चार संहननका कदाचित् बन्धक

संघ० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं सादभंगो पुरिस०-हस्स-रदि-समचदु०-  
वज्जरि०-पसत्थ०-थिरादि० ।

१४३. इत्थि० उक्क०ट्टिदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादावे०-मिच्छ०-  
सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-  
वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादि०-णिमि०-णीचा०-  
पंचंत० णि० वं० चदुभागू० । तिरिक्खगदि-हुंड०-असंपत्त०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०  
सिया० चदुभागू० । मणुसग०-मणुसाणु० सिया० । तं तु० । दोसंठा०-दोसंघ०-  
सियो० संखेज्जदिभागू० ।

१४४. तिरिक्खायु० उक्क०ट्टिदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-पंचिदियजादि-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-  
वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्ज-  
गुण्णी० । सादावे०-असादावे०-सत्तणोक०-उस्संठा०-उज्जो०-दोविहा०-

होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार साता प्रकृतिके समान पुरुष वेद, हास्य, रति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्पभनारात्र संहनन, प्रशस्त विहायोगति और स्थिर आदि छहकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१४३. स्त्री वेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्श-  
नावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, अरति, शोक, भय जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय  
जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क,  
तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि  
छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे  
अनुत्कृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्जगति, हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्ता-  
सृपाटिका संहनन, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और  
कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट चार भाग न्यून  
स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता  
है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक  
होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता  
है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां  
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । दो संस्थान और दो संहननका कदाचित् बन्धक  
होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट  
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।

१४४. तिर्यञ्जायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्श-  
नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्जगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक  
शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी,  
अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक  
होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय,  
असाता वेदनीय, सात नोकपाय, छह संस्थान, छह संहनन, उद्योत, दो विहायोगति और स्थिर

थिरादिद्व० सिया० संखेज्जगुणही० ।

१४५. मणुसायु० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-द्वदंसणा०-वारसक०-भय-दुगुं०-  
मणुसगदि-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-वणण०४-मणुसाणु०-  
अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगुणही० । थीणगिद्धितिग-सादा-  
साद०-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-सत्तणोक०-द्वस्संटा०-द्वस्संघ०-दोविहा०-थिरादि-  
द्वयुग०-तित्थय०-णीचुच्चा० सिया० संखेज्जगुणही० ।

१४६. मणुसगदि० उक्क०द्विदिवं० ओघं । एवरि अपज्जत्तं वज्ज । चदुसंटा०-  
चदुसंघ०-तित्थय० ओघं । एवरि तित्थयरं मणुसगदिसंजुत्तं संखेज्जगुणहीणं  
कादव्वं ।

१४७. एवं सत्तसु पुढवीसु । एवरि सत्तमाप मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा०  
तित्थयरभंगो । मादादिपसन्थाओ इत्थिवे०-पुरिस०-द्वस्स-रदि-दोणिसंटा-दोणिस-  
संघडण० णिय० तिरिक्खगदिसंजुत्ताओ सणियासे साधेदव्वाओ भवंति ।

१४८. तिरिक्खेमु आभिणिवंधि० उक्क०द्विदिवं० चदुणाणा०-एवदंस०-  
असाद०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-णिरयगदि-पंचिदि०-

आदि छह इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक  
होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है ।

१४९. मनुष्यायुक्ती उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, छह  
दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर,  
तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु  
चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियम  
से अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । स्त्यानगृद्धि तीन, साता वेदनीय,  
असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, सात नोकपाय, छह संस्थान, छह संहनन,  
दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल, तीर्थङ्कर, नीचगोत्र और उच्चगोत्र इनका कदाचित्  
बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनु-  
त्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है ।

१४६. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष ओघके  
समान है । इतनी विशेषता है कि अपर्याप्त प्रकृतिको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।  
चार संस्थान, चार संहनन और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है ।  
इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति संयुक्त तीर्थङ्कर प्रकृतिको संख्यातगुणा होन  
करना चाहिए ।

१४७. इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं  
पृथिवीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग तीर्थङ्कर प्रकृतिके समान है ।  
तथा साता आदि प्रशस्त प्रकृतियाँ, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, दो संस्थान और दो  
संहनन इन प्रकृतियोंको सन्निकर्षमें नियमसे तिर्यञ्जगति संयुक्त ही साधना चाहिए ।

१४८. तिर्यञ्जोमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला  
जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक  
वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर,

वेउन्विय-तेजा०-क०-हुंड०-वेउन्वि०-अंगो०--वराण०४-णिरयाणु०-अगु०-अप्पसत्थ०-  
तस०४-अथिरादि०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णिय० वं० । तं तु० । णिरयायु०  
सिया० । यदि० णि० उक्कस्सा । आवाधा पुण भयणिज्जा । एवमेदाओ  
एकमेक्कस्स । तं तु० ।

१४६. सादावे० उक्क०ट्टिदिवं० ओघं । एवरि तिरिक्खगदि--चदुजादि--  
ओरालि०-चदुसंठा०-ओरालि०अंगो०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०--थावर--  
मुहुम-अपज्जत्त-साधार० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं हम्म-रदीणं ।

१५०. इत्थिवे० उक्क०ट्टिदिवं० ओघं । एवरि तिरिक्खगदि-दोसंठा०-तिण्ण-  
संघ०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० सिया० संखेज्जदिभागू० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०  
णि० वं० संखेज्जदिभागू० ।

१५१. पुरिस० उक्क०ट्टिदिवं० ओघं । एवरि तिरिक्खग०-ओरालि०-चदु-

कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, नरक गत्यानुपूर्वी, अगुरु-  
लघु, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच  
अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और  
अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियम-  
से उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक  
स्थितिका बन्धक होता है । नरकायुका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक  
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है ।  
परन्तु आवाधा भजनीय है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना  
चाहिए । किन्तु तब वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी  
बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा  
अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका  
बन्धक होता है ।

१४९. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग ओघके  
समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति, चार जाति, औदारिक शरीर, चार संस्थान,  
औदारिक आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म,  
अपर्याप्त और साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है ।  
यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है ।  
इसी प्रकार हास्य और रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१५०. स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओघके  
समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति, दो संस्थान, तीन संहनन, तिर्यञ्चगत्यानु-  
पूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि  
बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।  
औदारिक शरीर और औदारिक आङ्गोपाङ्ग इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे  
अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।

१५१. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओघके  
समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्च गति, औदारिक शरीर, चार संस्थान, औदारिक



संठा०-ओरालि०-अंगो०-पंचमंत्र०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० सिया० संखेज्जदिभागू० ।  
एवं पुरिसभंगो समचदु०--वज्जगि०--पसत्थ०--सुभग--सुस्सर--आदेज्ज० ।  
आयु० आघं ।

१५२. तिरिक्खग० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-  
सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-ओरालिय०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-  
अगु०४-उप०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० ।  
चदुजादि-वामणसंठा०-ओरालि०-अंगो०-खीलियमंत्र०--असंपत्त०-आदाउज्जो०--  
थावरादि०४ सिया० । तं तु० । पंचिंदिय-पर०-उस्सा०-अप्पसत्थ०-तस०४-दुस्सर०  
सिया० संखेज्जदिभागू० । तिरिक्खाणु० णि० वं० । तं तु० । तिरिक्खगदीए  
सह तं तु० पदिदाणं णामाणं हेहा उवरि तिरिक्खगदिभंगो । णामाणं  
सन्थाणभंगो ।

आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेय इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । आयुकी अपेक्षा सन्निकर्ष श्रेयके समान है ।

१५२. तिर्यञ्जगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असादा वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, नैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरु-लघु चतुष्क, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । चार जाति, वामन संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, कीलक संहनन, असम्प्राप्तास्-पाटिका सहनन, आतप, उद्योत और स्थावर आदि चार इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । यहाँ तिर्यञ्जगतिक साथ 'तं तु०' रूपसे नाम कर्मकी प्रकृतियोंके आगे पीछेकी जितनी प्रकृतियाँ गिनाई गई हैं उनके सन्निकर्षका भङ्ग तिर्यञ्जगति प्रकृतिके सन्निकर्षके समान है । तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष स्वस्थानके समान है ।

१५३. मणुसगदिदुग० उक्क०ट्टिदिवं० ओघं । एवरि ओरालिय०-ओरालिय-  
अंगो० णिय० वं० संखेज्जदिभागू० । खुज्जसं०-वामणसंठा०-तिण्णिसंघ०-अपज्जत्त०  
सिया० संखेज्जदिभागू० ।

१५४. देवगदिदुग० उक्क०ट्टिदिवं० ओघं । एग्गोद०-सादि०-खुज्जसं०-  
वज्जणा०-णाराय०-अद्दणारा० ओघं ।

१५५. थिर० उक्क०ट्टिदिवं० ओघं । एवरि तिरिक्खगदि-चदुजादि-ओरालि०-  
चदुसंठा०-ओरालि०-अंगो०-चदुसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदउज्जो०-थावर-सुहुम-साधा-  
रण० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं सुभ-जस० । एवरि जसगित्तीए सुहुम-साधारणं  
वज्ज । एवमेसभंगो पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-जोण्णीसु ।

१५६. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगेषु आभिणिवोधि० उक्क०ट्टिदिवं० चदुणा०-  
एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरि-  
क्खगदि-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-

१५३. मनुष्यगतिद्विककी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यह औदारिक शरीर और औदारिक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, तीन संहनन और अपर्याप्त इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है ।

१५४. देवगतिद्विककी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष ओघके समान है । न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान, स्वांति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वज्जनाराच संहनन, नाराच संहनन और अर्धनाराच संहननकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष ओघके समान है ।

१५५. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति, चार जाति, औदारिक शरीर, चार संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, चार संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय सूक्ष्म और साधारणको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । इसी प्रकार यह सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके जानना चाहिए ।

१५६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वा, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीच-

थावरादि०४-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णिय० वं० । तं तु० । एवमे-  
दात्रो एकमेकस्स । तं तु० ।

१५७. सादा० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
एवुंस०-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-  
तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावरादि०४-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णिय०  
वं० संखेज्जदिभागू० । हस्स-रदि० सिया० । तं तु० । अरदि-सोग० सिया०  
संज्जदिभागू० । एवं हस्स-रदीणं ।

१५८. इत्थिवे० उक्क०द्विदिवं० पंचणा० एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-  
दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण्ण०-४अगु०४-अप्प-  
सत्थ०-तस०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० संखेज्जदि-  
भागूणं० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-तिण्णसंठा०-

गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक  
होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता  
है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून  
तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सबका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।  
किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता  
है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय  
न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है ।

१५९. साता प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ  
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय  
जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च  
गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीच  
गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ  
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । हास्य और रतिक कदाचित् बन्धक होता है और  
कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता  
है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता  
है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्या-  
तवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । अरति और शोकका कदाचित् बन्धक होता  
है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ  
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार हास्य और रतिको मुख्यतासे सन्निकर्ष  
जानना चाहिए ।

१५८. स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ  
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर,  
तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त  
विहायोगति, त्रस चतुष्क, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय  
इनका नियमसे बन्धक हाता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका बन्धक  
होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, तिर्यञ्चगति, मनुष्य

तिणिणसंघ०-दोआणु०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० संखेज्जदिभागू० ।  
उज्जो० सिया० संखेज्जदिभागू० ।

१५६. पुरिस० उक्क०ट्टिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-  
दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०--वण०४-अगु०४--तस०४-  
णिमि०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-  
तिरिक्खगदि-मणुसगदि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोआणु०--उज्जो०--थिराथिर--सुभासुभ--  
दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-जस०-अजस०-णीचा० सिया० संखेज्जदिभागू० । समच-  
दुर०-वज्जरि०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० सिया० । तं तु० । एवं पुरिस-  
वेदभंगो समचदु०--वज्जरिस०--पसत्थ०--सुभग--सुस्सर--आदे०--उच्चा० । एवरि  
उच्चागो०-तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० वज्ज ।

१६०. तिरिक्ख-मणुसायु० णिरयभंगो । एवरि संखेज्जदिभागूणं वं० ।

गति, तीन संस्थान, तीन संहनन, दो आनुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति  
और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि  
बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।  
उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है  
तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।

१५६. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ  
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस  
शरीर, कामण शरीर, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस चतुष्क,  
निर्माण और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां  
भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति,  
शोक, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, पांच संस्थान, पांच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर,  
शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और नीचगोत्र इनका कदाचित्  
बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट  
संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच  
संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक  
होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी  
बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक  
होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां  
भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुरस्र  
संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र  
की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रकी अपेक्षा सन्निकर्ष  
कहते समय तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत इनको छोड़कर सन्निकर्ष  
कहना चाहिए ।

१६०. तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष नरकके समान है । इतनी  
विशेषता है कि यहां संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है ।

१६१. मणुसगदि० उक्क०द्विदिबं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
एवुंस०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०--क०-हुंड०--ओरालि०अंगो०--असं-  
पत्त०-वण०४-अगु०-उप०-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-  
पंचंत० णिय० बं० संखेज्जदिभागू० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया०  
संखेज्जदिभागू० । मणुसाणु० णि० बं० । तं तु० । एवं मणुसाणु० ।

१६२. बीईदि० उक्क०द्विदिबं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
एवुंस०--भय-दुगुं०--तिरिक्खग०-ओरालि०--तेजा०-क०-हुंड०--वण०४--तिरि-  
क्खाणु०-अगु०-उप०-बादर-अपज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच--णिमि०--णीचा०--पंचंतरा०  
णि० बं० संखेज्जदिभागू० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० संखेज्जदि-  
भागू० । ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-तस० णि० बं० । तं तु० । एवं ओरालि०-  
अंगो०-असंपत्त०-तस० च्ति ।

१६१. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्य-गत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१६२. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन और त्रस इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्या-तवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्रा-प्तासृपाटिका संहनन और त्रस इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१६३. तीईदि०-चदुरिं०-पंचिदि० उक्क०ट्टिदिवं० तं चैव । एवरि ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-तस० णि० वं० संखेज्जदिभागू० ।

१६४. णग्गोद० उक्क०ट्टिदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वएण०४-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णिमि०-णीचा०-पंचतरा० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । सादासादा०-इत्थि०-एवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-चदुसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० संखेज्जदिभागू० । वज्जणारा० सिया० । तं तु० । एवं वज्जणारा० । सादिय० एवं० चैव । एवरि णारायणं सिया० । तं तु० । एवं णारायणं ।

१६५. खुज्ज० उक्क०ट्टिदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वएण०४-

१६३. त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति और पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पष्टिका संहनन और त्रस इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है ।

१६४. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, चार संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । वज्रनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्या तवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । स्वाति संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि यह नाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१६५. कुब्जक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु

अगु०४-अप्सत्थ०-तस०४-दृभग-दुस्सर-अणादे०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं०  
संखेज्जदिभागूणं० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-  
दोसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभामुभ-जस०-अजस० सिया० संखेज्जदि-  
भागू० । अद्धणारायणं सिया० । तं तु० । एवं अद्धणारायणं । वामणसंठाणं पि  
एवं चैव । एवरि खीलिय० सिया० । तं तु० । एवं खीलिय० ।

१६६. पर० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-  
भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वणण०४-तिरिक्खाणु०-  
अगु०-उप०-थावर-सुहुम-साधारण-दृभग-अणादे०-अज०-णिमि०-णीचा०-पंचंत०  
णि० वं० संखेज्जदिभागू० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-अथिर-असुभ०  
सिया० संखेज्जदिभागू० । पज्जत्त-उस्सा० णि० वं० । तं तु० । थिर०-सुह सिया० ।

चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र  
और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग  
न्यून स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति,  
शोक, निर्यञ्जगति, मनुष्यगति, दो संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ,  
अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्  
अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन  
स्थितिका बन्धक होता है। अर्थनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्  
अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और  
अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियम  
से उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक  
स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार अर्थनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना  
चाहिए। वामन संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी  
विशेषता है कि यह कीलक संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक  
होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका  
भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा  
अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक  
होता है। इसी प्रकार कीलक संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१६६. परघात प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नां  
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्जगति, एकैन्द्रिय  
जाति, औदारिक शरीर, नैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्ज  
गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति,  
निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट  
संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य,  
रति, अरति, शोक, अस्थिर और अशुभ इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्  
अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थिति  
का बन्धक होता है। पर्याप्त और उच्छ्वास प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट  
स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट

तं तु० । एवं उस्सास-पज्जत्त-थिर-सुभ० ।

१६७. आदाव० उक्क०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
एवुंस०-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-तिरि-  
क्खाणु०-अगु०४-तस०४-दूभग०-अणादे०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखे-  
ज्जदिभागू० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभामुभ-अजस० सिया०  
संगेज्जदिभागू० । जस० सिया० । तं तु० । एवं उज्जोव-जस० ।

१६८. अप्पसत्थ० उ०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
एवुंस०-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-वेइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-ओरालि०अं-  
गा०-असंपत्त०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-तस०४-दूभ०-अणादे०-णिमि०-णी-

स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर और शुभ प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर और शुभ प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१६७. आतप प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अगति, शोक, स्थिर, अस्थिर शुभ, अशुभ, और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार उद्योत और यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१६८. अप्रशस्त विहायोगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, द्वीन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असंप्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, असाता



चा०-पंचंत० संखेज्जदिभागू० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-उज्जो०-थिराथिर-  
मुभासुभ-जस०-अजस० मिया० संखेज्जदिभागू० । दुम्सर० णिय० वं० । तं तु० ।  
एवं दुम्सर० ।

१६६. वादर० उ०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-  
भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एईदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-ओरालि०अंगो०-  
वणण०४-तिरिक्खवाणु०-अगु०-उप०-थावर-अपज्जत्त-साधार०-अथिरादिपंच-णिमि०-  
णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग०  
सिया० संखेज्जदिभागू० ।

१७०. पत्तेय० उ०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-  
भय-दु०-तिरिक्खग०-एईदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-ओरलि०अंगो०-तिरि-  
क्खवाणु०-वणण०४-अगु०-उप०-थावर-मुहुम-अपज्जत्त-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-  
पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया०  
संखेज्जदिभागू० ।

वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशः  
कीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है । यदि  
बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता  
है । दुःस्वर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता  
है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका  
भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टको अपेक्षा  
अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक  
होता है । इसी प्रकार दुःस्वर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१६९. वादर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ  
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय  
जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण  
चतुष्क, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, स्थावर, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर आदि  
पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट  
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असातावेदनीय, हास्य,  
रति, अरति और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है ।  
यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक  
होता है ।

१७०. प्रत्येक प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ  
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति,  
औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानु  
पूर्वी, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण,  
नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्या-  
तवां भाग होन स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति  
और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है । यदि बन्धक  
होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।

१७१. उच्चा० उ०ट्टि०वं० ध्रुवपगदीणां णियमा संखेज्जदिभागू० । सेसाओ परियत्तमाणियाओ तिरिक्खगदिसंजुत्ताओ वज्ज सिया संखेज्जदिभागूणं० ।

१७२. मणुस०३ पंचिंदियतिरिक्खभंगो । एवरि आहारदुगं तित्थयरं ओघं । मणुसअपज्जत्त० पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

१७३. देवेषु आभिणिवोधि० उक्क०ट्टिदिवं० चदुणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा० पंचंत० णि० वं० । तं तु० । एइंदि०-पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावर-दुस्सर० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमे-क्कस्स । तं तु० ।

१७१. उच्च गोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव ध्रुव प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । शेष जितनी परावर्तमान प्रकृतियां हैं उनमेंसे तिर्यञ्जगति संयुक्त प्रकृतियोंको छोड़कर बाकी की प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है ।

१७२. मनुष्यात्रिकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जोंके समान है । इतनी विशेषता है कि आहारक द्विक और तीर्थकर इन तीन प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । तथा मनुष्य अपर्याप्तकोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज अपर्याप्तकोंके समान है ।

१७३. देवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्जगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नोचागोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, व्रस, स्थावर और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु ऐसी अवस्थामें वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ।

१७४. सादावे० उ०द्वि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-  
दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वणण०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-पंचंत०  
णि० वं० दुभागू० । इत्थि०-मणुसग०-मणुसाणु० सिया० तिभागू० । पुरिस०-हस्स-  
रदि-समचदु०-वज्जरि०-पसन्थ०-थिरादिद्व०-उच्चा० सिया० । तं तु० । एवुंस०-  
अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-एइंदि०-पंचिंदि०-हुंड०-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-उज्जो०-  
अप्पसन्थ०-तस-थावर-आथिरादिद्व०-णीचा० सिया० दुभागू० । चदुसंठा०-चदु-  
संध० सिया० संवेज्जदिभागू० । एवं हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसगिति० ।

१७५. इत्थि० उ०द्वि०वं० ओघं । पुरिस० उक्क०द्विदि०वं० ओघं । एवरि  
देवगदिसंजुत्तं वज्ज । एवं पुरिसवेदभंगो समचदु०-वज्जरिस०-पसन्थ०-सुभग-सुस्सर-  
आदेज्ज०-उच्चा० । एवरि उच्चा० तिरिक्खगदितिगं वज्ज ।

१७४. सातावेदनोयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह, कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । स्त्रीवेद, मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । नपुंसकवेद, अरति, शोक, तिर्यञ्चगति, एकेंद्रिय जाति, पञ्चेंद्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, अस्मप्रमातासृपाटिका संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । चार संस्थान और चार संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थिति का बन्धक होता है । इसी प्रकार हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१७५. स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओघके समान है । तथा पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां देवगति संयुक्तको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय तिर्यञ्चगतित्रिकको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

१७६. दो आयु० णिरयभंगो । मणुसग०-मणुसाणु०-चदुसंठा०-चदुसंघ० णिरयभंगो । एइंदियस्स उ०ट्टि०वं० हेट्ठा उवरिं णाणावरणभंगो । णामाणं सत्थाणभंगो । एवं आदाव-थावर० । पंचिदि० उ०ट्टि०वं० हेट्ठा उवरि णाणावरणभंगो । णामाणं सत्थाणभंगो । एवं आरालि०अंगो०-असंपत्त०-अप्पसत्थवि०-तस-दुस्सर० । तिथय० उक्क०ट्टिदिवं० णि० भंगो ।

१७७. भवण०-वाणवेत०-जोदिसिय०-सोधम्मीसाणदेवेषु आभिणिवोधि० उक्क०ट्टिदिवं० चदुणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-एइंदि०-आरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-तिरि-क्खाणु०-अगु०४-थावर-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । आदाउज्जो० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेक्कस्स । तं तु० ।

१७६. दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, चार संस्थान और चार संहननका भङ्ग नारकियोंके समान है । एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके आगे पीछेकी प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है तथा नाम कर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार आतप और स्थावर प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके आगे पीछेकी प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुःस्वर इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

१७७. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म-पेशान कल्पवासी देवोंमें आभि-निबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, नैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्टस्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । आतप और उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ।

१७८. सादावे० उक्क०द्विदिवं० देवोयं । एवरि पंचिदि०-चदुमंटा०-ओरालि०-अंगो०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-तस-दुस्सर० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसगि० ।

१७९. इत्थि० उक्क०द्विदिवं० देवोयं । एवरि पंचिदि०-ओरालि०-अंगो०-अप्प-सत्थ०-तस-दुस्सर० एिय० वं० संखेज्जदिभागू० । दोसंटा०-तिणिएसंघ० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं मणुसग०-मणुसाणु० ।

१८०. पुरिस० उक्क०द्विदि०वं० देवोयं । एवरि पंचिदि०-ओरालि०-अंगो०-तस० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । चदुसंटा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं पुरिसवेदभंगो समचदु०-वज्जरिसभ०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० । एवरि उच्चागोदे तिरिक्खगदिदिगं वज्ज ।

१८१. पंचिदि० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वएण०४-तिरि-

१७८. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवका सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, चार संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति त्रस और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार हाम्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१७९. स्त्री वेदकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवका सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुःस्वर इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । दो संस्थान और तीन संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१८०. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवका सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और त्रस इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समवतुरस्र संस्थान, बज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्च-गोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय तिर्यञ्चगतित्रिकको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

१८१. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, नैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु

क्वाणु०-अगु०४-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच-णिमि०--णीचा०--पंचंत० णि०  
वं० संखेज्जदिभागू० । वामणसंठा०-खीलिय०-असंपत्त० सिया० । तं तु० ! हुंड०-  
उज्जोव० सिया० संखेज्जदिभागू० । ओरालि०अंगो०-अप्पसत्थ०-तस-दुस्सर०  
णियमा० । तं तु० । एवं पंचिदियभंगो वामणसंठा०-ओरलि०अंगो०-खीलिय०-  
असंपत्त०-अप्पसत्थ०-तस-दुस्सर ति । एवं चेव तिरिणसंठा०-तिरिणसंध० । एवरि  
अट्टारसीगाओ सिया० संखेज्जदिभागू० । सोधम्मी० तित्थय० देवोयं ।

१८२. सणक्कुमार याव सहस्सार ति णिरयभंगो । आणद याव एवगेवज्जा  
त्ति आभिणिबोधि० उक्क०ट्टिदि०वं० चदुणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-  
सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दुगु०-मणुसग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०--क०--हुंड०--  
ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-वण०४-मणुसाणु०-अगु०४-अप्पसत्थ०--तस०४-अधि-

चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और अन्तराय पाँच इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । वामन संस्थान, कीलक संहनन और असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । हुण्ड संस्थान और उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुःस्वर इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान वामन संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, कीलक संहनन, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुःस्वर इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार तीन संस्थान और तीन संहननकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंका अटारह कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है उनका यहां कदाचित् बन्ध होता है और कदाचित् बन्ध नहीं होता । यदि बन्ध होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होता है । सौधर्म और पेशान कल्पमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है ।

१८२. सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्सार कल्प तकके देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । आनत कल्पसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें आभिनिबोधक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे

रादिद्व०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

१८३. सादा० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण०४-मणु-साणु०-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । इत्थि०-एवुंस०-अरदि-सोग-पंचसंटा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-अथिरादिद्व०-णीचा० सिया० वं० संखेज्जदिभागू० । पुरिस०-हस्स-रदि-समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-थिरादिद्व०-उच्चा० सिया० । तं तु० । एदाओ तं तु० । पडिदन्लिगाओ सादभंगो ।

१८४. आयु० देवोयं । चदुसंटा०-चदुसंघ० देवोयं । एवरि मणुसगदि० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । तित्थय० देवोयं ।

बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए और ऐसी अवस्था यह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है ।

१८३. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय ज्ञानि, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरीय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । यहां ये 'तं तु' पाठमें पठित जितनी प्रकृतियां है उनकी मुख्यतासे सन्निकर्षका विचार करने पर साता प्रकृतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जानना चाहिए ।

१८४. आयु कर्मकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है । चार संस्थान और चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष भी सामान्य देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यह मनुष्यगतिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है ।

१८५. अणुदिसादि याव सव्वट्ठा ति आभिणिबोधि० उक्क०ट्टिदिवं० चदुणा०-द्धदंसणा०-असादा०-वारसक०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-मणुसगदि-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिस०-वएण०४-मणु-साणु०-अणु०४-पसत्थवि०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णिय० वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमे-दाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

१८६. सादा० उक्क०ट्टिदिवं० हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० सिया । तं तु० । अरदि-सोग-अजस०-तित्थय० सिया० संखेज्जदिभागू० । सेसाणि णिय० वं० मंखेज्जदिभागू० ।

१८५. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, ब्रह्म दर्शनावरण, असाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभ-नाराच संहनन, वर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुस्लघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण उच्चगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु ऐसी अवस्थामें यह जीव उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थिति-का भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ।

१८६. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव हास्य, रति, स्थिर, शुभ, और यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समयन्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । अरति, शोक, अयशःकीर्ति और तीर्थङ्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।



१=७. इंद्रिय-वादर-सूक्ष्म-पञ्जत्तापञ्जत्त० विगल्लिन्द्रिय-पञ्जत्तापञ्जत्त० पंचिन्द्रिय-तसंअपञ्जत्ता० पंचकायाणं वादर-सूक्ष्म-पञ्जत्तापञ्जत्त० पंचिन्द्रियतिरिक्ख-अपञ्जत्तभंगो । एवरि थावराणं सव्वाओ असंवेज्जदिभागूणं बंधदि । पंचिन्द्रिय-तस०२ मूलोघं । पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि० मूलोघं । ओरालियकायजोगि० मणुसभंगो । ओरालियमिस्से मणुमअपञ्जत्तभंगो । एवरि देवगदि० उक्क०ट्टिद्वि० पंचणा०-द्धदंसणा०-असादा०-वारसक०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-मुस्सर-आदेज्ज-अजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णिय० वं संवेज्जदिगुणहीणं बंधदि । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु० णि० वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवं वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु० तित्थयरं च । वेउव्वियकायजोगि० देवोघं । एवं वेउव्वियमिस्स० । एवरि किंचि विसेसो जाणिदव्वो ।

१८७. एकेन्द्रिय, इनके बादर और सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त त्रस अपर्याप्त, पांच स्थावर काय, तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि स्थावरोंमें सब प्रकृतियोंको असंख्यातवें भाग न्यून बांधते हैं । पञ्चेन्द्रिय-द्विक और त्रस द्विक जीवोंमें सन्निकर्ष मूलोघके समान है । पांचों मनोयोगी, पांचों वचन, योगी और काययोगी जीवोंमें भी सन्निकर्ष मूलोघके समान है । औदारिककाययोगी जीवोंमें सन्निकर्ष मनुष्योंके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सन्निकर्ष मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अमतराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है । इसी प्रकार वैक्रियिक मिश्र काययोगी जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु यहां कुछ विशेष जानना चाहिए ।

१८८. आहार०-आहारमि० आभिणिवोधि० उक्क० द्विदिवं० चदुणा०-द्वदंसणा०-  
असादा०—चदुसंजल०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-  
तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०-अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-  
अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णिय० वं० ।  
तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एक्कमेक्कस्स । तं तु० ।

१८९. सादावे० उक्क० द्विदिवं० हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० सिया० । तं तु० ।  
अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस०-तित्थय० सिया० संखेज्जदिभागू० । सेसा०  
धुविगाओ णि० वं० संखेज्जदिभागू० ।

१९०. देवायु० ओघं । एवं तं तु० सादभंगो ।

१८८. आहारक काययोगी और आहारक मिश्र काययोगी जीवोंमें आभिनिबोधक  
ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण,  
असातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुष वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चे-  
न्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक  
आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क  
अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्त-  
राय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट  
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट  
की अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका  
बन्धक होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक  
होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट  
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे  
उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक  
स्थितिका बन्धक होता है । इस प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।  
किन्तु ऐसी अवस्थामें यह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी  
बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट  
एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ।

१८९. सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव हास्य, रति, स्थिर,  
शुभ और यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है ।  
यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी  
बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा  
अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक  
होता है । अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और तीर्थङ्कर इनका कदाचित् बन्धक  
होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट  
संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । शेष ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे  
बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।

१९०. देवायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । इस प्रकार यहां जितनी  
'तं तु' पदवाली प्रकृतियां हैं उनका भङ्ग साता वेदनीयके समान है ।

१६१. कम्मङ्गेषु आभिणिबोधिय० उक्क०ट्टिदिवं० चदुणा०-एवदंसणा०-  
असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सांग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-  
ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसंठा०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-अथिरादिपंच-  
णिमि०-णीचा-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । दोजादी० ओरालियभंगो । असंपत्त०-  
पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावर-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-  
पत्तेय०-साधार०-दुस्सर० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

१६२. सादावे० उक्क०ट्टिदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० णि० वं०  
संखेज्जदिभागू० । इत्थि०-एवुंस०-दोगदि-पंचजादि-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-पंच-  
संध०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावरादिचदुयुगलं-

१९१. कार्मण काययोगी जीवोंमें आभिनिबोधक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका  
बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह  
कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस  
शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा अगुरुलघु, उपघात,  
अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता  
है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है।  
यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय  
न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। दो जातियों  
का भङ्ग औदारिक शरीरके समान है। असम्प्रानासृपाटिका संहनन, परघात, उल्लास,  
आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, व्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक,  
साधारण और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है।  
यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी  
बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा  
अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक  
होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु तब यह  
उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है या अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट  
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर  
पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है।

१९२. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नौ  
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस  
शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय  
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन  
स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, दो गति, पाँच जाति, पांच संस्थान,  
औदारिक आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उल्लास, आतप, उद्योत,  
अप्रशस्त विहायोगति, व्रस, स्थावर आदि चार युगल, अस्थिर आदि लृह और नीचगोत्र  
इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है  
तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेद, हास्य,

अथिरादिद्व०-णीचा० सिया० संखेज्जदिभागू० । पुरिस०-हस्स-रदि-समचदु०-वज्ज-रिस०-पसत्थवि०-थिरादिद्व०-उच्चागो० सिया० । तं तु० । एवं हस्स-रदीणं ।

१६३. इत्थि० उक्क०ट्टिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोल-सक०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०--वण०४-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्व०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । तिरिक्खगदिदुग-तिणिणसंठा०-तिणिणसंघ०-उज्जो० सिया० संखेज्जदिभागू० । मणुसग०-मणुसाणु० सिया० । तं तु० ।

१६४. पुरिस० उक्क०ट्टिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण०४-अगु०४-तस०४--णिमि०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । सादा०-हस्स-रदि-समचदु०-वज्जरि०-पसत्थवि०-थिरादिद्व०-उच्चा० सिया० । तं तु० । असादा०-अरदि-सोग-दोगदि-पंच-

रति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्पभ नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह ओर उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी लन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार हास्य और रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१९३. स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगतिद्विक, तीन संस्थान, तीन संहनन और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगति और मनुष्य-गत्यानुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है ।

१९४. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, हास्य, रति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्पभ नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका

संठा०-पंचमंघ०-दोआणु०-उज्जा०-अप्पसत्थ०-अथिरादिद्ध०-णीचा० सिया० संखेज्ज-  
भागू० । एवं पुरिसभंगो समचदु०-वज्जस्मि०-पमत्थ०-मुभग-मुस्सर-आदे०-उच्चा० ।  
एवरि उच्चागोदे तिरिक्वगदितिगं वज्ज ।

१६५. मणुसगदि० उक्क०ट्टिदिबं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-  
सालसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि० एवं याव णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्ज-  
दिभागू० । इत्थिवे० सिया० । तं तु० । एवुंस०-तिण्णसंठा०-तिण्णसंघ०-पर०-  
उस्सा०-अप्पसत्थ०-पज्जत्तापज्जत्त-दुस्सर० सिया० संखेज्जदिभागू० । मणुसाणु०  
णि० वं० । तं तु० । एवं मणुसाणु० ।

भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । असाता वेदनीय, अरति, शोक, दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियम से अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुष्टय संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर आदेय और उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रकी अपेक्षा सन्निकर्ष कहते समय तिर्यङ्गति त्रिकको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

१९५. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सालह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जातिसे लेकर निर्माण तक तथा नीच गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । स्त्रीवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । नपुंसकवेद, तीन संस्थान, तीन संहनन, परघात, उद्धास, अप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक हाता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१६६. एइंदियजा० उक्क०ट्टिदिवंध० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगुरु-उप०-थावर-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचागो०-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साधारण० सिया० । तं तु० । एवं आदाव-थावर० । एवरि आदावे सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० वज्ज ।

१६७. तिणियाजादि० मणुसअपज्जत्तभंगो । चत्तारिसंठा०-चत्तारिसंह० देवोघं ।

१६८. पंचिदियजादि० उक्क०ट्टिदिवंध० पंचणाणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-णाम० सत्थाणभंगो णीचागो०-पंचंत० णिय० वं० । तं तु० । एवं ओरालि०अंगो०-असंप०-अप्प-सन्थ०-तम०-दुस्सर० ।

१६६. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्च गति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामेण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । परघात, उल्लास, आतप, उद्योत, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार आतप और स्थावर इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आतप प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

१६७. तीन जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष मनुष्य अपर्याप्तिकोंके समान है । तथा चार संस्थान और चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है ।

१६८. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और स्वस्थान भंगके समान नामकर्मकी प्रकृतियाँ, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक है । इसी प्रकार औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तारूपटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुःस्वर इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१६६. परघाद० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-एवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०--अरदि-सोग-भय-दुगुं०--तिरिक्खग०--ओदालि०--तेजा०-क०-हुंडसं०-वण०४-तिरिक्खाणु०--अगु०-उप०-उस्सा०-वादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अथि-रादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णिय० बं० । तं तु० । एइदि०-पंचिदि०-ओरालि० अंगो०-असंप०-आदाउज्जो०-अप्पस०-तस-थावर-दुस्सर० सिया० । तं तु० । एवं उस्सा०-वादर-पज्जत्त-पत्तेय० । उज्जो० तिरिक्खगदिभंगो । एवरि सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० वज्ज० ।

२००. सुहुम० उ०द्वि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोल-सक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०--तिरिक्खग०-एइदि०-ओरालि०--तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावर-अपज्जत्त-साधारण०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० बं० । तं तु० । एवं अपज्जत्त-साधारणं ।

१९९. परघातकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, नैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्ण-चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीच गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, व्रस, स्थावर और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येक इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्षका भङ्ग तिर्यञ्च-गतिके समान है। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण इनको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए।

२००. सूक्ष्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्च-गति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, नैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्ण-चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार अपर्याप्त और साधारणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२०१. थिर० उ०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-  
दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण०४-अगु०४-पज्जत्त-णिमि०-पंचंत० णि० वं०  
संखेज्जदिभागू० । असादा०-इत्थि०-एवुंस०-दोगदि-पंचजादि-पंचसंठा०-ओरालि०-  
अंगो०-पंचसंघ०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावर-वादर-सुहुम-पत्ते०-  
साधारण-अमुभादिपंच-णीचा० सिया० संखेज्जदिभागू० । सादा०-पुरिस०-हस्स-रदि-  
समचदु०-वज्जरिस०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस०-उच्चा० सिया० । तंतु० ।  
एवं सुभ-जस० । एवरि जस० सुहुम-अपज्जत्त-साधारणं वज्ज ।

२०२. तित्थय० उ०ट्टि०वं० पंचणा०-द्वदंसणा०-असादा०-वारसक०-पुरिस०-  
अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगु०४-पसत्थवि०-  
तस० ४-अथिर-अमुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं०  
संखेज्जदिगुणही० । मणुसगदिपंचगं सिया० संखेज्जदिगुणहीणं० । देवगदि०४

२०१. स्थिरकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, पर्याप्त, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, व्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, प्रत्येक, साधारण, अशुभ आदि पाँच और नीच गोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय मूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए।

२०२. तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, व्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगति पञ्चकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक होता है। देवगति चतुष्कका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्



सिया० । तं तु० । एवं देवगदि० ४ । एवरि मणुसगदिपंचगं वज्ज ।

२०३. इत्थिवेदेमु आभिणिवोधि० उ०ट्टि०वं० पदमदंडओ ओयं । एवरि ओरालि०अंगो०-असंपत्तसेवट्टमंडणं वज्ज ।

२०४. सादा० उ०ट्टि०वं० ओयं । एवरि ओरालि०अंगो०-असंपत्त० सिया० संखेज्जदिभाग । संसाणं पि सव्वाणं मूलोयं । एवरि ओरालि०अंगो०-असंपत्त० अट्टाग्मिगाहि सह मणियासां साधेद्वो । पुरिसवे० ओयं ।

२०५. एवुंस० आभिणिवो० उ०ट्टि०वं० चदुणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-वरण०४-हुंड०-अगु०४-अप्पसत्थ०-तम०४-अथिरदिद्व०-एमि०-एणीचा०-पंचंत० एि० वं । तं० तु० । एिग्गदि-तिरिक्खगदि-ओरालि०-वेउव्वि०-दो-अंगो०-अप्पसत्थ०-दो

अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवगति चतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि देवगति चतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहने समय मनुष्यगति पञ्चकका छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

२०३. स्त्रीवेदवाले जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवकी अपेक्षा प्रथम दण्डक ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि औदारिक आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तासृपाटिका संहननका छोड़कर यह सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

२०४. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यह औदारिक आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तथा शेष सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष भी मूलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि औदारिक आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन इनका अठारह कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिका बन्ध करनेवाली प्रकृतियोंके साथ सन्निकर्ष साधना चाहिए । पुरुषवेदवाले जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष ओघके समान है ।

२०५. नपुंसकवेदवाले जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, हुण्ड संस्थान, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि लुह, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जा उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगति, तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त विहायोगति, दो आनुपूर्वा और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता

आणु०-उज्जो० सिया० । तंतु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तंतु० ।

२०६. सादा० उ०ट्टि०वं० ओपं । एवरि एईदि०--आदाव-थावरं अट्टागसि-  
गाहि सह सणियासे साधदव्वं । सेसाणं मूलोपं ।

२०७. अवगदवे० आभिणिवोधि० उ०ट्टि०वं० चदुणा०-एवदंसणा०-सादा०-  
चदुसंज०-जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० । णि० उक्क० । एवं एदाओ एकमेकंहि  
उक्कस्सा ।

२०८. कोधादि०४-मदि०-सुद०-विभंगे मूलोपं । आभिणि०-सुद०-ओधि०-  
आभिणि० उ०ट्टि०वं० चदुणा०-वदसणा०-असादा०--वारसक०--पुरिस०--अरदि-  
सोग--भय--दुगुं--पंचिदि०--तेजा०--क०--समचदु०--वण०४--अगु०४-पसत्थवि०-  
तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि०  
वं० । तंतु० । मणुसगदि-देवगदि-ओरालि०-वेउव्वि०-दोअंगो०-वज्जरि०-दोआणु०-

हैं तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए और ऐसी अवस्थामें यह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है ।

२०६. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवका सन्निकर्ष ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि एकेंद्रिय जाति, आतप और स्थावर इनको अटागह कोडा-कोडी सागरकी स्थितिवाली प्रकृतियोंके सन्निकर्षमें साथ लेना चाहिए । तथा शेष प्रकृतियोंका सन्निकर्ष मूलोपके समान है ।

२०७. अपगतवेदवाले जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन. यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार ये सब प्रकृतियां परस्पर एक दूसरेके साथ उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होती हैं ।

२०८. क्रोधादि चार कपायवाले, मन्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभङ्गज्ञानी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष मूलोपके समान है । आभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, छः दर्शना वरण, असाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेंद्रिय जाति, तैजस शरीर, कामेण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्च-गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगति, देवगति, आद्वारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और तीर्थङ्कर इनका कदाचित्

तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमेदात्रो एकमेकस्स । तं तु० ।

२०६. सादावे० उ० द्वि० वं० हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसगि० सिया० । तं तु० ।  
अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस०-देवगदि-दोसगी०-दोअंगो०-वज्जरि०-दोआणु०  
तित्थय० सिया० संखेज्जगुणहीणं० । सेसात्रो णिय० वं० संखेज्जगुणही० । एवं  
हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसगि० ।

२१०. मणुसायु० उ० द्वि० वं० पंचणा०-अदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-  
मणुसग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-  
वरण०-४-मणुसाणु०-अगु०-४-पसन्थ०-तस०-४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-  
उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगुणही० । सादासा०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिरा-  
थिर-सुभासुभ-जस०-अजस०-तित्थय० सिया० संखेज्जदिगुणहीणं० । देवायु० आंघं ।

बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थिति का बन्धक होता है तो नियम से उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए और तब ऐसी स्थितिमें यह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है ।

२०९. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होना है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति, देवगति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ नाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और तीर्थङ्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिकी मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२१०. मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, छः दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्टसंख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और तीर्थङ्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । देवायुकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओषके

आहार०-आहार०अंगो० ओघं ।

२११. मणपज्जव०-संजद०-सामाइ०-छेदो०-परिहार० आहारकायजोगि-  
भंगो । एवरि सादावे० उ०ट्टि०वं० अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस०-तित्थय०  
सिया० संखेज्जदिगुणहीणं । धुविगाओ णि० वं० संखेज्जगुणहीणं । एवं सादभंगो  
हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसगिति-देवायु० । एवरि देवायु० असादावे०-अथिर-असुभ-  
अजस० वज्ज । सेसाणं णाणावरणादीणं तित्थयरं णाइस्सदि त्ति णादव्वं ।

२१२. सुहुमसंपराइ० आभिणिवो० उ०ट्टि०वं० चदुणा०चदुदंसणा०-सादा०-  
जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्कस्सा । एवमेदाओ एकमेक्केण उक्कस्सा ।

२१३. संजदासंजदा० परिहार०भंगो । असंजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं० ओघं ।  
ओधिदं० ओधिणाणिभंगो । किएणले० एवुंसगभंगो । एवरि देवायु० उ०ट्टि०वं०  
पंचणा०-एवदंसणा०-सादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-देव-  
गदि-पसत्थट्ठावीस-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगुणहीणं० ।

समान है। आहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है।

२११. मनःपर्ययज्ञानवाले, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत और परि-  
हारविशुद्धि संयत जीवोंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंकी अपेक्षा सन्निकर्ष आहारक काययोगी  
जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव  
अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और तीर्थङ्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है  
और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुण-  
होन स्थितिका बन्धक होता है। ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो  
नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार साता प्रकृतिके  
समान हास्य, रति, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति और देवायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना  
चाहिए। इतनी विशेषता है कि देवायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय असाता वेदनीय,  
अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। शेष ज्ञानावर-  
णादिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिको नहीं बाँधेगा ऐसा जानना चाहिए।

२१२. सूक्ष्मसाम्परायिक शुद्धिसंयत जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट  
स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, यशः-  
कीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट  
स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार ये प्रकृतियाँ एक दूसरेकी अपेक्षा परस्पर उत्कृष्ट  
स्थितिबन्धको लिये हुए सन्निकर्षको प्राप्त होती हैं।

२१३. संयतासंयतोंका भङ्ग परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके समान है। असंयत,  
चक्षुदर्शनवाले और अचक्षुदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग ओघके समान है। अवधिदर्शनवाले  
जीवोंका भङ्ग अवधिज्ञानियोंके समान है। कृष्णलेश्यावाले जीवोंका भङ्ग नपुंसक वेदवाले  
जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला  
जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद,  
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ, उच्च गोत्र और पाँच  
अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका  
बन्धक होता है।

२१४. एील-काऊणं आभिणिवो० उ०ट्टि०वं० चदुणा०-एवदंसणा०-  
असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-पंचिदि०-  
ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-  
अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० एि वं० ।  
तंतु० । एवमेदाओ एक्कमेक्कस्स । तंतु० । सादा०-इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-मणुसग०-  
पंचसंठा०-पंचसंघ०-मणुसाणु०-पसत्थ०-थिगदिद्ध०-उच्चा० तित्थयरं च णिरयमंगो ।

२१५. णिरयायु० उ०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोल-  
सक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-हुंड०-वएण०४-अगु०४-  
अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० एि० वं० संखेज्ज-  
गुणही० । णिरयग०-वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो०-णिरयाणु० णिय० वं० । तंतु० उक्क०  
अणु० विट्ठाणपदिदं वंधदि, असंखेज्जभागहीणां वा संखेज्जदिभागहीणां वा  
बंधदि । तिणिए-आयुगाणं ओघं ।

२१४. नील और कापोन लेश्यावाले जीवोंमें अभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट  
स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह  
कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक  
शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तारुपाटिका  
संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस-  
चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक  
होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता  
है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय  
न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन  
प्रकृतियोंका एक दूसरेकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए और तब यह जीव उत्कृष्ट  
स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट  
स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका  
असंख्यानवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद,  
हास्य, रति, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहा-  
योगति, स्थिर आदि छह, उच्चगोत्र और तीर्थङ्कर इनका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

२१५. नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौदर्शना-  
वरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय,  
जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरु-  
लघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र  
और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन  
स्थितिका बन्धक होता है । नरकगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरक-  
गत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट दो  
स्थान पतित स्थितिका बन्धक होता है । या तो असंख्यात भागहीन स्थितिका बन्धक  
होता है या संख्यात भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । तीन आयुओंकी मुख्यतासे  
सन्निकर्ष ओघके समान है ।

२१६. णिरयग० उ०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोल-  
सक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-हुं०-वणण० ४-अगु० ४-  
पसत्थ०-तस० ४-अथिरादि०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णिय० वं० संखेज्जगुणही० ।  
णिरयायु० सिया० । यदि० णियमा उक्कस्सा । आवाधा पुण भयणिज्जा । वेउव्वि०-  
वेउव्वि०अंगो०-णिरयाणु० णि० वं० । तं तु० । एवं वेउव्वि-वेउव्वि०अंगो०-  
णिरयाणु० ।

२१७. देवगदि० उ०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-  
दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वणण० ४-अगु० ४-पसत्थवि०-तस० ४-सुभग-  
सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० अणु० संखेज्जगुणही० । सादा-  
साद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-इत्थि०-पुरिस०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०  
सिया०-संखेज्जगुणही० । वेउव्वि०-वेउव्वि० अंगो० णि० वं० णि० संखेज्जगुणही० ।  
देवाणु० णि० वं० । तं तु० । एवं देवाणु० ।

२१६. नरकगतिको उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, असन्नतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । नरकायुका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । परन्तु आवाधा भजनीय है । वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२१७. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, असन्नतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो

२१८. एइंदि० उक्क०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-भय०-दु०-तिरिक्खगदि-आंरालिय०-तेजा०-क०-हुंड०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-दूभग-अणादे०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगुणही० । सादासा०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-पर०-उस्सा०-उज्जा०-वादर-पज्जत्त-पत्तेय०-थिरा-थिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० संखेज्जगुणहीणां० । आदाव-सुहुम-अपज्जत्त-साधार० सिया० । तं तु० । थावर० णि० वं० । तं तु० । एवं आदाव-थावर० ।

२१९. वीइंदि० उ०ट्टि०वं० हेट्टा उवरिं एइंदियभंगो । णामाणं सत्थाणभंगो । एवं तीइंदि-चट्टुरिंदि० । सुहुम-साधारणं एइंदियभंगो । एवरि आदाउज्जावं वज्ज । अपज्जत्त० उ०ट्टि०वं० हेट्टा उवरि एइंदियभंगो । णामाणं सत्थाणभंगो ।

उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२१८. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकोर्ति और अयशःकोर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थावर प्रकृतिका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार आतप और स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२१९. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवके नीचे और ऊपरकी प्रकृतियोंका भङ्ग एकेन्द्रिय जातिके समान है। तथा नाम कर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा सूक्ष्म और साधारण प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष एकेन्द्रिय जातिके समान है। इतनी विशेषता है कि आतप और उद्योतको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। अपर्याप्त प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवके नीचे और ऊपरकी प्रकृतियोंका भङ्ग एकेन्द्रिय जातिके समान है। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है।

२२०. तेऊए देवगदि० उ०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगुणही० । सादासाद०-इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० संखेज्जगु-एही० । वेउन्वि०-वेउन्वि० अंगो०-देवाणु० णि० वं० । तंतु० । एवं वेउन्वि०-वेउन्वि० अंगो०-देवाणु० । तिरिक्ख-मणुसायुगं देवोघं ।

२२१. देवायु० उ०ट्टि०वं० पंचणा०-उदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-देवगदि-पसत्थट्ठावीस-उच्चा०-पंचंत० णिय० वं० संखेज्जगुणहीणं० । थीणगिद्धितिय-मिच्छ०-वारसक०-तित्थय० सिया० संखेज्जगुणही० । सेसाओ पगदीओ सोधम्मभंगो । एवरि आहारदुगं ओघं । एवं पम्माए वि । एवरि सहस्सारभंगो कादव्वो ।

२२०. पीत लेश्यावाले जीवोंमें देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञाना-वरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायो-गति, व्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्च गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है ।

२२१. देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त अट्टुईस प्रकृतियाँ, उच्च गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, बारह कषाय, और तीर्थङ्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि आहारकट्टिकका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार पद्म लेश्यामें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें सहस्सार कल्पके समान कथन करना चाहिए ।



२२२. सुक्लाए आणदभंगो । एवरि देवायु० ओघं । देवगदि० उ०द्वि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-पंचिदिय०-तेजा०-क०-समचदु०-वणण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णिय० वं० संखेज्जदिभागू० । सादासाद०-इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिरादि-तिणिणयुगलं सिया० संखेज्जदिभागू० । वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-देवाणु० णियमा बंधगो । तं तु० । एवं वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-देवाणु० । आहारदुगं ओघं ।

२२३. भवसिद्धिया० अरुभवसिद्धिया० ओघं । सम्मादिद्वि-खड्गसम्मादि० वेदगस०-उवसमसम्मा० ओघिभंगो । एवरि उवसमे तिथयरस्स संजदभंगो । सेसाणं सम्मादिद्वीणं तिथय० उ०द्वि०वं० देवगदि-वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-देवाणु० णि०वं० । तं तु० । एवरि खड्गे मणुसगदि-देवगदिसंजुताओ सत्थाणे कादव्वाओ ।

२२२. शुक्ल लेश्यामें आनत कल्पके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । तथा देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, नेजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक और स्थिर आदि तीन युग-इतना कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा आहारक द्विककी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है ।

२२३. भव्य और अभव्य जीवोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष ओघके समान है । सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टि और उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंक समान है । इतनी विशेषता है कि उपशम सम्यक्त्वमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग संयत जीवोंके समान है । शेष सम्यग्दृष्टि जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इतनी विशेषता है कि ज्ञायिक सम्यक्त्वमें मनुष्यगति और देवगति संयुक्त प्रकृतियोंको स्वस्थानमें करना चाहिए ।

२२४. सासणे' आभिणिबोधि० उक्क०ट्टि०वं० चदुणा०-एवदंसणा०-असादा०-  
सोलसक०-इत्थि०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-  
क०-वामणसंठा०-ओरालि०अंगो०-खीलियसंघ०-वणण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-  
अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्ध०-णिमि०-णीचा०-पंचंत०णि०वं० । तं तु० । उज्जो०  
सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

२२५. सादा० उ०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-  
पंचिदि०-तेजा०-क०-वणण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत०णि० वं० संखेज्जदिभा-  
गुणं वं० । इत्थि०-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-ओरालि०-चदुसंठा०-ओरालि०  
अंगो०-चदुसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-अथिरादिद्ध०-णीचा० सिया० संखे-  
ज्जदिभागु० । पुरिस०-देवगदि-वेउच्चि०-समचदु०-वेउच्चि०अंगो०-वज्जरि०-देवाणु०-

२२६. सासादन सम्यक्त्वमं आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक  
जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, सोलह कषाय, स्त्रीवेद, अरति,  
शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण  
शरीर, वामन संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, कोलक संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी,  
अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र  
और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक  
होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक  
होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां  
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और  
कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता  
है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता  
है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां  
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष  
जानना चाहिए और तब यह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका  
भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा  
अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका  
बन्धक होता है ।

२२७. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-  
वरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण  
चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे  
बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।  
स्त्रीवेद, अरति, शोक, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, चार संस्थान, औदारिक  
आङ्गोपाङ्ग, चार संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह  
और नीच गोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि  
बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है ।  
पुरुषवेद, देवगति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ

पसत्थ०-थिरादिद्व०-उच्चा० सिया० वं० । तं तु० । एवं सादभंगो पुरिस०-हस्स-रदि-समचदु०-वज्जरिस०-पसत्थ०-थिरादिद्व०-उच्चा० । तिण्णिआयुगाणं ओघं ।

२२६. मणुसग० उ०द्वि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०- सोल-सक०-इत्थिवे०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-णाम सत्थाणभंगो एीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । इत्थि० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । मणुसाणु० णि० वं० । तं तु० । एवं मणुसाणु० ।

२२७. देवगदि० उ०द्वि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-उच्चा०-पंचंत०-णि० वं० संखेज्जदिभागूणं० । सादा०-पुरिस०-हस्स-रदि सिया० । तं तु० । असादा०-इत्थिवे०-अरदि-सोग० सिया० संखेज्जदिभागू० । णामाणं सत्थाण-

नाराच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार सातावेदनीय प्रकृतिके समान पुरुषवेद, हास्य, रति, समन्नुरस्य संस्थान, वज्रर्पभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह और उच्च गोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तीन आयुओंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है ।

२२६. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, स्त्रीवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्वस्थान भङ्गके समान नाम कर्मकी प्रकृतियाँ, नोचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । स्त्रीवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२२७. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य और रति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, अरति और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक

भंगो । एवं वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु० । तिण्णिसंठा०-तिण्णिसंघ० ओघं ।

२२८. सम्माभि० वेदग०भंगो । मिच्छादिट्ठि त्ति मदि०भंगो । सण्णि० ओघं । असण्णीसु आभिणिवोधि० उ०ट्ठि०बं० यथा तिरिक्खोघं पढमदंडओ तथा णेदव्वा । सादावे०-इत्थिवे०-हस्स-रदि-अरदि० पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

२२९. पुरिस० उ०ट्ठि०षं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-वरण०४-अगु०४-तस४-णिमि०-पंचंत० णि० बं० संखेज्जदिभागू० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-दोगदि-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-पंचसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-थिराथिर-सुभासुम-जस०-अजस०-णीचा० सिया० संखेज्जदिभागू० । देवगदि-समचदु०-वज्जरिस०-देवाणु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० सिया० । तं तु० । वेउव्वि०-[वेउव्वि०]अंगो० सिया०-संखेज्जदिभागू० । एवं पुरिसभंगो समचदु०-वज्जरिसभ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-

होता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तीन संस्थान और तीन संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है ।

२२८. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग वेदक सम्यग्दृष्टियोंके समान है । मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानियोंके समान है संज्ञी जीवोंमें ओघके समान है । असंज्ञी जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवके जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके प्रथम दण्डक कहा है उस प्रकार जानना चाहिए । साता वेदनीय, खीवेद, हास्य, रति और अरतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान जानना चाहिए ।

२२९. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, दो गति, औदारिक शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । देवगति, सभचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभ

आदे०-उच्चा० । एवरि उच्चागोदे तिरिक्खगदिदिगं वज्ज ।

२३०. दोएहं आयुगाणं तिरिक्खगदीए । एवरि संखेज्जदिभागू० । गिरयायु-  
ग० उ०ट्टि०वं० याओ पगदीओ वंधदि ताओ पगदीओ तं तु विट्ठाणपदिदं बंधदि,  
असंखेज्जदिभागहीणं वा संखेज्जदिभागहीणं वा । देवायु० उ०ट्टि०वं० यथा ति-  
रिक्खगदीए । एवरि पंचणा०-एवदंसणा०-सादावे०-मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-  
हस्स-रदि-भय-दु०-देवगदि-पसत्थट्ठावीस-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० ।

२३१. तिरिक्खगदि० उ०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-  
सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तेजा०--क०-हुं डसं०-वण०४-अगु०-  
उप०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०--पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । एइदि०-  
ओरालि०-तिरिक्खाणु०-थावर-मुहुम-अपज्जत्त-साधार० णि० वं० । तं तु० । एदासिं  
तं तु० पदिदाणं सरिसो भंगो कादव्वो । मणुसगदिदुगं यथा अपज्जत्तभंगो ।

नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी मुख्यतासे समझना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रमें तिर्यञ्जगतित्रिककी छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

२३०. दो आयुओंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष तिर्यञ्जगतिके साथ कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संख्यातवां भाग न्यून कहना चाहिए । नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव जिन प्रकृतियोंको बाँधता है उन प्रकृतियोंको वह दो स्थान पतित बाँधता है । या तो असंख्यातवां भाग हीन बाँधता है या संख्यातवां भाग हीन बाँधता है । देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्जगतिमें कहे गये सन्निकर्षके समान सन्निकर्षको प्राप्त होता है । इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति प्रभृति अट्टाईस प्रशस्त प्रकृतियां, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ।

२३१. तिर्यञ्जगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । यहाँ इन 'तं तु' पतित प्रकृतियोंका एक समान भङ्ग करना चाहिए । तथा मनुष्यगति द्विककी मुख्यतासे सन्निकर्ष अपर्याप्तके समान है ।

२३२. देवगदि० उ०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-  
दुगुं०-पंचिदि० याव णिमिण ति पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । सादासाद०-  
इत्थिवे०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० संखेज्जदि-  
भागू० । पुरिस० सिया० । तं तु० । समचदु०-देवाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-  
आदेज्ज-उच्चा० णि० वं० । तं तु० । [वउव्वि०] वेउव्विअंगो० णि० वं० संखेज्जदि-  
भागू० । एवं देवाणु० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त० अपज्जत्तभंगो ।  
आदाउज्जो०-थिर-सुभ-जस० अपज्जत्तभंगो ।

२३३. आहार० मूलोघं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं उक्कस्सपरत्थाणसणियासो समत्तो ।

२३४. जहणए पगदं । एत्तो जहणपदसणियाससाधणदं अट्टपदभूद--  
समासलक्खणं वत्तइस्सामो । तं जहा-पंचिदियाणं सएणीणं मिच्छादिद्वीणं अम्मव-

२३२. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जातिसे लेकर निर्माण तक और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, खीवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । समचतुरस्र संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तासृपाटिका संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष अपर्याप्तके समान है । तथा आतप, अद्योत, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष अपर्याप्तके समान है ।

२३३. आहारक जीवोंमें अपनी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष मूलोघके समान है और अनाहारक जीवोंमें कर्मण काययोगी जीवोंके समान है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट परस्थान सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

२३४. जघन्य सन्निकर्षका प्रकरण है, इस कारण जघन्य पद सन्निकर्षकी सिद्धि करनेके लिये अर्थपदभूत समास लक्षण कहते हैं । यथा—पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीवोंमें

सिद्धिया० पाओगं अंतोकोडाकोडिपुवत्तं बंधमाणस्स एत्थि द्विदिवंधवोच्छेदो । अंतोसागरोवमकोडाकोडीए अद्धद्विदिवंधद्वयं बंधमाणो पि ए बंधदि । तदो सागरोवमसदपुवत्तं ओसरिदूण एयरयायुबंधो ओच्छिज्जदि । तदो सागरोवम० ओसक्कि० तिरिक्खायुबंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० ओसक्कि० मणुसायु० बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० ओसक्कि० देवायु० बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० ओसक्कि० एयरयगदि-एयरयाणुपु० एदाओ दुवं पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० ओसक्कि० मुहुम-अपज्जत्त-साधारण० संजुत्ताओ एदाओ तिण्ण पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० मुहुम-अपज्जत्त-पत्तेय० संजुत्ताओ तिण्ण पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० बादर-अपज्जत्त-साधारणं संजुत्ताओ एदाओ तिण्ण पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० बादर-अपज्जत्त-पत्तेय० संजुत्ताओ एदाओ तिण्ण पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० वीइदि०-अपज्जत्त० एदाओ दुवं पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० तीइदि०-अपज्जत्त० एदाओ दुवं पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० चदुरिदि०-अपज्जत्त० एदाओ दुवं पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० पंचिदियअसण्ण-अपज्जत्त० एदाओ दुवं पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० पंचि-

अभव्योंके योग्य अन्तःकोडाकोडी पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके स्थितिकी बन्ध व्युच्छित्ति नहीं होती । अन्तःकोडाकोडी सागरके आधे स्थिति बन्ध स्थानका बन्ध करनेवाला भी नहीं बाँधता । पुनः इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होनेपर नरकायुकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होने पर तिर्यञ्चायुकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होनेपर मनुष्यायुकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर देवायुकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर नरक-गति और नरकगत्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर सूक्ष्म, अपर्याप्त और प्रत्येक संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर बादर, अपर्याप्त और साधारण संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर बादर अपर्याप्त और प्रत्येक संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर त्रिन्द्रिय जाति और अपर्याप्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर चतुरिन्द्रिय जाति और अपर्याप्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर पञ्चेन्द्रिय असंखी और अपर्याप्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ

दियसणिए-अपज्जत्त० एदाओ दुवे पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० 'सुहुम-पज्जत्त-साधारण० एदाओ तिणिए पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० सुहुम-पज्जत्त-पत्तेय० संजुत्ताओ एदाओ तिणिए पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० बादर-पज्जत्त-साधारण-संजुत्ताओ एदाओ तिणिए पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० बादरएइंदि०-आदाव-थावर-पज्जत्त-पत्तेय० संजुत्ताओ एदाओ<sup>३</sup> पंच पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० बीईदिय-पज्जत्त० संजुत्ताओ एदाओ दुवे पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० तीईदिय-पज्जत्त० संजुत्ताओ एदाओ दुवे पगदीओ० बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० चटुरिंदिय-पज्जत्त० संजुत्ताओ एदाओ दुवे पगदीओ० बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० पंचिदि०-असणिए-पज्जत्त० संजुत्ताओ एदाओ दुवे पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०उज्जो० संजुत्ताओ एदाओ तिणिए पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० एणीचा० बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० एदाओ चटुपगदीओ एकदो

सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी और पर्याप्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्ध व्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर सूक्ष्म, पर्याप्त और साधारण इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर सूक्ष्म, पर्याप्त और प्रत्येक संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर बादर, पर्याप्त और साधारण संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर बादर एकेन्द्रिय, आतप, स्थावर, पर्याप्त और प्रत्येक संयुक्त इन पाँच प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर द्वीन्द्रिय जाति और पर्याप्त संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर त्रिन्द्रिय जाति और पर्याप्त संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर चतुरिन्द्रिय जाति और पर्याप्त संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी और पर्याप्त संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और उद्योत संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर नीचगोत्रकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय इन चार प्रकृतियोंकी एक साथ

१. मूलप्रती सुहुम अपज्जत्त इति पाठः ।
२. मूलप्रती बादर अपज्जत्त इति पाठः ।
३. मूलप्रती एदाओ दो पगदीओ इति पाठः ।



बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० हुंडसं०-असंवत्त० एदाओ दुवे पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० एवुंसं० बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० वामणसं०-खीलियसं० एदाओ दुवे पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० खुज्जसं०-अद्धणारा० एदाओ दुवे पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० इत्थिवे० बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० सादिय०-णाराय० एदाओ दुवे पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो-सागरो० ओसक्कि० णग्गोद०-वज्जणारा० एदाओ दुवे पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० मणुसगदि-ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिस०-मणुसाणु० एदाओ पंच पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्कि० असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० एदाओ छ पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । एत्तो पाए सेसाणि सव्वकम्माणि सव्वविसुद्धो बंधदि । एदेण अट्टपदेण समासभूदलक्खणेण साधणेण ।

२३५. जहणणसणियासो दुविधो-सत्थाणसणियासो चैव परत्थाण-सणियासो चैव । सत्थाणसणियासे पगदं । दुविधो णिदेसो-ओघे० आदे० । ओघे० आभिणिवोधि० जहणणद्विदिवंधमाणो चदुणणं णाणावर० णियमा बंधगो । णियमा जहणणा । एवमेकमेकस्स जहणणा ।

बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर हुण्ड संस्थान और असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर नपुसकवेदकी बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर वामन संस्थान और कीलक संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर कुब्जक संस्थान और अर्धनाराच संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर खोवेदकी बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर स्वाति संस्थान और नाराच संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान और वज्रनाराच संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन पाँच प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इन छह प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिन्ति होती है । इससे आगे प्रायः शेष सब कर्मोंको सर्वविशुद्ध जीव बाँधता है । इस अर्थपद रूप समासभूत लक्षण साधनके अनुसार—

२३५. जघन्य सन्निकर्ष दो प्रकारका है—स्वस्थान सन्निकर्ष और परस्थान सन्निकर्ष । स्वस्थान सन्निकर्षका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार परस्पर जघन्य स्थितिके बन्धक होते हैं ।

२३६. णिहाणिहाए जहणणट्टिदिबंधतो पचलापचला थीणगिद्धी णिहा पचला य णिय० बंध० । तं तु जहणणा वा अजहणणा वा । जहणणादो अजहणणा समजुत्तरमादिं कादूण याव पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागब्भहियं बंधदि । चदुदंसणा० णि० वं० णि०<sup>१</sup> अजह० असंखेज्जगुणब्भहियं बंधदि । एवं णिहाणिह-भंगो चदुदंसणा० । चक्खुदं० जह०ट्टि०वं० तिण्णिणदंसणा० णि० वं० णि० जहणणा० । एवमेकमेकस्स । तं तु जहणणा० ।

२३७. साद० ज०ट्टि०वं० असाद० अवंधगो । असाद० जह०ट्टि०वं० साद० अवंधगो ।

२३८. मिच्छत्त० जह०ट्टि०वं० बारसक०-हस्स-रदि-भय-दुगुं० णि० वं० । तं तु जह० अजहणणा वा । जह० अजह० समजुत्तरमादिं कादूण याव पलिदोव-मस्स असंखेज्जदिभागब्भहियं बंधदि । चदुसंज०-पुरिस० णि० वं० णि० अज० असंखेज्जगुणब्भहियं वं० । एवं मिच्छत्तभंगो बारसक०-हस्स-रदि-भय-दुगुं० ।

२३९. कोधसंजल० जह०ट्टि०वं० तिण्णिसंजलणं णि० वं० संखेज्जगुण-

२३६. निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा और प्रचला इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। चार दर्शनावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यात गुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार निद्रानिद्राके समान चार दर्शनावरणका सन्निकर्ष जानना चाहिए। चक्षुदर्शनावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन दर्शनावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष होता है। किन्तु तब वह जघन्य स्थितिका बन्धक होता है।

२३७. साता प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव असाता प्रकृतिका अबन्धक होता है। असाता प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव साता प्रकृतिका अबन्धक होता है।

२३८. मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव बारह कपाय, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। चार संज्वलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यात गुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार मिथ्यात्वके समान बारह कपाय, हास्य, रति, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२३९. क्रोध संज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है। मान

बन्धियं वं० । माणसंज० जह०ट्टिदिवं० दोएहं संजल० णि० वं० । णि० अज० संखेज्जगुणबन्धियं वं० । मायासंज० जह०ट्टि०वं० लोभसंज० णि० वं० संखेज्जगुणबन्धियं वं० ।

२४०. इत्थिवे० जह०ट्टि०वं० मिच्छ०-वारसक०-भय-दुगुं० [ णि० वं० ] असंखेज्जभागबन्धियं वं० । चदुसंज० णि० वं० णि० अज० असंखेज्जगुणबन्धियं वं० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० असंखेज्जभागबन्धियं वं० । एवं एवुंस० ।

२४१. पुरिस० जह०ट्टि०वं० चदुसंज० णि० वं० संखेज्जगुणबन्धियं वं० ।

२४२. अरदि० जह०ट्टि०वं० मिच्छत्त-वारसक०-भय-दुगुं० णि० वं० णि० अज० असंखेज्जभागबन्धियं वं० । चदुसंज० णि० वं० णि० अज० असंखेज्जगुणबन्धियं वं० । सोग० णि० वं० । तं तु० । एवं सोग० ।

२४३. णिरयायु० ज०ट्टि०वं० सेसाणं अबंधगो एवमएणमएणाणं अबंधगो ।

संज्वलनका जघन्य स्थितिका बन्धक जीव दो संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है । माया संज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव लोभ संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

२४०. खोवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । चार संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यात गुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, अरति और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसक वेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२४१. पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यात गुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

२४२. अरतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । चार संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यात गुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोकका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२४३. नरकायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव शेष आयुओंका अबन्धक होता है । इसी प्रकार परस्पर एक आयुका बन्ध करनेवाला अन्य आयुओंका अबन्धक होता है ।

२४४. णिरयगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-अगु०  
४-अप्पसत्थवि०-तस०४-अथिरादिद्ध०-णि० णि० वं० संखेज्जगुणब्भहियं वं० ।  
वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो० णि० वं० संखेज्जभागब्भहियं । णिरयाणु० णि० वं० ।  
तं तु० । एवं णिरयाणु० ।

२४५. तिरिक्खग० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-ओरालिय०-तेजा०-क०-समचदु०-  
ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरा-  
दिपंच-णिमि० णि० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । जसगि० णि० वं०  
असंखेज्जगुणब्भहियं० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो० ।

२४६. मणुसग० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-  
ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-वण०४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच-

२४४. नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, प्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यात गुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४५. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, प्रसचतुष्क, स्थिर आदि पांच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशः-कीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४६. मनुष्य गतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, प्रस

णिमि० णि० बं० । तं तु० । जसगि० णि० बं० असंखेज्जदिगुण्णभहियं बं० ।  
एवं मणुसाणु० ।

२४७. देवगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-  
अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच-णिमि० णि० बं० संखेज्जगुण्णभहियं बं० ।  
वेउव्वि-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु० णि० बं० । तं तु० । जसगि० सिया० असंखेज्ज-  
गुण्णभहियं बं० । एवं वेउव्वि०अंगो०-देवाणु० ।

२४८. एइदि० ज०ट्टि०वं० तिरिक्खग०-आरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-  
वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-दूभग-अणादे०-णिमि० णि०  
असंखेज्जदिभाग्णभहियं० । आदावं सिया० । तं तु० । उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-

चतुष्क, स्थिर आदि पांच, और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थिति का भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४७. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि पांच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४८. एकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरु-लघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। आतपका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदा-चित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग

अजस० सिया० असंखेज्जदिभागब्भहियं० । थावर० णि० वं० । तं तु० । जसणि० सिया० असंखेज्जदिगुणब्भहियं० । एवं आदाव-थावर० ।

२४६. बीईदि० जह०ट्टि०वं० तिरिक्खवादि-ओरालिय०-तेजा०-क०-हुंड०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-वण०४-तिरिक्खवाणु०-अगु०४-अप्पसत्थ-तस०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णिमि० णि० वं० असंखेज्जदिभागब्भहियं० । उज्जो० सिया० । थिरा-थिर-सुभासुभ-अजस० सिया० असंखेज्जदिभागब्भहियं० । जस० सिया० असंखे-ज्जदिगु० । एवं तीईदि०-चदुरिदि० ।

२५०. पंचिदि० ज०ट्टि०वं० ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि० अंगो०-वज्जरिस०-वण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच-णिमि० णि० वं० ।

अधिक स्थितिका बन्धक होता है । स्थावरका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार आतप और स्थावर प्रकृतियों की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२४९. द्वीन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार त्रीन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२५०. पञ्चेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि पांच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, दो आनुपूर्वी और उद्योत इनका

तं तु० । तिरिक्खगदि-मणुसगदि-दोआणु०-उज्जो० सिया० । तं तु० । जस० णि० वं० असंखेज्जगु० । एवं पंचिदियभंगो ओरालिय-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि० अंगो०-वज्जरिस०-वणण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच-णिमिण ति ।

२५१. आहार० जह०ट्टि०वं० देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-सम-चदु०-वेउव्वि०-अंगो०-वणण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच-णिमि० णि० वं० संखेज्जगुणभहियं० । आहार०अंगो० णि० वं० । तं तु० । जस० णि० वं० णि० असंखेज्जगुणभहियं० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवं आहारअंगो०-तित्थयरं ।

२५२. एग्गोद० जह०ट्टि०वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-

कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशः-कीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्ण-चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि पाँच और निर्माण इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२५१. आहारक शरीरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि पाँच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यात-गुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है। आहारक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतकस्थितिका बन्धक होता है। यशः-कीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२५२. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण

अंगो०-वण०४-अगु०४-पसत्थ०--तस०४-सुभग-सुस्सर आदे०-णिमि०णि० वं०  
असंखेज्जभागभहियं० । तिरिक्ख०-मणुसगदि-वज्जरि०-दोआणु०-उज्जो०-थिराथिर-  
सुभासुभ-अजस० सिया० असंखेज्जदिभा० । वज्जणारा० सिया० । तं तु० । जस०  
सिया० असंखेज्जगुण० । एवं वज्जणारा० ।

२५३. सादिय० जह०ट्टि०वं० एण्णोदभंगो । एवरि एणाराय० सिया० । तं  
तु० । दोसंघ० सिया० असंखेज्जदिभा० । एवं एणारायण० ।

२५४. खुज्ज० जह०ट्टि०वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-  
वण०४-अगु०४-पसत्थ०--तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०--णिमि० णि० वं० असं-  
खेज्जदिभा० । तिरिक्ख०-मणुसगदि-तिणिसंघ०-दोआणु०--उज्जो०-थिराथिर-सुभा-

इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, वज्रर्षभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । वज्रनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वज्रनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२५३. स्वाति संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवकी अपेक्षा सन्निकर्ष न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानके समान है । इतनी विशेषता है कि यह नाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । दो संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२५४. कुञ्जक संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मेण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, अस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, तीन संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां



सुभ-अजस० सिया० असंखेज्जदिभा० । जस० सिया० असंखेज्जदिगु० । अद्द-  
णारा० सिया० । तं तु० । एवं अद्दणारा० । एवं चैव वामणसंठा० । एवरि खीलिय०  
सिया० । तं तु० । एवं खीलिय० ।

२५५. हुंड० जह० द्वि० वं० पंचिदि०--ओरालि०-तेजा०--क०-ओरालि० अंगो०-  
वण० ४-अगु० ४-पसत्थ०--तस० ४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० वं० । णि०  
असंखेज्जदिभा० । दोगदि-पंचसंघ०--दोआणु०-उज्जो०--थिराथिर-सुभासुभ-अजस०  
सिया० असंखेज्जदिभा० । असंपत्त० सिया० । तं तु० । जस० सिया० असंखेज्ज-  
दिगु० । एवं असंपत्त० ।

भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । अर्धनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अर्धनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार वामन संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह कीलक संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार कीलक संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२५५. हुण्ड संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । दो गति, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । असम्प्राप्तास्पटिका संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार असम्प्राप्तास्पटिका संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२५६. अप्पसत्थ० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०--ओरालि०--तेजा०--क०--ओरालि०-  
अंगो०--वण्ण०४--अगु०४--तस०४--णिमि० णि० वं० असंखेज्जदिभा० । दोगदि-  
द्धस्संठाण--द्धस्संघ०--दोआणु०--उज्जो०--थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर--आदे०--  
अजस० सिया० असंखेज्जदिभा० । दुभग--दुस्सर--अणादे० सिया० । तं तु० ।  
जसगि० सिया० असंखेज्जदिगु० । एवं दूभग-दुस्सर-अणादे० ।

२५७. सुहुमस्स ज०ट्टि०वं० तिरिक्खगदि-एईदि०--ओरालि०--तेजा०--क०--  
हुंडसं०--वण्ण०४--तिरिक्खाणु०--अगु०४--थावर--पज्जत्त-पत्ते०--दूभग--अणादे०-  
अजस०--णिमि० णि० वं० असंखेज्जदिभा० । थिराथिर-सुभासुभ० सिया० असं-  
खेज्जदिभा० ।

२५८. अपज्ज० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०--ओरालि०--तेजा०--क०--हुंड०--ओरालि०-  
अंगो०--असंपत्त०--वण्ण०४--अगु०--उप०--तस-वादर-पत्ते०--अथिरादिपंच-णिमि० णि०

२५६. अप्रशस्त विहायोगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। दो गति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२५७. सूक्ष्म प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानु-पूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

२५८. अपर्याप्तिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक

वं० असंखेज्जदिभा० । दोगदि-दोआणुपु० सिया० असंखेज्जदिभा० ।

२५६. अथिर० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०--ओरालि०--तेजा०--क०--समचदु०--  
ओरालि०अंगो०--वज्जरिस०--वण०४--अगु०४--पसत्थवि०--तस०४--सुभग-सुस्सर-  
आदे०--णिमि० णि० बं० असंखेज्जदिभा० । दोगदि-दोआणु०--उज्जो०--सुभग०  
सिया० असंखेज्जदिभा० । असुभ-अजस० सिया० । तं तु० । जसगि० सिया०  
असंखेज्जगुण० । एवं असुभ-अजस० ।

२६०. गोदे० वेदणीयभंगो अंतराङ्गं णाणावरणभंगो ।

२६१. आदेसेण गेरङ्गोसु पंचणा०-णवदंसणा० उक्कस्सभंगो । एवरि णियमा  
बं० । तं तु० समजुत्तरमादि कादण याव पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागब्भियं० ।  
वेदणीयस्स उक्कस्सभंगो ।

२६२. मिच्छ० ज०ट्टि० सोलसक०-पुरिस०--हस-रदि--भय-दुगुं० णि० बं० ।

स्थितिका बन्धक होता है । दो गति और दो आनुपूर्विका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

२५९. अस्थिरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरन्त्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । दो गति, दो आनुपूर्विका, उद्योत और सुभग इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अशुभ और अयशःकीर्तिका मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२६०. गोत्रकर्मका भङ्ग वेदनीयके समान है और अन्तराय कर्मका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ।

२६१. आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण और नौ दर्शनावरणका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । वेदनीयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष उत्कृष्टके समान है ।

२६२. मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य,

तं तु० जह० अज० समजुत्तरमादिं कादूण पलिदोवमस्स असंखेज्जभागब्भहियं वं० ।  
एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

२६३. इत्थि० जह०ट्टि०बंधंतो मिच्छ०--सोलसक०--भय--दुगुं० णिय० वं०  
तं तु संखेज्जदिभागब्भहियं० । हस्स--रदि-अरदि-सोग० सिया० संखेज्जदिभागब्भ-  
हियं० । एवं णवुंस० ।

२६४. अरदि० जह०ट्टि०वं० मिच्छ०--सोलसक०--पुरिसवे०--भय-दुगुं० णि०  
वं० संखेज्जदिभागब्भहियं । सोग० णि० वं० । तं तु० । एवं सोग० । आयुगाणं  
उकस्सभंगो ।

२६५. तिरिक्खगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-  
अंगो०-वण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० वं० संखेज्जदिभागब्भहियं० । वस्सं-

रति, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी  
बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका  
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका  
असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर  
सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य  
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे  
जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक  
तक स्थितिका बन्धक होता है ।

२६३. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और  
जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक  
स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, अरति और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता  
है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां  
भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष  
जानना चाहिए ।

२६४. अरतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुष  
वेद, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां  
भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोकका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह  
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि  
अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय  
अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी  
प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । आयुश्रीकी अपेक्षा भङ्ग उत्कृष्टके  
समान है ।

२६५. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर,  
तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अस  
चतुष्क, और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां  
भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । लूह संस्थान, लूह संहनन, दो विहायोगति, और  
स्थिर आदि लूह युगल इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है ।

ठाणं छस्संघडणं दोविहा० थिरादिद्वयुगलं सिया० संखेज्जदिभागब्भ० । तिरि-  
क्खाणु० णि० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं तिरिक्खाणु०--उज्जो० ।

२६६. मणुसगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-  
ओरालि०अंगो०-वज्जरिस०-वरण०४-मणुसाणु०-अणु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरा-  
दिद्व०-णिमि० णि० वं० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेक्कस्स । तं तु० ।

२६७. पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०ओघं । एवरि णियमा मणुसगदिसंजु-  
त्ताओ कादव्वाओ । तासु सेसाओ संखेज्जदिभागब्भहि० ।

२६८. तित्थय० ज०ट्टि०वं० मणुसगदि०पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-सम-

यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वाका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२६६. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभ नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है ।

२६७. पाँच संस्थान, पाँच संहनन और अप्रशस्त विहायोगति इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनको नियमसे मनुष्यगति संयुक्त करना चाहिए । तथा इनमें शेष प्रकृतियोंका अजघन्य स्थितिवन्ध होता है जो संख्यातवां भाग अधिक होता है ।

२६८. तीर्थङ्कर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क,

चदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस०-वरण०४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-  
थिरादिद्ध०-णिमि० णि० बं संखेज्जगुण० ।

२६६. गोदं वेदणीयभंगो । अंतराइगाणं णाणावरणीयभंगो । एवं पढम-  
पुढवीए ।

२७०. विद्याए णाणावरणी०-वेदणी०-आयु-गोद०-अंतराइगाणं णिरयोधं ।  
णिदाणिदाए ज०ट्टि०बं० पचलापचला-थीणगिद्धि० णि० बं० । तं तु० । द्वदंस०  
णि० बं० संखेज्जगु० । एवं पचलापचला-थीणगिद्धि० ।

२७१. णिदा० जह०ट्टि०बं० पंचदंस० णि० बं० । तं तु० । एवमेदाओ एक-  
मेकस्स । तं तु० ।

२७२. मिच्छ० जह०ट्टि०बं० अणंताणुबंधि०४ णि० बं० । तं तु० । बारस क०-

प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक  
होता है जो निममसे अजघन्य संख्यातगुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

२६९. गोत्रकर्मका भङ्ग वेदनीयके समान है और अन्तरायकी प्रकृतियोंका भङ्ग  
ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार प्रथम पृथिवीमें जानना चाहिए ।

२७०. दूसरी पृथिवीमें ज्ञानावरण, वेदनीय, आयु, गोत्र और अन्तराय कर्मकी  
प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक  
जीव प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धि इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य  
स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य  
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे  
लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । छह दर्शनावरणका  
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता  
है । इसी प्रकार प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२७१. निद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच दर्शनावरणका नियमसे बन्धक  
होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी  
बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा  
अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका  
बन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु वह जघन्य  
स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य  
स्थितिका बन्धक होता है तो वह नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे  
लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है ।

२७२. मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे  
बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका  
भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी  
अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थिति-  
का बन्धक होता है । बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका

पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु० । एवं अणंताणुर्वधि०४ ।

२७३. अप्पचक्खाणकोध० ज०ट्टि०वं० एक्कारसकसा०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं० णि० वं० । तं तु० । एवमेदाओ० तं तु० पदिदाओ० एक्कमेक्कस्स । तं तु० ।

२७४. इत्थिवे० ज०ट्टि०वं० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु० णि० वं० संखेज्जगु० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० संखेज्जगु० । एवं एवुंस० ।

२७५. अरदि० ज०ट्टि०वं० वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्ज-भाग० । सोग० णि० वं० । तं तु० । एवं सोग० ।

२७६. तिरिक्खगदि० जह०ट्टिदिवं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरा-लि०अंगो०-वराण०४-अगु०४-तस०४-णि०[णि०]वं० संखेज्जगु० । समचदु०-वज्जरि०-

नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धो चतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२७३. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ग्यारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार 'तं तु' रूपसे प्राप्त इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है ।

२७४. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, अरति और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२७५. अरतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोकका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२७६. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामर्ण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस-चतुष्क और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायो-गति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर और आदेय इनका कदाचित् बन्धक होता है

पसत्थ०-थिरादितिणियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० संखेज्जगु० । पंचसंठा०-  
पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-आणादे० सिया० संखेज्जदिभा० । तिरिक्खाणु०  
णि० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो० ।

२७७. मणुसग० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-  
ओरालि०अंगो०-वज्जरि०--वण्ण० ४-मणुसाणु०-अगु०--पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्व०-  
णि० [णि०] वं० । तं तु० । तित्थ० सिया० । तं तु० । एवं एदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

२७८. णग्गोद० ज०ट्टि०वं० मणुसग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरा-

और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यात-  
गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त  
विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्  
अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक  
स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य  
स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य  
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर  
पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक  
होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी  
बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका  
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका  
असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी  
और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२७७. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक  
शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ  
नाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति,  
त्रसचतुष्क और स्थिर आदि छह इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका  
भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका  
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका  
असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्  
बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका  
भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका  
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर  
पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका  
परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु तब वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता  
है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक  
होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका  
असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है।

२७८. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मनुष्यगति,  
पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण-



लि०अंगो०-वएण०४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थ०--तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-  
णिमि० णि० वं० संखेज्जदिगुण० । वज्जरि०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०  
सिया० संखेज्जदिगुण० । वज्जणारा० सिया० । तं तु० । एवं वज्जणारायणं ।

२७६. चदुसंठा०-चदुसंघ० ज०ट्टि०वं० धुविगाओ मणुसगदीए सह एण्गोद-  
भंगो । याओ सम्मादिट्टिस्स जहण्णगाओ ताओ सिया० एण्गोदभंगो । याओ  
मिच्छादिट्टिस्स जह०पाओग्गाओ ताओ सिया० संखेज्जभागब्भहियं० । एवं  
अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० ।

२८०. अथिर० जह०ट्टि०वं० मणुसएदि सह गदाओ णियमा वं० संखेज्ज-  
भागब्भहियं० । सुभ-जसगित्ति-तित्थय० सिया० संखेज्जभागब्भहियं० । असुभ-  
अजस० सिया० । तं तु० । एवं असुभ-अजसगित्ति० । एवं याव द्दट्टि त्ति ।

चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुहलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, प्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यात-गुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है । वज्रर्षभनाराच संहनन, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अशयःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है । वज्रनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वज्रनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२७९. चार संस्थान और चार संहननकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके ध्रुवबन्ध-वाली प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्यगतिके साथ न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानके समान है । जो प्रकृतियां सम्यग्दृष्टिके जघन्य स्थितिवन्धवाली हैं वे कदाचित् बन्धवाली हैं । तथा इनका भङ्ग न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानके समान है और जो मिथ्यादृष्टिके जघन्य स्थिति बन्धके योग्य हैं उनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२८०. अस्थिर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मनुष्यगतिके साथ बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । शुभ, यशःकीर्ति और तीर्थङ्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे

२८१. सत्तमाए छपगदीओ विदियपुढविभंगो ।

२८२. तिरिक्खग० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचटु०-  
ओरालि०अंगो०-वज्जरिस०-वण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्ध०-णिमि०  
णि० वं० संखेज्जगु० । तिरिक्खाणु० णि० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० ।  
एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो० । मणुसगदिआदि० ज०ट्टि०वं० सम्मादिट्टिपाओग्गाओ  
विदियपुढविभंगो ।

२८३. णग्गोद० ज०ट्टि०वं० तिरिक्खगदि-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-  
ओरालि०अंगो०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-  
आदे०-णिमि० णि० वं० संखेज्जगु० । वज्जरिस०-उज्जो०-थिराथिर-सुमासुभ-जस०  
अजस० सिया० संखेज्जदिगु० । पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-

लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार छठों पृथिवी तक जानना चाहिए ।

२८१. सातवीं पृथिवीमें छह प्रकृतियोंका भङ्ग दूसरी पृथिवीके समान है ।

२८२. तिर्यञ्च गतिको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ नाराच संहनन, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यागुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी और उद्योतकी मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए । मनुष्यगति आदिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके सम्यग्दृष्टि प्रायोग्य प्रकृतियोंका भङ्ग दूसरी पृथिवीके समान है ।

२८३. न्यओध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्च गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यात-गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । वज्रर्षभनाराच संहनन, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक

अणादेज्जाणं एदेणेव विधिणा विदियपुढविभंगो ।

२८४. तिरिक्खेसु पंचणा०-एवदंसणा०--दोवेदणी०--चदुआयु०--दोगोद०--  
पंचंत० गिरयोधं । मिच्छत्त० ज०ट्टि०वं० सोलसक०-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुं०  
णि० वं० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

२८५. इत्थि० ज०ट्टि०वं० मिच्छत्त०-सोलसक०-भय-दुगुं० णि० वं० असंखेज्ज-  
दिभा० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० असंखेज्जदिभा० । एवं एवुंस० ।

२८६. अरदि० ज०ट्टि०वं० मिच्छत्त०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दुगुं० णि०  
वं० असंखेज्जदिभा० । सोग० णि० वं० । तं तु० असंखेज्जदिभागम्महियं वं० ।  
एवं सोग० ।

२८७. गिरयगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-अगु०४-

होता है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर और  
अनादेय इनका इसी विधिसे दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है।

२८४. तिर्यञ्चोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, चार आयु, दो गोत्र  
और पाँच अन्तराय इनका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है। मिथ्यात्वकी जघन्य  
स्थितिका बन्धक जीव सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका  
नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य  
स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघ-  
न्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक  
स्थितिका बन्धक होता है। इस प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी  
अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक  
होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य  
एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक  
होता है।

२८५. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, और  
जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक  
स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रति, अरति और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है  
और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां  
भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नपुंसक वेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष  
जानना चाहिए।

२८६. अरतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद,  
भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग  
अधिक स्थितिका बन्धक होता है। शोकका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह अजघन्य  
असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शोककी मुख्यतः से  
सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२८७. नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति तैजस, शरीर,  
कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, व्रस-

अप्पसत्थ०-तस०४-अधिरादिद्व०-णिमि० णि० वं० संखेज्जगु० । वेउव्वि०-वेउव्वि०  
अंगो० णि० वं० संखेज्जदिभागभहियं० । णिरयाणु०णि० वं० । तं तु० ।  
एवं णिरयाणु० ।

२८८. सेसाओ पगदीओ मूलोघं । एवरि जासिं पगदीणं असंखेज्जगुणभ-  
हियं तासिं पगदीणं थिरभंगो कादव्वो । देवगदिचट्टकं [संखेज्ज] गुणभहियं । जस०  
ज०ट्टि० वं० पंचिदियभंगो ।

२८९. पंचिदियतिरिखेसु ३ सत्तएणं कम्माणं णिरयोघं । णिरयगदि० ज०ट्टि०-  
वं० पंचिदियजा०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-हुंड०-वेउव्वि०अंगो०-वण०४-अगु०४-  
अप्पसत्थ०-तस०४-अधिरादिद्व०-णिमि० णि० वं० संखेज्जदिभागभहियं० ।  
णिरयाणु० णि० वं० । तं तु० । एवं णिरयाणु० ।

चतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अज-  
घन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गो-  
पाङ्गका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका  
बन्धक होता है । नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका  
भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका  
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका  
असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी  
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२९०. शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृ-  
तियोंका असंख्यातगुणा अधिक स्थितिबन्ध है उन प्रकृतियोंका स्थिर प्रकृतिके समान भङ्ग  
जानना चाहिए । देवगतिचतुष्कका भङ्ग संख्यातगुणा अधिक कहना चाहिए । यशःकीर्तिकी  
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय जातिके समान है ।

२९१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चिकमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है ।  
नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस  
शरीर, कामेण शरीर, हुण्ड संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क,  
अप्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक  
होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । नरक-  
गत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है  
और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो  
जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक  
तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यता से सन्निकर्ष  
जानना चाहिए ।

१ मूलप्रती पगदीणं जमगिति आसिं असंखे—इति पाठः ।

२६०. तिरिक्खग० ज०द्वि०बंध० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०  
अंगो०-वण्ण०४-अगु०४-तस०-णिमि० णि० बं० संसंज्जभागब्भ० । छस्संठा०-  
छस्संघ०-दोविहा०-थिरादिच्चयु० सिया० संखेज्जभागब्भ० । तिरिक्खाणु० णि० बं० ।  
तं तु० । एवं तिरिक्खाणु० । [ उज्जोव० सिया० । तं तु० । एवं ] उज्जो० ।

२६१. मणुसग० ज०द्वि०बंध० ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस०-मणु-  
साणु० णि० बं० । तं तु० । सेसाओ पंचिदियाओ पसत्थाओ णियमा बंधदि  
संखेज्जदिभा० । थिरादितिण्णयुग० सिया० संखेज्जभागब्भ० । एवं मणुसगदि० ।

२६२. देवगदि० जह०द्वि०बंध० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-पसत्थट्ठावीसं

२९०. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुल्लधुचतुष्क त्रसचतुष्क और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । छह सस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगत्यानु-पूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीकी मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए । उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२९१. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । शेष पञ्चेन्द्रियजाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंको नियमसे बांधता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगत्यानु-पूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२९२. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर और प्रशस्त अट्टार्हस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय

णि० बं० । तं तु० । एवं एदाओ एकमेकस्स । तं तु० । चदुजादि० ओघं । एवरि याओ णि० बं० संखे०.....णिय० बं० तं तु० । याओ सिया बं० तं तु० ताओ तथा चे० कादन्वा । पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० णिरयोघं ।

२६३. अथिर० ज०ट्टि०बं० देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० बं० संखेज्जदिभाग० । असुभ-अजस० सिया० । तं तु० । सुभग-जसगि० सिया० संखेज्जदिभाग० । एवं असुभ-अजस०.....एवरि एइंदि० विगल्लिंदियसंजुत्ताओ ताओ पंचिदियतिरिक्खभंगो ।

२६४. मणुस०३ सत्तणं कम्माणं मूलोघं । एवरि मोह-इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोगाणं याओ असंखेज्जदिभागब्भहियाओ ताओ संखेज्जभागब्भहियाओ । णिरयगदि-णिरयाणु० ओघं । तिरिक्ख०-मणुसगदि-ओरालिय०-तेजा०-क०-पंचसंठा०-

अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । चार जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि जिनका नियमसे बन्धक होता है उनका संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तथा जिनका कदाचित् 'तं तु' रूपसे बन्धक होता है उनका उसी प्रकार बन्धक होता है । पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य नारकियोंके समान है ।

२६३. अस्थिर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण-चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । सुभग और यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका भी बन्धक होता है । इसी प्रकार अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय सहित इनका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके समान है ।

२६४. मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंका भङ्ग मूलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि मोहनीयके स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोक इनमेंसे जो प्रकृतियां असंख्यातवां भाग अधिक कही हैं उन्हें संख्यातवां भाग अधिक जानना चाहिए । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण

ओरालि० अंगो०-वस्संघ०-वण०४-दोआणु०-अगु०४-आदाउज्जो०-दोविहा०-तस  
थावरादिणवयुगल-अजस०-णिमि० एदाणं णिरयोघं । एवरि जस० ओघभंगो  
कादव्वो । सव्वासि देवगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि० पसत्थाणं णि० वं० संखेज्ज-  
गुणभहियं० । एवरि वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु० णि० वं० । तं तु० ।  
आहार०-आहार०अंगो०-तित्थय० सिया वं० । तं तु० । एवं वेउव्वि०-आहार०-  
दोअंगो०-देवाणु०-तित्थयरं च । मणुसअपज्जत्त० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

२६५. देवेषु एइंदिय-आदाव-थावर० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।  
एवं भवणवासि-वाणवेंतर० । जोदिसिय याव एवगेवज्जा त्ति विदियपुढविभंगो ।  
एवरि जोदिसिय याव सोधम्भीसाण त्ति एइंदिय-आदाव-थावर देवोयं । सणकुमार  
याव सहस्सार त्ति तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु० उज्जो० । उवरि मणुसगदि० आणद  
याव एवगेवज्जा त्ति । अणुदिस याव सव्वट्टा त्ति मणुसग० ज०ट्टि०वं० एवगेवज्ज

शरीर, पांच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरु-  
लघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, प्रस-स्थावर आदि नौ युगल, अयशःकीर्ति  
और निर्माण इनका सन्निकर्ष सामान्य नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यशः-  
कीर्तिका भङ्ग ओघके समान करना चाहिए । उक्त सब मनुष्योंमें देवगतिकी जघन्य स्थिति  
का बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो  
नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इतनी विशेषता है कि  
वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु  
वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ।  
यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय  
अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । आहा-  
रक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और  
कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता  
है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है  
तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां  
भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, आहारक शरीर,  
दो आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।  
मनुष्य अपर्याप्तकोंका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

२९५. देवोंमें एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर इनका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च  
अपर्याप्तकोंके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पहली पृथ्वीके समान है । इसी प्रकार  
भवनवासो और व्यन्तर देवोंके जानना चाहिए । ज्योतिषियोंसे लेकर नौ अवैयक तकके  
देवोंका भङ्ग दूसरी पृथ्वीके समान है । इतनी विशेषता है कि ज्योतिषियोंसे लेकर सौधर्म  
और ऐशान कल्पतकके देवोंमें एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर इन तीन प्रकृतियोंका  
भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । सानकुत्मार कल्पसे लेकर सहस्वार कल्प तक तिर्यञ्चगति,  
तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतका सन्निकर्ष जानना चाहिए । आगे आनत कल्पसे लेकर  
नव अवैयक तक मनुष्यगतिकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए । अनुदिशसे लेकर

पढमदंडओ, अथिरादि विदियदंडओ य ।

२६६. सव्वएइंदियाणं तिरिक्खोघं । सव्वविगल्लिंदियाणं पंचिंदियतिरिक्ख-  
अपज्जत्तभंगो । पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त० सत्तएणं कम्माणं मणुसोघं । णामपग-  
दीणं पंचिंदियतिरिक्खभंगो । आहार०-आहार०अंगो०-जस०-तित्थय० मूलोघं ।

२६७. पुढवि०-आउ०-वणप्फदिपत्तेय० पज्जत्तापज्जत्ता णियोदजीवा वादर-  
सुहुम-पज्जत्तापज्जत्ता मणुसअपज्जत्तभंगो कादव्वो । एवरि असंखेज्जदिभागब्भ-  
हियं० । तेउ०-वाउ०-वादरसुहुम-पज्जत्तापज्जत्त० सो चेव भंगो । एवरि सव्वाणं  
तिरिक्खधुविगाणं कादव्वं ।

२६८. तस-तसपज्जत्ता सत्तएणं कम्माणं मणुसोघं । णामस्स वेउवियइ०-  
आहारदुग-जसगि०-तित्थय० मूलोघं । सेसाणं वेइंदियपज्जत्तभंगो ।

२६९. पंचमण०-तिण्णवचि० णाणावर० वेदणी० आयु० गोद० अंतराइंगं  
च ओघं । णिदाणिदाए ज०ट्टि०वं० पचलापचला-थिणगिद्धि० णि० वं० । तं तु० ।

सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नौ प्रवेयकका  
प्रथम दण्डक और अस्थिर आदिका दूसरा दण्डक जानना चाहिए ।

२९६. सब एकेन्द्रिय जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग जानना चाहिए । सब  
विकलेन्द्रियोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय और  
पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य मनुष्योंके समान है । नामकर्मकी  
प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग, यशः-  
कीर्ति और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मूलोघके समान है ।

२९७. पृथ्वीकायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिक प्रत्येक तथा इनके पर्याप्त  
और अपर्याप्त तथा निर्गोद जीव और इनके वादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त  
जीवोंका भङ्ग मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्या-  
तवां भाग अधिक जानना चाहिए । अग्निकायिक और वायुकायिक तथा वादर और सूक्ष्म  
तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके वही भङ्ग कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि  
सबके तिर्यञ्च ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका कहना चाहिए ।

२९८. त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य मनुष्योंके समान  
है । नामकर्मकी वैकियिक छह, आहारकद्विक, यशःकीर्ति और तीर्थङ्कर प्रकृतियोंका भङ्ग  
मूलोघके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है ।

२९९. पांच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें ज्ञानावरण, वेदनीय, आयु,  
गोत्र और अन्तरायकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । निद्रा निद्राकी जघन्य स्थितिका  
बन्धक जीव प्रचलाप्रचला और स्नानगृद्धिका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य  
स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य  
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे  
लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । निद्रा और  
प्रचलाका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका



णिदा-पचला० णिय० वं० संखेज्जगुण० । चदुदंस० णि० वं० असंखेज्जगु० ।  
एवं थीणगिद्धि०३ ।

३००. णिदाए ज०ट्टि०वं० पचला णिय० वं० । तं तु० । चदुदंस० णि० वं०  
असंखेज्जगु० । एवं पचला० । चदुदंस० ओघं ।

३०१. मिच्छ० ज०ट्टि०वं० अणंताणुबंधि०४ णि० वं० । तं तु० । अट्टकसा०-  
हस्स०-रदि-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु० । चदुसंज०-पुरिस० णि० वं० असंखे-  
ज्जगु० । एवं अणंताणुबंधि०४ ।

३०२. अपच्चक्खाणाकोध० ज०ट्टि०वं० तिण्णिकसा० णि० वं० । तं तु० ।  
पच्चक्खाणा०४-हस्स-रदि-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु० । चदुसंज०-पुरिस०  
णि० वं० असंखेज्जगु० । एवं तिण्णिक० ।

बन्धक होता है। चार दर्शनावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार स्त्यानगुद्धि तीनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३००. निद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचलाका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। चार दर्शनावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार प्रचला प्रकृतिकी मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। चार दर्शनावरणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है।

३०१. मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्कका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। आठ कषाय, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। चार संज्वलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी-चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३०२. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन कषायका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। प्रत्याख्यानावरण चार, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। चार संज्वलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३०३. पञ्चकखाणा०कोध० ज०ट्टि०वं० तिणिएकसा० णि० वं० । तं तु० । चदुसंज०-पुरिस० णि० वं० असंखेज्जगु० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु० । एवं तिणिएकसा० । चदुसंजल०-पुरिस० ओघं ।

३०४. इत्थिवे० ज०ट्टि०वं० मिच्छ०-वारसक०-भय-दुगुं० णि० वं० संखे-ज्जगु० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० संखेज्जगु० । चदुसंज० णि० वं० असं-खेज्ज० । एवं एवुंस० ।

३०५. हस्स० ज०ट्टि०वं० चदुसंज०-पुरिस० णि० वं० असंखेज्जगु० । रदि-भय-दुगुं० णि० वं० । तं तु० । एवं रदि-भय-दुगुं० ।

३०६. अरदि० ज०ट्टि०वं० चदुसंज०-पुरिस० णि० वं० असंखेज्जगु० । भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु० । सोग० णि० । तं तु० । एवं सोग० ।

३०३. प्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन कषायका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । चार संज्वलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है ।

३०४. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, वारहकषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । चार संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसक वेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३०५. हास्यकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार संज्वलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । रति, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है ।

३०६. अरतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार संज्वलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोकका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य

३०७. णिरयग० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-वेउव्वि०अंगो०-  
वण०४-अगु०४-तस०४-अथिर-असुभ-अजस०-णिमि० णि० वं० संखेज्जगुण-  
ब्भहि० । हुंड०-असंपत्त०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णिमि० णि० संखेज्जभागब्भ० ।  
णिरयाणु० णि० वं० । तं तु० । एवं णिरयाणु० ।

३०८. तिरिक्खगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-  
ओरालि०अंगो०-वज्जरिस०-वण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच-णिमि०  
णि० वं० संखेज्जगु० । तिरिक्खाणु० णि० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० ।  
जस० णि० वं० असंखेज्जगु० । एवं तिरिक्खाणु० । एवं तिरिक्खाणु० उज्जो० ।

स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शोक की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३०७. नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तासृपाटिका संहनन, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३०८. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षमनाराच-संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि पांच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम से जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चके समान उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३०६. मणुसग० ज०ट्टि०वं० ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणु-  
साणु० णि० वं० । तं तु० । सेसाओ पसत्थाओ णि० वं० संखेज्जगु० । जसगि०  
णि० वं० असंखेज्जगु० । तित्थय० सिया० संखेज्जगु० । एवं ओरालि०-ओरालि०  
अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० ।

३१०. देवगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०पसत्थपगदीओ णि० वं० । तं तु० ।  
आहारदुग-तित्थय० सिया० । तं तु० । जसगि०-णि० वं० असंखेज्जगुण०भ० ।  
एवमेदाओ एकमेक्कस्स । तं तु० ।

३११. एइंदि० ज०ट्टि०वं० तिरिक्खगदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-वणण०४-  
तिरिक्खाणु०-अगु०४-वाटर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० वं० संखेज्जगु० । हुंढ०-

३०६. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव औदारिक शरीर, औदारिक  
आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु  
वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ।  
यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय  
अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । शेष  
प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक  
स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य  
असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थद्वर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक  
होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य  
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार औदारिक शरीर, औदारिक  
आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना  
चाहिए ।

३१०. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चोन्द्रय जाति आदि प्रशस्त प्रकृ-  
तियोंका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अज-  
घन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे  
जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक  
तक स्थितिका बन्धक होता है । आहारकद्रिक और तीर्थकरका कदाचित् बन्धक होता है  
और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक  
होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक  
होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असं-  
ख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता  
है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार  
इन सबका परस्पर सन्निकर्ष होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और  
अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम  
से जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक  
तक स्थितिका बन्धक होता है ।

३११. एकेन्द्रय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्चगति औदारिक शरीर,  
तैजस शरीर, कामर्ण शरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, वाटर, पर्याप्त

दूभग-अणादे० णि० बं० संखेज्जभाग० । आदाव० सिया० । तं तु० । उज्जो०-  
थिराथिर-सुहासुह-अजस० सिया० संखेज्जगु० । जस० सिया० असंखेज्जगु० ।  
थावर० णि० बं० । तं तु० । एवं आदाव-थावरं ।

३१२. बीईदि० ज०ट्टि०वं० तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०  
अंगो०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० बं० संखेज्जगु० ।  
हुंडसं०-असंपत्त०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० णि० बं० संखेज्जदिभाग० ।  
उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-अजस० सिया० संखेज्जगु० । जस० सिया० असंखेज्जगु० ।  
एवं तीईदि०-चतुरि० ।

प्रत्येक और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। हुण्ड संस्थान, दुर्भग और अनादेयका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। आतपका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। स्थावरका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार आतप और स्थावर प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३१२. इन्द्रियजातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु-चतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्तासुपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३१३. एग्गोद०ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-  
वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० बं० संखेज्ज-  
गुण्णभहियं । तिरिक्खगदि-मणुसगदि-वज्जरिस०-दोआणु०-उज्जो०थिराथिर-सुभा-  
सुभ-अजस० सिया० संखेज्जगु० । जस० सिया० असंखेज्जगु० । वज्जणारा० सिया०  
तंतु० । एवं वज्जणारायणं । एवं चेव सादिय० । एवरि णारायण० सिया०  
तंतु० । वज्जणारा० सिया० संखेज्जभाग० । एवं णारा० ।

३१४. खुज्जसं० ज०ट्टि०वं० एग्गोद०भंगो । एवरि वज्जणारा०  
संखेज्जभाग० । अद्दणारा० सिया० । तंतु० । एवं अद्दणारा० । एवं चेव

३१३. न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, वसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्च-गति, मनुष्यगति, वज्रर्षभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वा, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और त्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । यशः-कीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । वज्रनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वज्रनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार स्वाति संस्थानकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि नाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । वज्रनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अर्धनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३१४. कुब्जक संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानके समान है । इतनी विशेषता है कि वज्रनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । अर्धनाराच संहननका कदा-चित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अर्धनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार वामन

वामणसंठा० । एवरि वज्जणारा०-णाराय०-अद्धणाराय० सिया० बं० संखेज्ज-  
भाग० । खीलिय० सिया० बं० । तं तु० । एवं खीलिय० । हुंड० ज०ट्टि०बं०  
एण्णोदभंगो । एवरि चदुसंघ० सिया० बं० संखेज्जभाग० । असंपत्त० सिया० ।  
तं तु० । जस० सिया० असंखेज्जगु० । एवं असंपत्त० ।

३१५. अप्पसत्थ० ज०ट्टि०बं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०--क०--ओरालि०  
अंगो०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० बं० संखेज्जगु० । तिरिक्खगदि-  
मणुसगदि०-समचदु०-वज्जरिस०-दोआणु०-उज्जो०-थिरादि०४-सुभग-सुस्सर--आदे०  
अजस० सिया० संखेज्जगु० । पंचसंठा०-पंचसंघ० सिया० संखेज्जभा० । दूभग-

संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वज्जनाराच  
संहनन, नाराच संहनन और अर्ध नाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदा-  
चित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवाँ भाग अधिक  
स्थितिका बन्धक होता है । कीलक संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्  
अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और  
अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो  
नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग  
अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार कीलकसंहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष  
जानना चाहिए । हुण्ड संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका सन्निकर्ष न्यग्रोध  
परिमण्डल संस्थानके समान है । इतनी विशेषता है कि चार संहननका कदाचित् बन्धक  
होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य  
संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । असम्प्राप्तासृपाटिका संहननका  
कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो  
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि  
अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय  
अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशः-  
कीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता  
है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार  
असम्प्राप्तासृपाटिका संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३१५. अप्रशस्त विहायोगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति,  
औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-  
चतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य  
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्जगति, मनुष्यगति, समचतुरन्ध संस्थान,  
वज्रर्षभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर आदि चार, सुभग, सुस्वर, आदेय  
और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि  
बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । पांच  
संस्थान और पांच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता  
है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक  
होता है । दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्

दुस्सर-अणादे० सिया० । तं तु० । जस० सिया० असंखेज्जगु० । एवं दूभग-  
दुस्सर-अणादे० ।

३१६. सुहुम० ज०ट्टि०वं० तिरिक्खगदि-ओरालि०-तेजा०-क०-वण०४-  
तिरिक्खाणु०-अगु०४-पज्जत्त-पत्ते०-अजस०-णिमि० णि० वं० संखेज्जगु० । एइंदि०-  
हुंड०-थावर-दूभग-अणादे० णि० वं० संखेज्जभा० । थिराथिर-सुभासुभ० सिया०  
संखेज्जगु० । एवं साधारणं ।

३१७. अपज्जत्त० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०'-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०  
अंगो०-वण०४-अगु०-उप०-तस-वादर-पत्ते०-अथिर-असुभ-अजस०-णिमि० णि०  
वं० संखेज्जगु० । दोगदि-दोआणु० सिया० संखेज्जगु० । हुंड०-असंपत्त०-दूभग-  
अणादे० णि० वं० संखेज्जदिभाग० ।

अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और  
अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो  
नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग  
अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदा-  
चित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक  
स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष  
जानना चाहिए।

३१६. सूक्ष्मकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक, शरीर, तैजस  
शरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक,  
अयशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यात-  
गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, स्थावर, दुर्भग  
और अनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग  
अधिक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ इनका कदाचित्  
बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे  
अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार साधारण प्रकृतिकी  
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३१७. अपर्याप्तकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रियजाति औदारिक शरीर, तैजस  
शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, व्रम, वादर,  
प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियम  
से अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। दोगति और दो आनुपूर्वीका  
कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो  
नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। हुण्डसंस्थान,  
असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, दुर्भग और अनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है। जो  
नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है।



३१८. अथिर० ज०ट्टि०वं० देवगदि०पंचिदि०वेउव्वि०-तेजा०--क०-समचदु०-  
वेउव्वि०अंगो०-वण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थवि०--तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-  
णिमि० णि० वं० संखेज्ज० । सुभ-तित्थय० सिया० संखेज्जगु० । असुभ-अजस०  
सिया० । तं तु० । जस० सिया० असंखेज्जगु० । एसिं जसगिती भणिदा तेसिं  
असंखेज्जगुणं कादव्वं । एवं असुभ-अजसगिती ।

३१९. वचिजोगि-असच्चमोसवचिजोगीमु तसपज्जत्तभंगो । कायजोगि-ओरालि  
यकायजोगी० ओघं । ओरालियमिस्से एइंदियभंगो । एवरि देवगदि ज०ट्टि०वं०  
पंचिदि०-तेजा०-क०--समचदु०-वण०४-अगु०४-पसत्थवि०--तस०४-थिरादि०-  
णिमि० णि० संखेज्जगुण० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु० णिय० वं० ।  
तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवं वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु०-तित्थय० ।

३१८. अस्थिरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। शुभ और तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। जिनके यशःकीर्ति प्रकृति कही है उनके असंख्यातगुणी करना चाहिए। इसी प्रकार अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३१९. वचनयोगी और असत्यमृपावचनयोगी जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है। काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंका भङ्ग ओघके समान है। औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थकरका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता

३२०. वेउन्वियकायजोगी० सत्तएणं कम्माणं सोधम्मभंगो । तिरिकखगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचटु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-वएण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्व०-णिमि० णि० वं० संखेज्जगु० । तिरिकखाणु० णि० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं तिरिकखाणु०-उज्जो० । मणुसगदी० सोधम्मभंगो । एइंदिय-आदाव-थावर० सोधम्मभंगो ।

३२१. एण्णोद० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि० अंगो०-वएण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० वं० संखेज्जगु० । दोगदि-वजरि०-दोआणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०

है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थकर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३२०. वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थिति का बन्धक होता है । तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक हाता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । मनुष्य गतिका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर इनकी अपेक्षा सन्निकर्ष सौधर्म कल्पके समान है ।

३२१. न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । दोगति, वज्रर्षभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, आस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । वज्रनाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक

सिया० संखेज्जगु० । वज्जणारा० सिया० । तं तु० । [ एवं ] वज्जणा० । एवं चेव सादिय० । एवरि एणायण० सिया० । तं तु० । वज्जणारा० सिया० संखेज्ज-  
भागब्भ० । एवं एणारा० । खुज्ज० ज०ट्टि०वं० एण्णोदभंगो । एवरि वज्जणारा०  
सिया० संखेज्जभागब्भ० । अद्धणारा० सिया० । तं तु० । एवं अद्धणारा० ।  
वामण० ज०ट्टि०वं० एण्णोदभंगो । एवरि खीलिय० सिया० । तं तु० । एवं  
खीलिय० । सेसाणं सोधम्मभंगो । एवं वेउव्वियमिस्से । एवरि तिखिखगदि-तिरि-  
क्खाणु०-उज्जोव० सिया० संखेज्जभाग० ।

होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमको जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वज्रनाराचसंहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार स्वाति संस्थानकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि नाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । वज्रनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्ध होता है । इसीप्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । कुञ्जकसंस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवकी मुख्यतासे सन्निकर्ष न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान है । इतनी विशेषता है कि वज्रनाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । अर्धनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियम से जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसीप्रकार अर्धनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । वामन संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवकी मुख्यतासे सन्निकर्ष न्यग्रोध परिमण्डलसंस्थानके समान है । इतनी विशेषता है कि कीलक संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार कीलक संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष कर्मोंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । इसी प्रकार वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

३२२. आहार०--आहारमिस्स० सव्वट्ठभंगो णाम वज्ज । एवरि देवगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०--वेउव्वि०--तेजा०--क०--समचटु०--वेउव्वि०अंगो०--वण्ण०४-- देवाणु०--अणु०४--पसत्थ०--तस०४--धिरादिद्ध०--णिमि० णि० वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

३२३. अथिर० ज०ट्टि०वं० सुभ--जसगित्ति--तित्थय० सिया० संखेज्जभा- गब्भ० । असुभ--अजस० सिया० वं० । तं तु० । सेसं णि० वं० संखेज्जभागब्भ- हियं० । एवं असुभ-अजस० ।

३२४. कम्मङ्गका० ओरालियमिस्सभंगो । एवरि तित्थय० ज०ट्टि०वं० मणु-

३२०. आहारक काययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंका भङ्ग सर्वार्थसिद्धि के समान है। किन्तु नामकर्मकी प्रकृतियोंको छोड़कर यह कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देव- गन्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

३२३. अस्थिर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव शुभ, यशःकीर्ति और तीर्थकर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार अशुभ और अयशःकीर्ति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३२४ कर्मण काययोगी जीवोंमें भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तीर्थकर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मनुष्य गतिकी कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो

सगदि० सिया० संखेज्जगु० । देवगदि० ४ सिया० । तं तु० ।

३२५. इत्थिवे०-पुरिसवेदेसु सत्तएणं कम्मएणं पंचिदियभंगो । एवरि कोध-संज० ज०ट्टि०वं० तिण्णसंज० णि० वं० णि० जहएणा० । एवं तिण्णसंजल-एणां ।

३२६. एवुंसगे मोहणी० इत्थिवेदभंगो । सेसं ओघं । अवगदवेदे ओघं । कोधादि०४ ओघं । एवरि विसेसो, कोधे कोधसंज० [ज०ट्टि०वं०] तिण्णसंज० णि० वं० णि० जहएणा० । एवं तिण्णसंजलएणां । माणे माणसंज० ज०ट्टि०वं० दोएणं संजल० णि० वं० णि० जहएणा० । एवं दोएणं संजलएणां । मायाए माया-संज० ज०ट्टि०वं लोभसंज० णि० वं० णि० जहएणा० । एवं लोभसंजल० । लोभे ओघं चेव ।

३२७. मदि०-सुद० तिरिकवोघं । विभंगे सत्तएणं कम्मएणं णिरयोघं । णिरयग० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-वेउन्वि०-अंगो०-वएण०४-अगु०४-तस०४-

नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । देवगति चतुष्कका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है ।

३२५. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि क्रोध संज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन संज्वलनोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तीन संज्वलनोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३२६. नपुंसकवेदी जीवोंमें मोहनीयका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । तथा शेष कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान है । क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें ओघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायवाले जीवोंमें क्रोध संज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन संज्वलनोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तीन संज्वलनोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । मानकषायवाले जीवोंमें मान संज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव दो संज्वलनोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार दो संज्वलनोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । माया कषायवाले जीवोंमें माया संज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव लोभ संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसीप्रकार लोभ संज्वलनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । लोभकषायवाले जीवोंमें सन्निकर्ष ओघके समान ही है ।

३२७. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें सन्निकर्ष सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । विभङ्गज्ञानमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माण इनका

णिमि० णि० बं० संखेज्जगु० । हुंड०-अप्पसत्थ०-अथिरादिद्ध० णि० बं० संखेज्ज-  
भाग० । णिरयाणु० णि० बं० । तं तु० । एवं णिरयाणु० । तिरिक्खगदि० ज०  
ट्टि०बं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वणण०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरा-  
दिद्ध०-णिमि० णि० संखेज्जगु० । ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-तिरिक्खाणु० णि०बं० ।  
तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो० ।

३२८. मणुसग० ज०ट्टि०बं० ओरालि०--ओरालि०अंगो०--वज्जरि०-मणुसाणु०  
णि० बं० । तं तु० । सेसं तिरिक्खगदिभंगो । एवं ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-

नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हुण्डसंस्थान, अप्रशस्तविहायोगति और अस्थिर आदि छह इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसीप्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसीप्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३२८. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । इसीप्रकार औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, दो गति, दो आनुपूर्वी और उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्

मणुसाणु० । एवरि ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस०-दोगदि-दोआणु०-उज्जो०  
सिया० । तं तु० ।

३२६. देवगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-सादि-पसत्थट्टावीसं णिय० ।  
तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० । चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्प-  
सत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० मणजोगिभंगो । एवरि जसगि० ज० संखेज्जगुण०भ० ।

३३०. आभिणि०-सुद०-ओधि० मण० भंगो । एवरि मिच्छत्तपगदि वज्ज । मणु-  
सगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अणु०४-पसत्थ०-  
तस०४-थिरादिपंच-णिमि० णि० वं० संखेज्जगुण०भ० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-  
वज्जरि०-मणुसाणु० णि० वं० । तं तु० । जस० णि० वं० असंखेज्जगु० । तित्थय०

अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और  
अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो  
नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग  
अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है ।

३२६. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, स्वातिसंस्थान  
प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी  
बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका  
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका  
असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्ध होता है । इसीप्रकार इन सब प्रकृतियोंका  
परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है  
और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है  
तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां  
भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । चार जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन,  
अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय इनका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान  
है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो अजघन्य संख्यात-  
गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

३३०. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी  
जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व प्रकृतिको छोड़कर सन्निकर्ष कहना  
चाहिए । मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर,  
कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस-  
चतुष्क, स्थिर आदि पाँच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य  
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग,  
वज्रर्षभ नाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह  
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि  
अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय  
अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशः-  
कीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका  
बन्धक होता है । तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक

सिया० संखेज्जगु० । एवं मणुसगदिपंचगस्स ।

३३१. देवगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०--पसत्थद्वावीसं णि० वं० । तं तु० । एवरि जस० णि० वं० असंखेज्जगु० । आहार०-आहार०अंगो०-तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

३३२. अथिर० ज०ट्टि०वं० देवगदि-पंचिदि०--वेउव्वि०-तेजा०--क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-वणण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-मुस्सर-आदे०-णि० णि० वं० संखेज्जगु० । सुभ०-तित्थय० सिया० संखे०गु० । जस० सिया० असंखे-ज्जगु० । असुभ-अजस० सिया० । तं तु० । एवं असुभ-अजस० ।

होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगति पञ्चककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३३१. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थिति का भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसीप्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है ।

३३२. अस्थिरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, प्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । शुभ और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ



३३३. मणपज्जव०-संजद-सामाइ०-छेदो० ओधिभंगो । एवरि असंजद-संजदा-संजदपगदीओ वज्ज । परिहार० आहारकायजोगिभंगो । एवरि अरदि० ज०द्वि०वं० सोग० णि० वं० । तं तु० । सेसं संखेज्जगु० । एवं सोग० ।

३३४. अधिर० ज०द्वि०वं० देवगदि-पंचिदि०-वंउन्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउन्वि०-अंगो०--वण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०--तस०-४-सुभग-सुस्सर--आदे०-णिमि० संखेज्जगु० । सुभ-जस०--तित्थय० सिया० संखेज्जगु० । असुभ-अजस० सिया० । तं तु० । एवं असुभ-अजस० ।

३३५. मुहुमसंप० ओघं । संजदासंजदे परिहारभंगो । एवरि मोह० अट्टकसा०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं० एदाओ एकमेकस्स । तं तु० । अरदि० ज०द्वि०वं० अट्ट-भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३३३. मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि असंयत और संयतासंयतकी प्रकृतियोंको छोड़कर जानना चाहिए। परिहारविशुद्धि संयतोंका भङ्ग आहारकाययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अरतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव शोकका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शोकको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३३४. अस्थिरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। शुभ, यशःकीर्ति और तीर्थकर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३३५. सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंका भङ्ग ओघसे समान है। संयतासंमत जीवों का भङ्ग परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि मोहनीयकी आठ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका परस्पर सन्निकर्ष होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। अरतिकी

कसा०-पुरिस०-भय-दुगुं० णि० संखेज्जगु० । सोग० णियमा वं० । तं तु० । एवं सोग० ।

३३६. असंजद० तिरिक्खोघं । एवरि तित्थय० ओघं । एवरि जस० णि वं० संखेज्जगु० ।

३३७. चक्खुदंस० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० मूलोघं । ओधिदंस० ओधि-  
णाणिभंगो ।

३३८. किएण-णील-काऊणं असंजदभंगो । एवरि किएण-णीलाणं नित्थयरं देवगदिसह कादव्वो । काउए पढमपुढविभंगो । तेऊए छएणं कम्माणं सोधम्मभंगो । मिच्छ० ज०ट्टि०वं० अणंताणु-बंधि०४ णि० वं० । तं तु० । वारसकसा०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु० । एवं अणंताणुबंधि०४ ।

३३९. अपच्चक्खाणकोध० ज०ट्टि०वं० तिणिकसा० णि वं० । तं तु० ।

जघन्य स्थितिका बन्धक जीव आठ कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। शोक का नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३३६. असंयत जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका नियम से बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

३३७. चक्षुदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग त्रसपर्याप्त जीवोंके समान है। अचक्षुदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग मूलोघके समान है। अवधिदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है।

३३८. कृष्ण, नील, और कापोत लेश्यावाले जीवोंका भङ्ग असंयत जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यावाले जीवोंके तीर्थकर प्रकृति देवगति सहित करनी चाहिए। कापोत लेश्यामें तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग पहली पृथ्वीके समान है। पीत लेश्यामें छह कर्मोंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है। मिथ्यात्वको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। वारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३३९. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन कषायका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे

अट्टक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु० । एवं तिण्णकसा० ।

३४०. पच्चक्खाणकोध० ज०ट्टि०वं० तिण्णक० णि० वं० । तं तु० । चदु-  
संज०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु० । एवं तिण्णकसा० ।

३४१. कोधसंज० ज०ट्टि०वं० तिण्णसंज०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०  
णि० वं० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

३४२. इत्थि० ज०ट्टि०वं० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्ज-  
गुण०भहियं० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० संखेज्जगु० । एवं एवुंस० ।

३४३. अरदि० ज०ट्टि०वं० चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं० णि० वं० संखे-

जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। आठ कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार तीन कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३४०. प्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन कपायोंका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार तीन कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३४१. क्रोध सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

३४२. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रति, अरति और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३४३. अरतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी

जगु० । सोग० णि० वं० । तं तु० । एवं सोग० ।

३४४. तिरिक्खगदि--एइंदि०--पंचसंठा०--पंचसंघ०--तिरिक्खाणु०--आदाउजो०--अप्पसत्थ०--थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे० सोधम्मभंगो । मणुसगदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०--तेजा०-क०--समचदु०--वण०४--अगु०४--पसत्थवि०--तस४--थिरादि छ०-णिमि० णि० वं० संखेज्जगुण०भहियं० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० णि० वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० संखेज्जगु० । एवं ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० ।

३४५. देवगदि० ज०ट्टि०वं० परिहार-पढमदंडओ कादव्वो । अथिरं पि तस्सेव विदिय-दंडओ । एवं पम्माए ।

३४६. सुक्काए सत्तएणं कम्माणं मणजोगिभंगो । मणुसगदि-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० पम्माए भंगो । एवरि जस० णि० वं०

अधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोकका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३४४. तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३४५. देवगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके परिहारविशुद्धिसंयतका प्रथम दण्डक करना चाहिए और अस्थिर प्रकृति भी कहनी चाहिए । तथा उसीके दूसरा दण्डक कहना चाहिए । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए ।

३४६. शुक्ललेश्यामें सात कर्मोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका भङ्ग पद्मलेश्याके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है

असंखेज्जगु० । पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० आणदभंगो । वज्जरि०-जस० सिया वं० संखेज्जगु० । सेसं पम्माए भंगो । एवरि जसगिच्छि० असंखेज्जगु० ।

३४७. भवसिद्धिया० आंधं । अम्भवसिद्धिया० मदिभंगो । सम्मादि०-खइग-सम्मादि० आधिभंगो । वेदगसम्मादि० पम्मभंगो । एवरि मिच्छ०पगदीओ वज्ज । सासणे सत्तएणं कम्माणं एणरोधं । एवरि मिच्छत्त-एवुंसग० वज्ज । तिरिक्ख-गदि० ज०ट्टि०वं० पंचिदि०--आरालि०--तेजा०--क०-समचदु०--आरालि०अंगो०-वज्जरि०--वएण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्ध०-एणमि० एि० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो० ।

३४८. मणुसगदि० ज०ट्टि०वं० तिरिक्खगदिभंगो । एवरि [मिच्छत्त-एवुंस

जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर और अनादेय इनका भङ्ग आनत कल्पके समान है। वज्रर्पभनाराच संहनन और यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चलेश्याके समान है। इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिकी असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

३४७. भव्य जीवोंका भङ्ग ओघके समान है। अभव्य जीवोंका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान है। सम्यग्दृष्टि और क्षात्रिक सम्यग्दृष्टि जीवोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंका भङ्ग पञ्चलेश्यावाले जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व सम्बन्धी प्रकृतियोंको छोड़कर कहना चाहिए। सासादन सम्यक्त्वमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुंसक वेदको छोड़कर कहना चाहिए। तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३४८. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुंसकवेदको छोड़कर कहना चाहिए। देव-गतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता

स०] वज्ज । देवगदि० ज०ट्टि०वं० पसत्थट्ठावीसं णिय० । तं तु० ।

३४६. पंचिदि० ज०ट्टि०वं० तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगु०४-पसत्थ०-  
तस०४-थिरादिद्व०-णिमि० णि० वं० । तं तु० । तिण्णगदि-दोसरीर-दोअंगो०-  
वज्जरि०-तिण्णआणु०-उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं तेजा०-क०-समचदु०-  
वएण०४-अगु०४-पसत्थवि०--तस०४-थिरादिद्व०--णिमि० । एवं ओरालि०-  
ओरालि०अंगो०-वज्जरि० । एवरि दोगदि-दोआणु०-उज्जो० सिया० । तं तु० ।  
सेसं पसत्थ [प-]गदीओ णि० वं० । तं तु० । चदुसंठा०-चदुसंघ०--अप्पसत्थ०-  
दूमग-दुस्सर-अणादे० मणजोगिभंगो । एवरि थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०

हे । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है ।

३४९. पञ्चेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । तीन गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभनाराच संहनन, तीन आनुपूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ! यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रपभनाराचसंहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि दो गति, दो आनुपूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । चार संस्थान, चार संहनन, अत्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति इन तीन युगलोंका कदाचित् बन्धक

तिरिण वि सिया० संखेज्जदिभा० ।

३५०. सम्मामिच्छ० वेदगभंगो । मिच्छादिद्वी० मदिभंगो । सण्ण० मणुस-भंगो । असण्ण० तिरिक्खोघं । आहार० ओघं । अणाहार० कम्मङ्गभंगो ।

३५१. जहणणपरत्थाण-सण्णयासो दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० आभिण्णिबो०णाणावरणीयस्स जहणणयं द्विदि वंधंतो चदुणाणा०-चदुदंसणा०-सादा०-जस०-उच्चा०-पंचंतरा० णिय० वं० । णिय० जहणणा० । एवमेदाओ एक-मेक्कस्स । तं तु० जहणणा० ।

३५२. णिदाण्णिदाए ज०द्वि०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-पंचंतरा० णि० वं० । णि० अजह० असंखेज्जगु० । चदुदंस०-भिच्छ०-वारसक०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-पंचिदि०--ओरालि०-तेजा०-क०--समचदु०-ओरालि० अंगो०-वज्जरि०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०--तस०४-थिरादिपंच-णिमि० णि०वं० । तं तु० । दोगदि-दोआणु०-उज्जो०-णीचा० सिया० । तं तु० । उच्चा० सिया०

होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

३५०. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका भङ्ग वेदकसम्यग्दृष्टियोंके समान है और मिथ्या-दृष्टि जीवोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । संब्धी जीवोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है और असंब्धी जीवोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । आहारक जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । तथा अनाहारक जीवोंका भङ्ग कर्मणकाययोगी जीवोंके समान है ।

इस प्रकार जघन्य स्वस्थानसन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

३५१. जघन्य परस्थानसन्निकर्ष दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शना-वरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु वह जघन्य स्थितिका ही बन्धक होता है ।

३५२. निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, चार दर्शना-वरण, सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । चार दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, व्रस चतुष्क, स्थिर आदि पाँच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । दो गति, दो आनुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और

असंखेज्जगु० । एवं णिदाणिदाए भंगो चदुदंस०-मिच्छ०-वारसक०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०--तिरिक्खगदि--मणुसगदि-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-वण०४-दोआणु०-अगु०४-उज्जो०-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिपंच-णिमि०-णीचागोद ति ।

३५३. असादा० ज०ट्टि० बंधंतो खवगपगदीओ णिदाणिदाए भंगो । पंच-दंसणा०-मिच्छ०-वारसक०-भय-दुगुं०--पंचिदि०-ओरालि०--तेजा०--क०--समचदु०-ओरालि०-अंगो०--वज्जरि०-वण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग०-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि०बं०संखेज्जभाग० । हस्स-रदि-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-दोआणु०-उज्जो०-थिर-सुभ-णीचा० सिया० असंखेज्जभाग० । अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० सिया० । तं तु० । जस०--उच्चा० सिया० असंखेज्जगु० । एवं अरदि--सोग--अथिर-असुभ-अजस० ।

अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उच्चगोत्रका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार निद्रानिद्राके समान चार दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि पांच, निर्माण और नीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३५३. असाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग निद्रानिद्राके समान है । पांच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त-विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, शुभ और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्ति और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यात-गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।



३५४. कोधसंज्ञ० ज०द्वि०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादावे०-तिणिसंज्ञ०-जस०-उच्चा०-पंचंत० णिय० वं० संखेज्जगु० । एवं तिणिसंज्ञ०-पुरिस० । एवरि माणे दोसंज्ञलणं मायाए लोभसंज्ञ० पुरिस० चदुसंज्ञलणं ति भाणिएद्वं । लोभे एत्थि संज्ञल०-पुरिस० ।

३५५. इत्थि० ज०द्वि०वं० खवगपगदीओ णिदाणिएदाए भंगो । पंचदंस० मिच्छ०-वारसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण०-४ अगु०-४ पसत्थ०-तस०-४ सुभग-मुस्सर-आदे०-णिमि० णि० वं० असंखेज्जभाग० । सादा०-जस०-उच्चा० सिया० असंखेज्जगु० । असादा०-अरदि-सोग-तिरिक्ख०-मणुसग०-तिणिसंज्ञा०-तिणिसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-अजस०-णीचा०-सिया० असंखेज्जभाग० । एवं एवुंस० । एवरि पंचसंज्ञा०-पंचसंघ०-णिरयाणु० ज०द्वि०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज्ञ०-पंचंत० णि० वं० असंखेज्जगु० । पंचदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-वारसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-चदुवीसणा०-मपगदीओ-णीचा० णि० वं० संखेज्जगु० । णिरयग०-वेउव्वि०-

३५४. क्रोध सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, तीन सञ्ज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तीन सञ्ज्वलन और पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मानमें दो सञ्ज्वलन, मायामें लोभ सञ्ज्वलन और पुरुषवेदमें चार सञ्ज्वलन कहना चाहिए। लोभमें सञ्ज्वलन और पुरुषवेदका सन्निकर्ष नहीं होता।

३५५. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग निद्रानिद्राके समान है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। असातावेदनीय, अरति, शोक, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, तीन संस्थान, तीन संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ अयशःकीर्ति और नीच गोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नपुंसक वेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँच संस्थान, पाँच संहनन और नरकगत्यानुपूर्वीकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार सञ्ज्वलन और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पाँच दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, चौबीस नामकर्मकी प्रकृतियाँ और नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

वेउव्वि०अंगो०-णिरयाणु० णि० वं० णि० अज० । जह० अज० विट्ठाणपदिदाणं  
बंधदि संखेज्जभाग० संखेज्जगु० ।

३५६. तिरिक्खायु० ज०ट्टि०वं० खवगपगदीओ णि० वं० असंखेज्जगु० ।  
पंचदंस०-भिच्छ०-वारसक०-एवुंस०-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि० अपज्जत्तसंजुत्ताओ  
पगदीओ एीचा० णि० वं० । णि० अज० । जह० अज० विट्ठाणपदिदं असंखेज्ज-  
भाग० संखेज्जगु० । सादावे० सिया० असंखेज्जगु० । असादा०-हस्स-रदि-अरदि-  
सोग-पंचजादि-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-तस-थावर-वादर-सुहुम-पत्तेय-साधार०  
सिया० । यदि०<sup>१</sup> वं० णि० अज० विट्ठाणपदिदं असंखेज्जभा० संखेज्जगु० । एवं  
मणुसायु० । एवरि एइंदियसंजुत्ताओ वज्ज ।

३५७. देवायु० ज०ट्टि०वं० खवगपगदीओ णि० वं० असंखेज्जगु० । पंच-  
दंस०-मिच्छ०-वारसक०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-पसत्थणामाओ चदुवीसं णि० वं०  
संखेज्जगु० । इत्थि० सिया० संखेज्जगु० । पुरिस० सिया० असंखेज्जगु० । देवगदि-

नरकगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे  
बन्धक होता है जो जघन्यको अपेक्षा अजघन्य नियमसे दो स्थान पतित स्थितियोंका बन्धक  
होता है। या तो संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है या संख्यातगुणी  
अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

३५६. तिर्यञ्चायुको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव लपक प्रकृतियोंका नियमसे  
बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक  
होता है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा,  
तिर्यञ्चगति, अपर्याप्तसंयुक्त प्रकृतियाँ और नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो  
नियमसे अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य दो स्थान  
पतित स्थितिका बन्धक होता है, या तो असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक  
होता है या संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीयका कदाचित्  
बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे असं-  
ख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक,  
पाँच जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म,  
प्रत्येक और साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है।  
यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य दो स्थानपतित स्थितिका बन्धक होता है। या  
तो असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है या संख्यातगुणी अधिक स्थितिका  
बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यायुको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी  
विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति संयुक्त प्रकृतियोंको छोड़कर जानना चाहिए।

३५७. देवायुको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव लपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक  
होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पाँच  
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा और नामकर्मकी चौबीस  
प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक  
स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रीवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता  
है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता

१. मूलप्रती यदि० णि० वं० णि० इति पाठः ।

वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो०-देवाणु० णि० वं०, णि० अज० विट्ठाणपदिदं संखेज्जभा० संखेज्जगु० ।

३५८. णिरयग० ज०ट्टि०वं० खवगपगदीओ [ णिय० वं० ] असंखेज्जगु० । पंचदंस०--असादा०--मिच्छ०--वारसक०--णवुंस०--अरदि--सो०--भय-दुगुं०--णाम० सत्थाणभंगो णीचा० णि० वं०' संखेज्जगु० । णिरयाणु० णि० वं० । तं तु० । एवं णिरयाणु० ।

३५९. तिरिक्खग० ज०ट्टि०वं० खवगपगदीओ असंखेज्जगु० । पंचदंस०-मिच्छ०-वारसक०--हस्स--रदि-भय-दुगुं०-णाम० सत्थाणभंगो णीचा० णि० वं० । तं तु० । एवं तिरिक्खाणु०--उज्जो० । मणुसगदि० तिरिक्खगदिभंगो । णवरि उच्चा० णि० वं० असंखेज्जगु०<sup>१</sup> ।

है । पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य दो स्थानपतित स्थितिका बन्धक होता है । या तो संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है या संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

३५८. नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव क्षपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । पाँच दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्वस्थान भंगके समान नामकर्मकी प्रकृतियाँ और नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३५९. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव क्षपकप्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, स्वस्थान भङ्गके समान नामकर्मकी प्रकृतियाँ और नीच गोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । मनुष्यगतिका भङ्ग तिर्यञ्च-गतिके समान है । इतनी विशेषता है कि उच्च गोत्रका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

१. मूलप्रतौ वं० असंखेज्ज० इति पाठः । २. मूलप्रतौ असंखेज्जगु० देवगदि० असंखेज्जगु० देवगदि० इति पाठः ।

३६०. देवगदि० ज०ट्टि०वं० खवगपगदीओ [ णि० वं० ] असंखेज्जगु० । पंचदंस०-मिच्छ०-वारसक०-चदुणो० णिय० संखेज्जगु० । णाम सत्थाणभंगो ।

३६१. ईदि०-ज०ट्टि०वं० खव०पगदीओ णि० वं० असंखेज्जगु० । पंचदंस०-मिच्छ०-वारसक०-एवुंस०-भय-दुगुं०-णीचा० णि० वं० असंखेज्जभा० । सादा० सिया० असंखेज्जगु० । असादा०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० असंखेज्जभा० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं आदाव-थावर० । एवं वीईदि०-तीईं०-चदुरि० ।

३६२. आहार० ज०ट्टि०वं० खवगपगदीणं णि० वं० असंखेज्जगु० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं आहार०अंगो० तित्थय० ।

३६३. एगगोद० ज०ट्टि०वं० खवगपगदीओ णि० वं० असंखेज्जगु० । पंच-दंस०-मिच्छ०-वारसक०-भय-दुगुं० णि० वं० असंखेज्जभा० । सादा० सिया०

३६०. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव क्षपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय और चार नोकपाय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भंग स्वस्थानके समान है ।

३६१. एकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव क्षपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा और नीच गोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीयका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार आतप और स्थावर प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३६२. आहारक शरीरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव क्षपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भंग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थकर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३६३. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव क्षपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्सा

असंखेज्जगु० । हस्स-रदि--अरदि--सोग-णीचा० सिया० असंखेज्जभा० । एणाम०  
सत्थाणभंगो । एवं चदुदंस०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० एणगोदभंगो ।  
एवरि खुज्ज०-वामण०-अद्दणारा०-खीलिय०-इत्थिवे० सिया० असंखेज्जभा० ।  
पुरिस० सिया० असंखेज्जगु० ।

३६४. हुंड०-असंपत्त० ज०ट्टि०वं० इत्थि०-एणुंस० सिया० असंखेज्जगु० ।  
एवं अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-तिरणवेदाणि भाणिदव्वाणि । मुहुम-साधा-  
रण० एइंदियभंगो । एवरि सगपगदीओ जाणिदव्वाओ । एवं सव्वेसिं एणामाणं ।  
एवरि अप्पप्पणो सत्थाणं कादव्वं ।

३६५. आदेसेण एरइएसु आभिणिवोधि० ज०ट्टि०वं० चदुणा०-एणदंसणा०-  
सादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदि०-  
ओरालि०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-वणण० ४-मणुसाणु०-अगु० ४-

इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीयका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, अरति, शोक और नीचगोत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानके समान चार दर्शनावरण पाँच संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुञ्जकसंस्थान, वामन संस्थान, अर्धनाराच संहनन, कीलक संहनन और स्त्रीवेद इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

३६४. हुण्डसंस्थान और असम्प्राप्तासृपाटिका संहननकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इस प्रकार अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और तीन वेदोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । सूक्ष्म और साधारण प्रकृतियोंका भङ्ग एकेन्द्रिय जातिके समान है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियाँ जाननी चाहिए । इसी प्रकार सब नामकर्मकी प्रकृतियोंका जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्वस्थान करना चाहिए ।

३६५. आदेशसे नारकियोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्धनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क,

पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्वक-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

३६६. असादा० ज०ट्टि०वं० पंचणा०-णवदंसणा०--मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-मणुसग०-पंचिदि०-ओरालिय०-तेजा०-क०-समचदु० ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-वरण०४--मणुसाणु०--अगु०४--पसत्थवि०--तस०४--सुभग--सुस्वर--आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जभा० । हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसगि० सिया० संखे-ज्जभा० । अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० सिया० । तं तु० । एवं अथिर-असुभ-अजस० ।

३६७. इत्थिवे० ज०ट्टि०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-मणुस०--पंचिदि०--ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वरण०४-मणुसाणु०-

प्रशस्त विहायोगति, प्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु तब वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है ।

३६६. असाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ज्यभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, प्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवांभाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३६७. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, प्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और

अगु०४- पसत्थवि०--तस०४- सुभग-सुस्सर-आदे०--णिमि० उच्चा०-पंचंत० णि० बं० संखेज्जभाग०भहियं० । सादासाद०--हस्स-रदि--अरदि--सोग--तिण्णिसंठा०--तिण्णिसंघ०--थिराथिर--सुभासुभ--जस०--अजस० सिया० संखेज्जभा० । एवं एवुंस० । एवरि पंचसंठा०-पंचसंघ० ।

३६८. तिरिक्खायु० ज०ट्टि०वं० पंचणाणावरणादिधुविगाणं णि० बं० संखेज्जगु० । सेसाओ परियत्तमाणियाओ सव्वाओ सिया० संखेज्जगु० । एवं मणुसायु० । एवरि एीचुच्चा० सिया० संखेज्जगु० ।

३६९. तिरिक्खग० ज०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-एीचा०-पंचंत० णि० बं० संखेज्जभा० । सादासाद०-तिण्णिवे०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० संखेज्जभाग० । एाम० सत्थाणभंगो । पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० ओघं । सगपगदीओ संखेज्जभाग० । एवरि उच्चा० धुविगाणं कादव्वं । एामस्स अप्पणो सत्थाणभंगो ।

पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, तीन संस्थान, तीन संहनन, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशः कीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पाँच संस्थान और पाँच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है ।

३६८. तिर्यञ्चायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण आदि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । शेष परावर्तमान सब प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि नीचगोत्र और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

३६९. तिर्यञ्जगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, नीच गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तीन वेद, हास्य, रति, अरति और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थानके समान है । पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । किन्तु अपनी प्रकृतियोंकी स्थितिको संख्यातवां भाग अधिक करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रको ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके साथ करना चाहिए । तथा नामकर्मकी अपनी-अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है ।

३७०. तित्थय० ज०ट्टि०वं० पंचणा०-द्धदंसणा०-सादावे०-बारसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-उच्चागो०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगुं । णाम सत्थाणभंगो । एवं पढमाए पुढवीए ।

३७१. विदियाए पुढवीए आभिणिवो० ज०ट्टि०वं० चट्टणा०-द्धदंसणा०-सादावे०-बारसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दु०-मणुसगदियाओ णियोत्रं पढमदंडओ उच्चा०-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेक्कस्स । तं तु० ।

३७२. णिदाणिदाए ज०ट्टि०वं० पंचणा०-पढमदंडओ णि० वं० संखेज्जगुं । पचलापचला-थीणगिद्धि-मिच्छत्त-अणंताणुवंधि०४ णि० वं० । तं तु० । एवं थीणगिद्धितिय-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४ ।

३७०. तीर्थंकर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव, पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कपाय, पुरुष वेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है। इसी प्रकार पहिली पृथ्वीमें जानना चाहिए।

३७१. दूसरी पृथ्वीमें आभिनिबोधक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कपाय, पुरुष वेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा और मनुष्यगति आदि प्रकृतियाँ सामान्य नारकियोंके समान प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु पेसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

३७२. निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चार इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ



३७३. असादा० ज०ट्टि०बंध० पंचणाणा० मणुसगदिसंजुत्ताओ णिरयोधं । एवरि सम्मादिट्टिपगदीओ बंधदि । एवं अरदि-सो०-अथिर-असुभ-अजस० ।

३७४. इत्थिवे० ज०ट्टि०बंध० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-णाम मणुसगदिसंजुत्ताओ उच्चा०-पंचंत० णि० बंध० संखेज्जगु० । सादासाद०-चदुणोक०-समचदु०-वज्जरिस०-थिरादितिणियुगलं सिया० संखेज्जगु० । दोसंटा०-दोसंध० सिया० संखेज्जभा० । एवं एवुंस० । एवरि चदुसंटा०-चदुसंध० सिया० संखेज्जभा० । आयु० णिरयोधभंगो ।

३७५. तिरिकवग० ज०ट्टि०बंध० हेट्टा उवरि एवुंसगभंगो । णामसत्थाणभंगो । एवं पंचसंटा०-पंचसंध०-अप्पसत्थवि०-दुभग-दुस्सर-अणादे० हेट्टा उवरि । णामं अप्पप्पणो सत्थाणभंगो । एवं चदुसु पुढवीसु । सत्तमाए पुढवीए एसो चैव भंगो । एवरि णिदाणिदाए ज०ट्टि०बंध० पचत्तापचत्ता-थीणगिद्धि-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-

भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३७३. असातावेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके पाँच ज्ञानावरण आदि मनुष्यगति संयुक्त प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यह सम्यग्दृष्टि सम्बन्धी प्रकृतियोंको बाँधता है । इसी प्रकार अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३७४. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, नामकर्मकी मनुष्यगति संयुक्त प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, स्थिर आदि तीन युगल इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । दो संस्थान और दो संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि चार संस्थान और चार संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । आयुर्कर्मकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य नारकियोंके समान है ।

३७५. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे ऊपरकी प्रकृतियोंका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर और अनादेयकी मुख्यतासे नीचे ऊपरकी अपनी-अपनी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा नामकर्मकी अपनी अपनी प्रकृतियोंका भंग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार तीसरी आदि चार पृथिवियोंमें जानना चाहिए । सातवीं पृथ्वीमें यही भंग है । इतनी विशेषता है कि निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व,

तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० णि० बं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेक्कस्स । तं तु० । पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० तिरिक्खगदिसंजुत्ताओ कादन्वाओ ।

३७६. तिरिक्खेसु मूलोघं । एवरि खवगपगदीणं णिहाणिहाए भंगो । पंचिदिय-तिरिक्ख०३ आभिणिबो० ज०ट्टि०वं० चदुणा०-एवदंसणा०-सादा०-मिच्छ०-सोल-सक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दु०-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-वणण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्ध०-णिमि०-उच्चागो०-पंचंत० णि० बं० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेक्कस्स । तं तु० । असादा० ज०ट्टि०वं० णिरयोघं । एवरि देवगदिसंजुत्तं ।

अनन्तानुबन्धी चार, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यक; अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इह प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष होना है । किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनको तिर्यञ्चगति सहित करना चाहिए ।

३७६. तिर्यञ्चोमें मूलोघके समान भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग निद्रानिद्राके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चकिकमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता-वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरम्बसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपांग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, असचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । असाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगति संयुक्त करना चाहिए ।

३७७. मणुसगदि० ज०ट्टि०वं० आंरालि०-आंरालि०अंगो०-वज्ज०-मणुसाणु०  
 णि० वं० । तं तु० । पुरिस० उच्चा० णि० वं० संखेज्जभा० । एवं सव्वाणं धुवि-  
 गाणं । सादासाद० चटुणोक० थिरादितिणियुगलं सिया० संखेज्जभाग० । एवं  
 तं तु पदिदाणं । इत्थिवे०-एवुंस०-तिरिक्खग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-  
 दूभग-दुस्सर-अणादे० हेट्टा उवरिं मणुसगदिभंगो । एवरि वेदविसेसा जाणिदव्वा ।  
 णाम० सत्थाणभंगो । एवरि इत्थिवे० मणुसगदि-देवगदिसंजुत्तं कादव्वं । चटुआयु०  
 आंघं । एवरि धुवियाआं ताआं णि० वं० वेट्टाणपदिदं वंधदि संखेज्जभा० संखे-  
 ज्जगु० । परियत्तमाणियाआं सिया० विट्टाणपदिदं वंधदि संखेज्जभा० संखेज्जगु० ।  
 णिरयगदि-चटुजादि-णिरयाणु०-आदाव-थावरादि०४ तिरिक्खोघं । एवरि संखे-  
 ज्जभा० । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता० णिरयोघं । एवरि दोआयु० जोणिणभंगो ।

३७७. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव औदारिक शरीर, औदारिक  
 आंगोपांग, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता  
 है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है  
 यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय  
 अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है ।  
 पुरुषवेद और उच्चगोत्रका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य  
 संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार सब ध्रुवबन्धवाली  
 प्रकृतियोंका जानना चाहिए । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय और  
 स्थिर आदि तीन युगल इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक  
 होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक  
 स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार "तं तु" रूपसे पठित प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्नि-  
 कर्ष जानना चाहिए । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन,  
 अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनका नीचे ऊपर मनुष्यगतिके समान  
 भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वेद विशेष जानना चाहिए । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग  
 स्वस्थानके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदको मनुष्यगति और देवगति सहित  
 करना चाहिए । चार आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि जो ध्रुवबन्ध-  
 वाली प्रकृतियाँ हैं उनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य दो स्थान पतित  
 स्थितिका बन्धक होता है या तो संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है या  
 संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । परावर्तमान प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक  
 होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य दो  
 स्थान पतित स्थितिका बन्धक होता है । या तो संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक  
 होता है या संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगति, चार जाति, नरक-  
 गत्यानुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चार इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य तिर्यञ्चोंके  
 समान जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संख्यातवां भाग अधिक करना चाहिए ।  
 पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है  
 कि दो आयुओंका भङ्ग योनिमती तिर्यञ्चोंके समान है ।

३७८. मणुस०३ खवगपगदी० ओघं । देवगदि०४ आहार०भंगो० । एयरय-गदि-एयरयाणु० ओघं । सेसं पढमपुढविभंगो । मणुसअपज्जत्तेसु पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो ।

३७९. देवेषु एयरयोघं । एवरि एइंदिय-आदाव-थावरं एादव्वं । एवं भवण०-वाणवेत० । जोदिसि०-सोधम्मीसा० विदियपुढविभंगो । एवरि एइंदिय-आदाव-थावर० भाणदव्वा । सणकुमार याव सहस्सार त्ति विदियपुढविभंगो । एवं चेव आणद याव एवगोवज्जा त्ति । एवरि तिरिक्खगदिचदुक्कं वज्ज । अणुदिस याव सव्वहा त्ति पढम-दंडओ विदियपुढविभंगो । एवं विदियदंडओ वि । असादा०-मणुसायु० एि० ।

३८०. सव्वएइंदिएसु तिरिक्खोघं । विगलंदियपज्जत्तापज्जत्त-पंचिदिय-तस-अपज्जत्त० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्त० खवगपगदीणं ओघं । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो ।

३८१. पंचकायाणं तिरिक्खोघं । एवरि तेउ०-वाउ० तिरिक्खगदि०-तिरि-क्खाणु०-णीचा० पुव्वं कादव्वं । तस-तसपज्जत्ता खवगपगदीणं मूलोघं । सेसाणं मणुसोघं । एवरि वउव्वियळ्ळं ओघं ।

३८२. मनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । देवगतिचतुष्कका भङ्ग आहारक शरीरके समान है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पहली पृथिवीके समान है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

३७९. देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर प्रकृतियाँ जाननी चाहिए । इसी प्रकार भवनधामी और व्यन्तर देवोंके जानना चाहिए । ज्योतिष्क, सौधर्म और ऐशान कल्पमें देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर प्रकृतियाँ कहनी चाहिए । सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । तथा इसी प्रकार आनत कल्पसे लेकर नौ त्रैवेयक तकके देवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति चतुष्कको छोड़कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग दूसरी पृथिवीके समान है । इसी प्रकार दूसरा दण्डक भी जानना चाहिए । तथा असाता वेदनीय और मनुष्यायुका नियमसे बन्धक होता है ।

३८०. सब एकेन्द्रियोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भंग है । विकलेन्द्रिय पर्याप्त, विकलेन्द्रिय अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है ।

३८१. पांच स्थावर कायिक जीवोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र इनको पहिले कहना चाहिए । त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य मनुष्योंके समान है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिक ङुः ओघके समान है ।

३८२. पंचमण०--तिणिणवचि० आभिणिबोधि०आदि ओधं । णिदाणिदाए ज०ट्टि०वं० पंचणा०--चदुदंस०--सादावे०--चदुसंज०-पुरिस०-जस०--उच्चा०--पंचंत० णि० वं० असंखेज्जगु० । पचलापचला-थीणगिद्धि-मिच्छत्त-अणंताणुबंधि०-४ णिय० वं० । तं० तु० । णिदा-पचला-अट्टकसा०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-देवगदि-वेउविय०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-वणण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिपंच-णिमि० णि० वं० संखेज्जगु० । एवं थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु-बंधि०४ ।

३८३. णिदाए ज०ट्टि०वं० खवगपगदीणं णिदाणिदाए भंगो । पचला णि० वं० । तं तु० । हस्स-रदि-भय-दु०--देवगदि-पसत्थसत्तावीसं णि० वं० संखेज्जगु० । आहारदुगं तित्थयरं सिया० संखेज्जगु० । एवं पचला० ।

३८४. असादा० ज०ट्टि०वं० खवगपगदीणं णिदाए भंगो । णिदा-पचला-भय

३८२. पांच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरण आदिका भङ्ग ओघके समान है । निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चार इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आंगोपांग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, स्थिर आदि पाँच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३८३. निद्राकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके सब प्रकृतियोंका भङ्ग निद्रानिद्राके समान है । प्रचलाका नियमसे बन्धक होता है । जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त सत्ताईस प्रकृतियाँ इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । आहारक द्विक और तीर्थकर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्ध होता है । इसी प्रकार प्रचला प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३८४. असादा वेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग निद्राके समान है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक

दुगुं०--देवगदि--पंचिदि०--वेउव्वि०--तेजा०--क०--समचदु०--वेउव्वि०--अंगो०--वएण०४--  
देवाणु०--अगु०४--पसत्थ०--तस०४--सुभग--सुस्सर--आदे०--णिमि० णि० बं० संखे-  
ज्जगु० । हस्स-रदि-थिर-सुभ० सिया० संखेज्जगु० । जस० सिया० असंखेज्जगु० ।  
अरदि--अथिर--असुभ--अजस० सिया० । तं तु० । एवं अरदि--सोग--अथिर--असुभ-  
अजस० ।

३८५. अप्पच्चक्खाणकोध० ज०ट्ठि०वं० खवगपगदीणं णिदाए भंगो ।  
तिण्णक० णि० वं० । तं तु० । सेसाणं णिदाए भंगो । एवं तिण्णकसा० ।

३८६. पच्चक्खाणकोध० ज०ट्ठि०वं० खवगपगदीणं णिदाए भंगो । सेसाओ  
हेट्ठा उवरिं संखेज्जगु० । तिण्णक० णि० वं० । तं तु० । एवं तिण्णक० ।

शरीर, तैजश शरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, असचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रति, स्थिर और शुभ इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यात-गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३८५. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग निद्राके समान है। तीन कषायोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थिति का भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थिति का बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग निद्राके समान है। इसी प्रकार तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३८६. प्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग निद्राके समान है। शेष प्रकृतियोंका नीचे ऊपर नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तीन कषायोंका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३८७. इत्थिवे० ज०ट्टि०वं० पंचणा०--चदुदंस०--चदुसंज०--पंचंत० णि० वं० असंखेज्जगु० । पंचदंस०--मिच्छ०--वारसक०--भय--दुगुं०--पंचिदि०--तेजा०--क०--वण०४--अगु०४--पसत्थ०--तस०४--सुभग-सुस्सर--आदे०--णिमि० णि० वं० संखेज्जगु० । सादा०--जस०--उच्चा० सिया० संखेज्जगु० । असादा०--चदुणोक्क०--तिणिण-गदि-दोसरीर--समचदु०--दोअंगो०--वज्जरि०--तिणिणआणु०--उज्जो०--थिराथिर--सुभा-सुभ-अजस०--णीचा० सिया० संखेज्जगु० । एग्गोद०--सादि०--वज्जणारा०--णाराय सिया० संखेज्जभा । एवं एवुंस० । एवरि दोगदि-समचदु०--वज्जरिस०--दोआणु०--उज्जो०--थिराथिर-सुभासुभ-अज०--णीचा० सिया० संखेज्जगु० । चदुसंठा०--चदुसंध० सिया० संखेज्जभा० ।

३८८. आयुगाणं चदुएणं पि खवगपगदीणं असंखेज्जगु० । सेसाणं मणुसभंगो ।

३८९. णिरयगदि० ज०ट्टि०वं० खवगपगदीणं ओघं । पंचदं०--असादा०-

३८७. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार सञ्ज्वलन और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पांच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरु-लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। असाता वेदनीय, चार नोकषाय, तीन गति, दो शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, तीन आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अयशःकीर्ति और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। न्यग्रोधसंस्थान, स्वातिसंस्थान, वज्रनाराच संहनन और नाराच संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि दोगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अयशःकीर्ति और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। चार संस्थान और चार संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

३८८. चार आयुओंकी भी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव क्षपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है।

३८९. नरकगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके

मिच्छ०--वारसक०--अरदि-सोग-भय-दु०--पंचिदि०-वेउव्वि०--तेजा०-क०-वेउव्वि०-  
अंगो०--वण०४-अगु०-तस०४-अथिर-असुभ-अजस०--णिमि०-णीचा० णि० वं०  
संखेज्जगु० । एवुंस०--हुंडसं०--अप्पसत्थ०--दुभग-दुस्सर-अणादे० णि वं० संखे-  
ज्जभा० । णिरयाणु० णि० वं० । तं तु० । एवं णिरयाणु० ।

३६०. तिरिक्खगदि० ज०ट्टि०वं० खवगाणं णिरयगदिभंगो । पंचदंस०-  
मिच्छ०--वारसक०--हस्स-रदि-भय-दु०--पंचिदि०--ओरालि०--तेजा०--क०--समचदु०-  
ओरालि०अंगो०--वज्जरि०--वण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच णि० वं०  
संखेज्जगु० । तिरिक्खाणु०--णीचा० णि० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० ।  
तं तु० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचागो० ।

३६१. मणुसग० ज०ट्टि०वं० ओरालि०--ओरालि०अंगो०--वज्जरि०--मणु-  
समान है । पांच दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारहकषाय, अरति, शोक, भय,  
जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वैकियिक आङ्गोपाङ्ग,  
वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्र  
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका  
बन्धक होता है । नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और  
अनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवांभाग अधिक  
स्थितिका बन्धक होता है । नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य  
स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि  
अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय  
अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवांभाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी  
प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३९०. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग  
नरकगतिके समान है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारहकषाय, हास्य, रति, भय,  
जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान,  
औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त  
विहायोगति, त्रसचतुष्क और स्थिर आदि पाँच इनका नियमसे बन्धक होता है जो  
नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी  
और नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक  
होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक  
होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका  
असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित् बन्धक होता  
है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी  
बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका  
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर  
पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसीप्रकार तिर्यञ्च-  
गत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३९१. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव औदारिक शरीर, औदारिक  
आंगोपांग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता



साणु० णि० वं० । तं तु० । सेसाणं तिरिक्खगदिभंगो । एव्वरि तित्थय० सिया० संखेज्जगु० । एवं मणुसगदिपंचगस्स ।

३६२. देवगदि० ज०ट्टि०वं० पंचणा०--चदुदंस०--सादा०--चदुसंज०--पुरिस०--जस०--उच्चा०--पंचंत० णि० वं० असंखेज्जगु० । हस्स--रदि--भय--दु० णि० वं० संखेज्जगु० । पंचिंदियादिपसत्थसत्तावीसं णि० वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

३६३. एइंदि० ज०ट्टि०वं० खविगाणं ओघं । पंचदं०--मिच्छ०--वारसकसा०--भय--दु०--णाम सत्थाणभंगो एणीचा० णि० वं० संखेज्जगु० । सादा०--जस० सिया०

है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसीप्रकार मनुष्यगतिपञ्चककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३९०. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रशस्त सत्ताईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है ।

३९३. एकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, नाम कर्मकी स्वस्थान भङ्गवाली प्रकृतियाँ और नीचगोत्रका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय और यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है ।

असंखेज्जगु० । असादा०--चदुणोक०--थिराथिर--सुभासुभ--अज०-उज्जो० सिया० संखेज्जगु० । एवुंस०-हुंड०--दूभग-अणादे० णि० वं० संखेज्जभा० । एवं वीई०-तीई०-चदुरिं० हेट्टा उवरिं एइंदियभंगो । णाम० सत्थाणभंगो ।

३६४. णग्गोद० ज०ट्टि०वं० खविगाणं ओघं । सेसाणं इत्थिवेदभंगो । णाम० सत्थाणभंगो । सव्वाणं संघट०--अप्पसत्थ०--दूभग--दुस्सर-अणादेज्जाणं हेट्टा उवरिं इत्थिवेदभंगो । एवरि किं चि विसेसो जाणिदव्वो । वेदेसु णाम अप्पणो सत्थाणभंगो ।

३६५. वचिजोगि-असच्चमोसवचिजोगि० तसपज्जत्तभंगो । कायजोगि-ओरा-लियकायजोगि० ओघं । ओरालियभिस्से तिरिक्खोघं । एवरि देवगदि० ज०ट्टि०वं० पंचणा०--इदंसणा०--सादावे०-वारसक०-पंचणोक०--पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगु०४-पसत्थ०--तस०४-थिरादिइ०--णिमि०--उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगु० । वेउव्वि०--वेउव्वि०अंगो०--देवाणु० णि० वं० । तं तु० । तिथ्य०

यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है। असाता वेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अयशःकीर्ति और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, दुर्भग और अनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवांभाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे ऊपरकी प्रकृतियोंका भङ्ग एकेन्द्रिय जातिके समान है। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है।

३९४. न्यप्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है। सब संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे ऊपरकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि कुछ विशेष जानना चाहिए। तीन वेदोंमें नामकर्मकी अपनी अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है।

३९५. वचनयोगी और असत्यमृपावचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग त्रस पर्याप्तिकोंके समान है। काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंमें ओघके समान है। औदारिक मिश्र काययोगमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कपाय, पाँच नोकपाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण-चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्च-गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यात-गुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है। वैकियिक शरीर, वैकियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ

सिया० । तं तु० । एवमेदात्रो एकमेकस्स । तं तु० ।

३६६. वेउव्वयका० आभिण्णिदंडओ जोदिसियपढमदंडओ व्व असाद० विदिय-  
दंडय० । णिद्वाणिद्वाए ज०ट्टि०वं० पचलापचलादीणं मिच्छ०--अणंताणुवंधि०४  
णियमा वं० । तं तु० । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० सिया० । तं तु० । मणु-  
सग०-मणुसाणु०-उच्चा० सिया० संखेज्जगु० । धुविगाणं णि० वं० संखेज्जगु० ।  
एवं थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवधि०४ ।

३६७. इत्थिवे० ज०ट्टि०वं० पंचणा०--एवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०-भय-  
दु०-पंचिदि०--ओरालि०--तेजा०--क०--ओरालि०अंगो०--वरण०४--अगु०४-पसत्थ०-

भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है ।

३६६. वैक्रियिक काययोगमें आभिनिबोधिक प्रथमदण्डक ज्योतिपी देवोंके प्रथम दण्डकके समान है । तथा असाता वेदनीय दूसरा दण्डक भी इसीप्रकार है । निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचलाप्रचला आदि, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्य गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३६७. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनोवरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति,

तस०४-सुभग-सुस्वर-आदे०-णिमि०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगु० । सादासाद०-  
चदुणोक०-दोगदि-समचदु०-वज्जरि०-दोआणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-  
अजस०-दोगोदं सिया० संखेज्ज० । दोसंठा०-दोसंघ० सिया० संखेज्जभा० । एवं  
एवुंस० । एवरि पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोआयु० देवोघं ।

३६८. एगगोद० ज०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
पुरिस०-भय-दु०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वएण०४-  
अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्वर-आदे०-णिमि०-पंचंत० णि० वं० संखे-  
ज्जगु० । सादासाद०-चदुणोक०-दोगदि-वज्जरि०-दोआणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभा-  
सुभ-जस०-अजस०-णीचुच्चा० सिया० संखेज्जगु० । वज्जणारा० [ सिया० ] । तंतु० ।  
एवं वज्जणारा० । चदुसंठा०-चदुसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० एगगोद-

त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, चार नोकपाय, दोगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराच-संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और दो गोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । दो संस्थान और दो संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पाँच संस्थान, पाँच संहनन और दो आयुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है ।

३९८. न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, चार नोकपाय, दोगति, वज्रर्षभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, नीचगोत्र और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । वज्रनाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वज्रनाराचसंहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर और अनादेय इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान है । इतनी विशेषता है कि कुञ्जक संस्थान, वामन संस्थान, अर्द्धनाराच संहनन और कीलक

भंगो । एवरि खुज्जसंठा०-वामणसंठा०-अद्धणारा०-खीलिय० इत्थि० सिया० संखेज्ज-  
भाग० । पुरिस० सिया० संखेज्जगु० । हुंड०-असंपत्त०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-  
अणादे० पुरिस० सिया० संखेज्जगु० । इत्थिवे०-एवुंस० सिया० संखेज्जभा० ।

३६६. एइंदि० ज०द्वि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०--भय-  
दु०--तिरिक्खग०--ओरालि०--तेजा०--क०--वण०४--तिरिक्खाणु०--अगु०४--वादर-  
पज्जत्त-पत्ते०--णिमि०--णीचा०--पंचंत० णि० वं० संखेज्जगु० । सादासादा०-चदु-  
णोक०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-अजस० सिया० संखेज्जगु० । एवुंस०-हुंडसं०-  
दूभग-अणादे० णि० वं० संखेज्जभाग० । आदाव० सिया० । तं तु० । थावरं  
णि० वं० । तं तु० । एवं आदाव-थावर० । एवं वेउव्वियमिस्स० । एवरि मिच्छत्त-

संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव स्त्रीवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

३९९. एकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलहकपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्जगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामेण शरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, नीच गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, चार नोकपाय, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, दुर्भग और अनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । आतपका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । स्थावरका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार आतप और स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

पगदी यम्हि संखेज्जगुणब्भदियं तम्हि संखेज्जभागब्भदियं कादव्वं । सम्मत्तपगदीओ संखेज्जगुणब्भदियाओ ।

४००. आहार०--आहारमिस्स० आभिणिवोधि० ज०ट्टि०वं० चदुणा०--द्धदं-  
सणा०-सादा०-चदुसंज०-पंचणोक०-देवगदि-पसत्थट्टावीस-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० ।  
तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेक्कस्स । [तं तु० ] ।

४०१. असादा० ज०ट्टि०वं० पंचणा०-द्धदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०  
देवगदि-पसत्थपणुवीस-उच्चा०-पंचंत० णि० संखेज्जभाग० । हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस०-  
तित्थय० सिया० संखेज्जभाग० । अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० सिया० ।  
तं तु० । एवं अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० ।

इसी प्रकार वैक्रियिक मिश्रकाययोगमें अपनी प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मिथ्यान्व सम्बन्धी प्रकृतियाँ जहाँपर संख्यातगुणी अधिक कही हैं वहाँ पर संख्यातवां भाग अधिक करनी चाहिए और सम्यक्त्व सम्बन्धी प्रकृतियाँ संख्यातगुणी अधिक करनी चाहिए ।

४००. आहारककाययोग और आहारक मिश्रकाययोगमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरण की जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पांच नोकपाय, देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है ।

४०१. असातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि पच्चीस प्रशस्त प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति और तीर्थंकर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४०२. देवायु० ज०द्वि०वं० पंचणा०-चदुदंस०-सादावे०-चदुसंज०-पंचणोक०-  
देवगदि-पसत्थट्टावीस-उच्चा०--पंचंत० णि० वं० संखेज्जगु० । तित्थय० सिया०  
संखेज्जगु० ।

४०३. कम्मइग० ओरालियमिससभंगो । एवरि तित्थय० ज०द्वि०वं० मणुसगदि-  
पंचगस्स सिया० संखेज्जगु० । देवगदि०४ सिया० । तं तु० पलिदोवमस्स  
असंखेज्जदिभा० ।

४०४. इत्थि०-पुरिस० अभिणिवोधि० ज०द्वि०वं० चदुणा०-चदुदंस०-  
सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० जहणणा० । एवमएण-  
मएणाणं जहणणा० । सेसाओ पगदीओ पंचिदियभंगो ।

४०५. एवुंसगे खविगाओ इत्थिवेदभंगो । सेसा पगदी मूलोपं ।

४०६. अवगदवे० आभिणिवोधि० ज०द्वि०वं० चदुणा०-चदुदंस०-सादा०-  
जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० जहणणा० । एवमएणमएणस्स जहणणा० । चदुसंज०  
मूलोपं ।

४०२. देवायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पाँच नोकपाय, देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

४०३. कर्मण काययोगी जीवोंका भङ्ग औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तीर्थकर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मनुष्यगति पञ्चकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। देवगति चतुष्कका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो वह नियमसे अजघन्य पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

४०४. स्त्रीवेद और पुरुषवेदवाले जीवोंमें आभिनिबोधक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सबका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी अवस्थामें वह नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है।

४०५. नपुंसकवेदवाले जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोपके समान है।

४०६. अपगतवेदवाले जीवोंमें आभिनिबोधक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी

४०७. क्रोध-माण-माया० ओघं । एवरि खवगपगदीणं इत्थिवेदभंगो । मोह० विसेसा० । [कोहे] क्रोधसंज० [ज०ट्टि०वं०] तिणिसंज० णि०वं०णि० जहरणा० । पुरिस० ओघं । माणे माणसंज० ज०ट्टि०वं० दोएणं संज० णि० वं० णि० जहरणा० । मायाए मायसंज० ज०ट्टि०वं० लोभसंज० णि० वं० णि० जहरणा० । [ लोभे लोभसंज० ] मूलोघं ।

४०८. मदि०-सुद० तिरिक्खोघं । विभंगे आभिणिवोधि० ज०ट्टि०वं० चदुणा०-एवदंसणा०-सादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-देवगदिपसत्थट्टावीस-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेक्खस्स । तं तु० ।

४०९. असादा० ज०ट्टि०वं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दु०-पुरिस०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ-तस०४-सुभग-

अवस्थामें वह नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । चार सञ्ज्वलनका भङ्ग मूलोघके समान है ।

४०७. क्रोध, मान और माया कषायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । मोहनीयकी कुछ विशेषता है । क्रोधकषायमें क्रोध सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन सञ्ज्वलनोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदका भङ्ग ओघके समान है । मान कषायमें मान सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव दो सञ्ज्वलनों का नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । माया कषायमें माया सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव लोभ सञ्ज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । लोभ कषायमें लोभ सञ्ज्वलनका भङ्ग मूलोघके समान है ।

४०८. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । विभङ्ग ज्ञानी जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पांच नोकषाय, देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है ।

४०९. असातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामेण शरीर, समचतुरन्त्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे



सुस्सर-आदे०-णिमि०पंचंतरा० णि० बं० संखेज्जगु० । हस्स-रदि-तिणिणगदि-  
ओरालि०-वेउव्वि०सरीर-दोअंगो०-वज्जरी०-तिणिणआणु०-उज्जो०-थिर-सुभ-जस०-  
दोगोद० सिया० संखेज्जगु० । अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० सिया० । तं तु० ।  
एवं अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० ।

४१०. इत्थिवे० ज०ट्टि०बं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-  
दु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अणु०-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-  
णिमि०-पंचंत० णि० बं० संखेज्जगु० । सादा०-हस्स-रदि-तिणिणगदि-दोसरीर-सम-  
चदु०-दोअंगो०-वज्जरी०-तिणिणआणु०-उज्जो०-थिरादितिणिण-दोगोद०-सिया-संखे-  
ज्जगु० । असादा०-अरदि-सोग दोसंठा०-दोसंघ०--अथिरादितिणिण० सिया० संखे-  
ज्जभा० । एवं एवुंस० । एवरि चदुसंठा०-चदुसंघ० सिया० संखेज्जभा० ।

बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, तीन गति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच-संहनन, तीन आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति और दो गोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशः-कीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४१०. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामेण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, हास्य, रति, तीन गति, दो शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, तीन आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर आदि तीन और दो गोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । असाता वेदनीय, अरति, शोक, दो संस्थान, दो संहनन और अस्थिर आदि तीन इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि चार संस्थान और चार संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

४११. एरयायु० ज०ट्टि०बं० पंचणा०--एवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०-  
भय-दु०-पंचिदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-वेउन्वि०अंगो०--वएण०४--अगु०४--तस०४--  
एमि०--णीचा०--पंचंत० एि० बं० संखेज्जगु० । असाद०--एवुंस०--अरदि--सोग-  
एरयगदि-हुंड०-एरयाणु०-अप्पसत्थ०-अथिरादिच्छ० एि० बं० संखेज्जभाग० ।

४१२. तिरिक्खायु० ज०ट्टि०बं० तिरिक्खगदि याव मए०भंगो । मणुसायु०  
ज०ट्टि०बं० तिरिक्खायुभंगो ।

४१३. देवायु० ज०ट्टि०बं० पंचणा०--एवदंसणा०--सादावे०--मिच्छ०--सोल-  
सक०--हस्स-रदि-भय-दु०-देवगदि-पसत्थट्टावीस--उच्चा०--पंचंत०एि० बं० संखेज्जगु० ।  
इत्थिवे० सिया० संखेज्जभा० । पुरिस० सिया० संखेज्जगु० ।

४१४. एरय० ज०ट्टि०बं० हेट्टा उवरिं एरयायुभंगो । एाम० सत्थाणभंगो ।

४१५. तिरिक्खग० ज०ट्टि०बं० पंचणा०--एवदंसणा० सादा०--मिच्छ०--सोल-  
सक०--पंचणोक०--एाम सत्थाणभंगो पंचंत० एि० बं० संखेज्जगु० । तिरिक्खायु०

४११. नरकायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। असाता वेदनीय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, हुण्डसंस्थान, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छह इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

४१२. तिर्यञ्चायुकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके तिर्यञ्चगति आदि प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। मनुष्यायुकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग तिर्यञ्च आयुके समान है।

४१३. देवायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रीवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

४१४. नरकगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे ऊपरकी प्रकृतियोंका भङ्ग नरकायुके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है।

४१५. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय स्वस्थानके समान नामकर्मकी प्रकृतियाँ और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र

णीचागो० णि० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो०-  
णीचागो० ।

४१६. मणुसग० ज०ट्टि०वं० हेट्टा उवरिं तिरिक्खगदिभंगो । णाम०  
सत्थाणभंगो ।

४१७. णग्गोद० ज०ट्टि०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
पुरिस०-भय-दु०-णाम सत्थाणभंगो पंचंत० णि० वं० संखेज्जगु० । सादावे०-हस्स-  
रदि-णीचुच्चागो० सिया० संखेज्जगु० । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अज०  
सिया० संखेज्जदिभा० । तिरिक्ख-मणुसगदि-वज्जरि०-दोआणु०-थिर-सुभ-जसगि०  
सिया० संखेज्जगु० । वज्जणारा० सिया० । तं तु० । एवं वज्जणारायण० ।

इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिको बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

४१६. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे ऊपरकी प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । नाम कर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है ।

४१७. न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलहकषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, स्वस्थान भङ्ग रूपसे कही गई नामकर्मकी प्रकृतियाँ और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, हास्य, रति, नीचगोत्र और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, वज्रपभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । वज्रनाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वज्रनाराचसंहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४१८. चदुसंठा०-चदुसंघ० हेहा उवरिं णग्गोदभंगो । एणम अप्पणो सत्थाण-  
भंगो । एवरि विसेसो कादव्वो । अप्पसत्थविहा०-दूभग-दुस्सर-अणादे०  
एग्गोदभंगो । एवरि किंचि विसेसो णादव्वो ।

४१९. आभिणि०-सुद०-ओधि० आभिणिबोधि० ज०ट्टि०बं० चदुणाणावर-  
णादिखविगाणं ओघं । णिहाए ज०ट्टि०बं० पंचणा० मणजोगिभंगो । एवं पचला०।  
असादा० ज०ट्टि०बं० मणजोगिभंगो ।

४२०. मणुसायु० ज०ट्टि०बं० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-  
उच्चा०-पंचंत० णि० बं० असंखेज्जगु० । णिहा-पचला०-अट्ठक०-भय-दु०-मणु-  
सगदिपंच०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण०-४ अगु०-पसत्थवि०-तस०४-  
सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० बं० संखेज्जगु० । सादा०-जस० सिया०  
असंखेज्जगु० । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० सिया० संखेज्जगु० ।  
हस्स-रदि-थिर-सुभ-तित्थय० सिया० संखेज्जगु० ।

४१८. चार संस्थान और चार संहननकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे  
ऊपरकी प्रकृतियोंका भङ्ग न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान है। नामकर्मकी अपनी-  
अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है। किन्तु यहाँ जो विशेषता हो उसे जानकर  
कहनी चाहिए। अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनकी मुख्यतासे  
सन्निकर्ष न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान है। किन्तु यहाँ जो विशेषता है उसे जानकर  
कहनी चाहिए।

४१९. आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें आभिनिबोधिक  
ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके चार ज्ञानावरण आदि चार प्रकृतियोंका  
भङ्ग ओघके समान है। निद्राकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके पाँच ज्ञानावरण आदिका  
भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। इसी प्रकार प्रचलाकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना  
चाहिए। असाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके  
समान है।

४२०. मनुष्य आयुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना-  
वरण, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक  
होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। निद्रा,  
प्रचला, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगतिपञ्चक, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर,  
कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, प्रशस्त विहायोगति, प्रस  
चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे  
अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीय और यशः  
कीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक  
होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। असाता-  
वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता  
है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यात  
गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रति, स्थिर, शुभ और तीर्थंकर प्रकृति

४२१. देवायु० ज०द्वि०बंधं० पंचणा०--चदुदंस०--सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-जसगि०-उच्चा०-पंचंत० णि० बं० संखेज्जगु० । णिद्दा-पचला-अट्टकसा०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-देवगदिपसत्थद्दावीसं णि० बं० संखेज्जगु० । तित्थय० सिया० संखेज्जगु० ।

४२२. मणुसग० ज०द्वि०बंधं० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० बं० असंखेज्जगु० । णिद्दा-पचला-अट्टक०--हस्स-रदि-भय-दुगुं० णि० बं० संखेज्जगु० । णाम० सत्थाणभंगो ।

४२३. देवगदि० ज०द्वि०बंधं० खविगाओ ओघं । णाम० सत्थाणभंगो । हस्स-रदि-भय-दु० णि० बं० संखेज्जगु० ।

४२४. मणपज्जव-संजद-सामाइय-छेदो०-परिहार० ओधिभंगो । सुहुमसांपराइ० ओघं । संजदासंजद० आभिणिवो० ज०द्वि०बंधं० चदुणा०-छदंसणा०-सादावे०-अट्टकसा०--पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दु०-देवगदिपसत्थद्दावीस-उच्चा०-पंचंत० णि० बं० ।

इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

४२१. देवायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव, पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा और देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

४२२. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है ।

४२३. देवगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके ज्ञापक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है । हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

४२४. मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहार-विशुद्धिसंयत इनका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । सूक्ष्म साम्पराय संयत जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । संयतासंयत जीवोंमें अमिनिबोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, आठ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और

तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

४२५. असादा० ज०ट्टि०वं० हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० सिया० संखेज्जगु० । एवं तित्थय० । अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० सिया० । तं तु० । धुविगाणं णि० वं० संखेज्जगु० । एवं अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० ।

४२६. असंजद० तिरिक्खोघं । एवरि तित्थय० ज०ट्टि०वं० धुवपगदीओ देव-गदिसंजुत्ताओ पसत्थणामपगदीओ यदि वं० संखेज्जगु० । चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० ओघं । ओधिदं० ओधिणाणिभंगो । क्खिण-णील-काऊ० तिरिक्खोघभंगो । एवरि तित्थय० असंजदस्स० संजदाभिमुहस्स देवगदिसंजुत्ताओ पसत्थाओ णि०

अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है ।

४२५. असादा वेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४२६. असंयत जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ध्रुव प्रकृतियोंको देवगतिसंयुक्त बाँधता है । तथा नामकर्मकी प्रसस्त प्रकृतियोंको यदि बाँधता है तो संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें प्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है । अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अवधिदर्शनवाले जीवोंमें अवधि-हानी जीवोंके समान भङ्ग है । कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके अभिमुख हुए असंयत जीवके तीर्थंकर

संखेज्जगु० । किरण०-णील० मणुसो सत्थाणे विमुज्जमाणो तित्थयरस्स असंजद-  
सामित्तेण असंजदभंगो । काऊए तित्थय० णिरयोधं ।

४२७. तेऊए आभिणिवो० ज०ट्टि०बं० चटुणा०-द्धदंसणा०-सादा०-चदु-  
संज०-पंचणोक०--देवगदि-पसत्थट्टावीस-उच्चा०-पंचंत णि० । तं तु० । आहारदुर्गं  
तित्थयरं सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

४२८. दंसणतिय-असादा०-मिच्छ०-वारसक०-अरदि-सोग० मणजोगिभंगो ।  
इस्थिबे० ज०ट्टि०बं० पंचणा०-एवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०-  
क०-वएण०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा०-पंचंत० णि०  
बं० संखेज्जगु० । दोगदि-दोसरीर-दोअंगो०-दोआणु० सिया० संखेज्जगु० । सादा-

प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध होता है । तथा देवगति संयुक्त प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । कृष्ण और नील लेश्यामें मनुष्य स्वस्थानमें विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ तीर्थंकर प्रकृतिका बन्धक होता है । जिसके असंयत स्वामित्वकी अपेक्षा असंयतके समान भङ्ग है । कापोत लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है ।

४२७. पीतलेश्यावाले जीवोंमें अभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, ब्रह्म दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पांच नोकषाय, देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । आहारकट्टिक और तीर्थङ्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है ।

४२८. तीन दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कषाय, अरति और शोक इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष मनोयोगी जीवोंके समान है । स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ष चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, अस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग और दो आनुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे

साद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-समचदु०-वज्जरि०-धिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०  
सिया० संखेज्जगु० । एग्गोद०-सादि०-वज्जरि०-णारा० सिया० संखेज्जभा० । एवं  
एवुंस० । एवरि चदुसंठा०-चदुसंघ [सिया० संखेज्जभा० । ]

४२६. तिरिक्ख-मणुसायु० देवभंगो । देवायु० ज०ट्टि०बं० पंचणा० छदंसणा०-  
सादावे०-बारसक०हस्स-रदि-भय-दु०-देवगदिपसन्थट्टावीस-उच्चा०-पंचंत० णि० बं०  
संखेज्जगु० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-पुरिस० सिया० संखेज्जगु० ।  
इत्थिवे० सिया० संखेज्जगु० । तित्थय० सिया० संखेज्जगु० ।

४३०. मणुस० ज०ट्टि०बं० पंचणा०-छदंसणा०-सादा०-बारसक०-पंचणो०-  
णामसत्थाणभंगो उच्चा०-पंचंत०-णि० बं० संखेज्जगु० । तित्थय० सिया० संखे-  
ज्जगु० । एवं अोरालि०-अोरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० । तिरिक्खग०-

अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान, स्वातिसंस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन और नाराचसंहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि चार संस्थान और चार संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

४२६. तिर्यञ्च आयु और मनुष्य आयुका भङ्ग देवोंके समान है । देवायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । स्नानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और पुरुषवेद इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । स्त्रीवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

४३०. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना-  
वरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पाँच नोकषाय, नामकर्मकी स्वस्थानके समान प्रकृतियाँ,  
उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य  
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक  
होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य  
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार औदारिक शरीर, औदारिक



एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०-थावरं सोधम्म-भंगो । एवं पम्माए वि ।

४३१. सुक्काए मणजोगिभंगो । एवरि इत्थि०-एवुंस०-मणुसगदि-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-इस्संघ०-मणुसाणु०-अप्पसत्थवि०-दुभग-दुस्सर-अणादे० जहणणसणियासे संजम०-सम्मत्त०-मिच्छ०पाओग्गाओ पगदीओ एादूण सणियासेदव्वं ।

४३२. भवसिद्धि० आघं । अभवसिद्धिया० मदिभंगो । सम्मादि०-खड्ग०-वेदग०-उवसम० ओधिभंगो । एवरि वेदगसं० जहणणगाणि पमत्ता अप्पमत्ता करंति ।

४३३. मणुसग० ज०ट्टि०बं० पंचणा०-इदंसणा० वेदगे करेदि । तएणादूण सणियासेदव्वं तेउभंगो ।

४३४. [ सासणे आभिणिबो ज०ट्टि०बं० ] चदुणा०-एवदंसणा०-सादा०-सोलसक०-पंचणोक०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिइ०-णिमि०-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । तिण्णगदि-दोसरीर-

आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति और स्थावर इनका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । इसीप्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए ।

४३१. शुक्ल लेश्यामें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय तथा जघन्य सन्निकर्षमें संयम, सम्यक्त्व और मिथ्यात्वके योग्य प्रकृतियोंको जानकर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

४३२. भव्य जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । अभव्य जीवोंका भङ्ग मत्यश्चान्त्रियोंके समान है । सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि वेदक सम्यक्त्वमें प्रमत्त और अप्रमत्त जीव जघन्य सन्निकर्ष करते हैं ।

४३३. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण और छह दर्शनावरणको वेदक सम्यक्त्वमें करता है । उसे जानकर पीतलेश्याके समान सन्निकर्ष साध लेना चाहिए ।

४३४. सासादन सम्यक्त्वमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, प्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । तीन गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ-

दोअंगो०-वज्जरि०-तिणिणआणु०-उज्जो०-णीचुच्चागो० सिया० । तं तु० । एव-  
मेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

४३५. असादा० ज०ट्टि०बं० धुविगाओ णि० बं० संखेज्जभाग० । अरदि-  
सोग-अथिर असुभ-अजस० सिया० । तं तु० । हस्स--रदि--तिणिणगदि-दोसरीर-दो-  
अंगो०-वज्जरिस०--तिणिणआणु०--उज्जो०--थिर--सुभ--जस०---णीचुच्चा० सिया०  
संखेज्जभा० ।

४३६. इत्थिवे० असादभंगो । एवरि तिणिणसंठा०--तिणिणसंघ० सिया०  
संखेज्जदिभा० । एवुंसगे इत्थिभंगो । एवरि तिरिक्ख-मणुसगदि-पंचसंठा०-  
पंचसंघ०-दोआणु० सिया० संखेज्जदिभा० । सेसाओ परावत्तमाणियाओ सिया०

नाराचसंहनन, तीन आनुपूर्वी, उद्योत, नीचगोत्र और उच्चगोत्र इनका कदाचित्  
बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य  
स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य  
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे  
लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन  
सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य  
स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि  
अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अपेक्षा अजघन्य एक समय  
अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

४३५. असातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ध्रुवप्रकृतियोंका नियमसे  
बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है।  
अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदा-  
चित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और  
अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम-  
से जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक  
तक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रति, तीन गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ-  
नाराचसंहनन, तीन आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति, नीचगोत्र और उच्चगोत्र  
इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है  
तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

४३६. स्त्रीवेदका भङ्ग असातावेदनीयके समान है। इतनी विशेषता है कि तीन  
संस्थान और तीन संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है।  
यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता  
है। नपुंसकवेदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति,  
पांच संस्थान, पांच संहनन और दो आनुपूर्वीका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्  
अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका  
बन्धक होता है। शेष परावर्तमान प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्  
अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थिति-

संखेज्जगु० । एवं मणुस्सायु० । देवायु० ज०ट्टि०बं० णाणावरणादि० णि० अज० संखेज्जगु० ।

४३७. तिरिक्खायु० ज०ट्टि०बं० धुविगाओ णि० बं० संखेज्जगु० । सेसाओ परियत्तमाणियाओ सिया० संखेज्जगु० । एवं मणुसायुगं पि । देवायु० ज०ट्टि०बं० णाणावरणादि० णि० बं० संखेज्जगु० ।

४३८. एग्गोद० ज०ट्टि०बं० पंचणा०-एवदंसणा०-सोलसक०-भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०-क० णि० बं० संखेज्जभा० । आसादा०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-णीचुच्चा० सिया० संखेज्जभा० । पुरिस० णियमा संखेज्जभा० । णाम० सत्थाण-भंगो । एवं एग्गोदभंगो तिण्णिसंठा०-चदुसंध०-अप्पसत्थवि०-दूभग-दुस्सर अणादे० ।

४३९. सम्माभिच्छ० आभिणिबोधि० ज०ट्टि०बं० चदुणा०-एवदंसणा०-सादा०-वारसक०-पंचणोक०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगु०४-

का बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । देवायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ज्ञानावरणादिका नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

४३७. तिर्यञ्च आयुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । देवायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ज्ञानावरण आदिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है ।

४३८. न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलहकषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, और कार्मण शरीर इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, नीचगोत्र और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान तीन संस्थान, चार संहनन, अप्रशक्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४३९. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पांच नोकषाय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, अस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण उच्चगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो

पसत्थ०--तस०४-धिरादिद्व०--णिमि०-उच्चा०--पंचंत० णि० वं० । तं तु० । दोगदि-  
दोसरीर-दोअंगो०--वज्जरि०--दोआणु० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स ।  
तं तु० ।

४४०. असादा० ज०ट्टि०वं० धुविगाणं णि० वं० संखेज्जगु० । हस्स-रदि-  
दोगदि--दोसरीर--दोअंगो०--वज्जरि०--दोआणु०--धिर--सुभ-जस० सिया० वं०  
संखेज्जगु० । अरदि-सोग-अधिर-अजस० सिया० । तं तु० ।

४४१. मिच्छादिद्वी० मदि०भंगो । सरिण० मणुसभंगो । असरिण० तिरिक्खोघं ।  
णवरि णिरयायु० ज०ट्टि०वं० णिरयगदि--वेउन्वि०--वेउन्वि०अंगो०--णिरयाणु०  
णि० वं० संखेज्जभा० । सेसाणं संखेज्जगु० । एवं देवायु० । आहार० ओघं ।

नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और दो आनुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थिति का भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है ।

४४०. असातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । अरति, शोक, अस्थिर और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है यदि बन्धक होता है तो वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है ।

४४१. मिथ्यादृष्टि जीवोंका भङ्ग मत्तज्ञानी जीवोंके समान है । संज्ञी जीवोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है । असंज्ञी जीवोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि नरकायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव नरकगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तथा शेष प्रकृतियोंकी संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

अणाहार० कम्मइ० भंगो ।

एवं जहणसणियासो समत्तो ।

एवं सणियासो समत्तो ।

४४२. एणाजीवेहि भंगविचयानुगमेण दुवि०-जह० उक्क० । उक्कस्सए पगदं । तं तत्थ इमं अट्टपदं मूलपगदिभंगो कादव्वो । एदेण अट्टपदेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० णिरय-मणुस-देवायूणं उक्कस्सा० अणुक्कस्सा० अट्टभंगो । सेसाणं पगदीणं उक्कस्स० अणुक्कस्सा० तिणियाभंगो । एवं ओघभंगो तिरिक्खोवं पुहवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं च वादर०-वादरवणफदिपत्तेय०-कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-किएण०-णील०-काउ०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-असणिया०-आहार०-अणाहारगे त्ति ।

४४३. एइंदिय-वादरपुहवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणफदिपत्तेय०अप-ज्जत्त-सव्वसुहुम-वणफदि-णियाद० आयूणि दोणिया ओघं । सेसाणं उक्क० अणुक्क० वंधगा य अबंधगा य ।

४४४. मणुसअपज्जत्त०-ओरालियमि०-कम्मइग०-अणाहार० देवगदि०४-तित्थय० वंडव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-अवगद०-सुहुमसंप०-उवसम०-सासण०-आहारक जीवोंका भङ्ग ओघके समान है तथा अनाहारक जीवोंका भङ्ग कामणकाययोगी जीवोंके समान है ।

इस प्रकार जघन्य सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

इस प्रकार सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

४४२. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसके विषयमें यह अर्थपद मूल प्रकृतिबन्धके समान करना चाहिए । इस अर्थपदके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे नरकायु, मनुष्यायु और देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धकके आठ भङ्ग होते हैं । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके तीन भङ्ग होते हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य निर्यञ्च पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इनके वादर, वादरवनस्पतिकायिकप्रत्येक, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक-मिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

४४३. एकेन्द्रिय अपर्याप्त, वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त, वादरजलकायिक अपर्याप्त, वादर अग्निकायिकअपर्याप्त, वादरवायुकायिकअपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, सब सूक्ष्म, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके दो आयु ओघके समान हैं । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव होते हैं और अबन्धक जीव होते हैं ।

४४४. मनुष्य अपर्याप्त, औदारिक मिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिचतुष्क और तीर्थंकर प्रकृतिके तथा वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सूक्ष्मसाम्परायिक सयत, उपशमसभ्यगृष्टि,

सम्पामिच्छादिद्वि त्ति सव्वपगदीणं उक्कस्सा० अणुक्कस्सा० अट्टभंगा ।

४४५. वादरपुट्टवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणफदिपत्तेय०पज्जता० देवगदि भंगो । आयु०णिरयायुभंगो । सेसाणंणिरयाओ याव सणिए त्ति ओघं । एवमुक्कस्सं समत्तं

४४६. जहणएण पगदं । तत्थ इमं अट्टपदं मूलपगदिभंगो । एदेण अट्टपदेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० खवगपगदीणं तिणिएआयु-वेउव्वियत्त-तिरिक्ख-गदि०४-आहारदुग-तित्थय० जह० अजह० उक्कस्सभंगो । सेसाणं पगदीणं जह० अज० अत्थि बंधगा य अबंधगा य । एवं ओघभंगो कायजागि-ओरालियका०-एवुंस०-कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारए त्ति ।

४४७. तिरिक्खगदीए तिणिएआयु०-वेउव्वियत्त०-तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जा०-णीचा० उक्कसभंगो । सेसाणं जह० अज० अत्थि बंधगा य अबंधगा य । एवं तिरिक्खोत्रं ओरालियमि०-कम्मइ०-मदि०-मुद०-असंजद०-किएण०-णील०-काउले०-अभवसि०-मिच्छादि०-असणिए०-अणाहारग त्ति । एवरि ओरालियमिस्स-कम्मइ-अणाहारगे देवगदिपंचगं उक्कस्सभंगो ।

सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धके आठ भङ्ग होते हैं ।

४४५. वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिकपर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके देवगतिके समान भङ्ग है । तथा आयुका नरकायुके समान भङ्ग है । शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञो तक सब मार्गणाओंमें ओघके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट भङ्गविचयानुगम समाप्त हुआ ।

४४६. जघन्यका प्रकरण है । उस विषयमें यह अर्थपद मूलप्रकृतिस्थिति बन्धके समान है । इस अर्थपदके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा क्षपक प्रकृतियाँ, तीन आयु, वैकियिक छह, तिर्यञ्चगति चार, आहारक-द्विक और तीर्थंकरको जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धके बन्धक जीव होते हैं और अबन्धक जीव होते हैं । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

४४७. तिर्यञ्चगतिमें तीन आयु, वैकियिक छह, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगन्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धके बन्धक जीव होते हैं और अबन्धक जीव होते हैं । इस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान औदारिक मिथ्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिक मिथ्रकाययोगी, कार्मण काययोगी और अनाहारक जीवोंके देवगति पञ्चकका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

४४८. एइंदिएसु [मणुसग०-] मणुसाणु०-तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० ओघो । सेसं उक्कस्सभंगो । पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तिरिक्खायु० ओघं । सेसं उक्कस्सभंगो । वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरण्णप्फदिपत्तेय०-अपज्जत्त-सव्वसुहुम-वण्णप्फदि-णियांदे० मणुसायु०-ओघं । सेसाणं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । सेसाणं णिरयादि याव सणिएण त्ति उक्कस्सभंगो ।

एवं जहणणयं समत्तं ।

४४९. भागाभागं दुविधं-जहणणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघेण तिणिएणआयु०-वेउव्वियत्त०-तित्थय० उक्क०ट्ठि०बंधगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? असंखेज्जदिभागो । अणु०ट्ठि०बंधगा सव्वजी० के० ? असंखेज्जा भागा । आहार०-आहार०अंगो० उ०ट्ठि०वं० सव्वजी० के० ? संखेज्जदिभा० । अणु०ट्ठि०वं० के० 'संखेज्जा भा० । सेसाणं पगदीणं उ०ट्ठि०वं० सव्वजी० के० ? अणंतओ भागो । अणु०ट्ठि०वं० सव्व० के० ? अणंता भागा । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि०-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-एवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंजद०-अचक्खुदं०-तिणिएणले०-भवसिद्धि०-अभवसि०-मिच्छादि०-

४४८. षकेन्द्रियोंमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रका भङ्ग ओघके समान है तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वादर पृथ्वीकायिक, वादर-जलकायिक, वादर अग्निकायिक और वादर वायुकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चायुका भङ्ग ओघके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त वादर जलकायिक अपर्याप्त, वादर अग्निकायिक अपर्याप्त, वादर वायुकायिक अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, सब सूक्ष्म, वनस्पति कायिक और निगोद जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव होते हैं और अवन्धक जीव होते हैं। नरकगतिसे लेकर संज्ञो मार्गणा तक शेष सब मार्गणाओंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

इस प्रकार जघन्य भङ्गविचयानुगम समाप्त हुआ ।

४४९. भागाभाग दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। इसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे तीन आयु, वैक्रियिक छह और तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। आहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले,

१ मूलपुतौ संखेज्जदिभाग० इति पाठः । २ मूलपुतौ अणंता भागा इति पाठः ।

आहार०-अणाहारग ति । एवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहार० देवगदिपंचगस्स  
आहारसरीरभंगो । सेसाणं णिरयादि याव सण्ण ति ए असंखेज्जजीविगा तेसि  
तित्थयरभंगो । एवं ए संखेज्जजीविगा तेसि आहारसरीरभंगो । एइंदिय-वणप्फदि-णियो-  
दाणं तिरिक्खायु० ओघं । सेसाणं पगदीणं मणुसअपज्जत्तभंगो ।

एवं उक्कस्सभागाभागं समत्तं ।

४५०. जहणए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० खवगपगदीणं  
तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० ज०ट्टि०वं० सव्व० केव० अणंतओ भागो ।  
अज०ट्टि०वं० सव्व० केव० ? अणंता भा० । आहार०-आहार०अंगो उक्कस्स-  
भंगो । सेसाणं पगदीणं ज०ट्टि०वं० सव्व० केव० ? असंखेज्जदिभागो । अज०ट्टि०वं०  
सव्व० केव० ? असंखेज्जा भागा । एवं ओघभंगो कायजोगि०-ओरालियका०-  
एवुंस०-कोधादि०४-अचक्खुदं०-भवसिद्धि०-आहारग ति ।

४५१. तिरिक्खेसु तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० ओघं । सेसाणं  
पगदीणं देवगदिभंगो । एवं तिरिक्खोघभंगो एइंदि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-मदि०

भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी  
विशेषता है कि औदारिक मिथकाययोगी, कर्मण काययोगी और अनाहारक जीवोंमें  
देवगति पञ्चकका भङ्ग आहारक शरीरके समान है । शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी मार्गणा  
तक जिन मार्गणाओंमें जो असंख्यात जीव-राशियाँ हैं उनका भङ्ग तोर्यङ्कर प्रकृतिके समान  
है । तथा इसी प्रकार जो संख्यात जीव-राशियाँ हैं उनका भङ्ग आहारक शरीरके समान  
है । एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके तिर्यञ्चायुका भङ्ग ओघके समान है ।  
तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्य अपर्यातकोंके समान है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट भागाभाग समाप्त हुआ ।

४५०. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
क्षपक प्रकृतियाँ, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रके जघन्य स्थितिके  
बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । अजघन्य  
स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं ।  
आहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्गका भङ्ग उत्कृष्टके समान हैं । शेष प्रकृतियोंके  
जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग  
प्रमाण हैं । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात  
बहुभाग प्रमाण हैं । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिक काययोगी,  
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके  
जानना चाहिए ।

४५१. तिर्यञ्चोंमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रका भंग  
ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भंग देवगतिके समान है । इस प्रकार सामान्य

१. मूलपुत्तो—गदीणं तिरिक्खगदीणं तिरिक्ख—इति पाठः । २. मूलपुत्तो अणंतभा० इति पाठः ।



सुद०--असंज०-तिरणले०-अभवसि०--मिच्छा०-असणिण०-अणाहारग ति । एवरि  
ओरालियमि०--कम्मइ०-अणाहार० देवगदि०४-तित्थय० आहारसरीरभंगो । सेसाणं  
णिरयादि याव सणिण ति ए संखेज्जजीविगा ए अ असंखेज्जजीविगा तेसिं जह०  
अज० उक्कस्सभंगो ।

एवं भागाभागं समत्तं ।

४५२. परिमाणं द्वि०-जह० उक्क० । उक्कस्सए पगदं । द्वि०-ओघे० आदे० ।  
ओघेण णिरयायु०--वेउव्वियल्ल० उक्क० अणु० द्विदिवंधगा केत्तिया ? असंखेज्जा ।  
तिरिक्खायु० उ०ट्टि०वं० केत्तिया ? संखेज्जा । अणु०ट्टि०वं० केत्तिया ? अणंता ।  
मणुसायु०--देवायु०-तित्थय० उक्क०ट्टि०वं० केत्तिया ? संखेज्जा । अणु०ट्टि० केत्ति० ?  
असंखेज्जा । आहा०२-उक्क० अणु० ट्टि०वं० केत्ति० ? संखेज्जा । सेसाणं पगदीणं  
उ०ट्टि०वं० केत्ति० ? असंखेज्जा । अणु०ट्टि०वं० केत्ति० ? अणंता । एवं ओघभंगो  
तिरिक्खायुं कायजोगि--ओरालि०--ओरालि०मि०--कम्मइ०--एवुंस०--कोधादि०४--  
मदि०--सुद०--असंज०--अचक्खुदं०--तिरणले०--भवसि०--अभवसि०--मिच्छादि०--  
आहार०-अणाहारग ति । एवरि किरण० णील०-तित्थय० उ० अणु० ट्टि०वं०

तिर्यञ्चोंके समान एकेन्द्रिय, औदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मण काययोगी, मत्यज्ञानी,  
श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंशी और अनाहारक जीवोंके  
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मण काययोगी  
और अनाहारक जीवोंमें देवगतिचतुष्क और तीर्थंकर प्रकृतिका भंग आहारक शरीरके  
समान है। शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञीतक जितनी मार्गणाएँ हैं इनमें जो संख्यात जीव-  
राशियाँ हैं और जा असंख्यात जीव-राशियाँ हैं उन सबमें जघन्य और अजघन्यका भंग  
उत्कृष्टके समान है।

इस प्रकार जघन्य भागाभाग समाप्त हुआ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ।

४५२. परिणाम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी  
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे नरकायु और वैक्रियिक दुहकी  
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्ट  
स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ?  
अनन्त हैं। मनुष्यायु, देवायु और तीर्थंकर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ?  
संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। आहारक द्विककी  
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट  
स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ? अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने  
हैं ? अनन्त हैं। इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी,  
ओदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मण काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्य-  
ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, आहारक  
और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नीललेश्यामें

संखेज्जा । ओरालियमि०--कम्मइ०--अणाहार० देवगदि०४--तित्थय० उक्क० अणु०  
ट्टि०वं० केत्ति० ? संखेज्जा ।

४५३. णिरएसु मणसायु० उ० अणु० ट्टि०वं० संखेज्जा । सेसाणं उक्क० अणु०  
के० ? असंखेज्जा । एवं सव्वणिरय-सव्वदेव० । णवरि सव्वहसि० सव्वपगदीणं उ०  
अणु० ट्टि०वं० केत्ति० ? संखेज्जा ।

४५४. पंचिदियतिरिक्ख०३तिणिएआयु० उ०ट्टि०वं० केत्ति०? संखेज्जा । अणु०-  
ट्टि०वं० केत्ति० ? असंखेज्जा । सेसाणं पगदीणं उ० अणु० ट्टि०वं० केत्तिया ? असं  
खेज्जा । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त० मणुसायु० उ०ट्टि०वं० केत्ति०? संखेज्जा । अणु०-  
ट्टि०वं० केत्ति० ? असंखेज्जा । सेसाणं उ० अणु० ट्टि०वं० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं  
मणुसअपज्जत्त-सव्वविगलंदिय० चदुएहं कायाणं वादरवणप्फदिपत्तेय० ।

४५५. मणुसेसु दोआयु०-वेउव्वियद्ध०-आहार०२-तित्थय० उ० अणु० ट्टि०वं०  
के० ? संखेज्जा । सेसाणं उ०ट्टि०वं० के० ? संखेज्जा । अणु०ट्टि०वं० केत्तिया ? असं-  
खेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीमु सव्वाणं पगदीणं दो पदा संखेज्जा ।

४५६. एइंदिय-वणप्फदि-णियोदंसु तिरिक्खायु० उक्क० असंखेज्जा । अणु०

तीर्थंकर प्रकृतिकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव संख्यात हैं ।  
औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगति चतुष्क और  
तीर्थंकर प्रकृतिकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं !

४५३. नारकियोंमें मनुष्यायुकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यात  
हैं । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।  
इसी प्रकार सब नारकी और सब देवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थ-  
सिद्धिमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ! संख्यात हैं ।

४५४. पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें तीन आयुओंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने  
हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी  
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च  
अपर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।  
अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और  
अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त,  
सब विकलेन्द्रिय, चार स्थावर काय और वादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर जीवोंके  
जानना चाहिए ।

४५५. मनुष्योंमें दो आयु, वैक्रियिक छह, आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृतिकी  
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी  
उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव  
कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके दो पदवाले  
जीव संख्यात हैं ।

४५६. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिके  
बन्धक जीव असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव अनन्त हैं । मनुष्यायुकी

अणता । मणुसायु० उक्क० अणु० ओघं । 'सेसाणं उक्क० अणु० अणता ।

४५७. पंचिदिय-तसपज्जत्ता०२ तिणिएण आयु० तित्थय० उ०ट्टि०वं० संखेज्जा ।  
अणु० असंखेज्जा । आहार०२ उक्क० अणु० संखेज्जा । सेसाणं उक्क० अणु०  
असंखेज्जा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-चक्खु०-सणिएण त्ति । पंचिदि०-  
तसअपज्जत्त० तिरिक्खभंगो ।

४५८. वेउव्वि०-वेउव्वि० [मिस्स०] देवांघं । एवरि मिस्से तित्थय० दो वि  
पदा संखेज्जा । आहार०-आहारमिस्स-अवगदवे०-मणपज्जव०-संजद-सामाइय-  
छेदोव०-परिहार०-सुहमसं० सव्वपगदीणं उक्क० अणु० ट्टि०वं० के० ? संखेज्जा ।

४५९. विभंगे तिणिएण आयु० उ०ट्टि०वं० के० ? संखेज्जा ! अणु० के० ?  
असंखेज्जा । सेसाणं उक्क० अणु० ट्टि०वं० केत्ति० ? असंखेज्जा । आभि०-सुद०-ओधि०  
मणुसायु०-आहार०२ दो वि पदा संखेज्जा । देवायु०-तित्थय० उ०ट्टि०वं० केत्ति० ?  
संखेज्जा । अणु० असंखेज्जा । सेसाणं उ० अणु० ट्टि०वं० के० ? असंखेज्जा । एवं  
ओधिदं०-सम्मदि०-वेदगसम्मा०-[ उवसमसम्मा० । ] एवरि उवसमस० आहार०२-  
तित्थय० दो वि पदा संखेज्जा । संजदासंजदेसु देवायु० उ०ट्टि०वं० संखेज्जा । अणु०  
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट  
और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव अनन्त हैं ।

४६०. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें तीन आयु और  
तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक  
जीव असंख्यात हैं । आहारक द्विककी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यात  
हैं । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी  
प्रकार पांच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी चक्षुदर्शनी और संक्षी जीवोंके  
जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंमें तीर्थञ्चोंके समान भङ्ग है ।

४६१. वैक्रियिक काययोगी और वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य  
देवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिक मिश्रकामयोगमें तीर्थकर  
प्रकृतिके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं । आहारक काययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी,  
अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामयिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारचिशुद्धि  
संयत और सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके  
बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।

४६२. विभङ्ग ज्ञानी जीवोंमें तीन आयुओंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने  
हैं । संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ? शेष प्रकृतियों  
की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आभिनिवोधिक  
ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मनुष्यायु और आहारक द्विकके दोनों ही पदवाले  
जीव संख्यात हैं । देवायु और तीर्थकर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ?  
संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और  
अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्-  
दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि  
उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें आहारक द्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात  
हैं । संयतासंयत जीवोंमें देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट

असंखेजा । तित्थय० दो वि पदा संखेजा । सेसाणं उक्क० अणु० ङ्कि० ब० असंखेजा ।

४६० तेउ-पम्मासु मणुसायु० देवोधं । देवायु० उ० ङ्कि० ब० संखेजा । अणु० असंखेजा । सेसाणं उ० अणु० ङ्कि० ब० के० ? असंखेजा । सुक्काए खहगे दांआयु०-आहार० २ दो पदा संखेजा । सेसाणं उक्क० अणु० असंखेजा । सासणे तिरिक्ख-देवायु० उक्क० संखेजा । अणु० ङ्कि० ब० असंखेजा । मणुसायु० दो वि पदा संखेजा । सेसाणं उक्क० अणु० असंखेजा । सम्मामिच्छा० सव्वार्ण उक्क० अणु० असंखेजा । असण्णीसु णिरय-देवायु० उक्क० अणु० असंखेजा । तिरिक्खायु० उक्क० असंखेजा । अणु० अणंता । सेसाणं ओधं ।

एवं उक्कसपरिमाणं समत्तं ।

४६१ जहणए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-उच्चा०-पंचंत० जह० ङ्कि० बंधगा केत्तिया ? संखेजा । अज० केत्ति० ? अणंता० । तिण्णि आयु०-वेउ व्वियत्तं जह० अज० असंखेजा । आहार० २ उक्कसभंगो । तित्थय० ज० ङ्कि० संखेजा । अज० असंखेजा । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उजो०-णीचा० जह० असंखेजा । अज० अणंता । सेसाणं जह० अज०

स्थितिके बंधक जीव असंख्यात हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बंधक जीव असंख्यात हैं ।

४६०. पीत और पद्म लेश्या में मनुष्यायुका भंग सामान्य देवोंके समान है । देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । शुक्ल लेश्या और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें दो आयु और आहारक द्विकके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति के बन्धक जीव असंख्यात हैं । सासादन सम्यक्त्वमें तिर्यञ्चायु और देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यायुके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । असंज्ञी जीवोंमें नरकायु और देवायुकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बंधक जीव असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव अनन्त हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघ के समान है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्त हुआ ।

४६१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुपवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । तीन आयु और वैक्रियिक छहकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । आहारक द्विकका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव अनन्त है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव

अर्णता । एवं ओघमंगो कायजोगि-ओरालि०-णवुंस०-कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारगे त्ति । खवरि ओरालि० तित्थय० उक्कस्समंगो ।

४६२ गिरएसु उक्कस्समंगो । तिरिक्खेसु तिण्णिआयु०-वेउव्वियल्ल०-तिरिक्खगदि ४ ओघं । सेसाणं जह० अज० अणंता । सव्वपंचिदियतिरिक्खेसु सव्वपगदीणं जह० अज० असंखेजा । एवं पंचिदिय०तिरिक्खमंगो सव्वअपज्जत्त--विगलिदि० चटुण्णं कायाणं बादरवण्णप्फदिपत्ते० ।

४६३ मणुसेसु खविगाणं जह० संखेजा । अज० असंखेजा । दो आयु-वेउव्वियल्ल०-आहार०२-तित्थय० दो पदा संखेजा । सेसाणं दो वि पदा असंखेजा । मणुसपज्जत्त--मणुसिणीसु उक्कस्समंगो ।

४६४ एइंदि० तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु-उजो०-णीचा० ओघं । सेसाणं जह० अज० अर्याता । एवं सव्ववण्णप्फदि-णियोदाणं । खवरि तिरिक्खगदि०४ जह० अज० अणंता ।

४६५ पंचिदिय-तस०२ खविगाणं तित्थय० जह० संखेजा । अज० असंखेजा । आहार०२ ओघं । सेसाणं जह० अज० असंखेजा ।

४६६ पंचमण-तिण्णिवचि० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासाद०-चटुवीसमोह०-

अनन्त हैं । इसीप्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिक काययोगमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

४६२. नारकियोंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है । तिर्यञ्चों में तीन आयु, वैक्रियिक छह, तिर्यञ्चगति चारका भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव अनन्त हैं । सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके समान सब अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय, चारकायवाले और बादर वनस्पतिकाधिक प्रत्येक शरीर जीवोंके जानना चाहिए ।

४६३. मनुष्योंमें क्षपक प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । दो आयु, वैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदवाले जीव संख्यात हैं । तथा शेष प्रकृतियोंके दोनों ही पदवाले जीव असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

४६४ एकेंद्रियोंमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव अनन्त हैं । इसी प्रकार सब वनस्पतिकाधिक और निगोद जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति चतुष्ककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव अनन्त हैं ।

४६५ पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें क्षपक प्रकृतियों और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । आहारद्विकका भंग ओघके समान है । तथा शेष प्रकृतियों की जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं ।

४६६. पांच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण.

देवगदि--पंचिदिय०--वेउव्विय--तेजा०--क०--समचदु०-- वेउव्वि०अंगो०--वण्ण०४--दे-  
वाणु०--अगु०४--पसत्थ०तस०४--थिराथिर-सुभासुभ-सुभग - सुस्सर - आदेज्ज-जस०-  
अजस०--णिमि०--तित्थय०--उच्चा०--पंचंत० जह० संखेज्जा । अज० असंखेज्जा ।  
आहारदुगं ओघं । सेसाणं दो वि पदा असंखेज्जा । वचिजो०-असच्चमो०-इत्थि०-पुरिस०  
पंचिदियभंगो । णवरि इत्थि० तित्थय० जह० अज०संखेज्जा ।

४६७ ओरालियमि०-कम्मइ०--अणाहार० तिरिक्खोघं । णवरि देवगदि०४-  
तित्थय० उक्कस्सभंगो । वेउव्वि०-वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-अवगद०-मणप-  
ज्जव०--संजद-सामाह०-छेदोव०-परिहार०-सुहुमसंप० उक्कस्सभंगो । मदि-सुद०-असंज०-  
तिणिले०-अभवसि०-मिच्छादि०-असण्णि० तिरिक्खोघं । णवरि असंजद० तित्थय०  
जह० संखेज्जा । अज० असंखेज्जा ! किण्ण०--णील० तित्थय० जह० संखेज्जा । काऊए  
तित्थय० दो वि पदा असंखेज्जा ।

४६८. विभंगे पंचणा०--णवदंसणा०--सादा०--मिच्छ०--सोलसक०--पंचणोक०--  
देवगदि--पसत्थट्ठावीस-उच्चा०--पंचंत० जह० संखेज्जा । अज० असंखेज्जा । सेसाणं जह०

सातावेदनीय, असातावेदनीय, चौबीस मोहनीय, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आंगोपांग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानु-पूर्वी, अगुरुलयु चतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रमचतुष्क, स्थिर, अस्थिर शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगात्र और पाँच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । आहारक द्विकका भंग ओघके समान है । तथा शोष प्रकृतियोंके दोनों ही पदवाले जीव असंख्यात हैं । वचनयोगी, असत्यमृपावचनयोगी, स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवों में भंग पञ्चेन्द्रियों के समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है ।

४६७ औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी और अनाहारक जीवोंका भंग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगति चतुष्क और तीर्थकर प्रकृति का भंग उत्कृष्टके समान है । वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी. अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भंग उत्कृष्टके समान है । मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य मिथ्यार्हाट और असंज्ञी जीवों में अपनी सब प्रकृतियोंका भंग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि असंयतोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । कृष्ण और नील लेश्यामें तीर्थकर प्रकृतिकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बंधक जीव संख्यात हैं । कापोत लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके दोनों ही पदवाले जीव असंख्यात हैं ।

४६८. विभंगज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पांच नोकषाय, देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ, उच्चगात्र और पाच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव

अज० असंखेजा । आभि०सुद०-ओधि०-मणुसायु०-आहारदुगं उक्कस्सभंगो । मणुसग-दिपंचगं देवायु० ज० अज० असंखेजा । सेसाणं ज० संखेजा । अज० [असंखेजा] । एवं ओधिदंस०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम० । णवरि खइगे दो आयु० उवसमे यथासंखाए तित्थय० उक्कस्सभंगो । चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो ।

४६९. तेऊए इत्थि०-णवुंस०-तिरिक्ख--देवायु--तिरिक्खगदि०४--मणुसगदिपंचग-एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंध०-आदाव०-अप्पसत्थ०-थावर-दुभग-दुस्सर-अणादे० ज० अज० असंखेजा । सेसाणं ज० संखेजा । अज० असंखेजा । मणुसायु-आहारदुगं दो वि पदा संखेजा । एवं पम्माए वि । णवरि एइंदियतिगं वज्ज । सुक्खाए इत्थि०-णवुंस०-मणुसगदिपंचग-पंचसंठा०- पंचसंध०- अप्पसत्थ०- दूभग - दुस्सर -- अणादे० णीचा० ज० अज० असंखेजा । दोआयु-आहारदुगं उक्कस्सभंगो । सेसाणं जह० संखेजा । अज० असंखेजा ।

४७०. सासण०-सम्मामि० पसत्थाणं ज० अज० असंखेजा । मणुसायु० उक्कस्सभंगो । सण्णीसु खविगाणं देवगदि०४-तित्थय० जह० संखेजा । अज०

असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मनुष्यायु और आहारकद्विकका भंग उत्कृष्टके समान है । मनुष्यगति पञ्चक और देवायुकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें दो आयु और उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें क्रमसे तीर्थकर प्रकृतिका भंग उत्कृष्टके समान है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंका भंग त्रस पर्याप्तकोंके समान है ।

४६६. पीतलेश्यावाले जीवोंमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चायु, देवायु, तिर्यञ्चगति चतुष्क, मनुष्यगतिपंचक, एकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यायु और आहारकद्विकके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं । इसी पद्मलेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है एकेन्द्रियत्रिकको छोड़कर कहना चाहिए । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, मनुष्यगतिपञ्चक, पांच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । दो आयु और आहारकद्विकका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं ।

४७०. सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें प्रशस्त प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यायुका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । संज्ञी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियाँ, देवगति चार और तीर्थङ्कर प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । शेष

असंखेज्जा । आहारदुगं ओघं । सेसायां जहं अजं असंखेज्जा । एवं परिमाणं समत्तं ।

### खेत्तपरूपणा

४७१. खेत्तं दुविं—जहं उक्कं । उक्कस्सए पगदं । दुविं—ओघे० आदे० । ओघेण तिण्णिण आयुगाणां वेउव्वियल्लं—आहारदुग-तित्थयं उक्कं अणुं ट्ठिं० केवडि खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । सेसायां उक्कं लोगस्स असंखेज्जदिभागे । अणुं सव्वलोगे । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि—ओरालिं—ओरालियमिं—कम्मइं—णवुंसं — कोधादिं०४—मदिं—सुदं—असंजं — अचक्खुं— तिण्णिले०—भवसिं—अभवसिं—मिच्छादिं—असण्णिणं—आहारं—अणाहारग त्ति । णवरि किरणं—णीलं—काउं तित्थयं उक्कं अणुकं लोगस्स असंखेज्जदिभागे ।

४७२. एइंदिएसु पंचणां—णवदंसं—सादासादं—मोहणीयं०२४—तिरिक्खगदि—एइंदिं—ओरालिं—तेजां—कं—हुंडसं—वण्णं०४— तिरिक्खाणुं—अगुं०४—धावर—सुहुम—पज्जत्तापज्जत्त—पत्ते०— साधारं—थिराथिर — सुभासुभ—दूभग—अणादे०—अजं—णिमिं—णीचां—पंचंतं उक्कं अणुं सव्वलोगे । इत्थिं—पुरिसं—चदुजादि—पंचसंठां—ओरालिं—अंगो—ल्लसंधं—आदाउज्जो—दोविहां—तस—बादर— सुभग—सुस्सर—दुस्सर—आदेज्जं—जसं उक्कं लोगं संखेज्जं । अणुं सव्वलोगे । तिरिक्ख-  
प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । परिमाण समाप्त हुआ ।

### क्षेत्रप्ररूपणा

४७१. क्षेत्र दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्ट का प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे तान आयु, वैक्रियिक ब्रह्म, आहारकद्विक और तीर्थकरकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र मव लोक है । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिचञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्र काययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचलुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कृष्ण, नील और कापोत लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

४७२. एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, चौबीस मोहनीय, तिर्यञ्च गति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुहलघुचतुष्क, स्यावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सव्व लोक है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, ब्रह्म संहनन, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, बादर, सुभग, सुम्बर, दुम्बर, आदेय और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक



मणुसायु०--मणुसगदि-मणुसाणु०--उच्चा० ओघं । बादरएइंदियपञ्जत्तापञ्जत्त०  
थावरपगदीणं उक्क० अणु० सव्वलो० । मणुसायु०--मणुसगदि-मणुसाणु०--उच्चा०  
उक्क० अणु० लोग० असंखेज्ज० । तिरिक्खायु० उक्क० लोग० असंखेज्ज० । अणु०  
लोग० संखेज्जदि० । सेसाणं उक्क० अणु० लोग० संखेज्जा० । सुहुमएइंदिय-पञ्जत्ता-  
पञ्जत्त० तिरिक्ख-मणुसायु ओघं । सेसाणं सव्वपगदीणं उक्क० अणु० सव्वलोगे ।  
एवं सव्वसुहुमाणं ।

४७३ पृढवि०--आउ०--तेउ०--वाउ० सव्वाणं ओघं । बादरपुढविका०--आउ०--  
तेउ०--वाउ०--बादरवणफ्फदिपत्ते० थावरपगदीणं उक्क० लो० असंखेज्ज० ।  
अणु० सव्वलो० । तिरिक्खायु०--तसपगदीणं उक्क० अणु० लो० असंखेज्ज० ।  
बादरपुढवि०--आउ०--तेउ०--वाउ०--बादरवणफ्फदिपत्ते०पञ्जत्ता० विगलंदियभंगो ।  
बादरपुढवि०--आउ०--तेउ०--वाउ०--बादरवणफ्फदिपत्ते०अपञ्जत्ता० थावरपगदीणं  
उक्क० अणु० सव्वलो० । मणुसायु० ओघं । तिरिक्खायु० तसपगदीणं च  
उक्क० अणु० लो० असंखेज्ज० । णवरि बादरवाऊणं आयु० अणु० लो०

जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भंग ओघके समान है । बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यात बहुभाग प्रमाण है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु का भङ्ग ओघके समान है । तथा शेष सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिसे बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । इसी प्रकार सब सूक्ष्म जीवोंके जानना चाहिए ।

४७३. पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, और वायुकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियों का भङ्ग ओघके समान है । बादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवों में स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवों का क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवों का क्षेत्र सब लोक है । तिर्यञ्चायु और त्रसप्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । बादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंका भङ्ग विकलेन्द्रिय जीवोंके समान है । बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपर्याप्त जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चायु और त्रस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि बादर वायु-

संखेज० । सेसाणं यम्हि लोगस्स असंखेज० तम्हि लोगस्स संखेज० कादव्वो । वण्णफ्फदि-णियोद० थावरपगदीणं उक्क० अणु० सव्वलो० । मणुसायु० ओघो । तिरिक्खायु०-तसपगदीणं लोग० असंखेज० । अणु० सव्वलोगे । बादरवण्णफ्फदि-णियोद० पजत्तापजत्तगाणं च बादरपुठवि०अपजत्तभंगो । सेसाणं णिरयादि याव सण्णि त्ति संखेजासंखेजरासीणं उक्क० अणु० लोग० असंखेजदिभागे ।

एवं उक्कस्सं समत्तं

४७४ जहणण पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पु रिस०-मणुसगदि-मणुसाणु०-जस०-उच्चा०-पंचंत० जह० लो० असंखेज्ज० । अज० सव्वलोगे । तिण्णियायु०-वेउव्वियछ०-आहारदुग-तिथय० जह० अज० उक्कस्सभंगो । तिरिक्खायु०-सुहुमणाम० ज० अज० सव्वलो० । सेसाणं ज० लो० संखेज्ज० । अज० सव्वलो० । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-णवुंस० क्रोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारग त्ति ।

४७५ तिरिक्खेसु वेउव्वियछ०-तिण्णियायु०-मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० ओघं । तिरिक्खायु०-सुहुमणाभाणं जह० अज० सव्वलो० । सेसाणं ओघं । एवं एइदि०-कायिक जीवों में आयुकी अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीवोंका जहाँ लोकका असंख्यातवां भाग क्षेत्र कहा है वहाँ वह लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण जानना चाहिए । वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । मनुष्यायुका भंग ओघके समान है । तिर्यञ्चायु और त्रस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवों क्षेत्र सब लोक है । बादर वनस्पतिकायिक और निगोद जीव तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंका भंग बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त जीवोंके समान है । शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी मार्गणा तक संख्यात और असंख्यात राशिवाले जीवोंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट क्षेत्र समाप्त हुआ ।

४७४. जघन्यका प्रकरण है । उसको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, मनुष्यागति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । तीन आयु, वैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र उत्कृष्टके समान है । तिर्यञ्चायु और सूक्ष्म इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागका प्रमाण है और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदरिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, अचलुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

४७५. तिर्यञ्चोंमें वैक्रियिक छह, तीन आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चायु और सूक्ष्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब

बादरएइंदि०-पज्जत्तापज्जत्त० । थावरपगदीणं च एवं चेव । तिरिक्खायु०-तसपगदीणं च ज० अज० लोग० संखेज्ज० । मणुसायु-मणुसगदिदुग० दो पदा लोग० असंखेज्ज० । सव्वसुणुपाणं मणुसायु० ओघं । सेसाणं सव्वपगदीणं ज० अज० सव्वलो० ।

४७६ पुढवि०--आउ०-तेउ०--वाउ० तिरिक्ख-मणुसायु० ओघं । सेसाणं ज० लो० असं० । अज० सव्वलो० । बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० थावरपगदीणं ज० लो० असंखे० । अज० सव्वलो० । सेसाणं ज० अज० लोग० असंखे० । बादरपुढवि०--आउ०--तेउ०--वाउ०पज्जत्त० विगल्लिदियभंगो । बादरपुढवि०--आउ०--तेउ०--वाउ०-अपज्जत्त० थावरपगदीणं जह० लोग० असंखे० । अज० सव्वलो० । दोआयु०-तसपगदीणं जह० अज० लोग० असंखे० । सुहुमं दो वि सव्वलोगे । णवरि वाऊणं सव्वत्थ जह० लो० असंखे० तम्हि लोगस्स संखेज्जदिभागं कादव्वं । वणुफ्फदि-णियोदाणं दोआयु०--सुहुमणाम० ओघं । सेसाणं ज० लो० असंखेज्ज० । अज०

लोक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसीप्रकार एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । स्थावर प्रकृतियोंका क्षेत्र इसी प्रकार है । तिर्यञ्चायु और त्रस प्रकृतियों की जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है । मनुष्यायु और मनुष्यगतिद्विक इनके दोनों ही पदोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । सब सूक्ष्म जीवोंके मनुष्यायुका भंग ओघके समान है । शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है ।

४७६. पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु का भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है और अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवों का क्षेत्र सब लोक है । बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक और बादरवायुकायिक जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । बादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त और बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग विकलेन्द्रियोंके समान है । बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त और बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । दो आयु और त्रस प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । सूक्ष्मके दोनों ही पदवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । इतनी विशेषता है कि वायुकायिक जीवोंके सर्वत्र जहाँ लोकका असंख्यातवां भाग क्षेत्र कहा है वहाँ लोकका संख्यातवां भाग क्षेत्र करना चाहिए । वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें दो आयु और सूक्ष्मनामकी अपेक्षा क्षेत्र ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है और अजघन्य स्थितिके बन्धक

सव्वलो० । बादरवणफ्फदि-णियोदाणं पज्जत्तापज्जत्ता० थावरपगदीणं ज० लो०  
असंखेज्ज० । अज० सव्वलो० । सेसाणं पगदीणं ज० अज० लोग०  
असंखेज्ज० । सुहुम० दो वि पदा सव्वलो० । बादरवणफ्फदिपत्ते० बादरपुढविभंगो ।

४७७. ओरालियमि० तिरिक्ख-मणुसायु-मणुसगदि-मणुसाणु-देवगदि०४-तित्थ-  
य०--उच्चा० ओघं । सेसाणं तिरिक्खोघं । एवं कम्मह०--अणाहारग ति । मदि०-सुद०--  
असंजतिणिण०--अभवसि०--मिच्छादि०--असणिण० तिरिक्खोघं । सेसाणं णिरयादि  
याव सणिण० संखेज्जासंखेज्जरासीणं जह० अज० लो० असंखेज्ज० । एवं खेतं समत्तं

## फोसणपरुवणा

४७८. फोसणं दुवि०--जह० उक्क० । उक्कस्सए पयदं । दुवि०--ओघे० आदे० ।  
ओघे० पंचणा--खवदंसणा-असादावे०-मिच्छ०--सोलसक०--णवुंस०--अरदि--सोग-भय-  
दुगुं०-तिरिक्खम०-ओरालि०--तेजा०--व०--हुंड०--वण०४--तिरिक्खाणु०--अणु० ४--  
उज्जो०--बादर--पज्जत्त-पत्ते०--अधिर--असुभ-द्भग-दुस्सर--अणादे०--जस०--अजस०--  
णिमि०--णीचा०--पंचंद० उक्कस्सट्ठिदिबंधगेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स  
असंखेज्ज० अट्ट-तेरसचोद्दसमागा वा देसणा । अणु० सव्वलो० । सादा०-हस्स

जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । बादर वनस्पतिकायिक और निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त  
जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण  
है और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और  
अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सूक्ष्मके दोनों ही  
पदोंका क्षेत्र सब लोक है । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंका भङ्ग बादर पृथिवीकायिक  
जीवोंके समान है ।

४७९. औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानु-  
पूर्वी, देवगति चतुष्क, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्र इनका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग  
सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इसी प्रकार कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके जानना  
चाहिए । मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभन्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी  
जीवोंके अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । शेष नरक गतिसे लेकर  
संज्ञीतक संख्यात और असंख्यात राशिवाली सब मार्गणाओंमें जघन्य और अजघन्य स्थितिके  
बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

## स्पर्शन प्ररूपणा

४७८. स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी  
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,  
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति  
औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरु-  
लघुचतुष्क, उद्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशः  
कीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने  
कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, कुछ कम आठवटे चौदहराजु और  
कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब

रदि-धिर-सुभ० उक्क० लो० असंखेज्जदिभागो अट्ट-चोदसभागा वा देखणा ।  
अणु० सव्वलो० । सादा०-हस्स-रदि-धिर-सुभ० उक्क० लो० असंखेज्जदिभागो  
अट्ट-चोदसभागा वा देखणा सव्वलोगो वा । अणु० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-  
पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर०-आदे०  
उक्क० लो०गस्स असंखे० अट्ट-बारह० । अणु० सव्वलो० । णिरय-देवायु०-आहारदुग्गं  
खेत्तमंगो । एवं सव्वत्थ । तिरिक्खायु-तिण्णिजादि० उक्क० खेत्त० । अणुक्क० सव्वलो० ।  
मणुसायु० उक्क० खेत्त० । अणु० अट्टचोदस० सव्वलोगो । गिरयग०-गिरयाणु०  
उक्क० अणु० लो०गस्स असंखे० छचोदस० । मणुसग०-मणुसाणु०-आदाव०-  
उच्चा० उक्क० लो०गस्स असंखे० अट्टचोदस० । अणु० सव्वलो० । वेउब्बि०-  
वेउब्बि०अंगो० उक्क० लो० असंखे० छचोदस० । अणु० बारहचोदस० । देवग०-  
देवाणु० उक्क० लो० असंखे० अथवा दिवडुचोदस० । अणु० छचोदस० ।  
एहंदि०-थावर० उक्क० अट्ट-णवचोदस० । अणु० सव्वलो० । सुहुम-अपजत्त-

लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, और शुभ प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर और शुभकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, कुछ कम आठबटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायो-गति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकायु, देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार इन तीन प्रकृतियोंके आश्रयसे सर्वत्र स्पर्शन जानना चाहिए । तिर्यञ्चायु और तीन जातिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है । मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगति और देवगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण अथवा कुम कम डेढ़ बटे चौदह राजु क्षेत्र का स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनकी उत्कृष्ट स्थिति के बन्धक जीवोंने ने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम नौ

साधारण० उक्त० लो० असंखे० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । तित्थय० उक्त० खेतभंगो । अणु० अट्टुवोदस० ।

४७६. आदेशेण शेरइएसु दोआयु-मणुसग०-मणुसाणु०-तित्थय०-उच्चा० उक्त० अणु० खेतं । सेसं उक्त० अणु० छच्चोदस० । पढमाए पुढवीए खेतभंगो । विदियादि याव सत्तम त्ति दोआयु-मणुसगदिदुग-तित्थय०-उच्चा० उक्त० अणु० खेतभंगो । सेसाणं उक्त० बे-तिण्णि-वत्तारि-पंच-छच्चोदस० ।

४८० तिरिक्खेसु पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं-पंचिदि-तेजा०-क०-हुंड०-त्रएण०४-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिच्च०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्त० छच्चोदस० । अणु० सव्वलो० । सादा०-इस्स-रदि-तिरिक्खगदि -- एइंदि०-ओरालि०-तिरिक्खाणु०-थावरादि०४-थिर-सुम० उक्त० लो० असं० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । इत्थि०-तिरिक्खायु०-मणुसगदि-तिण्णिजादि-वदुसंठा०-ओरालि०अंगो०-अस्संप०-आदाव० खेतभंगो ।

बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थिति के बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

४७६. आदेशसे नारकियों में दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्र इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्र के समान है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पहिली में सब प्रकृतियोंके स्पर्शनका भङ्ग क्षेत्रके समान है । दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवीं तक दो आयु, मनुष्यगतिद्विक, तीर्थङ्कर और उच्च गोत्रकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम एक बटे चौदह राजु, कुछ कम दो बटे चौदह राजु, कुछ कम तीन बटे चौदह राजु कुछ कम चार बटे चौदह राजु और कुछ कम पांच बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

४८०. तिर्यञ्चों में पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय हास्य, रति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार, स्थिर और शुभ इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, औदारिक आङ्गापाङ्ग, छह

पुरिस०-समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा०उक्क० दिवड्डुचोदस० ।  
अणु० सव्वलो० । वेउच्चियल्ल० ओघं । उज्जो०-जसगि० उक्क० सत्ता-चोदस० ।  
अणु० सव्वलो० । मणुसायु० ओघं । णवरि वज्जे णत्थि ।

४८१ पंचिदियतिरिक्खतिणिण० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ-प्रसादा०  
सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तेजा०-ऊ०-हुंड०-वण्ण०४-अगु०४ पज्जत्त-  
पचे०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० लो० असंखे० छच्चोदस० ।  
अणु० सव्वलो० । सादावे०-हस्स-रदि-तिरिक्खगदि-एइंदि०-ओरालि०-तिरि-  
क्खाणु०-थावरादि०४-थिर-सुम० उक्क० अणु० लोग० असंखे० सव्वलो० ।  
इत्थि० उक्क० खेतं । अणु० दिवड्डुचोदस० । पुरिस०-देवगदि-समचदु०-देवाणु०-  
पसत्थ-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० खेतभंगो । किं णिमित्तं भवणवासीए  
उप्पज्जदि सोधम्मीसाणे ण उपज्जदि त्ति उक्कस्सट्टिदिबन्धतो तेण खेतं, इदरत्थ दिवड्डु-  
चोदस० । अणु० छच्चोदस० । णिरयग०-णिरयाणु० उक्क० अणु० छच्चोदम० ।  
पंचिदि०-वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-७स० उक्क० छच्चोदस० । अणु० बारह० ।

संहनन और आतप इनकी मुख्यतासे स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पुरुपवेद, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ वटे चौदह राजु क्षेत्र का स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिक छहकी मुख्यतासे स्पर्शन ओघके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात वटे औदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

४८१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक में पाँच ज्ञानावरण, नौदर्शनावरण, मिथ्यात्व, असाता वेदनीय, सोलहकपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वणचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवों ने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, हास्य, रति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार, स्थिर और शुभ इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुपवेद, देवगति, समचतुरस्र-संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । क्योंकि यह जीव भवनवासियोंमें उत्पन्न होता है सौधर्म और ऐशान कल्पमें नहीं उत्पन्न होता, इसलिए उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । अन्यत्र कुछ कम डेढ़ वटे चौदह राजु स्पर्शन है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगति और नरगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आंगोपांग और त्रस इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनु-

अप्पसत्थं-दुस्सरं गिरयगदिभंगो । उज्जो-जसं उक्कं अणुं सत्तचोद्दसं ।  
बादरं उक्कं छच्चोद्दसं । अणुं तेरहच्चोद्दसं । सेसाणं उक्कं अणुं  
खेत्तभंगो ।

४८२. पंचिदियतिरिक्खअपज्जं पंचणां-णवदंसणां-सादासादं-मिच्छं-  
सोलसकं-णवुंसं-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं-तिरिक्खगदि-एइंदिं-ओरालिं-  
तेजां-ऊ-हुंडं-वण्णं-४-तिरिक्खाणुं-अगुं-४-थावर-सुहुम-पज्जत्त-पज्जत्त-पत्ते  
साधारं-थिराथिर-सुभासुभ-दुभग-अणादे-प्रज्जसं-णिमिं-णीचा-अचंतं उक्कं  
अणुं लो-असंखे-सव्वलो । उज्जो-बादर-जसगिं उक्कं अणुं सत्तचोद्दसं ।  
सेसाणं उक्कं अणुं लो-असंखे । एवं मणुसअपज्जत्त-सव्वविगल्लिंदिं-पंचिदिं-  
तसअपज्जत्त-बादर-बादरपुढविं-आउ-तेउ-आउ-बादरवण्णफदिपत्तेयं-अज्जत्तां ।

४८३ मणुसमणुअपज्जत्तमणुसिणीसु पंचणां-णवदंसणां-असादां-मिच्छं-  
सोलसकं-णवुंसं-अरदि-सोग-भय-दुगुं-तेजां-ऊ-हुंडं-वण्णं-४-अगुं-४

उक्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रशस्त-  
विहायोगति और दुःस्वर इनकी मुख्यतासे स्पर्शन नरकगतिके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिकी  
उक्कृष्ट और अनुक्कृष्ट स्थिति के बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । बादर प्रकृतिकी उक्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छद वटे चौदह राजु क्षेत्रका  
स्पर्शन किया है और अनुक्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम तेरह वटे चौदह राजु क्षेत्रका  
स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंकी उक्कृष्ट और अनुक्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन  
क्षेत्रके समान है ।

४८२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोंमें पांच ज्ञानवरण, नौ दर्शनावरण, सात वेदनीय,  
असता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,  
तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क  
तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर,  
अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अशयःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय  
इनकी उक्कृष्ट और अनुक्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण और  
सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, बादर और यशःकीर्ति: इनकी उक्कृष्ट और अनुक्कृष्ट  
स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष  
प्रकृतियोंकी उक्कृष्ट और अनुक्कृष्ट स्थिति के बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण  
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस  
अपर्याप्त, बादर पृथ्वी-कायिक पर्याप्त बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अम्बिकायिक पर्याप्त बादर  
वायुकायिक पर्याप्त और बादरवनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए ।

४८३. मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनी जीवों में पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण  
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर,  
कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर आदि



पञ्चा-पचे०-अधिरादिपंच-णिमि०-णीवा०-पंचत० उक्क० खेत्तं । अणु० ला० असंखे० सव्वलो० । सादा०-इस्स-रदि-तिरिक्खगदि-एइंदि०-ओरालि०-तिरिक्खाणु०-थावरादि०४-धिर-सुभ० उक्क० अणु० लो० असंखेज्जदि० सव्वलो० । उज्जो०-जसगि० उक्क० अणु० लोग० असंखे० सत्तचो० । बादर० उक्क० खेत्तं । अणु० ससावो० । सेसाणं खेत्तं ।

४८४ देवेषु इत्थि०-पुरिस०-दोआयु०-मणुसग०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-इस्ससंघड०-मणुसाणु०-अदाव-दोविहो०-तस-सुभग-दुस्सर-आदेज्ज०-तित्थय०-उच्चा० उक्क० अणु० अट्टचोद्दस० । सेसाणं उक्क० अणु० अट्ट-णवचोद्दस० । एवं सव्वदेवाणं अप्पणो फोसणं कादव्वं ।

४८५. एइंदिएसु थावरपगदीणं उक्क० अणु० सव्वलो० । दोआयु० तिरिक्खोव्वं । उज्जो० बादर०-जस० उक्क० सत्तचोद्दस० । अणु० सव्वलो० । सेसाणं पगदीणं उक्क० खेत्तं । अणु० सव्वलो० । बादरएइंदि०पञ्चापज्जत्त० थावरपगदीणं उक्क०

पांच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थिति के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्र के समान है और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता वेदनीय, हास्य, रति, तियञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार, स्थिर और शुभ इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति के बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और कुछ कम सात वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

४८४. देवोंमें स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, औदारिक आंगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दुस्वर, आदेय, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्र इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछकम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम नौ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब देवोंके अपना-अपना स्पर्शन करना चाहिए ।

४८५. एकेन्द्रियोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयुओंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । उद्योत, बादर और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे

अणु० सत्तचो० । मणुसायु०—मणुसगदि—मणुसाणु०—उच्चो० उक्क० अणु० लोम० असंखेज्ज० ।

४८६ पुढवि०—आउ०—तेउ०—वाउ० थावरपगदीणं उक्क० लोम० असंखेज्ज० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । तिरिक्ख-मणुसायु० तिरिक्खोधं । उज्जो०—बादर०—जस० उक्क० सत्तचो० । अणु० सव्वलो० । तसपगदीणं आदोव उक्क लोम० असंखेज्ज० । अणु० सव्वलो० ।

४८७. बादरपुढवि०—आउ०—तेउ०—वाउ०—थावरपगदीणं उक्क० लोम० असंखेज्ज० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । दोआयु० खेत्तभंगो । उज्जो०—बादर०—जस० उक्क० अणु० लोम० असंखेज्ज० सत्तचोदस । सेसाणं उक्क० अणु० लोम० असंखेज्ज० ।

४८८. बादरपुढवि०—आउ०—तेउ०—वाउ० अपज्जत्ताणं थावरपगदीणं उक्क० अणु० सव्वलो० । उज्जो०—बादर०—जसगि० उक्क० अणु० सत्तचोदस० । सेसाणं उक्क० अणु० लोम० असंखे० । गवरी वाऊणं यम्हि लोमस्स असंखेज्ज० तम्हि लोमस्स संखेज्ज० कादव्वो ।

चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

४८६. पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । उद्योत, बादर और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । त्रसप्रकृतियाँ और आतप इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

४८७. बादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयुका भङ्ग क्षेत्रके समान है । उद्योत, बादर और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

४८८. बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त और बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, बादर और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकका असंख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ पर वायुकायिक जीवोंके लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए ।

४८९. सव्वसुहुमाणं सव्वपगदीणं उक्क० अणु० खेर्णं । खवरि तिरिक्खायु० उक्क० लोग० असंखे० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । मणुसायु० उक्क० अणु० लोग० असंखेज्ज० सव्वलो० । वणप्फदि-णियोदाणं एइंदियभंगो । खवरि तसपगदीणं लोग० असंखे० कादव्वो । उज्जो०-बादर०-जसगि० उक्क० सत्तचोइस० । अणु० सव्वलो० । बादरवणप्फदि-णियोदाणं पज्जत्तापज्जत्त० बादरपुठविअपज्जत्तभंगो । बादरवणप्फदिपत्ते० बादरपुठविभंगो ।

४९०. पंचिदिय-तस०२ पंचणा०-खवदंसणा०-असादावे०-मिच्छ०-सोल-सक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-ओरालि०-तेज०-क०-हुंड०-वण्ण० ४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-पज्जत्ता-पणेय०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अट्ट-तेरहचो० । अणु० अट्ट-चोइदस० सव्वलो० । सादावे०-हस्स-रदि-थिर-सुभ० उक्क० अणु० अट्ट-चो० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-ओरालि०-अंगो०-पंचसंठा०-छसंध०-दोविहा०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे० उक्क० अणु० अट्ट-

४८६. सब सूक्ष्म जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सबलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वनस्पति कायिक और निगोद जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि त्रस प्रकृतियोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण करना चाहिए। उद्योत, बादर और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। बादर वनस्पतिकायिक, बादर निगोद और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त जीवोंके समान है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग बादर पृथ्वीकायिक जीवोंके समान है।

४९०. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जगुप्सा, तिर्यञ्चगति औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, और शुभ प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, पांच संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर और आदेय इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम

बारह० । गिरय-देवायु०-तिणिणजादि०-आहारदुगं उक्त० अणु० खेत्तं । तिरिक्ख-  
मणुमायु०-तित्थय० उक्त० खेत्तं । अणु० अट्टवोद्दस० । गिरयगदि-गिरयाणुपु० उ-  
क्त० अणु० छच्चोद्दस० । देवगदि-देवाणु० उक्त० अणु० ओघं । मणुसगं--मणुसाणु०-  
आदा०-उच्च० उक्त० अणु० अट्टवोद्दस० । एइदि०-थावर० उक्त० अट्ट-णववो० ।  
अणु० अट्टवो० सव्वलो० । वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो० उक्त० छच्चोद्दस० । अणु०  
बारहवो० । उज्जो०-वादर०-जसगि० उक्त० अणु० अट्ट-तेरह० । सुहुम-अपज्ज-  
साधार० उक्त० अणु० लो०असंखे० सव्वजो० । एवं पंचमण०-पंचवचि०-  
चक्खुदंसणि त्ति ।

४९१. कायजोगि० ओघं । ओरालिय० तिरिक्खोघं । णवरि आहारदुग-  
तित्थय० मणुसभंगो । ओरालियमि० दोआयु०-सुहुमपगदीणं सत्थाणं उक्त० लो०  
असंखेज्ज० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । णवरि मणुमायु० अणु० लो० असंखेज्ज०

बारह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकायु, देवायु, तीन जाति और आहारक द्विक इनकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरक-  
गति और नरकगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगति और देवगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगात्र इनकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकेन्द्रिय और स्थावर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम नौवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिकआंगोपांग इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, बादर और यश कीर्तिकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी और चक्षुदर्शनी जीवोंके जानना चाहिए ।

४९१. काययोगी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है । औदारिक काययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । इतनी विशेषता है कि आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्योंके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें दो आयु और सूक्ष्म प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुकी अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके

सञ्चलो० । अथवा सरीरपञ्जत्तीए पञ्जत्ती पञ्जत्तगदस्स खेत्तभंगो । उज्जो०-वादर०-जसगि० उक्क० सच्चो० । अणु० सञ्चलो० । अण्णत्थ खेत्तं । देवगदि०४ तिस्थिय० उक्क० अणु० खेत्तं । सेसाणं उभयथा उक्क० लो० असंखेज्ज० । अणु० सञ्चलो० ।

४६२. वेउव्वियका० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासाद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्खगदि-ओरालि०-तेजा०-रु०-हुंड०-त्रण०४-तिरिक्खाणु०-अणु०४-उज्जो०-वादर०-पञ्जत्त-त्तेय-थिराथिर-सुभासुभ-दुभग-अणादे०-जस०-अजस०-णिमि०-णीवा०-पंचंत० उक्क० अणु० अट्ट०-तेरह० । इत्थि०-पुरिसि०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-उस्संध०-दोविहा०-त्तस-सुभग-दोसर०-आदे० उक्क० अणु० अट्ट०-वारह० । दोआयु०-मणुमगदि-एइंदि०-मणुसाणु०-आदाव-थावर-तिस्थिय०-उच्चा० देवोघं । वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि० खेत्तभंगो ।

४९३. कम्मइग० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासाद०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-तिरिक्खगदि-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-रुम०-उस्संठा०-ओरालि०-

असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अथवा शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवोंकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है । उद्योत, वादर और यशःकीर्तिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अन्यत्र स्पर्शन क्षेत्रके समान है । देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंकी दोनों प्रकारसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

४९२. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी अगुरुलघु चतुष्क, उद्योत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेय इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्यगति, एकैन्द्रिय जाति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्र इनका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियों की मुख्यतासे स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

४९३. कर्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क,

अंगो०-छस्संध०-वण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-उज्जो०-दोविहा०-तस०४-थिरा  
दिल्लयुग०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० बारहचो०। अणु० सव्वलो०। मणुसगदि-  
तिणिणजादि-मणुसाणु० उक्क० अणु० खेतं। सुहुम-अपज्जत्त-साधार० उक्क० लो०  
असंखे०। अणु० सव्वलो०। देवगदि०४-तित्थय० उक्क० अणु० खेतं। एइंदि०-  
आदाव-थावर० उक्क० दिवड्डुचोदस०। अणु० सव्वलो०।

४९४. इत्थिवे० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-  
तेजा०-क०-हुंडसं०-वण०४-अगुरु०-पज्जत्त-पचेग०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-  
पंचंत० उक्क० अट्ट-तेरहचो०। अणु० अट्टचो० सव्वलो०। सादा०-हस्सरदि-थिर-  
सुभ० उक्क० अणु० अट्टचोदस० सव्वलो०। इत्थिवे०-पुरिस०-मणुसग०-पंचसठा०-  
ओरालि० अंगो०-छस्संध०-मणुसाणु०-आदाव०-पसस्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-  
उच्चा० उक्क० अणु० अट्टचोदस०। गिरय-देवायु०-तिणिणजादि-भाहार०२-तित्थय०  
उक्क० अणु० खेतभंगो। तिरिक्ख-मणुसाणु० उक्क० खेतं। अणु० अट्टचोदस०।

तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उज्जो, दो विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह रगत, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगति, तीन जाति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

४९४ स्त्रीवेदवाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, अमाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तैजस शरीर, कामण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। माता वेदनीय, हाम्य, रति, स्थिर और शुभ इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगति, पांच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, लह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुवर, आदेय और उच्चगोत्र इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरकायु, देवायु, तीन जाति, आहारकद्रिक और तीर्थङ्कर इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिक छहकी मुख्यतासे स्पर्शन ओघके समान है। तिर्यञ्चगति,

वेउव्वियल्ल० ओघं । तिरिक्खगदि-एइंदि०-ओरालि०-तिरिक्खाणु०-थावर० उक्क०  
अट्ट-णवचो० । अणु० अट्टचो० सव्वलो० । पंचिदि०-अप्पसत्थ०-तस-दुस्सर० उक्क०  
छच्चोद्दस० । अणु० अट्ट-वारह० । उज्जो०-जस० उक्क० अणु० अट्ट-णवचोद्दस० ।  
बादर० उक्क० अणु० अट्ट-तेरहचोद्दस । सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० उक्क० अणु०  
लोग० असंखे० सव्वलो० । पुरिसेसु इत्थिभंगो । णवरि पंचिदि०-अप्पसत्थ०-तस-  
दुस्सर० उक्क० अणु० अट्ट-वारहचोद्दस० । तित्थय० ओघं ।

४६५. णवुंस० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-इत्थि०-  
पुरिस०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-  
छसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छसंघ०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अणु०-दोविहा०-उज्जो०-  
तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदे०-अणादे०-अजस०-णिमि०-  
णीचा०-पंचंत० उक्क० छच्चोद्दस० । अणु० सव्वलो० । सादावे०-हस्सरदि-एइंदि०-  
थावरादि४-थिर-सुभ० उक्क० लो० असंखे० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० ।

एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तिर्यङ्गत्यानुपूर्वी और स्थावर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चेन्द्रिय जाति, अप्रशान्त विहायोगति, त्रस और दुस्वर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशकीर्तिकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर प्रकृतिकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदी जीवोंमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, अप्रशान्त विहायोगति, त्रस और दुस्वर इनकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भंग ओघके समान है ।

४९५. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यङ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यङ्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, दो विहायोगति, उद्योत, त्रस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय, अनादेय, अयशकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, हास्य, रति, एकेन्द्रियजाति, स्थावर आदि चार, स्थिर और शुभ इनकी उत्कृष्ट स्थितिके

दोआयु०-अहारदुग-तिथ्य०, उक० अणु० खेत्तभंगो । तिरिक्त्वायु-मणुसगदि-तिणिण-  
जादि-मणुसाणु०-आदाव-उचागो० उक० लो० असंखेज्जदि० । अणु० सव्वलो० ।  
मणुसायु० उक० खे० । अणु० लो० असंखे० सव्वलो० । वेउव्वियद्ध० ओघो ।  
उज्जो०-जस० उक० तेरहचोद्दस० । अणुक० सव्वलो० । अवगदवेदे खे० भंगो  
कोधादि०४ ओघं ।

४९६. मदि०-सुद० ओघं । णवरि देवगदि-देवाणु० उक० खे० । अणु० पंच-  
चोद्द० । वेउव्वि०-वेउव्वि० अंगो० उक० छच्चोद्दस० । अणु० एक्कारसचोद्दस० ।  
विभंगे पंचणा०-णवदंसणा०-असादावे०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-तेजा०-क०-  
हुंडसं०-वणण०४-अणु०४--पज्जत्त-पत्तेय०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत०  
उक० अट्ट-तेरह० । अणु० अट्ट-तेरह० सव्वलो० । सादावे०-हस्स-रदि-थिर-सुभ०  
उक० अणु० अट्टचो० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-पांचदि०-पंचसंठा०-ओरालि०-

बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, आहारकादिक और तीर्थङ्कर इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तिर्यञ्च आयु, मनुष्यगति, तीन जाति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्र इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिक छहकी अपेक्षा स्पर्शन ओघके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अपगतवेदी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें ओघके समान है ।

४९६. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगति और देवगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । विभंगज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, अमाता-वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएडमस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुहलधु चतुष्क पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु, कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, हाभ्य, रति, स्थिर और शुभ इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद,



अंगो०-छस्संघ०-दोविहा०-तस सुभग-दोसर-आदे० उक्क० अणु० अट्ट-वारहचोइस० ।  
 णिरय-देवायु०-तिणिणजादि० उक्क० अणु० खेत्तभंगो । तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क०  
 खेत्तभंगो । अणु० अट्ट-चोद्द० । वेउव्वियच्च० मदिभंगो । तिरिक्खण०-ओरालि०--  
 तिरिक्खाणु० उक्क० अट्ट-तेरहचो० । अणु० अट्ट-तेरहचो० सव्वलो० । मणुसग०--  
 मणुसाणु०-आदाव०-उच्चा० उक्क० अणु० अट्टचो० । एइंदि०-थावर० उक्क०  
 अट्ट-णवचो । अणु० अट्ट० सव्वलो० । उज्जो०-वादर०-जसगि० उक्क० अणु० अट्ट-  
 तेरह० । सुहुम-अपज्जत्त-साधार० उक्क० अणु० लो० असंखे० सव्वलो० ।

४६७. आभिणि०-सुद०-ओधिणा० देवायु०-आहारदुगं उक्क० अणु० ओघं ।  
 देवगदि०४ उक्क० ओघं० । अणु० छचोद्दम० । तित्थय० ओघं । सेसाणं उक्क० अणु०

पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दोविहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेय इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम वारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरकायु, देवायु और तीन जाति इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियक छहकी मुख्यतासे स्पर्शन मत्यज्ञानियोंके समान है। तिर्यञ्चगति औदारिकशरीर और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु, कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्र इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रियजाति और थावर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योन, वादर और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातबे भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

४६७. आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अविधिज्ञानी जीवोंमें देवायु और आहारक द्विककी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है। देवगति चतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थद्वर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इमी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि,

अट्टचोद्दस० । एवं ओधिदंस०--सम्मादिङ्घि-खइग०--वेदग०--उवसमस० । णवरि खइगे देवगदि०४ खेतं । तित्थय० उक्क० अणु० अट्टवो० ।

४९८. मणवज्ज०--संजद-सामाह०--छेदो०--परिहार०--सुहुमसं० खेतं । संजदा-संजदे सादावे०--हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० उक्क० अणु० छच्चोद्दस० । देवायु-तित्थय० उक्क० अणु० खेतं । सेसाणं उक्क० खेतं । अणु० छच्चोद्दस० । असंजद०--अचक्खुदं ओघं ।

४९९. क्खिण्णले० णवुंसगभंगो । णवरि णिरयागदि-वेउव्वि०--वेउव्वि०अंगो० - णिरयाणु० उक्क० अणु० छच्चोद्दस० । देवगदि-देवाणु०--तित्थय० उक्क० अणु० खेतभंगो । णील-काऊए पढमदंडओ णवुंसगभंगो । णवरि चत्तारि-वेचोद्दस० । सादा-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० एदाओ पढमदंडओ भाणिदव्वाओ । णिरयाग०-वेउव्वि०--वेउव्वि०अंगो०-णिरयाणु० उक्क० अणु० चत्तारि-वे चोद्दस० । देवगदि०-देवाणु० क्खिण्ण-भंगो । सेसाणं णवुंसगभंगो ।

वेदकप्रम्यगृष्टि और उपशमसम्यगृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षात्रिक सम्यगृष्टि जीवोंमें देवगति चतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

४९८. मन-पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोप थापनासंयत, परिहारविशुद्धि संयत और सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । संयता-संयत जीवोंमें सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यश-कीर्ति इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और तीर्थङ्कर इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंयत और अचक्षुदर्शनी जीवोंका भंग ओघके समान है ।

४९९. क्खण्णले श्यावाले जीवोंका भङ्ग ननुंसकवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि नरकगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकअंगोपाङ्ग और नरकग-यानुपूर्वी इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । नाल और कापोत लेस्यावाले जीवोंमें प्रथम दण्डकका भंग ननुंसकवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम चार बटे चौदह राजु और कुछ कम दो बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यश-कीर्ति इनकी मुख्यतासे स्पर्शन प्रथम दण्डकके समान कहना चाहिए । नरकगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वी इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम चार बटे चौदह राजु और कुछ कम दो बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगति और देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे स्पर्शन क्खण्ण लेस्यावाले जीवोंके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे स्पर्शन ननुंसकवेदी जीवोंके समान है ।

५०० तेऊए देवायु-आहारदुगं० खे० । देवगदि०४ उक्त० खेचं । अणु० दिवडू-  
चोद० । इत्थि०-पुरिस०-मणुमग०-पंचिदि० पंचसंठा०-प्रोरालि० अंगो०-छस्संघ०-  
आदाव-दोविहा०-तस-जुमग-दोसर-आदेय०-तित्थय०-उच्चा०-तिरिक्ख०-मणुसायु०  
उक्त० अणु० अट्टवो० । सेसाणं उक्त० अणु० अट्ट-णव० । पम्माए देवायु-आहारदुगं खेचं ।  
देवगदि०४ उक्त० खेचं । अणु० पंचचो० । सेसाणं उक्त० अणु० अट्ट-णवचो० । सुक्काए देवायु-  
आहारदुगं ओघं । देवगदि०४ उक्त० खेचं । अणु० छचोद्दम० । सेसाणं उक्त० अणु० छचोद० ।

५०१ भवसिद्धिया० ओघं । अबभवसि० मदि० भंगो । सासणे देवायु० ओघं । तिरिक्ख-  
मणुसायु० उक्त० खेचं । अणु० अट्टवो० । मणुसगदि-मणुमाणु-उच्चा० उक्त० अणु०  
अट्टवो० । देवगदि०४ उक्त० खेचं । अणु० पंचचोद्दम० । सेसाणं उक्त० अणु० अट्ट-  
वारह० । सम्मामि० देवगदि०४ उक्त० अणु० खेचं । सेसाणं उक्त० अणु० अट्टवो० ।

५००. पीत लेस्यावाले जीवोंमें देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है। देवगति चतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्य-गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आंगोपांग, छह संहनन, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र, तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु इनकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पद्मलेस्यावाले जीवोंमें देवायु और आहारकद्विकका भंग क्षेत्रके समान है। देवगति चतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शुक्ल लेस्यावाले जीवोंमें देवायु और आहारकद्विकका भंग ओघके समान है। देवगति चतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

५०१. भव्य जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। अभव्य जीवोंमें मत्स्यज्ञानी जीवोंके समान है। सासादनसन्म्यदृष्टि जीवोंमें देवायुका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्य-गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवगतिचतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदहराजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सन्म्यमिथ्यादृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्ककी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

५०२. असण्णीसु पंचणा०-खवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्त-  
खोक०-तिरिक्खायु-मणुसगदि-चदुजादि-[ओरालि०]-तेजा०-क०-छस्संठा०-ओरालि०-  
अंगो०-छस्संध०-वण०४-मणुसाणु०-अगु०-४-आदाव-दोविहा०-तस०४-अधि-  
रादिछ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-णीचुच्चा०-पंचंत०-उक० खेतं । अणु०सव्वलो० ।  
सादावे०-हस्स रदि-तिरिक्खगदि-एइंदि०-ओरालि०-तिरिक्खाणु०-थावरादि०४-थिर-  
सुभ० उक० लो०असंखेज्ज० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । शिरय-देवायु-वेउव्वियछ०-  
खेत्तभंगो । मणुसायु० एइंदियभंगो । उज्जो०-जसगि० उक० सत्तचोद्दस० । अणु०  
सव्वलो० । आहार० ओघं । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं उकस्सफोसणं समत्तं ।

५०३. जहणण पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० खविगाणं मणुसग०-  
मणुसाणु० जहणणट्टिदिबंधगेहिं कंवडियं खेतं फोसिदं? लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।  
अज० सव्वलो० । पंचदंस०-असादा०-मिच्छ०-वारसक०-अट्टणोक०-तिरिक्खगदि-  
चदुजादि-ओरालि०-तेजा०-क०-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संध०-वण०४--  
तिरिक्खाणु०-अगु०४-आदाउज्जो०-दोविहा०-तस-बादर-पज्जत्त-अपज्जत्त-पनेय०-  
साधार०-थिरादिपंचयुगल-अजस०-णिमि०-णीचा० जहणण० अजहणण० खेतं । शिरय-

५०२. असंज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर कामणशरीर, ब्रह्म संस्थान, औदारिक आंगोपांग, ब्रह्म संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, दो विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि ब्रह्म, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरोय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है । सातावेदनीय, हास्य, रति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार, स्थिर और शुभकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है । नरकायु, देवायु और वैक्रियिक ब्रह्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजु है और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है । आहारक जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । अनाहारक जीवोंका भङ्ग कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्पर्शन समाप्त हुआ ।

५०३ जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्दश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे क्षपक प्रकृतियाँ, मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्शन किया है ! अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पाँच दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कपाय, आठ नोकपाय, तिर्यञ्जगति, चार जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, ब्रह्म संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, ब्रह्म संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, साधारण, स्थिर आदि पाँच युगल, अयशःकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्र इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । नरकायु, देवायु और आहारकद्विकका

देवायु०—आहारदुगं उक्कस्सभंगो । एवं सव्वत्थ । तिरिक्खायु-सुहुम० जह० अज० सव्वलो० । मणुसायु० जह० [अज०] लोग० असंखेज्ज० सव्वलोगो वा । शिरय-देव-गदि-शिरय-देवाणु० जह० खेतं । अज० छच्चोद्द० । एइंदि०--थावर० जह० सत्ता-चोद्द० । अज० सव्वलो० । वेउव्वि०—वेउव्विअंगो० जह० खेतं । अजह० बारहचो० । तित्थय० जह० खेतं । अज० अट्टुचो० ।

५०४. शिरएसु दोआयु-मणुसग०--मणुसाणु०--तित्थय०--उच्चा० उक्कस्सभंगो । सेसाणं जह० खेतभंगो । अज० छच्चोद्दस० । पढमाए खेतं । विदियादि याव छट्ठि त्ति तिरिक्खायु-मणुसगदि०४-तित्थय० खेतं । सेसाणं जह० खेतं । अज० एक-दो-तिण्णि-चत्तारि-पंचचोद्दस० । शवरि तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०--उज्जो० जह० अज० एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंचचोद्दस० । सत्तमाए इत्थि-णवुंस०--पंचसंठा०-पंचसंघ०--अप्पसत्थ०--दूभग-दुस्सर-अणादे० जह० अज० छच्चोद्दस० । तिरि-

भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार इन चार प्रकृतियोंकी मुख्यतासे स्पर्शन सबत्र जानना चाहिए । तिर्यञ्चायु और सूक्ष्म इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगति, देवगति, नरकगत्यानुपूर्वी, और देवगत्यानुपूर्वी इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृति-की जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

५०४ नागकियोंमें दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पहिली पृथ्वीमें स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दूसरीसे लेकर छटवीं तक पांच पृथिवियोंमें तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति चार और तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम एक बटे चौदह राजु, कुछ कम दो बटे चौदह राजु, कुछ कम तीन बटे चौदह राजु, कुछ कम चार बटे चौदह राजु और कुछ कम पांच बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवों ने क्रमसे कुछ कम एक बटे चौदह राजु, कुछ कम दो बटे चौदह राजु, कुछ कम तीन बटे चौदह राजु, कुछ कम चार बटे चौदह राजु और कुछ कम पांच बटे चौदह राजु क्षेत्र का स्पर्शन किया है । सातवीं पृथिवीमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय इनकी जघन्य और अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यगति त्रिकका भङ्ग क्षेत्र के समान है । शेष

क्खायु-मणुसगदितिगं खेत्तं । सेसाणं जह०खेत्तं । अज० छच्चोद्दस० ।

५०५. तिरिक्खेसु पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेदणोय--मिच्छ०-सोलस ०-  
णवणोक०-दोगदि-चदुजादि-ओरालि०-तेजा०-क०-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०--  
छस्संघ०-वण०४-दोआणु०-अगु०४-आदाउजो०-दोविहा०-तस-वादर-पज्जत्त-  
अपज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिरादिछयुग०-णिमि०-णीचुच्चा०-पंचंत० जह० खेत्तं ।  
अज० सव्वलो० । तिरिक्खायु-सुहुमणा० जह० अज० सव्वलो० । मणुसायु० जह०  
अज० लोग० असंखेज्ज० सव्वलो० । एहंदि०-थावर-वेउव्वियछ० ओघं । एवं  
तिरिक्खोघं मदि०-सुद०-असंज०-अभवसि०-मिच्छादिट्टि त्ति । एवरि एदेसिं देव-  
गदि-देवाणु० अज० पंचचोद्दस० । णवरि असंजद० वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०  
अज० एकारहचोद्दस० । असंज० तित्थय० अज० अट्टचोद्दस० ।

५०६. पंचिदियतिरिक्ख०३ पंचणा०-णवदंसणा०-सादासाद०-मोहणोय०  
२४-तिरिक्खगदि-एहंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०४-तिरिक्खाणु०-  
अगुरु०४-थावर- पज्जत्त- अपज्जत्त-पत्तेय०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-द्भग-अ-  
प्रकृतियों की जघन्य स्थिति के बन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है । अजघन्य स्थिति के  
बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

५०५. तिर्यञ्चोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, दो गति, चार जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आनप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, स्थिर आदि छह युगल, निर्माण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चायु और सूक्ष्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकेन्द्रिय जाति, स्थावर और वैक्रियिक छहका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन जीवोंके देवगति और देवगत्यानुपूर्वीकी अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम पांच बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि असंयत जीवोंमें वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गकी अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इन्हीं असंयत जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

५०६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असाता-  
वेदनीय, मोहनीय चौबीस, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण  
शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त,  
प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादिय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र  
और पांच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण

शादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंतराहंगं० जह० लो० असंखेज्ज० । अज० लो० असंखेज्ज० सव्वलो० । णवरि एहंदि०-थावर० जह० सत्तचोद्दस० । उजो०-जसगि० जह० खेत्तं । अज० सत्तचोद्दस० । बादर० जह० खेत्तं । अज० तेरहचोद्दस० । सुहुम० दो वि पदा लोग० असंखेज्ज० सव्वलो० । सेसाणं जह० खेत्तं । अज० अप्पणो [ फोसणं कादव्वं । ]

५०७. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता० पंचणा०-ण्वदंसणा०-दोवेदणी०-मोहणीय०-२४-तिरिक्खगदि-एहंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण०-४-तिरिक्खाण०-अगु०-४-थावरणा०-पज्जत्त-अपज्जत्ता-परो०-साधार०-थिराथिर-सुभा-सुभ-दुभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० खेत्तं । अज०ट्टि० लोग० असंखेज्ज० सव्वलो० । णवरि एहंदि०-थावर० जह० सत्तचोद्द० । उजो०-बादर०-जसगि० जह० खेत्तं । अज्ज० सत्तचोद्द० । सेसाणं जह० अज० खेत्तभंगो । णवरि सुहुम० जह० अज० लोग० असंखेज्ज० सव्वलो० । एवं पंचिदिय-तस-अपज्ज-त्ता-गाणं सव्वविगल्लिंदिय-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदिपरोय०पज्ज-त्ता-चाणं च ।

क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति और स्थावरकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशःकीर्तिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादरकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूद्धमके दोनों ही पदवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अपना अपना स्पर्शन करना चाहिए ।

५०७. पञ्चैन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, चौबीस मोहनीय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुललघु चतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, बादर और यशःकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियों की जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि सूद्धमकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार, पञ्चैन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंके तथा सब विकलेन्द्रिय, बादर पृथ्वी-

५०८. मणुसगदीएसु३ सव्वपगदीणं जह० खेतं । अज० अप्पणो फोसणं कादव्वं । एवं मणुसअपज्जत्ता० ।

५०९. देवेषु थावरपगदीणं जह० खेतं । अज्ज० अट्ट-णवचो० । तसपगदीणं जह० खेचभंगो । अज० अट्टचो० । णवरि दोआयु०-तिस्थय० जह० अज० अट्ट-चोद्द० । एवं सव्वदेवाणं अप्पणो फोसणं णादूणं णोदव्वं ।

५१०. एइंदिए तिरिक्खोघं । बादरएइंदिय-पज्जत्त-अपज्जत्ता० सव्वपगदीणं जह० लोग० संखेज्ज० । अज० सव्वलो० । णवरि मणुसायु०-मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चा० जह० अज० लोग० असंखेज्ज० । एइंदि०-थावर० जह० सत्तचो० । अज० सव्वलो० । उज्जो०-बादर०-जसगि० जह० खेतं । अज० सत्तचोद्द० । तिरिक्खायु०-आदाव०-सुहुम०-तसपगदीणं च खेतं ।

५११. पुढवि०-आउ०-तेउ०-बाउ० तिरिक्खायु०-सुहुम० जह० अज० सव्वलो० । सेसाणं जह० लोग० असंखेज्ज० । अज० सव्वलो० । णवरि एइंदिय-थावर० कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए ।

५०८. मनुष्यत्रिकमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अपना अपना स्पर्शन करना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए ।

५०९. देवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तस प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि दो आयु और तीर्थकर प्रकृतिकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना स्पर्शन जानकर लेना चाहिए ।

५१०. एकेन्द्रियोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । बादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगात्रकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकेन्द्रिय जाति और स्थावरकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, बादर और यशःकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्र का स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चायु, आतप, सूक्ष्म और तस प्रकृतियोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

५११. पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चायु और सूक्ष्म इनकी जघन्य और अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्र का स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन



जह सत्तवो० । अज० सव्वलो० । उज्जो०—बादर—जसगि० जह० अज० खेचं । बादर-पुढवि०—आउ०—तेउ०—वाउ० थावरपगदीणं जह० लोग० असंखेज्ज० । अज० सव्व-लो० । एहं दिय०—थावर० पुढविभंगो । उज्जो०—बादर—जसगि० तिरिक्ख०अप-ज्जत्तभंगो । सेसाणं जह० अज० खेत्तभंगो । बादरपुढवि०—आउ०—तेउ०—वाउ०अपज्जत्त० थावरपगदीणं जह० अज० खेचं । एहं दि०—उज्जो०—थावर०—बादर०—जसगि० बादर-पुढविभंगो । सुहुम० जह० अज० खेचं । सेसाणं पि खेत्तभंगो ।

५१२. वणप्फदि-णियोदेसु तिरिक्खायु-सुहुम० जह० अज० सव्वलो० । एहं दि०-उज्जो०—थावर-बादर-जसगि० पुढविभंगो । सेसाणं खेत्तभंगो । णवरि मणुसायु० तिरि-क्खोषं । बादरवणप्फदि—णियोद—पज्जत्त—अपज्जत्ता० बादरपुढविअपज्जत्तभंगो । बादरवणप्फदिपत्ते० बादरपुढविभंगो । सव्वसुहुमाणं खेत्तं । णवरि मणुसायु० एहं दिय-भंगो । णवरि वाऊणं जम्हि लोग० असंखे० तम्हि लोगस्स संखेज्जदिभागं कादव्वं ।

५१३. पंचिदिय—तस०२ एहं दिय—थावरणा० जह० सत्तवो० । अज० अट्टुचोह०

किया है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, बादर और यशःकीर्ति इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । बादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्र का स्पर्शन किया है । एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनका भङ्ग पृथ्वीकायिक जीवोंके समान है । उद्योत, बादर और यशःकीर्ति इनका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकों के समान है । शेष प्रकृतियों की जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त और बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें स्थावर प्रकृतियों की जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । एकेन्द्रिय जाति, उद्योत, स्थावर, बादर, और यशःकीर्ति इनका भङ्ग बादर पृथ्वीकायिक जीवोंके समान है । सूक्ष्म प्रकृतिकी जघन्य और अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्र के समान है । शेष प्रकृतियोंका भी स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

५१२. वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें तिर्यञ्चायु और सूक्ष्म इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकेन्द्रियजाति, उद्योत, स्थावर, बादर और यशःकीर्तिका भङ्ग पृथ्वीकायिक जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग क्षेत्र के समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग समान्य तिर्यञ्चों के समान है । बादर वनस्पतिकायिक और निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंमें बादर पृथ्वीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है । सब सूक्ष्मोंका भङ्ग क्षेत्र के समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायु का भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि वायुकायिक जीवोंका जहाँपर लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ पर लोकका संख्यातवां भाग प्रमाण स्पर्शन करना चाहिए ।

५१३. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें एकेन्द्रिय और स्थावर इनकी जघन्य स्थिति

सव्वलो० । सेसाणं जह० खेत्तं । अज० अणुक्कस्सभंगो ।

५१४. पंचमण०-तिण्णिवचि० इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्प-सत्थ०-दुभग-दुस्सर-अणादे० जह० अट्ट-वारह० । अज० अणुक्कस्सभंगो । एहंदि०-थावर० जह० अट्ट-णवचो० । अज० अणुक्कस्सभंगो । मणुसमदि०४ जह० अज० अट्टचोदस० । एवं आदावं पि । सेसाणं पि जह० खेत्तं । अज० अणुक्कस्सफोसण-भंगो । णवरि सुहुम० जह० लो० असंखेज्ज० सव्वलो० । वच्चिजोगि०-असच्चमोस० तसपज्जत्तभंगो ।

५१५. कायजोगि०-ओरालिय० ओघं । णवरि ओरालियका० मणुसायु-तित्थयराणं चरज्जु णत्थि । ओरालियमि० देवगदि०४-तित्थय० उक्कस्सभंगो । सेसाणं तिरिक्खोघं । णवरि एहंदि०-थावर०-सुहुम० जह० अज० खेत्तं । वेउत्तियका० धीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ जह० अट्टचो० । अज० अणुक्कस्सभंगो । तिरिक्खगदि०४ जह० खेत्तं । अज० अणुक्कस्सभंगो । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्प-

के बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंको जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुकृष्टके समान है ।

५१४. पांच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका भङ्ग अनुकृष्टके समान है । एकेन्द्रय जाति और स्थावरकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुकृष्टके समान है । मनुष्यगति चार की जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार आतपकी अपेक्षा भी स्पर्शन जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुकृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वचनयोगी और असत्यमृषावचनयोगी जीवोंका भङ्ग त्रसपर्याप्त जीवोंके समान है ।

५१५. काययोगी और औदारिककाययोगी जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्यायु और तीर्थकर प्रकृतियोंका राजुप्रमाण स्पर्शन नहीं है । औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग उक्तके समान है तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रय जाति, स्थावर और सूक्ष्म इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । वैक्रियककाययोगी जीवोंमें स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका भङ्ग अनुकृष्टके समान है । तिर्यञ्चगति चारकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका

सत्थ०-दुर्भग-दुस्सर-अणादे० जह० अट्ट-बारह० । अज० अणुकस्सभंगो । दोआयु-  
मणुसग०-मणुसाणु०-आदाब-तित्थय०-उच्चागो० जह० अज० अट्टचो० । एइंदि०-  
थावर० जह० अज० अट्ट-णवचोद० । सेसाणं जह० अट्टचो० । अज० अणुकस्स-  
भंगो । वेउन्वियमि०-आहार०-आहारमि० खेतभंगो । कम्मइग० खेतभंगो । एवं  
अणाहार० ।

५१६. इत्थि-पुरिसेसु एइंदिय-थावर० जह० सत्तचो० । अज० अणुकस्सभंगो ।  
सुहुम० जह० अज० लोग० असंखेज० सव्वलो० । इत्थीए तित्थय० जह० अज०  
खेतं । सेसाणं जह० खेतं । अज० अणुकस्सभंगो । णवुंसगे कोधादि०४-अचक्खुदं०-  
भवसि०-आहारग ति ओघं । णवुंस०-मणुसायु०-तित्थय० ओरालियकायजोगिभंगो ।  
णवरि णवुंसगे तित्थय० खेतं । अवगदवेदे खेतं ।

५१७. विभंगे असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० अट्ट-  
बाहरचोदस० । अज० अणुकस्सभंगो । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्प-

स्पर्शन अनुत्कष्टके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच सस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग दुःस्वर और अनादेय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है, तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका भङ्ग अनुत्कष्टके समान है । दोआयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थङ्कर और उच्च गोत्र इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकेन्दिय जाति और स्थावर इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवों ने कुछ कम आठ बटे चौदहराजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुत्कष्टके समान है । वैकियिक मिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । कामणकाययोगी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

५१६. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका भङ्ग अनुत्कष्टके समान है । सूक्ष्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवों का स्पर्शन अनुत्कष्टके समान है । नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, अचक्षु दर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । किन्तु नपुंसकवेद, मनुष्यायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग औदारिक काययोगी जीवों के समान है । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । अवगतवेदमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

५१७. विभङ्ग ज्ञानी जीवोंमें असाता वदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशः कीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और

सत्थ०--दुर्भग-तुस्तर-असादे० जह० अहु-बारहचो० । अज० अणुकस्सभंगो । मणु-  
समदिपंचग० जह० अज० अहुवोद० । सेसाणं जह० खेतं । अज० अणुकस्सभंगो ।  
णवरि एइंदि०-थावर जह० अहु-खवचोद० । अज० अणुकस्सभंगो । सुहुम० जह०  
अज० लो० असंखे० सव्वलो० ।

५१८. आमिणि०-सुद०-ओधि० मणुसायु०-मणुसगदिपंचग० जह० अज०  
अहुचोदद० । देवायु०-आहारदुगं खेतं । देवगदि०४ उकस्सभंगो । सेसाणं जह०  
खेतं । अज० अणुकस्सभंगो । मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-  
सुहुमसं० खेरां ।

५१९. संजदासंजद० असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० अज०  
छचोदद० । देवायु०-तित्थय० जह० अज० खेतं । सेसाणं जह० खेतं । अज०  
छचोदद० । ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम०-आमिणि०भंगो । णवरि

कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्र का स्पर्शन किया है । अधघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्टके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्र का स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्टके समान है । मनुष्यगतिपञ्चककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियों की जघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्ट के समान है । इतनी विरोधता है कि एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने कुछकम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्टके समान है । सूक्ष्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

५१८. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मनुष्यायु और मनुष्यगति पञ्चककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है । देवगतिचतुष्कका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्टके समान है । मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धि संयत और सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

५१९. संयतासंयत जीवोंमें असाता, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और तीर्थकर इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि

त्वद्गो देवगदि०४ खेत्तं । उवसमे तित्थय० खेत्तं । चक्खुदं० तसपञ्जत्तभंगो ।

५२०. किण्ण०-णील०-काउ० असंजदभंगो । णवरि देवगदि०३-तित्थय० खेत्तं । मणुसायु०तिरिक्खभंगो । तेऊए० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासाद०-मोह०२४-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-सत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभा-सुभ-जस०-अजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० जह० खेत्तं । अज० अणुक्खसभंगो । देवगदि०४ जह० खेत्तं । अज० दिवडुचो० । सेसाणं सोधम्मभंगो । एवं पम्माए सहस्सार-भंगो कादव्वो । देवगदि०४ जह० खेत्तं । अज० पंचचो० । सुक्काए मणुसगदिपंचग० जह० अज० छच्चोद्द० । सेसाणं जह० खेत्तं । अज० छच्चो० । णवरि इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अणसत्थ०-दुभग-दुस्सर-अणादे० जह० अज० छच्चोद्द० ।

५२१. सासणे इत्थि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अणसत्थ०-तस०४ जह० अज० अट्ट-एकारस० । मणुसगदिपंचग० जह० अज० अट्टचो० । देवगदि०४ जह० अज०

जीवों का भङ्ग आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग त्रसपर्याप्त जीवोंके समान है ।

५२०. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंका भङ्ग असंयत जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगति त्रिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा मनुष्यायुका भङ्ग तिर्यञ्चों के समान है । पीतलेश्यावाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, चौबीस मोहनीय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णाचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अतराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्टके समान है । देवगति चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छेद बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सहस्त्रार कल्पके समान भङ्ग करना चाहिए । तथा देवगति चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम पांच बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें मनुष्यगतिपञ्चककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छेद बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छेद बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादय इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छेद बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

५२१. सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमें स्त्रीवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और त्रस चतुष्ककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगतिपञ्चककी

पंचवो० । सेसाणं जह० अट्टवो० । अज० अणुक्कस्सभंगो । सम्मामिच्छे सव्वपग-  
दीण जह अज० अट्टवो० । णवरि देवगदि०४ जह० खेत्तं । सण्णो पंचिदियभंगो ।  
असण्णो तिरिक्खोर्धं । णवरि आयु०—वेउव्वियल्लं जह० अज० खेत्तभंगो । एवं  
जहणयं समत्तं । एवं फोसणं समत्तं ।

### कालपरूवणा

५२२. कालो दुवि०—जह० उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० ।  
ओघे० णिरयायु० उक्क०ट्टिदिबंधया केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमयं,  
उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पलिदोवमस्स  
असंखेज्जदि० । तिरिक्खायु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसमया । अणु०  
सव्वद्धा । मणुस-देवायु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अणु० जह० अंतो०,  
उक्क० पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभा० । आहार०—आहार०अंगो०—तित्थय० उक्क०  
जहण्णु० अंतो०, अणु० सव्वद्धा । सेसाणं उक्क० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० ।

जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिचतुष्ककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम पांच बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्टके समान है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि देव-गति चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । संज्ञी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियों समान है । असंज्ञी जीवोंमें समान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि आयु और वैक्रियिक छह इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इस प्रकार जघन्य स्पर्शन समाप्त हुआ । इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

### कालपरूपणा

५२०. काल दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तमु हूत है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है । मनुष्यायु और देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्यकाल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीथङ्कर इनकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी,

अणु० सव्वद्धा । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओराल्लि०-एवुंस०-कोधादि०-  
४-मदि-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-तिण्णाले०-भवसिद्धि-अभवसिद्धि०-मिच्छादि०-अस-  
ण्ण-आहारग ति ।

५२३. णिरयेसु तिरिक्खायु० उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलि०  
असंखे० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । मणुसायु० उक्क० जह०  
एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अणु० जहणु० अंतो० । सेसाणं उक्क० जह० एग०,  
उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । अणु० सव्वद्धा । एवं सव्वणिरयाणं सव्वदेवाणं च ।  
एवरि सत्तमाए मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो०  
असंखे० । अणु० सव्वद्धा ।

५२४. पंचिदियतिरिक्खतिण्ण तिरिक्खायु० उक्क० ओघं । अणु० जह० अंतो०,  
उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । सेसाणं ओघं । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगेषु तिरिक्खायु०  
णिरयभंगो । सेसं ओघं । एवं सव्वअपज्जत्ताणं तसाणं सव्वविगल्लिंदियाणं बादरपुढवि०-  
आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवण्णफदिपत्तेयपज्जत्ताणं च । एवरि मणुसअपज्जत्तगे  
आयुगवजाणं सव्वपगदीणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० ।

क्रोधादिचार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचश्रु दर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य,  
अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

५२३. नारकी जीवोंमें तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल  
एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध  
करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग  
प्रमाण है । मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और  
उत्कृष्टकाल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट  
काल अन्तमुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक  
समय है और उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले  
जीवोंका सब काल है । इसी प्रकार सब नारकी और सब देवों के जानना चाहिए । इतनी  
विशेषता है की सातवीं पृथ्वीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिका  
बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग  
प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है ।

५२४. पञ्चेन्द्रितिर्यञ्चत्रिकमें तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल  
ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और  
उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।  
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्चायुका भङ्ग नारकियोंके समान है । तथा शेष प्रकृ-  
तियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त, त्रस, सब विकलेन्द्रिय, बादर पृथ्वी-  
कायिक, पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त  
और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि  
मनुष्य अपर्याप्तकों में आयुओंको छोड़कर सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध  
करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग  
प्रमाण है ।

५२५. मणुसेसु णिरय-देवायु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अणु० जह० उक्क० अंतो० । तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० ओघं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पत्तिदो० असंखेज्ज० । सेसाणं उक्क० जह० एग०, [उक्क०] अंतो० । अणु० सव्वद्धा । आहारदुगं तित्थय० ओघं । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु चदुआयु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अणु० जहणु० अंतो० । सेसाणं उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० सव्वद्धा । आहारदुगं तित्थय० ओघं ।

५२६. सव्वट्ठे सव्वपगदीणं उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० सव्वद्धा । आयु० णिरयभंगो ।

५२७. सव्वएइंदिएसु तिरिक्ख-मणुसायु० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । णवरि तिरिक्खायु० अणु० सव्वद्धा । सेसाणं उक्क० अणु० सव्वद्धा । एस भंगो सव्वसुहुमाणं बादरपुढवि०--आउ०--तेउ०--वाउ०अपज्जत्त०--वणप्फदि--णियोद० बादरपज्जत्त-अपज्जत्ता० बादरवणप्फदिपत्तेय०अपज्जत्तगाणं च ।

५२८. पुढवि०--आउ०--तेउ०--वाउ०-बादरपुढवि०-आउ०--तेउ०--वाउ०-बादर-

५२५. मनुष्योंमें नरकायु और देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यालवें भाग प्रमाण है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है। आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनी जीवोंमें चार आयुओंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है। आहारकद्विक और तीर्थङ्करका भङ्ग ओघके समान है।

५२६. सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है। आयुका भङ्ग नारकियोंके समान है।

५२७. सब एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। यह भङ्ग सब सूक्ष्म, बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, निगोद और इन दोनोंके बादर और पर्याप्त अपर्याप्त तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

५२८. पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, बादर पृथ्वीकायिक,



वणप्फदिपत्तेय० दोआयु० एइदियभंगो । पज्जत्तगे दोआयु० पंचिदियतिरिक्ख-  
अपज्जत्तभंगो । सेसाणं पगदीणं उक्क० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० ।  
अणु० सव्वद्धा ।

५२६. पंचिदिय-तस०२ तिण्णिआयु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्ज-  
सम० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । सेसाणं ओघं । एवं पंच-  
मण०-पंचवचि०-वेउव्वियका०-इत्थि०--पुरिस०--विभंग०-चक्खुदं०--तेउले०-पम्मले०-  
सुक्कले०--सरिण ति । एवरि पंचमण०--पंचवचि०--वेउव्वि० आयु० अणु० जह०  
एग०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । तेउ-पम्पाए तिरिक्ख-मणुसायु० देवोघं ।  
सुक्काए दो वि आयु० मणुसि०भंगो ।

५३०. ओरालियमिस्से दोआयु० एइदियभंगो । देवगदि०४-तित्थय० सत्थाणे  
उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अथवा सरीर-  
पज्जत्तीए दिज्जदि ति तदो उक्क० जहएणु० अंतो० । अणु० जह० उक्क० अंतो० ।  
सेसाणं उक्क० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । अणु० सव्वद्धा अधा-

वाटर जलकायिक, वाटर अग्निकायिक, वाटर वायुकायिक और वाटर वनस्पतिकायिक  
प्रत्येक शरीर जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है । इनके पर्याप्तकोंमें दो  
आयुओंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति-  
का बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्या-  
तवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है ।

५२६. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें तीन आयुओंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध  
करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।  
अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल  
पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार  
पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गज्ञानी,  
चक्षुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, सुक्कलेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके जानना  
चाहिए । इतनी विशेषता है कि पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी और वैक्रियिककाय-  
योगी जीवोंमें आयुके अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय  
है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें  
तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । सुक्कलेश्यावाले जीवोंमें  
दोनों ही आयुओंका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है ।

५३०. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है ।  
देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर इनकी स्वस्थानमें उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका  
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध  
करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अथवा शरीर  
पर्याप्तमें अगर यह काल प्राप्त किया जाता है तो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका  
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य  
और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका  
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट

पवत्तस्स । अथवा सरीरपज्जत्तीए दिज्जदि त्ति तदो धुविगाणं उक्क० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । एवं वेउव्वियमि०-आहारमि० । एवरि वेउव्वियमि० अणु० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । आहारमिस्से चत्तारि अंतो० ।

५३१. आहारकायजोगि० सव्वपगदीणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवरि देवायु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं आहारमिस्से देवायु० ।

५३२. कम्मइगे देवगदि०४-तित्थय० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । सेसाणं उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलियाए असंखेज्ज० । अणु० सव्वद्धा ।

५३३. अवगदवेदे सव्वाणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सुहुमसंप० ।

५३४. आभि०-सुद०-ओधि० सादावे०-हस्स-रदि-आहारदुग-थिर-सुभ-जसमि०-तित्थय० ओघं । मणुसायु० देवोघं । देवायु० ओघं । सेसाणं सव्वाणं उक्क० जह०

स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल अधः प्रवृत्तके सर्वदा है । अथवा शरीरपर्याप्तिमें यह काल दिया जाता है तो ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें चारों ही काल अन्तर्मुहूर्त हैं ।

५३१. आहारककाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इनकी विशेषता है कि देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवायुकी मुख्यतासे काल जानना चाहिए ।

५३२. कर्मणकाययोगी जीवोंमें देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है ।

५३३. अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सूक्ष्म-सांपरायिक संयत जीवोंके जानना चाहिए ।

५३४. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें साता वेदनीय, हास्य, रति, आहारकद्विक, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति और तीर्थङ्कर इनका भङ्ग ओघके सामन है । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । देवायुका भङ्ग ओघके समान है । शेष सब

अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । अणु० सव्वद्धा । एवं संजदासंजदे ओधिदं०-सम्मदि०-वेदग० ।

५३५. मणपज्जव० सादावे०-हस्स-रदि-आहारदुग-थिर-सुभ-जसगि० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० सव्वद्धा । सेसाणं उक्क० जह० उक्क० अंतो० । अणु० सव्वद्धा । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार० ।

५३६. उवसम० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं-मणुसगदि-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-वणण०४-मणु-साणु०-अणु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । सादावे०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसगि० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखेज्जदिभा० । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस०-देवगदि०४ उक्क० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । अणु० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० । आहारदुगं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तित्थय० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका सब काल है । इसी प्रकार संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

५३५. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सातावेदनीय, हास्य, रति, आहारकद्विक, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार संयत, सामाधिकसंयत छेदीपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिए ।

५३६. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अणुल्लघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, अस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यतवें भाग प्रमाण है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और देवगतिचार, इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । आहारकद्विककी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त-

अणु० जह० उक्क० अंतो० । एवं सम्मामि० । एवरि देवगदि०४ धुविगाण भंगो । सासणे दोरिण आयु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्ज० । अणु० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं उक्कस्सकालं समत्तं

५३७. जहरणए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० खवगपगदीणं आहार-दुगं तित्थय० जह० द्विदिबंध० केवचिरं ? जह० उक्क० अंतो० । अज० सव्वद्धा । तिरिक्खवग०--तिरिक्खाणु०--उज्जो०--णीचा० जह० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । अज० सव्वद्धा । तिणिणआयु० जह० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखेज्ज० । अज० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । वेउन्विद्यद्ध० उक्कस्सभंगो । सेसाणं जह० अज० सव्वद्धा । एवं ओघभंगो कायजोगि--ओरा-लियका०-एत्तुंस०-कोधादि०४-अचक्खुदं०-भवसि०-आहारगे ति । एवरि खवगपग-दीणं कायजोगि--ओरालियका० जह० जह० एग० । एवरि जोग-कसाएसु आयुगस्स अज० जह० एगस० ।

मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि देवगति चतुष्कका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें दो आयुओंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनाहारक जीवोंका भङ्ग कार्मण-काययोगी जीवोंके समान है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ ।

५३७. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निदंश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे क्षपक प्रकृतियाँ, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका सब काल है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । तीन आयुओंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । वैक्रियिक छहका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, ओदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षपक प्रकृतियोंकी काययोगी और ओदारिक काययोगी जीवोंमें जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है । इतनी विशेषता है कि योग और कषायवाले जीवोंमें आयुकी अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है ।

५३८. णिरएसु दोआयु० उक्कस्सभंगो । सेसाणं जह० [ जह० ] एग, उक्क० आवलि० असंखेज्ज० । अज० सव्वद्धा । तित्थय० उक्कस्सभंगो । एवं पढमपुढवीए । विदियादि याव सत्तमा त्ति उक्कस्सभंगो । एवरि थीणगिद्धि३-मिच्छत्त-अणंताणु-वंधि०४ जह० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । सत्तमाए तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचा० थीणगिद्धि०भंगो ।

५३९. तिरिक्खेसु णिरय-मणुस-देवायु०-वेउव्विद्ध०-तिरिक्खगदि०४ ओघं । सेसाणं जह० अज० सव्वद्धा । एवं तिरिक्खोघं मदि०-सुद०--असंज०-तिणिले०-अभवसि०-मिच्छादि०-असणिए त्ति । सव्वपंचिंदियतिरिक्खाणं उक्कस्सभंगो । एवरि चदुआयु० णिरयायुभंगो । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्त० दोआयु० तिरिक्खायु-भंगो । एवं सव्वअपज्जत्ताणं तसाणं सव्वविगल्लिदियाणं वादरपुढविकाइय-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणप्फदिपत्तेयपज्जत्ताणं च ।

५४०. मणुसेसु खवगपगदीणं देवगदि०४ जह० जह० उक्क० अंतो० । अज० ओघं । दोआयु० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । दोआयु० जह० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अज० जहएणु० अंतो० । णिरयगदि-णिरयाणु० जह० जह० एग०,

५३८. नारकियोंमें दो आयुओंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार पहली पृथ्वीमें जानना चाहिए। दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवों तक भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चार इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पहलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। सातवीं पृथ्वीमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग स्थानगृद्धि तीनके समान है।

५३९. तिर्यञ्चोंमें नरकायु, मनुष्यायु, देवायु, वैक्रियिक छह और तिर्यञ्चगति चतुष्कका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञा जीवोंके जानना चाहिए। सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि चार आयुओंका भङ्ग नरकायुके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अर्थात्तकोंमें दो आयुओंका भङ्ग तिर्यञ्चायुके समान है। इसी प्रकार सब अर्थात्त त्रस, सब विकलेन्द्रिय, वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और वादर-वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

५४०. मनुष्योंमें क्षपक प्रकृतियाँ और देवगतिचतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल ओघके समान है। दो आयुओंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। दो आयुओंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक

उक० अंतो० । अज० सव्वद्धा । सेसाणं जह० जह० एग०, उक० आवलि० असंखे० । अज० सव्वद्धा ।

५४१. मणुसपज्जत्त--मणुसिणीसु सो चेव भंगो । एवरि यमिह आवलिया० असंखे० तमिह संखेज्जसम० । मणुसअपज्जत्त० सव्वपगदीणं जह० जह० एग०, उक० आवलि० असंखे० । अज० जह० खुदाभव० विसमयूणं, उक० पलिदो० असंखे० । एवरि सव्वह परिपत्तीणं आयुगाणं च अज० पगदिकालो कादव्वो । देवाणं णिरयभंगो । एवरि एइंदि०-आदाव-थावर० सत्थाणभंगो ।

५४२. एइंदिएसु मणुसायु०--तिरिक्खगदि--तिरिक्खाणु०--उज्जो०--णीचा० ओघं । सेसाणं जह० अज० सव्वद्धा । पुढवि०--आउ०--तेउ०-वाउ०-वादरपुढवि०--आउ०-तेउ०-वाउ०-वादर-वणप्फदिपत्तेय० दोआयु० ओघं । सेसाणं जह० जह० एग०, उक० पलिदो० असंखेज्ज० । अज० सव्वद्धा । वादरपुढवि०-वाउ०-तेउ०-वाउ०-अपज्जत्ता० मणुसायु० ओघं । सेसाणं जह० अज० सव्वद्धा । एवं वणप्फदि-णियोद-वादरवणप्फदि-णियोद-पज्जत्त-अपज्जत्त० वादरवणप्फदिपत्तेय०-अपज्जत्ताणं

समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है।

५४२. मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें वही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण काल कहा है वहाँ पर संख्यात समय काल कहना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल दो समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र परिवर्तमान प्रकृतियोंकी और आयुओंकी अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल प्रकृतिबन्धके कालके समान कहना चाहिए। देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय, आतप और स्थावर इनका भङ्ग स्वस्थानके समान है।

५४२. एकेन्द्रियोंमें मनुष्यायु, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चागत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वादर पृथ्वीकायिक, वादर जलकायिक, वादर अग्निकायिक, वादर वायुकायिक और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त, वादर जलकायिक अपर्याप्त, वादर अग्निकायिक अपर्याप्त और वादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका

सव्वसुहुमाणं च ।

५४३. पंचिदिय-तस०२ खवगपगदीणं ओघं । सेसाणं पंचिदियतिरिक्ख-  
अपज्जत्तभंगो । एवं इत्थि०-पुरिस० । एवरि इत्थिवे० तित्थय० जह० जह० एग०,  
उक्क० अंतो० ।

५४४. पंचमण०-तिण्णवचि० पंचणा०-एवदंसरण-सादासाद०--मोह०२४--  
देवगदि०४-पंचिदि०-तेजा०-क०-समच्चदु०-वणण०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरा-  
थिर-सुमासुभ-सुभग-सुस्सर--आदे०--जस०--अजस०--णिमि०--तित्थय०--उच्चागो०  
पंचंत० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० सव्वद्धा । इत्थिवे०--एवुंस०-  
तिण्णगदि-चदुजादि-ओरालि० पंचसंठा०--ओरालि० अंगो०-द्धस्संघ०--तिण्णआणु०-  
आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावरादि०४--दूभग-दुस्सर--अणादे०-णीचा० जह० जह०  
एग०, उक्क० पलिदो असंखे० । अज० सव्वद्धा । चदुआयु० पंचिदियतिरिक्ख-  
भंगो । एवरि अज० जह० एग० । दोवचि० खवगपगदीणं जह० जह० एग०, उक्क०  
अंतो० । अज० सव्वद्धा । चदुआयु० मणजोगिभंगो । सेसाणं तसभंगो ।

काल सर्वदा है । इसी प्रकार वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर वनस्पतिकायिक, बादर  
निगोद और इनके पर्याप्त अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त और  
सब सूक्ष्म जीवोंके जानना चाहिए ।

५४३. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।  
शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । इसी प्रकार स्त्रीवेदी और  
पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी  
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

५४४. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-  
वरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, चौबीस मोहनीय, देवगतिचार, पञ्चेन्द्रियजाति,  
तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरम्न संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त-  
विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति,  
अयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक  
जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिके  
बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । स्त्रीवेद, नपुसंकवेद, तीन गति, चारजाति, औदारिक  
शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत,  
अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचनोत्र इनकी  
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असं-  
ख्यातर्वे भाग प्रमाण है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । चार  
आयुओंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अजघन्य स्थितिके  
बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है । दो वचनयोगवाले जीवोंमें क्षपकप्रकृतियोंकी  
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त  
है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । चार आयुओंका भङ्ग मनोयोगी  
जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग त्रस जीवोंके समान है ।

५४५. ओरालियमि० तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा०-देवगदि०४-  
तिथयरं० उक्कस्सभंगो । मणुसायु० ओघं । सेसाणं जह० अज० सव्वद्धा । वेउव्वि०-  
वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि० उक्कस्सभंगो । कम्मङ्गे तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-  
उज्जो०-णीचा० जह० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे०, । अज० सव्वद्धा ।  
देवगदि०४-तिथय० उक्कस्सभंगो । सेसाणं जह० अज० सव्वद्धा ।

५४६. अवगदे सव्वाणं जह० जह० उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क०  
अंतो० । एवं सुहुमसंप० ।

५४७. विभंगे पंचणा०-णवदंसणा०-सादावे०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-  
देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-वणण०४-देवाणु०-  
अणु०४-पसन्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० जह० जह० उक्क०  
अंतो० । अज० सव्वद्धा । असादा०-इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग-णिरयगदि-चदु-  
जादि-पंचसंठा०-पंचसंध०-णिरयाणु०-अप्पसत्थ०-आदाव-थावरादि०४-दूभग-दुस्सर-  
अणादे० जह० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० । अज० सव्वद्धा । चदुआयु०

५४५. औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्ज गत्यानुपूर्वी, उद्योत, नीचगोत्र, देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर इनका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। कर्मणकाययोगी जीवोंमें तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीच-गोत्रकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है।

५४६. अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक जीवोंके जानना चाहिए।

५४७. विभंगज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अणु-रुलधुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि लूह, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, आतप, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। चार आयुका भङ्ग



पंचिन्द्रियभंगो । तिरिक्ख-मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-दोआणु०-उज्जो०-णीचा० जह० जह० अंतो० । अज० एग०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । अज० सव्वद्धा ।

५४८. आभि०-सुद०-ओधि० असादा०--अरदि--सोग-अथिर--असुभ-अजस० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० सव्वद्धा । सेसाणं जह० जह० उक्क० अंतो० । अज० सव्वद्धा । एवरि मणुसगदिपंचग० जह० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग० । एवरि दोआयु देव-भंगो । खइगे दोआयु० मणुसि०भंगो ।

५४९. मणपज्ज०-संजद-सामाइय-छेदो० खवगपदीणं ओघं । असादावे०-अरदि-सोग-अथिर--असुभ-अजस० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सेसाणं जह० जहणु० अंतो० । सव्वपगदीणं अज० सव्वद्धा । आयु० मणुसि०भंगो । एवं परिहार० ।

५५०. संजदासंजदे असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० । अज० सव्वद्धा ! सेसाणं जह० जह० उक्क० पञ्चेन्द्रियोंके समान है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

५४८. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें असाता वेदनीय, अगति, शोक, अस्थिर अशुभ और अयशःकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति पञ्चककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि दो आयुओंका भङ्ग देवोंके समान है । ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है ।

५४९. मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंमें क्षुब्ध प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सब प्रकृतियोंकी अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । आयुका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । इसी प्रकार परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिए ।

५५०. संयतासंयत जीवोंमें असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट

अंतो०। अज० सव्वद्धा । देवायु० ओघं । चक्खुदं० तसभंगो ।

५५१. तेऊए इत्थि०-एणुंसं०-दोगदि-एइंदि०--ओरालि०-पंचसंठा०--द्धस्संघ०-  
दोआणु०--आदाउज्जो०--अप्पसत्थ० थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० जह०  
एग०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । अज० सव्वद्धा । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-  
असुभ-अजस० जह० जह० एगसमयं, उक्क० अंतो० । सेसाणं जह० जह० उक्क०  
अंतो० । अज० सव्वद्धा । एवं पम्माए । तेऊए एसिं अप्पमत्तो करेति तेसिं दुविधो  
कालो । यदि अथापवत्तसंजदो जहएणट्ठिदिवंधकालो जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।  
अथवा दंसणमोहखवगस्स कीरदि तदो जहएणु० अंतो० । एवं परिहारे । पम्माए  
देवगदिआदि अथापवत्तस्स दिज्जदि । एवं सुक्काए वि ।

५५२. उवसम० पंचणा०-द्धंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०--भय-दुगुं०-पंचिदि०-  
तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०  
उच्चा०-पंचंत० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो०  
असंखेज्ज० । सादासाद०-द्धस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०-  
देवगदि०४ जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० पलिदो०

काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघ्न्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। देवायुका भङ्ग ओघके समान है। चक्षुदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग त्रस जीवोंके समान है।

५५१. पीतलेश्यावाले जीवोंमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद दो गति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, पाँच संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र इनकी जघ्न्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघ्न्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघ्न्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनकी जघ्न्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघ्न्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। शेष प्रकृतियोंकी जघ्न्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघ्न्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघ्न्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। पीतलेश्यामें जिनको अप्रमत्त करते हैं उनका दो प्रकारका काल है। यदि अधःप्रवृत्तसंयत करता है तो उसके जघ्न्य स्थितिके बन्धकका जघ्न्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अथवा दर्शनमोहनीयका क्षपक करता है तो जघ्न्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके जानना चाहिए। पद्मलेश्यावाले जीवोंमें देवगति आदि अधःप्रवृत्तके देनी चाहिए। इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले जीवोंके भी जानना चाहिए।

५५२. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी जघ्न्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघ्न्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघ्न्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघ्न्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। सातावेदनीय, असाता-वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और देवगति चतुष्ककी जघ्न्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघ्न्य काल एक समय है और उत्कृष्ट

असंखेज्ज० । अट्क० जह० जह० उक्क० अंतो० । अज० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । मणुसगदिपंचग० जह० अज० जह० एग० अंतो० । उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । आहारदुगं जह० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तित्थय० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एगसमयं, उक्क० अंतो० ।

५५३. सासणे सम्मामि० उक्कस्सभंगो । एवरि सासणे तिरिक्ख-देवायु० जह० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखेज्ज० । अज० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । मणुसायु० देवभंगो ।

५५४. सएणीसु खवगपगदीणं देवगदि०४--आहारदुग-तित्थय० मणुसभंगो । चदुआयु० पंचिदियभंगो । सेसाणं जह० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखेज्ज० । अज० सव्वद्धा । एवं जहएणयं समत्तं ।

एवं कालं समत्तं

अंतरपरूपणा

५५५. अंतरं दुविधं । जहएणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०-ओघे०

काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और और उत्कृष्ट काल पल्यके संख्यातवें भाग प्रमाण है । आठ कषायोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । मनुष्यगति पञ्चककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । आहारक द्विककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

५५३. सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सासादनमें तिर्यञ्चायु और देवायुकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है ।

५५४. संज्ञी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियाँ, देवगति चतुष्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्योंके समान है । चार आयुओंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । इस प्रकार जघन्य काल समाप्त हुआ ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तरपरूपणा

५५५. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा

आदे० । ओघेण एणिय-मणुस-देवायूणं उक्कस्सट्ठिदिवंगंतरं केवचिरं० ? जह० एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० असं० ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ । अणु० जह० एग०, उक्क० चटुवीसं मुहुत्तं । सेसाणं उक्क० जह० एग०, उक्क० अंगुलस्स असं० असंखे० ओसप्पिणि० । अणु० एत्थि अंतरं । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-एवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-[ चक्खुदं ] अचक्खुदं--तिणिले०--भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०--असरिण०-आहार०-अणाहारग ति । एवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारगे देवगदि०४-तित्थय० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० मासपुधत्तं । तित्थय० वासपुधत्तं० ।

५५६. सव्वएइदियाणं दोआयु० ओघं । सेसाणं उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । एवं वणप्फदि-णियोदाणं ।

५५७. पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं चेव पज्जत्ता० ओघं । एवरि पज्जत्तेसु तिरिक्खायु० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे, नरकायु, मनुष्यायु और देवायु इनको उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । जो कि असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके बराबर है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काल चौबीस मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काल अङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है जो कि असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके बराबर है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मन्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंखी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्त्व है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ।

५५६. सब एकेन्द्रिय जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार वनस्पति-कायिक और निगोद जीवोंके जानना चाहिए ।

५५७. पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, बादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक तथा इन्हींके पर्याप्त जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें तिर्यञ्चायुकी अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा तैजस-

तेजा०-क० चदुवीसं मुहुत्तं० । बादर [ पृथ्वी०- ] आउ०-तेउ०-वाउ०अपज्जत्ता०  
एइंदियभंगो । सव्वसुहुमाणां एइंदियभंगो । बादरवणप्फदिपतेय० बादरपुढविभंगो ।

५५८. अवगदवेदे सव्वपगदीणां उक्क० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं । अणु०  
जह० एग०, उक्क० छम्मासं० । एवं सुहुमसं० । वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०  
तित्थय० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं० । सेसाणां उक्क०  
ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० अप्पणो पगदिअंतरं ।

५५९. मणुसअपज्ज०-सासण०-सम्मामि० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०,  
उक्क० पलिदो० असंखे० । सेसाणां णिरयादि याव सण्णि ति उक्क० जह० एग०,  
उक्क० अंगुल० असंखे० । अणु० पगदिअंतरं । आयुगाणि एसि अत्थि तेसि उक्क०  
जह० एग०, उक्क० अंगुल० असंखे० । अणु० अप्पणो पगदिअंतरं कादव्वं ।

एवं उक्कसंतरं समत्तं

शरीर और कार्मणशरीरका चौबीस मुहूर्त है । बादर पृथ्वीकायिकअपर्याप्त, बादर जल-  
कायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त और बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंका  
भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है । सब सूक्ष्मोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है । बादर वनस्पति-  
कायिक प्रत्येकशरीर जीवोंका भङ्ग बादर पृथ्वीकायिक जीवोंके समान है ।

५५८. अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य  
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका  
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महिना हैं । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्पराय  
संयत जीवोंके जानना चाहिए । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहा-  
रकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल  
ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और  
उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट  
अन्तर ओघके समान है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक  
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अपने अपने प्रकृति बन्धके समान है ।

५५९. मनुष्यअपर्याप्त, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अपनी  
सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल ओघके समान है । तथा  
अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके  
असंख्यातवें भाग प्रमाण है । नरकगतिसे लेकर संज्ञी तक शेष सब मार्गणाओंमें अपनी अपनी  
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट  
अन्तर अङ्ग लके असंख्यातवें भाग प्रमाण है जो असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी और उत्स-  
र्पिणियोंके बराबर है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल प्रकृतिबन्धके  
अन्तर कालके समान है । आयु जिनके हैं उनके उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य  
अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है  
जो कि असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियोंके बराबर है । तथा अनुत्कृष्ट  
स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल अपने अपने प्रकृतिबन्धके अन्तर कालके समान  
करना चाहिए ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर काल समाप्त हुआ ।

५६०. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० खवगपगदीणं जह० जह० एग०, उक्क० छम्मासं० । अज० एत्थि अंतरं । तिण्णियायु०-वेउव्वियद्ध०-तिरिक्खग०-आहारदुग-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-तित्थय०-णीचा० उक्कस्सभंगो । सेसाणं जह० अज० एत्थि अंतरं । एवं ओघभंगो फायजोगि-ओरालियका०-एवुंस०-कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारगे त्ति ।

५६१. तिरिक्खेसु तिण्णियायु०-वेउव्वियद्ध०-तिरिक्खगदि०४ जह० अज० उक्कस्सभंगो । सेसाणं जह० अज० एत्थि अंतरं । एवं तिरिक्खोयं ओरालियमि० [ कम्मइ०- ] मदि०-सुद०-असंज०-तिण्णिले०-अभवसि०-मिच्छादि०-असण्णि-अणाहारे त्ति । एवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारगेषु देवगदि०४-तित्थय० जह० अज० उक्कस्सभंगो ।

५६२. मणुस०३ खवगपगदीणं ओघो । सेसाणं उक्कस्सभंगो । एवरि मणुसि० खवगपगदीणं वासपुत्तं० ।

५६३. एइंदिय-वादरेइंदिय-पज्जत्ता अपज्जत्ता मणुसायु० तिरिक्खगदि०४ उक्कस्सभंगो । सेसाणं जह० अज० एत्थि अंतरं । सव्वसुहुमाणं मणुसायु० ओघं ।

५६०. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे क्षपक प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महिना है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । तीन आयु, वैक्रियिक छह, तिर्यञ्चगति, आहारकद्विक, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, तीर्थङ्कर और नीचगोत्र इनका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार ओघके समान काय-योगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

५६१. तिर्यञ्चोंमें तीन आयु, वैक्रियिक छह और तिर्यञ्चगति चतुष्ककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्या-वाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल उत्कृष्टके समान है ।

५६२. मनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियामें क्षपक प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर काल वर्षपृथक्त्व है ।

५६३. एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायु और तिर्यञ्चगतिचतुष्कका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । सब सूक्ष्म जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग ओघके

सेसाणं जह० अज० एत्थि अंतरं । पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तिरिक्वायु० जह० अज० एत्थि अंतरं । सेसाणं जह० जह० एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । अज० एत्थि अंतरं । मणुसायु० ओघं । वादरपुढवि०अपज्जत्ता मणुसायु० ओघं । सेसाणं जह० अज० एत्थि अंतरं । एवं वादरआउ०-तेउ०-वाउ०अपज्जत्ता । वणप्फदिणियोद--सव्ववादरवणप्फदि--णियोद--वादरवणप्फदिपत्तेय० तस्सेव अपज्जता० मणुसायु० ओघं । सेसाणं जह० अज० एत्थि अंतरं ।

५६४. पंचिदि०-तस०--पंचमण०--पंचवचि०--इत्थि०--पुरिस०--आभि०-सुद०--ओधि०--मणपज्जव०--संजद--सामाइ०--छेदो०--परिहार०--संजदासजद--चक्खुदं०--ओधिदं०-सुक्कले०-सम्मादि०-खइग०-सणिण त्ति एदेसिं मणुसभंगो । एवरि खवग-पगदीणं सेद्विसेसो एादव्वो । अवगदवे० सव्वपगदीणं जह० अज० जह० एग०, उक्क० छम्मासं० । एवं सुहुमसंप० । सेसाणं णिरयादि याव सम्मामिच्छादिद्वि त्ति सव्वपगदीणं अप्पणो उक्कस्सभंगो ।

### एवं अंतरं समत्तं

समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चायुकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । जो असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियोंके बराबर है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है । वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार वादर जलकायिक अपर्याप्त, वादर अग्निकायिक अपर्याप्त और वादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, सब वादर वनस्पतिकायिक, सब वादर निगोद जीव, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और उनके अपर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है ।

५६४. पञ्चेन्द्रिय, त्रसकायिक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, आभिनिबोधकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुकुलेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और संज्ञी इनका भङ्ग मनुष्योंके समान है । इतनी विशेषता है कि क्षणिक प्रकृतियोंकी श्रेणीविशेष जाननी चाहिए । अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महिना है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिए । शेष नरकगतिसे लेकर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवों तक शेष सब मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग अपने अपने उत्कृष्टके समान जानना चाहिए ।

इस प्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ ।

### भावपरूवणा

५६५. भावं दुविधं—जहएणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं उक्क० अणु० बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

५६६. जहएणए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । [ ओघे० ] सव्वपगदीणं जह० अज० को भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

एवं भावं समत्तं

### अप्पावहुगपरूवणा

५६७. अप्पावहुगं दुविधं—जीवअप्पावहुगं चेव द्विदिअप्पावहुगं चेव । जीवअप्पावहुगं तिविधं—जहएणयं उक्कस्सयं अजहएणअणुक्कस्सयं चेव । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० तिएणआयुगाणं वेउव्वियत्थ०—तित्थय० सव्वत्थोवा उक्कस्सद्विदिवंधगा जीवा । अणुक्कस्सद्विदिवंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । आहारदुगं सव्वत्थोवा उक्क० जीवा । अणु० जीवा संखेज्जगुणा । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क० जीवा । अणु० जीवा अणंतगु० । एवं ओघभंगो तिरिक्खोयं कायजोगि-ओरालियका०—ओरालियमि०—कम्मइ०—एवुंस०—कोधादि०४—मदि०—सुद०—असंज०—अचक्खुदं०—

### भावप्ररूपणा

५६५. भाव दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका कौन भाव है । औदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

५६६. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका कौन भाव है ? औदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ ।

### अल्पबहुत्वप्ररूपणा

५६७. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जीव अल्पबहुत्व और स्थिति अल्पबहुत्व । जीव अल्पबहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रियिक छह और तीर्थङ्कर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे अल्प है । इनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकद्विककी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे अल्प हैं । इनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे अल्प हैं । इनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानो, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि,



तिरिणाले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-असणिण०-आहार०-अणाहारगे त्ति ।  
 एवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहार० देवगदि०४-तित्थय० सव्व० उक्क० जीवा ।  
 अणु० जीवा संखेज्जगु० । एवरि ओरालियका० तित्थय० अणु० द्विदि० संखेज्जगु० ।  
 सेसाणं णिरयादि याव सणिण त्ति एसु असंखेज्जाणंतरासीणं तेसिं सव्वत्थोवा उक्क०  
 जीवा । अणु० जीवा असंखेज्ज० । एसु संखेज्जरासिं तेसिं सव्वत्थोवा उक्क० जीवा ।  
 अणु० जीवा संखेज्जगु० । एवरि एइंदि०-वणप्फदि-णियोदेसु तिरिक्खायु० ओघं ।  
 एवं उक्कस्सं समत्तं

५६८. जहणणए पगदं । दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० खवगपगदीणं  
 तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०--उज्जो०-णीचा० सव्वत्थोवा जह० । अज० अणंतगु० ।  
 सेसाणं जह० सव्वत्थोवा जीवा । अज० असंखेज्ज० । एवरि आहारदुगं तित्थयरं  
 च उक्कस्सभंगो । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालियका०-एवुंस०-कोधादि०४-  
 अचक्खु०-भवसि०-आहारगे त्ति ।

५६९. तिरिक्खेसु तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०--उज्जो०--णीचा० सव्वत्थोवा  
 जह० । अज० अणंतगु० । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह० जीवा । अज०

असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नरकगतिसे लेकर संज्ञी तक शेष सब मार्गणाओंमें जो असंख्यात और अनन्त राशिवाली मार्गणायें हैं उनमें उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तथा इनमें जो संख्यात राशिवाली मार्गणायें हैं उनमें उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय, वनस्पति और निगोद जीवोंमें तिर्यञ्चायुका भङ्ग ओघके समान है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

५६८. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे क्षपक प्रकृतियाँ, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

५६९. तिर्यञ्चोंमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे

जीवा असंखे० । [ एवं ] ओरालियमि०-कम्मइ०-मदि०-सुद०--असंज०-तिणिले०-  
अभवसि०-मिच्छादि०--असणिए-अणाहारगे ति । एवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-  
अणाहार० देवगदि०४-तित्थयरं उक्कस्सभंगो । सेसाणं णिरयादि याव सणिए ति  
असंखेज्ज-संखज्ज-अणंतरासीणं उक्कस्सभंगो । एवरि एइंदिय-वणप्फदि--णियोदेसु  
तिरिक्खायु० ओघं ।

५७०. अजहणमणुकस्सए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० खवगपगदीणं  
सव्वत्थोवा जह० जीवा । उक्क० असंखेज्ज० । अजहणमणुक० अणंतगु० । आहार-  
दुगं सव्वत्थोवा जह० द्विदि० । उक्क० द्विदि० संखेज्जगु० । अज०अणु० संखेज्ज० ।  
तिणिएआयु०--वेउवियव्ख० सव्वत्थोवा उक्क० । जह० असंखेज्ज० । अज०अणु०  
असंखेज्ज० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० सव्वत्थोवा उक्क० । जह०  
असंखे० । अज०अणु० अणंतगु० । तित्थय० सव्वत्थोवा उक्क० । जह० संखेज्ज० ।  
अज०अणु० असंखेज्ज० । सेसाणं पंचदंसणावरणादीणं सव्वत्थोवा उक्क० । जह०  
अणंतगु० । अज०अणु० असंखेज्जगु० ।

अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार औदारिकमिश्रकाययोगी,  
कार्मणकाययोगी, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभय, मिथ्यादृष्टि,  
असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्र-  
काययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगति चतुष्क और तीर्थङ्करका भङ्ग  
उत्कृष्टके समान है । नरकगतिसे लेकर सञ्जी तक शेष जितनी मार्गणार्थें हैं उनमें असंख्यात,  
संख्यात और अनन्त राशिवाली मार्गणाओंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है  
कि एकेन्द्रिय, वनस्पति और निगोद जीवोंमें तिर्यञ्चायुका भङ्ग ओघके समान है ।

५७०. जघन्य उत्कृष्ट अल्पवहुत्वका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका  
है—ओघ और आदेश । ओघसे क्षणिक प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे  
स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्यअनुत्कृष्ट  
स्थितिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । आहारकद्विककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे  
स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट  
स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तीन आयु और वैक्रियिक लहकी उत्कृष्ट स्थितिके  
बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे  
अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी,  
उद्योत और नीचगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य  
स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव  
अनन्तगुणे हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे  
जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक  
जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष पाँच दर्शनावरण आदि प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव  
सबसे स्तोक हैं इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे अजघन्य  
अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

५७१. आदेसेण एरइएसु दोएणं आयु०सव्वत्थोवा उक्क० । जह० असंखेज्ज० । अज०मणुक्क० असंखेज्जगु० । एवरि मणुसायु० संखेज्जगुणं कादव्वं । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखे० । अज०मणुक्कस्स० असंखेज्ज० । एवं सव्वणिरयाणं । एवरि विदियादि याव ब्रह्मि त्ति इत्थि०-एवुंस०-तिरिक्खगदि-तिग-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-एणीचागो० सव्वत्थोवा जह० । उक्क० संखेज्जगु० । अज०अणु० द्विदि० असंखेज्ज० । एवरि सत्तमाए तिरिक्खगदि०४ णिरयोधं । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० तिरिक्खायुभंगो । एवं सव्वदेवाणं । एवरि आणद-पाणद० इत्थि०-एवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-एणीचा० सव्वत्थोवा जह० । उक्क० संखेज्जगु० । अज०अणु० असंखेज्ज० । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क० । जह० संखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० । एवं उवरिमगेवज्जा त्ति । अणुदिस-अणुत्तर-सव्वट्ठे मणुसायु० देवोयं । सेसाणं सव्व-त्थोवा जह० । उक्क० संखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० । एवरि सव्वट्ठे संखेज्जगु० ।

५७१. आदेशसे नारकियोंमें दो आयुओंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुको संख्यातगुणा करना चाहिए। शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सब नारकियोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि दूसरी पृथ्वीसे लेकर छठी पृथ्वी तकके नारकियोंमें खीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्च-गतित्रिक, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनके अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वीमें तिर्यञ्चगतिचतुष्कका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है। तथा मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग तिर्यञ्चायुके समान है। इसी प्रकार सब देवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आनत और प्राणत कल्प वासी देवोंमें खीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं इसी प्रकार उपरिम अवेयक तकके देवोंके जानना चाहिए। अनुदिश, अनुत्तर और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें संख्यातगुणे करने चाहिए।

५७२. तिरिक्खेसु चदुआयु-वेउव्वियळ-तिरिक्खग-तिरिक्खाणु-उज्जो-णीचा-ओघं । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क-जह-अणंतग-अज-अणु-असंखेज्ज-पंचिंदियतिरिक्ख-३ सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क-जह-असंखेज्ज-अज-अणु-असंखेज्ज-पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्त-सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क-जह-असंखेज्ज-अज-अणु-असंखेज्ज- ।

५७३. मणुसेसु खवगपगदीणं सव्वत्थोवा जह-उक्क-संखेज्ज-अज-अणु-असंखेज्ज-णिरय-देवायु-तित्थय-थोवा उक्क-जह-संखेज्ज-अज-अणु-संखेज्ज-वेउव्वियळ-सव्वत्थोवा जह-उक्क-संखेज्ज-अज-अणु-संखेज्ज-आहारदुगं ओघं । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क-जह-असंखेज्ज-अज-अणु-असंखेज्ज-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु असणिएणपगदीणं खवगपगदीणं च ओघं । एवरि संखेज्जगुणं कादव्वं । मणुसअपज्जत्तेसु णिरयोधं ।

५७४. एइंदिएसु दोआयु-ओघं । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु-उज्जो-णीचा-

५७२. तिर्यञ्जोंमें चार आयु, वैक्रियिक छह, तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव अनन्तगुण हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं। पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्जत्रिकमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं।

५७३. मनुष्योंमें क्षपक प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं। नरकायु, देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। वैक्रियिक छहकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। इनके अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। आहारकट्टिकका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं। मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्योमें असंखी सम्बन्धी प्रकृतियों और क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है।

५७४. पकेन्द्रियोंमें दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी उद्योत और नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे

सव्वत्थोवा जह० । उक्क० अणंतगु० । अजह० असंखेज्जगु० । सेसाणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० संखेज्जगु० । अज०अणु० असंखेज्ज० । एवं सव्वविगल्लिदिय-सव्व-पंचकायाणं । पंचिदिय-तसअपज्ज० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

५७५. पंचिदिय-तस०२ खवगपगदीणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखे० । अज०अणु० असंखे० । पंचदंस०-असादा०-मिच्छ०-वारसक०--अट्टणो०-तिरिक्ख-गदि-मणुसगदि-एइंदि०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-द्धस्संठा०--ओरालि०अंगो०-द्धस्संध०-वण०४-दोआणु०--अगु०४--आदाउज्जो०--दोविहा०-तस०४-थावरादि-पंचयुगल-अजस०-णिमि०-णीचा० सव्वत्थोवा उक्क० । जह० असंखेज्ज० । अज०-अणु० असंखेज्ज० । एवरि सेसो णादव्वो । चदुआयु०-वेउव्वियद्ध० थोवा उक्क० । जह० असंखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० । तिण्णिणजादि-सुहुमणामाणं अपज्ज०-साधार० देवगदिभंगो । आहारदुगं तित्थय० ओघं ।

५७६. पंचमण०-तिण्णिणवचि० चदुआयु० सव्वत्थोवा उक्क० । जह० असंखे० ।

उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सब विकलेंद्रिय और सब पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए । पञ्चेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तोंके समान है ।

५७५. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें क्षणिक प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्टस्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । पाँच दर्शनावरण, असाता-वेदनीय, मिथ्यात्व, वारह कपाय, आठ नोकपाय, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, लुह संस्थान, औदारिक आङ्गो-पाङ्ग, लुह संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थावर आदि पाँच युगल, अथशःकार्ति, निर्माण और नीचगोत्र इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि शेष अल्पवहुत्व जानना चाहिए । चार आयु और वैक्रियिक लुहकी उत्कृष्टस्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनका भङ्ग देवगतिके समान है । आहारकद्विक और तीर्थङ्कर इनका भङ्ग ओघके समान है ।

५७६. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें चार आयुओंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे

अज०अणु० असंखेज्ज० । आहारदुगं तित्थय० ओघं । इत्थि०-एणुंसं-णिरयगदि-  
चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०--णिरयाणु०--अप्पसत्थ०--थावरादि०४-दूभग--दुस्सर०  
सव्वत्थोवा जह० । उक्क० संखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० । सेसाणं सव्वत्थोवा  
जह० । उक्क० असंखे० । अज०अणु० असंखे० । दोवचि० तसपज्जत्तभंगो । काय-  
जोगि-ओरालियका० ओघं ।

५७७. ओरालियमि० देवगदि०४--तित्थय० सव्वत्थोवा उक्क० । जह०  
संखेज्ज० । अज०अणु० संखेज्ज० । सेसाणं ओघं । एवं कम्मइग०--अणाहार० ।  
वेउव्वियका० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखेज्ज० । अज०अणु०  
असंखेज्ज० । एवरि इत्थिवेदादीणं विसेसाण । दोआयु० देवोघं । एवं वेउव्वियमि० ।  
एवरि आयु० एत्थि । आहार० आहारमिस्से सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क०  
संखेज्ज० । अज०अणु० संखेज्ज० । देवायु० मणुसिभंगो ।

५७८. इत्थि०-पुरिसं खवगपगदीणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखेज्ज० ।

अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग और दुःस्वर इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दो वचनयोगी जीवोंका भङ्ग त्रस पर्याप्त जीवोंके समान है । काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंका भङ्ग ओघके समान है ।

५७७. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद आदि प्रकृतियोंकी विशेषता जाननी चाहिए । दो आयुओंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इसी प्रकार वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके आयुका बन्ध नहीं होता । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवायुका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है ।

५७८ स्त्रीवेदवाले और पुरुषवेदवाले जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

अज०अणु० असंखेज्ज० । एवुंस०-क्रोधादि०४-अचक्खुदं०-भवसि०-आहार० मूलोघं ।  
अवगदवे० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क० । जह० संखेज्ज० । अज०अणु०  
संखेज्ज० । एवं सुहुमसंप० ।

५७६. मदि०-सुद०-असंज०-तिणिले०-अभवसि०--मिच्छादि०-असणिए ति  
तिरिक्खोघं । विभंगे चदुआयु० मणजोगिभंगो । सेसाणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क०  
असंखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० । एवरि सत्थाणपगदिविसेसो णादव्वो ।  
आभि०-सुद०-ओधि० देवायु०--आहारदुग-तिथय० ओघं । असादा०--अरदि-सोग-  
अथिर--असुभ-अजस० सव्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखे० । अज०अणु० असं-  
खेज्ज० । मणुसायु० देवोघं । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क०  
असंखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० । मणपज्ज० असादाव०--अरदि-सोग-  
अथिर--असुभ--अजस० सव्वत्थोवा जह० । उक्क० संखेज्ज० । अज०अणु०  
संखेज्ज० । सेसाणं [ सव्वत्थोवा ] जह० । उक्क० संखेज्ज० । अजह०अणु०  
संखेज्ज० । एवरि आयु० मणुसि०भंगो । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार० ।

इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य, और आहारक जीवोंका भङ्ग मूलोघके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य-स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंके जानना चाहिए ।

५७९. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें अपनी अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । विभङ्ग ज्ञानी जीवोंमें चार आयुओंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि स्वस्थान प्रकृतिगत विशेषता जाननी चाहिए । अभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें देवायु, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि आयुका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत और परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके जानना चाहिए ।

५८० संजदासंजदे असादावे०-अरदि-सोग-अथिर--असुभ-अजस० सव्वत्थोवा उक्क० । जह० संखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० । सेसाणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखे० । अज०अणु० असंखेज्ज० । एवरि तित्थय० सखेज्ज० । आयु० णारगभंगो । ओधिदंस०--सम्मादि०--वेदगस०--उवसमसम्मा० ओधिणाणिभंगो । चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो ।

५८१. तेऊए मणुसगदिपंचगं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखेज्ज० । अज० अणु० असंखेज्ज० । सेसाणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० । एवरि इत्थिवंदादिसत्थाणपगदिविसेसो णादव्वो । एवं पम्माए । [सुक्काए वि एवं चेव ।] एवरि सुक्काए मणुसगदिपंचगं सव्वत्थोवा उक्क०ट्ठिदिवं० । जह०ट्ठिदि० संखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० ।

५८२. खड्गसं० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखेज्ज० । अज० अणु० असंखेज्ज० । एवरि दोआयु० सव्वट्ठ०भंगो । एवरि मणुसगदिपंचगं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० संखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० । सासणे सव्वपगदीणं सव्व-

५८०. संयतासंयत जीवोंमें असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिकी अपेक्षा संख्यातगुणे कहने चाहिए । आयु कर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है । अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । चक्षुदर्शनी जीवोंका भङ्ग त्रसपर्याप्त जीवोंके समान है ।

५८१. पीतलेश्यावाले जीवोंमें मनुष्यगति पञ्चककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि खीवेद आदि स्वस्थान प्रकृतिगत विशेषताको जानना चाहिए । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए । इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें मनुष्यगति पञ्चककी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

५८२. ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि दो आयुओंका भङ्ग सर्वार्थसिद्धिके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति पञ्चककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे



त्थोवा उक्क० । जह० असंखे० । अज०अणु० असंखे० । सम्माभि० ओधिभंगो ।  
सएणीसु चदुआयु० पंचिदियभंगो । सेसाणं मणुसोघं । एवं जीवअप्पावहुगं समत्तं

### द्विदिअप्पावहुगपरूवणा

५८३. द्विदिअप्पावहुगं तिविधं--जहणणयं उक्कस्सयं जहणणुक्कस्सयं च ।  
उक्कस्सए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघेण सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्कस्सओ  
द्विदिबंधो । यद्विदिबंधो विसेसाधिओ । एवं याव अणाहारग त्ति रोदव्वं ।

५८४. जहणणए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं सव्व-  
त्थोवा जह० द्विदि० । यद्विदि० विसेसा० । एवं याव अणाहारग त्ति रोदव्वं ।

५८५. जहणणुक्कस्सए पगदं । दुविधं-ओघे० आदे० । ओघे० खवगपगदीणं  
चदुआयुगाणं सव्वत्थोवा जहणणयो द्विदिबंधो । यद्विदिबंधो विसेसा० । उक्कसद्विदि-  
बंधो असंखेज्जगुणो । यद्विदि० विसेसा० । सेसाणं सव्वत्थोवा जह० । यद्विदि०  
विसेसा० । उक्क०द्विदि० संखेज्ज० । यद्विदि० विसेसा० । एवं ओघभंगो मणुस०३-  
पंचिदि०-तस०२-पंचपण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालियका०-इत्थि०-एवुंस०-  
कोधादि०४-चकवुदं०-अचकवुदं०-भवसि०-सएण-अणाहारए त्ति ।

अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । सासादनसम्यदृष्टि जीवोंमें  
सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिके  
बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव  
असंख्यातगुणे हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान हैं । संज्ञी  
जीवोंमें चार आयुओंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य  
मनुष्योंके समान है । इस प्रकार जीव अल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

### स्थिति अल्पवहुत्वप्ररूपणा

५८३. स्थिति अल्पवहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्योत्कृष्ट ।  
उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थिति बन्ध विशेष अधिक  
है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए ।

५८४. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और  
आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थिति-  
बन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए ।

५८५. जघन्योत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और  
आदेश । ओघसे ज्ञापक प्रकृतियों और चार आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है ।  
इससे यत्स्थिति बन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ।  
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक  
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ।  
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक पञ्चेन्द्रिय-  
द्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, स्त्रीवेदी,  
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, चक्षुदर्शनी, अक्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और अना-  
हारक जीवोंके जानना चाहिए ।

५८६. गेरइएसु सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह० । यद्विदि० विसे० । उक्क० असंखेज्ज० । यद्विदि० विसे० । एस भंगो सव्वणिरय-सव्वदेवाणं ओरालियमि०-वेउव्विय०-वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-कम्मइ०-परिहार०-संजदासंजद-वेदगसं०-सम्मामि० ।

५८७. तिरिक्खेसु चदुआयु० सव्वत्थोवा जह० द्विदि० । यद्विदि० विसे० । उक्क० असंखेज्ज० । यद्विदि० विसे० । सेसाणं सव्वकम्पाणं सव्वत्थोवा जह०द्विदि० । यद्विदि० विसे० । उक्क०द्विदि० संखेज्ज० । यद्विदि० विसे० । एवं तिरिक्खोयं पंचिंदियतिरिक्ख०३-मदि०-सुद०-असंज०-तिण्णले०-अभवसि०-मिच्छादिद्वि ति । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्त० णिरयभंगो । एवं मणुसअपज्जत्त-पंचिदि०-तसअपज्ज० ।

५८८. ईइदिएसु दोआयु० णिरयोयं । सेसाणं सव्वत्थोवा जह०द्विदि० । यद्विदि० विसे० । उक्क०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । एस भंगो सव्वईदियाणं सव्वविगल्लिंदियाणं पंचकायाणं च ।

५८९. अवगदवे० सादा०-जस०-उच्चा० सव्वत्थोवा जह०द्विदि० । यद्विदि० विसे० । उक्क०द्विदि० असंखेज्ज० । यद्विदि० विसे० । सेसाणं सव्वत्थोवा जह०

५८६. नारकियोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। यह भङ्ग सब नारकी, सब देव, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्यणकाययोगी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेदकरभ्यदृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए।

५८७. तिर्यञ्चोंमें चार आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। शेष सब कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चविक, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्याचाले, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

५८८. एकेन्द्रियोंमें दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। यह भङ्ग सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय और पांच स्थावरकार्यिक जीवोंके जानना चाहिए।

५८९. अपगतवेदी जीवोंमें सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्र इनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका

द्विदि० । यद्विदि० विसे० । उक्क० संखेज्ज० । यद्विदि० विसे० । एवं सुहुमसंप० । एवरि सन्वाणं संखेज्जगुणं कादव्वं ।

५६०. आभि०-सुद०-ओधि० खवगपगदीणं ओघं । सेसाणं देवोघं । एस भंगो मणपज्जव-संजद-सामाइय-छेदो०-ओधिदं०-सुकले०-सम्मादि०-खइग०-उवसम० ।

५६१. तेउ-पम्माए देवगदिभंगो । सासणे तिरिक्खोघं । असण्ण० णिरय-देवायुणं सव्वत्थोवा जह०द्विदि० । यद्विदि० विसे० । उक्क०द्विदि० असंखेज्ज० । यद्विदि० विसे० । सेसाणं तिरिक्खोघं । एवरि तिरिक्ख-मणुसायु० मणुसअपज्जत्त-भंगो । वेउव्वियवक्कं सव्वत्थोवा जह०द्विदि० । यद्विदि० विसे० । उक्क०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । एवं द्विदिअप्पावहुगं समत्तं ।

### भूयो द्विदिअप्पावहुगपरूवणा

५६२. भूयो द्विदिअप्पावहुगं दुविधं--सत्थाणद्विदिअप्पावहुगं चव परत्थाणद्विदि-अप्पावहुगं चव । सत्थाणद्विदिअप्पावहुगं दुविधं--जहएणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-एवदंसणा०-वएण४-अगु० ४-तस-थावर-आदाउज्जो०-णिमि०-तित्थय०--पंचंत० सव्वत्थोवा उक्क०द्विदि० । यद्विदि०

जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्यरायिक संयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सब प्रकृतियोंका संख्यातगुणा करना चाहिए ।

५६०. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । यह भङ्ग मनः-पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

५६१. पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें देवगतिके समान भङ्ग है । सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । असंज्ञी जीवोंमें नरकायु और देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भङ्ग मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है । वैक्रियिक छहका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इस प्रकार स्थितिअल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

### भूयः स्थितिअल्पबहुत्वप्ररूपणा

५६२. भूयः स्थितिअल्पबहुत्व दो प्रकारका है—स्वस्थान स्थितिअल्पबहुत्व और परस्थान स्थितिअल्पबहुत्व । स्वस्थान स्थितिअल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस, स्थावर, आतप, उद्योत, निर्माण, तीर्थङ्कर और पांच अन्तराय इनका उत्कृष्ट स्थिति-वन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । सातावेदनीयका उत्कृष्ट

विसे० । सादावे० सव्वत्थोवा उक्क० द्विदि० । यद्विदि० विसे० । असादावे० उक्क०  
द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । सव्वत्थोवा पुरिस०--हस्स-रदीणं उक्क० द्विदि० ।  
यद्विदि० विसे० । इत्थि० उक्क० द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । एवुंस०-अरदि-  
सोग-भय-दुगुं० उक्क० द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । सोलसक० उक्क० द्विदि०  
विसे० । यद्विदि० विसे० । मिच्छ० उक्क० द्विदि० विसे० । [ यद्विदि० विसे० । ]

५६३. सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० द्विदि० । यद्विदि० विसे० ।  
णिरय-देवायु० उक्क० द्विदि० संखेज्जगु० । यद्विदि० विसे० ।

५६४. सव्वत्थोवा देवगदि० उक्क० द्विदि० । यद्विदि० विसे० । मणुसग० उक्क०  
द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । णिरय--तिरिक्खगदि० उक्क० द्विदि० [ विसे० ]  
यद्विदि० विसे० । सव्वत्थोवा तिण्णजादीणं उक्क० द्विदि० । यद्विदि० विसे० ।  
एइंदि०-पंचिदि० उक्क० द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । सव्वत्थोवा आहार० उक्क०  
द्विदि० । यद्विदि० विसे० । चदुएणं सरीराणं उक्क० द्विदि० संखेज्ज० । यद्विदि०  
विसे० । सव्वत्थोवा समचदुर० उक्क० द्विदि० । यद्विदि० विसे० । एग्गोद० उक्क०

स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे असाता-  
वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।  
पुरुषवेद, हास्य और रति इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है इससे यत्स्थितिबन्ध  
विशेष अधिक है। इससे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे  
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा  
इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।  
इससे सोलह कपायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है। इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध  
विशेष अधिक है।

५६३. तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इसमें  
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नरकायु और देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात-  
गुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

५६४. देवगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है। इससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध  
विशेष अधिक है। इससे नरकगति और तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। तीन जातियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक  
है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे एकेन्द्रिय जाति और पञ्चेन्द्रिय जातिका  
उत्कृष्ट स्थिति बन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। आहारक  
शरीरका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे चार  
शरीरोंका उत्कृष्ट स्थिति बन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।  
समचतुरस्र संस्थानका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है। इससे न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । सादि० उक्क०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० ।  
खुज्ज० उ०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । वामण० उक्क०द्विदि० विसे० । यद्विदि०  
विसे० । हुण्ड० उक्क०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । सव्वत्थोवा आहार०अंगो०  
उक्क०द्विदि० । यद्विदि० विसे० । दाणणं अंगो० उक्क०द्विदि० संखेज्ज० । यद्विदि०  
विसे० ।

५६५. यथा संटाणाणं तथा संगडणाणं । यथा गदीणं तथा आणुपुव्वीणं । सव्वत्थोवा  
पसत्थ० उक्क०द्विदि० । यद्विदि० विसे० । अप्पसत्थ० उक्क०द्विदि० विसे० । यद्विदि०  
विसे० । सव्वत्थोवा सुहुम-अपज्जत्त-साधारणाणं उक्क०द्विदि० । यद्विदि० विसे० ।  
वादर-पज्जत्त-पत्तेय० उक्क०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । सव्वत्थोवा थिरादिद्ध०-  
उच्चा० उक्क०द्विदि० । यद्विदि० विसे० । अथिरादिद्ध०-णीचा० उक्क०द्विदि०  
विसे० । यद्विदि० विसे० । एवं ओघभंगो पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-  
कायजोगि-पुरिसवे०-कोधादि०४-चक्खु०-अचक्खु०-भवसि०-सण्ण-आहारणं ति ।

५६६. आदेसेण रोइएसु पंचणा०-णवदंसणा०-दोआयु०-पंचिदि०-ओरालि०-  
तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण०४-अगु०४-उज्जो०-तस०४-णमि०-तिथय०-

इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्वातिसंस्थानका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे कुञ्जक संस्थानका उत्कृष्ट स्थिति-  
बन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे वामन संस्थानका  
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे हुण्ड  
संस्थानका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।  
आहारक आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है । इससे दो आङ्गोपाङ्गोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है ।

५९५. पहले जिस प्रकार संस्थानोंका अल्पवहुत्व कह आए हैं उसी प्रकार संहननोंका  
कहना चाहिए । तथा जिस प्रकार गतियोंका कह आये हैं उसी प्रकार आनुपूर्वियोंका कहना  
चाहिए । प्रशस्त विहायोगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है । इससे अप्रशस्त विहायोगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे  
स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे बादर, पर्याप्त और प्रत्येकका उत्कृष्ट  
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । स्थिरादिद्ध और  
उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।  
इससे अस्थिरादि दृह और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार ओघके समान पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच  
मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, पुरुषवेदी, क्रोधादि चार कपायवाल, चक्षुदर्शनी,  
अचक्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

५९६. आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो आयु, पञ्चेन्द्रिय  
जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क,

पंचंत० सव्वत्थोवा उक्क०ट्टिदि० । यट्टिदि० विसे० । सेसाणं ओघं । एवं सव्व-  
णिरयाणं । एवरि सत्तमाए सव्वत्थोवा मणुसग०-मणुसाणु०-उज्जो० उक्क०ट्टिदि० ।  
यट्टिदि० विसे० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचा० उक्क० संखेज्ज० । यट्टिदि०  
विसे० ।

५६७. तिरिक्खेसु ओघं । एवरि सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क०  
ट्टिदि० । यट्टिदि० विसे० । देवायु० उक्क०ट्टिदि० संखेज्ज० । यट्टिदि० विसे० ।  
णिरयायु० उक्क०ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । सव्वत्थोवा देवगदि० उक्क०  
ट्टिदि० । यट्टिदि० विसे० । मणुसगदि० उक्क०ट्टिदि० विसे० । तिरिक्खगदि० उक्क०  
ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । णिरयगदि० उक्क०ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि०  
विसे० ।

५६८. सव्वत्थोवा चट्टुएणं जादीणं उक्क० ट्टिदि० । यट्टिदि० विसे० । पंचिदि०  
उक्क०ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । सव्वत्थोवा ओरालिय० उक्क०ट्टिदि० ।  
यट्टिदि० विसे० । तिण्णिण सरीराणं उक्क०ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि० विसे० ।

५६९. संठाणं ओघं । सव्वत्थोवा ओरालि०अंगो० उक्क०ट्टिदि० । यट्टिदि०

अगुरुलघु चतुष्क, उद्योत, त्रस चतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय इनका उत्कृष्ट  
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका  
भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार सब नारकियोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि  
सातवीं पृथ्वीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उद्योतका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक  
है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और  
नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।

५९७. तिर्यञ्जोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्जायु और  
मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।  
इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक  
है। इससे नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है। देवागतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है। इससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्जगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थि-  
तिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नरकगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।

५९८. चार जातियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है। इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। औदारिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है।  
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे तीन शरीरोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।

५९९. संस्थानोंका भङ्ग ओघके समान है। औदारिक आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध  
सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका

विसे० । वेउव्विय०अंगो० उक्क०ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । सव्वत्थोवा वज्जरिस० उक्क०ट्टिदि० । यट्टिदि० विसे० । वज्जणा० उक्क०ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । एणारायण० उक्क०ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । अद्धणा० उ०ट्टि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । खीलिय०असंपत्त० उक्क०ट्टि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । यथा गदि० तथा आणुपुण्वि० ।

६००. सव्वत्थोवा थावरादि०४ उक्क०ट्टिदि० । यट्टिदि० विसे० । तप्पडि-पक्खाणं उक्क०ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । एवं पंचिदिय--तिरिक्ख०३ । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगेसु पंचणा०-एवदंसणा०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि० अंगो०--वएण०४-अणु०४-आदाउज्जो०--णिमि०--पंचंत० सव्वत्थोवा उक्क०ट्टिदि० । यट्टिदि० विसे० । सव्वत्थोवा पुरिस० उक्क०ट्टिदि० । यट्टिदि० विसे० । इत्थि० उक्क०ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । हस्स-रदि० उक्क०ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । एवुंस०-अरदि-सोग--भय-दु० उक्क०ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । मोलसक० उक्क०ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । मिच्छ० उक्क०ट्टिदि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । दोआयु० एणरयभंगो ।

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। वज्रर्षभ नाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वज्रनाराच संहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अर्द्धनाराच संहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे कीलकसंहनन और असम्प्राप्तास्पृ-पाटिका संहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। गतियोंका पहले जिस प्रकार अल्पबहुत्व कह आये हैं उसी प्रकार आनुपूर्वियोंका अल्पबहुत्व जानना चाहिए।

६००. स्थावर आदि चारका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे इनकी प्रतिपन्न प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च त्रिकके जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्यातकोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, आतप, उद्योत, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। पुरुषवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य और रतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सोलह कषायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान है।

६०१. सव्वत्थोवा मणुसग० उक्क०द्विदि० । यद्विदि० विसे० । तिरिक्खवग० उक्क०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । एवं आणुपु० । सव्वत्थोवा पंचिदि० उक्क० द्विदि० । यद्विदि० विसे० । चदुरिं० उक्क०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । तीइंदि० उक्क०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । बीइंदि० उक्क०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । एइंदि० उक्क०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० ।

६०२. सव्वत्थोवा तस०४ उक्क०द्विदि० । यद्विदि० विसे० । तप्पडिपक्खाणं उ०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । सेसाणं णिरयभंगो ।

६०३. मणुसेसु णिरयभंगो । एवरि आयु० ओपं । सव्वत्थोवा आहार० उ० द्विदि० । यद्विदि० विसे० । ओरालि० उ०द्विदि० संखेज्ज० । यद्विदि० विसे० । वेउव्वि०-तेजा०-क० उ०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । सव्वत्थोवा आहार०अंगो० उ०द्विदि० । यद्विदि० विसे० । ओरालि०अंगो० उ०द्विदि० संखेज्ज० । यद्विदि० विसे० । वेउव्वि० अंगो० उ०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । मणुसअपज्जत्त० पंचिदियातिरिक्खअपज्जत्त-भंगो ।

६०१. मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार आनुपूर्वियोंकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे चतुरिन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे त्रीन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे द्वीन्द्रियजातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे एकैन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे एकैन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

६०२. त्रसचतुष्कका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे इनकी प्रतिपन्न प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

६०३. मनुष्योंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । आहारकद्विकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे औदारिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर और कार्मण शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । आहारक आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे औदारिक आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मनुष्य अपर्याप्तकोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।



६०४. देवाणं णिरयभंगो । एवरि भवण०-वाणवैत०--जोदिसिय०-सोधम्मी-  
साणं सव्वत्थोवा पंचिदि० उ०ट्टि० । यट्ठि० विसे० । एइंदि० उ०ट्टि० विसे० ।  
यट्ठि० विसे० । एवं तस-थावर० । संघडणाणं तिरिक्खोघं । आणद याव एवगेवज्जा  
त्ति सव्वत्थोवा पुरिस०-हस्स-रदि० उ० ट्टि० । यट्ठि० विसे० । इत्थि० उ०ट्टि० विसे० ।  
यट्ठि० विसे० । एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं० उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० ।  
सोलसक० उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । मिच्छ० उ०ट्टि० विसे० । [यट्ठि०  
वि०] । अणुदिस याव सव्वट्ठा त्ति सव्वत्थोवा हस्स-रदि० उक्क०ट्टि० । यट्ठि०  
विसे० । पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं० उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । वारसक०  
उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० ।

६०५. एइंदि०--विगल्लिदि०--पंचिदिय--तसअपज्ज०--पंचकायाणं च पंचिदिय-  
तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । आरालियका० मणुसभंगो । आगलियमि० सव्वत्थोवा देव-  
गदि० उ०ट्टि० । यट्ठि० विसे० । मणुसग० उक्क०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० ।

६०४, देवोंका भङ्ग नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म पेशान कल्पवासी देवोंमें पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे एकेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थिति विशेष अधिक है। इसी प्रकार ब्रह्म और स्थावर प्रकृतियोंका जानना चाहिए। संहननोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। आनत कल्पसे लेकर नवग्रैवेयक तकके देवोंमें पुरुषवेद, हास्य और रतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेद, अरतिशाक, भय और जुगुप्साका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सालह कपायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें हास्य और रतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वारह कपायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

६०५. एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, ब्रह्मअपर्याप्त और पाँच स्थावर कायिक जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है। औदारिककाययोगी जीवोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

तिरिक्खग० उक्क०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सेसाणं अपज्जत्तभंगो । वेउव्वियका० देवोयं । एवं वेउव्वियमि० ।

६०६. आहार०-आहारमि० सव्वत्थोवा पंचणोक० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । चदुसंज० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा थिर-सुभ-जसगि० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । तप्पडिपक्खाणं उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६०७. कम्मइग० पंचणा०-एवदंसणा०-वएण०४-अगु०४-आदाउज्जो०-तस-थावरादि४युगल-णमि०-तित्थय०-पंचंत० सव्वत्थोवा उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा चदुरिं० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । तीइंदि० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । वेइंदि० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । एइंदि०-पंचिदि० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सेसाणं ओघं । एवरि गदी ओरालियमिस्सभंगो ।

६०८. इत्थिवेदे देवोयं । एवरि आहार० उ०ट्टि० थोवा । यट्टि० विसे० । चदुएणं सरीराणं उ०ट्टि० संखेज्जगु० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा आहार० अंगो० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । ओरालि०अंगो० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० ।

हे । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है । वैकियिककाययोगी जीवोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इसी प्रकार वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए ।

६०६. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच नोकपायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे चार सञ्ज्वलनोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे इनकी प्रतिपन्न प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

६०७. कर्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, चर्णचतुष्क, अगु-रुलधुचतुष्क, आतप, उद्योत, व्रस और स्थावर आदि चार युगल, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चतुरिन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे त्रीन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे द्वीन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे एकैन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि गतियोंका भङ्ग आँदारिकमिश्र-काययोगी जीवोंके समान है ।

६०८. स्त्रीवेदो जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आहारक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे चार शरीरोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । आहारक आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे आँदारिक आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे

वेउव्व०अंगो० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । संघडणं देवोयं । एवरि  
स्वीलिय०-असंपत्त० दोएणं उ०ट्टि० विसे० ।

६०६. एवुंसगे ओयं । एवरि सव्वत्थोवा चदुआयु-जादी उ०ट्टि० । यट्टि०  
विसे० । पंचिदि० उक्क०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा थावरादि०४-  
उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । तस०४ उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । अवगदवेदे  
सव्वाणं सव्वत्थोवा उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० ।

६१०. मदि०-सुद०-विभंग० ओयं । आभि०-सुद०-ओधि० सव्वत्थोवा सादा०  
उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । असादा० उ०ट्टि० संखेज्जगु० । यट्टि० विसे० । एवं  
परियत्तमाणीणं । सेसाणं सव्वत्थोवा उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । एवरि मोह०  
सव्वत्थोवा हस्स-रदि० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । पंचणोक० उ०ट्टि० विसे० ।  
यट्टि विसे० । वारसक० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा मणुसायु०  
उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । देवायु० उ०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० ।  
मणपज्जव०--संजद--सामाइ०--छेदो०--परिहार०--संजदासंजद--ओधिदं०--सुकले०-

यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वैक्रियिक आज्ञोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। संहननोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान  
है। इतनी विशेषता है कि कीलक संहनन और असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन इन दोनोंका  
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

६०९. नपुंसकवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि चार  
आयुओं और चार जातियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध  
विशेष अधिक है। इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे  
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। स्थावर आदि चारका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक  
है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे त्रस चतुष्कका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका  
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

६१०. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभङ्गज्ञानी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। आभिनि-  
बोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, और अवधिज्ञानी जीवोंमें साता प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे  
स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे असाता वेदनीयका उत्कृष्ट स्थिति-  
बन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार परावर्तमान प्रकृ-  
तियोंका जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे  
पत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इतनी विशेषता है कि मोहनीय कर्ममें हास्य और रतिका  
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोक-  
पायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्धविशेष अधिक है। इससे  
बारह कपायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
है। मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष

सम्मादि०-खड्ग०-वेदग०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० आभिणिबोधि०भंगो । एवरि एदेसिं मग्गणाणं अप्पप्पणो पगदीओ णादूण अप्पाबहुगं साधेदव्वाओ ।

६११. सासणे सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । देवायु० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । असंज०--अभवसि०--मिच्छादि० मदि०भंगो ।

६१२. किएणले० एवुंसगभंगो० । णील-काऊणं सव्वत्थोवा देवगदि० उ० ट्टि० । यट्टि० विसे० । णिरयग० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । मणुसग० उ० ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । तिरिक्खग० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा चट्टुजादि० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । पंचिदि० उ०ट्टि० संखेज्जगु० । [ यट्टि० विसे० । ] सेसाणं आग्रं ।

६१३. तेउ० सोधम्मभंगो । एवरि सव्वत्थोवा आहार० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । वेउव्वि० उ०ट्टि० संखेज्जगु० । यट्टि० विसे० । ओरालि०-तेजा०-क० उक०ट्टि० संखेज्जगु० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा देवगदि० उ०ट्टि० । यट्टि०

अधिक है। मनःपर्यपज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार विशुद्धि संयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, गुक्कलेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंको जानकर अल्पबहुत्व साथ लेना चाहिए।

६११. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। असंयतसम्यग्दृष्टि, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंका भङ्ग मत्तज्ञानी जीवोंके समान है।

६१२. कृष्णलेश्यावाले जीवोंमें नपुंसकवेदी जीवोंके समान भङ्ग है। नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें देवगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नरकगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्जगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चार जातियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पञ्चन्द्रिय जातिकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है।

६१३. पीतलेश्यावाले जीवोंमें सौधर्म कल्पके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है। कि आहारक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे औदारिक शरीर, तैजस शरीर और कार्मण शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। देवगतिका उत्कृष्ट

विसे० । मणुसगदि० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । तिरिक्खग० उ०ट्टि० विसे० ।  
यट्टि० विसे० । एवं तिण्णिआणु० । एवं पम्माण वि । एवरि सहस्सारभंगो ।

६१४. असएणीसु सव्वत्थोवा तिरिक्ख--मणुसायु० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० ।  
देवायु० उ०ट्टि० असंखे० । यट्टि० विसे० । णिरयायु० उ०ट्टि० असंखे० ।  
[ यट्टि० विसे० । ] सव्वत्थोवा देवगदि० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । मणुसग० उ०  
ट्टि० विसे० । यट्टिदि० विसे० । तिरिक्खग० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।  
णिरयग० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा चदुरिदि० उ०ट्टि० । यट्टि०  
विसे० । तीइदि० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । वीइदि० उ०ट्टि० विसे० ।  
यट्टि० विसे० । एइदि० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचिदि० उ०ट्टि० विसे० ।  
यट्टि० विसे० । गदिभंगो आणुपुव्वि० । थावरादि०४ उ०ट्टि० थोवा । यट्टि० विसे० ।  
तस०४ उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । संसा० अपज्जत्तभंगो । अणाहार०  
कम्मइगभंगो ।

### एवं उक्कस्सं समत्तं

स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मनुष्यगतिका  
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
है । इसी प्रकार तीन आनुपूर्वियोंकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व जानना चाहिए । इसी प्रकार  
पञ्चलेश्यावाले जीवोंके भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके सहस्रार कल्पके  
समान भङ्ग जानना चाहिए ।

६१४. असंखी जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक  
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यात-  
गुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध  
असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । देवगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध  
सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट  
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका  
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नरक-  
गतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।  
चतुरिन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
है । इससे त्रीन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध  
विशेष अधिक है । इससे द्वीन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति-  
बन्ध विशेष अधिक है । इससे एकेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । चार आनुपूर्वियोंका भङ्ग चार गतियोंके समान  
है । स्थावर आदि चारका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है । इससे त्रस चतुष्कका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध  
विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपयौसकोंके समान है । तथा अनाहारक जीवोंका  
भङ्ग कार्मणकाय- योगी जीवोंके समान है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

६१५. जहणण पगदं । दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०--वणण०४-  
अगु०४--आदाउज्जो०--णिमि०--तित्थय०--पंचंत० सव्वत्थोवा जह० द्विदि० । यट्ठि०  
विसे० । सव्वत्थोवा चदुदंस० ज०ट्ठि० । यट्ठि० विसे० । पंचदंस० ज०ट्ठि० असंखे० ।  
यट्ठि० विसे० । सव्वत्थोवा सादावे० ज०ट्ठि० । यट्ठि० विसे० । असादावे० ज०ट्ठि०  
असंखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । सव्वत्थोवा लोभसंज० ज०ट्ठि० । यट्ठि० विसे० ।  
मायासंज० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । माणमंज० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि०  
विसे० । कोधसंज० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । पुरिसं ज०ट्ठि० संखेज्ज० ।  
यट्ठि० विसे० । हसस-रदि-भय-दुगुं० ज०ट्ठि० असंखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । अरदि-  
सोग० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । एवुंस० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० ।  
वारसक० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । मिच्छं ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० ।

६१६. सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुमायु० ज०ट्ठि० । यट्ठि० विसे० । णिरय-  
देवायु० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । [ सव्वत्थोवा ] तिरिक्ख-मणुसग०

६१५. जघन्यका प्रकरण है उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, वर्ण चतुष्क, अगुमलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय इनका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोत्र है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चार दर्शनावरणका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोत्र है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच दर्शनावरणका जघन्य स्थितिवन्ध अमंग्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। साता वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोत्र है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोत्र है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसमें माया संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसमें मान-संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसमें क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसमें अगति और शाकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे वारह कपायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।

६१६. तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोत्र है। इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नरगायु और देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोत्र है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवगतिका

ज०द्वि० । यद्वि० विसे० । देवग० ज०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । णिरयग०  
ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । सव्वत्थोवा पंचिदि० ज०द्वि० । यद्वि० विसे० ।  
चदुरिं० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । तीइंदि० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० ।  
बीइंदि० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । पइंदि० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० ।

६१७. सव्वत्थोवा ओरालि०-तेजा०-क० ज०द्वि० । यद्वि० विसे० । वेउव्वि०  
ज०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । आहार ज०द्वि० संखेज्जगु० । यद्वि० विसे० ।  
सव्वत्थोवा ओरालि०अंगो० ज०द्वि० । यद्वि० विसे० । वेउव्वि०अंगो० ज०द्वि०  
संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । आहार०अंगो० ज०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० ।  
संठाण-संघडणं उक्कस्सभंगो ।

६१८. सव्वत्थोवा पसन्थ०---तस०४-थिरादिपंच ज०द्वि० । यद्वि० विसे० ।  
तप्पडिपक्खाणं ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । सव्वत्थोवा जस०--उच्चा० ज०द्वि० ।  
यद्वि० विसे० । अजस०-णीचा० ज०द्वि० असंखेज्ज० । यद्वि० विसे० । एवं ओघ-  
भंगो कायजोगि-ओरालि०-णवुंस०-कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारणं ति ।

जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हैं । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नरक-  
गतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।  
पञ्चेन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है । इससे चतुरिन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे त्रीन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे द्वीन्द्रिय जातिका जघन्य स्थिति-  
वन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे एकेंद्रिय जातिका  
जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

६१७. औदारिकशरीर, नैजसशरीर और कार्मणशरीरका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे  
स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य स्थिति-  
वन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे आहारकशरीरका  
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । औदारिक  
आङ्गोपाङ्गका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।  
इससे वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है । इससे आहारक आङ्गोपाङ्गका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । संस्थान और संहननोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

६१८. प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क और स्थिर आदि पाँचका जघन्य स्थितिवन्ध  
सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे इनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोंका  
जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । यशःकीर्ति  
और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक  
है । इससे अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी,  
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचश्रुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना  
चाहिए ।

६१६. एणरि एसु उकस्सभंगो । एणरि पुरिसं--हस्स-रदि-भय-दुगुं० ज०ट्टि० थोवा । यट्टि० विसे० । अरदि-सोग० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विमे० । इत्थि० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । एणुंसं० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सोल-सक० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विमे० । मिच्छ० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । एवं षडमाए ।

६२०. विदियादि याव छट्टि त्ति सव्वत्थोवा छदंसं० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । थीणगिद्धि०३ ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा पुरिसं-हस्स-रदि-भय-दुगुं० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । अरदि-सोग० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । वारसकं० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । अणंताणुवंघि०४ ज०ट्टि संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । मिच्छ० ज०ट्टि० विमे० । यट्टि० विसे० । इत्थि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । एणुंसं० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६२१. सव्वत्थोवा मणुसगं० ज०ट्टि०वं० । यट्टि विमे० । तिग्गखगं० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । एवं आणुपु० । सव्वत्थोवा समचदुं० ज०ट्टि० ।

६१९. नारकियोंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति और शोकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे सोलह कपायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए ।

६२०. दूसरीसे लेकर छठी तक पृथिवीमें छह दर्शनावरणका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति और शोकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे बारह कपायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

६२१. मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार अनुपूर्वियोंकी मुख्यतासे अल्पवहुत्व जानना



यद्वि विसे० । एग्गाद० ज०द्वि० संवेज्ज० । यद्वि० विसे० । सेसाणं उक्कस्सभंगो । एवं संघड० ।

६२२. सव्वत्थोवा पसन्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० ज०द्वि० । यद्वि० विसे० । तप्पडिपक्खाणं ज०द्वि० संवेज्ज० । यद्वि० विसे० । थिर-सुभ-जसगि० ज०द्वि० थोवा० । यद्वि० विसे० । तप्पडिपक्खाणं ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । एवं सत्तमाए ।

६२३. तिरिक्खेमू छणं कम्माणं णिरयोघं । आयु०४ मूलोघं । णामा० ओघं । एवरि सव्वत्थोवा जस० ज०द्वि० । यद्वि० विसे० । अजस० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । एवं पंचिदियतिरिक्ख०३ । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तएमु णिरयोघं ।

६२४. मणुसेसु मूलोघं । एवरि सव्वत्थोवा मणुसग० ज०द्वि० । यद्वि० विसे० । तिरिक्खग० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । देवगदि० ज०द्वि० संवेज्ज० । यद्वि० विसे० । णिरयग० ज०द्वि० संवेज्ज० । यद्वि० विसे० । जादी ओघं । सव्वत्थोवा तिण्णसरीराणं ज०द्वि० । यद्वि० विसे० । वेउन्वि०-आहार० ज०द्वि०

चाहिए । समचतुरस्रसंस्थानका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे न्यग्रोध परिमंडल संस्थानका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । शेष संस्थानोंकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व उत्कृष्टके समान है । तथा इसी प्रकार सहननोंकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।

६२२. प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे इनकी प्रतिपन्नभूत प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे इनकी प्रतिपन्न प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए ।

६२३. तिर्यञ्चोंमें छह कर्मोंकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व सामान्य नारकियोंके समान है । चार आयुओंकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व मूलोघके समान है । तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चकर्मोंमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सामान्य नारकियोंके समान जानना चाहिए ।

६२४. मनुष्योंमें मूलोघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे देवगतिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । पाँच जातियोंकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व ओघके समान है । तीन शरीरोंका जघन्य

संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । ओरालि०अंगो० ज०ट्ठि० थोवा । यट्ठि० विसे० । वेउव्वि०-आहार०अंगो० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । संसाणं ओघं । सव्वअपज्जत्त-सव्वविगल्लिदिय-पंचकायाणं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

६२५. देवाणं णिरयभंगो । एवरि थोवा पंचिदि०-तस० ज०ट्ठि० । यट्ठि० विसे० । एइंदि०-थावर० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० ।

६२६. एइंदिणसु तिरिक्खोघं । एवरि गदीणं एत्थि अप्पावहुगं । पंचिदय-पंचिदियपज्जत्ता० सत्तएणं कम्मएणं ओघं । सव्वन्थोवा देवगदि० ज०ट्ठि० । यट्ठि० विसे० । मणुसग० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । तिरिक्खग० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । णिरयग० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । एवं आणुपु० । संसं ओघं । एवं तस-तसपज्जत्ता । एवरि विसेसो । सव्वन्थोवा मणुसग० ज०ट्ठि० । यट्ठि० विसे० । तिरिक्खगदि० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । देवगदि० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । णिरयग० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० ।

स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे वैक्रियिक और आहारक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । औदारिक आङ्गोपाङ्गका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे वैक्रियिक और आहारक आङ्गोपाङ्गका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात-गुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । तथा शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे अल्प-बहुत्व ओघके समान है । सब अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावर कायिक जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

६२५. देवोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति और त्रसका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे एकेन्द्रिय जाति और स्थावरका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

६२६. एकेन्द्रियोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि इनमें गतियोंका अल्पबहुत्व नहीं है । पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें सात कर्मोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है । देवगतिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार चार आनुपूर्वियोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका अल्पबहुत्व ओघके समान है । इसी प्रकार त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

६२७. पंचमण०-तिण्णवचि० सव्वत्थोवा चदुदंस० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० ।  
 णिदा-पचला० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । थीणगिद्धि० ३ ज०ट्टि० संखेज्ज० ।  
 यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा लोभसंज० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । मायासंज०  
 ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । माणसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।  
 कोधसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पुरिस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि०  
 विसे० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० ज०ट्टि० असंखे० । यट्टि० विसे० । अरदि-सोग०  
 ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पच्चक्खाणावर० ४ ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि०  
 विसे० । अपच्चक्खाणा० ४ ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अणंताणुबंधि० ४  
 ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । मिच्छ० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।  
 इत्थि०-पुरिस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । एवुंस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि०  
 विसे० । सव्वत्थोवा देवगदि० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । मणुसग० ज०ट्टि०  
 संखेज्जगु० । यट्टि० विसे० । तिरिक्खग० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० ।  
 णिरयग० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा पंचिदि० ज०ट्टि० । यट्टि०

६२७. पाँचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें चार दर्शनावरणका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे निन्द्रा और प्रचलाका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे स्नानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मायासंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे क्रोधासंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति और शोकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्रीवेद और पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। देवगतिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नरक-

विसे० । चतुरिदि० ज०द्वि० संखेज्जु० । यद्वि० विसे० । उवरिं ओघं । सव्वत्थोवा  
चदुण्णं सरीराणं ज०द्वि० । यद्वि० विसे० । ओरालिय० ज०द्वि० संखेज्जु० । यद्वि०  
विसे० । संठाणं संघडणं दोविहा० विदियपुढविभंगो । अंगोवंग० सरीरभंगो ।  
सव्वत्थोवा तस०४ जद्वि० । यद्वि० विसे० । तप्पडिपक्खाणं ज०द्वि० संखेज्जु० ।  
यद्वि० विसे० । सव्वत्थोवा थिरादिपंच० ज०द्वि० । यद्वि० विसे० । तप्पडिपक्खाणं  
ज०द्वि० संखेज्जु० । यद्वि० विसे० । सव्वत्थोवा जसगि०--उच्चा० ज०द्वि० । यद्वि०  
विसे० । अजस०-णीचा० ज०द्वि० संखेज्जु० । यद्वि० विसे० । सेसं पंचिदियभंगो ।

६२८. वच्चिजोगि०-असच्चमोस० तसपज्जत्तभंगो । ओरालियका० खवगपगदीणं  
ओघं । सेसं तिरिक्खोघं । ओरालिभि० तिरिक्खोघं । वेउव्वियका० सोधम्मभंगो ।  
एवं वेउव्वियमि० । आहार०--आहारमि० उक्कस्सभंगो । कम्मइ०-अणाहार० ओरा-  
लियमिस्सभंगो । इत्थिवेदेसु ओघं । सेसाणं पंचिदियभंगो । एवं पुरिसवे० ।  
अवगदवेदे ओघं । कोधादि०४ ओघं । एवरि मोह० विसेसो एाद्वो । संजलणा०४

गतिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।  
पञ्चेन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है । इससे चतुरिन्द्रियजातिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है । इसमें आगेका अल्पबहुत्व ओघके समान है । चार शरीरोंका  
जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें औदा-  
रिक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक  
है । संस्थान, संहनन और दो विहायोगति इनका भङ्ग दूसरी पृथिवीके समान है । आङ्गो-  
पाङ्गोका भङ्ग शरीरोंके समान है । त्रसचतुष्कका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध  
संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । स्थिर आदि पाँच प्रकृतियोंका  
जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे इनकी  
प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है । यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इसमें  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध  
संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । शेष भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है ।

६२८. वचनयोगी और असत्यमृणावचनयोगी जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग  
है । औदारिककाययोगी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । तथा शेष प्रकृ-  
तियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य  
तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सौधर्मकल्पके समान भङ्ग है । इसी  
प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । आहारकाययोगी और आहारक-  
मिश्रकाययोगी जीवोंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें  
औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । स्त्रीवेदी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग  
ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । इसी प्रकार पुरुषवेदी  
जीवोंके जानना चाहिए । अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । क्रोधादि चार कपाय-

कोधे माणे०३ मायाए दोणिण लोभे एक० ।

६२६. मदि०--सुद०--असंज०--अभव०--मिच्छादि० तिरिक्खवांघं । विभंगे सव्वत्थोवा देवग० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । तिरिक्ख-मणुसग० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । णिरयग० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा पंचिदि० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । चदुरिंदि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । तीइंदि० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । वीइंदि० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । एइंदि० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा वेउव्वि०-तेजा०-क० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । ओरालि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सेसं मणजोगिभंगो ।

६३०. आभि०-सुद०-ओधि० सव्वत्थोवा मणुसायु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । देवायु० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा देवग० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । मणुसग० ज०ट्टि० संखेज्जगु० । यट्टि० विसे० । संसाणं मणजोगिभंगो । एवं ओधिदंसणी-सम्मादि०-खइग०--वेदग०-उवसम० । एवरि वेदगे खवगपगदिभंगो एत्थि ।

वाले जीवोंमें आघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मोहनीयकर्ममें विशेषता जाननी चाहिए। क्रोधमें चार संज्वलन, मानमें तीन, मायामें दो और लोभमें एक कहना चाहिए।

६२६. मन्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अव्यय आंग मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। विभङ्गज्ञानमें देवगतिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। पञ्चेन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे चतुरिन्द्रि जातिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे त्रीन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थिति बन्ध विशेष अधिक है। इससे द्वीन्द्रियजातिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे एकन्द्रियजातिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर और कार्मणशरीरका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे औदारिकशरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है।

६३०. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अव्ययज्ञानी जीवोंमें मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। देवागतिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मनुष्य-गतिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपसमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग नहीं है।

६३१. मणपज्व० सव्वत्थोवा सादा०-जसगि० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । असादा०-अजस० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । मोहणीयं मणजोगिभंगो । एवं दंसणावरणीयं । सेसाणं सव्वत्थोवा ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०--संजदासंजदा त्ति । एवरि विसेसो णादव्वो । चक्खुदं०-तसपज्जत्तभंगो ।

६३२. किरण-णील-काऊणं सव्वत्थोवा दोआयु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । देवायु० ज०ट्टि० संखेज्जगु० । यट्टि० विसे० । णिरयायु० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सेसं अपज्जत्तभंगो । एवरि काऊणं णिरय-देवायुणं सह भाणिदव्वं ।

६३३. तेऊणं मोहणीय-णापं मणजोगिभंगो । एवरि सव्वत्थोवा पुरिस०--हसस-रदि-भय-दुगुं० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । चदुसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । अरदि-मोग० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सेसं सोधम्मभंगो । एवरि माद०-जस०-उच्चा०-सव्वत्थोवा ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । असाद०-अजस०-णीचा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । एवं पम्माण ।

६३१. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सातावेदनीय और यशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें असातावेदनीय और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । इसी प्रकार दर्शनावरणीयका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि-संयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु जहाँ जो विशेषता हो उसे जान लेना चाहिए । चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है ।

६३२. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें दो आयुओंका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें नरकायुका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यावाले जीवोंमें नरकायु और देवायुको एक साथ कहना चाहिए ।

६३३. पीतलेश्यावाले जीवोंमें मोहनीय और नामकर्मका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें चार संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें अग्नि और शोकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे असातावेदनीय, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार पक्षालेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए ।

६३४. सुकाए सव्वत्थोवा मणुसायु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । देवायु० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा देवग० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । मणुसग० ज०ट्टि० संखेज्जगु० । यट्टि० विसे० । सेसं ओग्रं ।

६३५. सासणे सव्वत्थोवा सादावे० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । असादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सव्वत्थोवा तिण्णिणगदि० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । एवं धुविगाणं । सेसाणं सादा०भंगो ।

६३६. सम्माभि० सव्वत्थोवा सादा० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । असादा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । एवं परियत्तमाणियाणं । सव्वत्थोवा पुरिस०-हम्मस-रदि-भय-दुगुं० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । वारसक० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । अरदि-सोग० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सेसाणं सव्वत्थोवा ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० ।

६३७. सण्णिण मणुसभंगो । असण्णिण० तिरिक्खोग्रं ।

एवं जहणायं समत्तं

एवं सत्थाणट्टिदिअप्पावहुगं समत्तं

६३४. शुक्लकेश्यावाले जीवोंमें मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। देवगतिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मनुष्यागतिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है।

६३५. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। तीन गतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सातावेदनीय के समान है।

६३६. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार परावर्तमान प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे बारह कपायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति और शोकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।

६३७. संज्ञियोंमें मनुष्योंके समान भङ्ग है। तथा असंज्ञियोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है।

इस प्रकार जघन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

इस प्रकार स्वस्थान स्थिति अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

६३८. परत्थाणद्विदिअप्पावहुगं दुविधं—जहणणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वत्थोवा तिरिक्खव- मणुसायूणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो । यद्विदिबंधो विसेसाभियो । णिरय-देवायूणं उक्कस्सद्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । आहार० उक्क०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । पुरिस०—हस्स-रदि-देवगदि०-जस०—उच्चा० उक्क०द्विदि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । सादा०—इत्थि०—मणुसग० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । एवुंस० अरदि०—सोग-भय-दुगुं०—णिरयगदि-तिरिक्खवगदि-चदुसररीर-अजस०—णीचा० उक्क०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-पंचन० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । सोलमक० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । मिच्छ० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० ।

६३९. एरइएसु सव्वत्थोवा दोआयु० उ०द्वि० । यद्वि० विसे० । पुरिस०—हस्स-रदि-जस०—उच्चा० उ०द्वि० असंखेज्ज० । यद्वि० विसे० । सादावे०—इत्थि०-मणुसगदि० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । एवुंस०—अरदि-सोग-भय-दुगुं०—तिरिक्खवगदि-तिणिसरीर-अजस०-णीचा० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । उवरि ओघं । एवं याव छट्टि ति ।

६३८. परस्थान स्थिति अल्पबहुत्व दो प्रकार का है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकायु और देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे आहारकद्विकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीय, स्त्रीवेद और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, तिर्यञ्चगति, चार शरीर, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे सोलह कपायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

६३९. नारकियोंमें दो आयुओंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे साता वेदनीय, स्त्रीवेद और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, तीन शरीर, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे आगेका अल्पबहुत्व ओघके समान है । इसी प्रकार छठवीं पृथिवी तक जानना चाहिए ।



६४०. सत्तमीए सव्वन्थोवा तिरिक्खायु० उ०ट्टि० । यट्ठि० विसे० । मणुमग०-  
उच्चा० उक्क०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । पुरिस०--हस्स--रदि--जस०--उच्चा०  
उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । सादा०-इत्थि० उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० ।  
एवुंसगदिपंच-तिरिक्खगदि-तिणिणमगीर-अजम०-णीचा० उक्क०ट्टि० विसे० । यट्ठि०  
विसे० । उवरि ओघं ।

६४१. तिरिक्खेमु सव्वन्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उ०ट्टि० । यट्ठि० विसे० ।  
देवायु० उक्क०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । णिरयायु० उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि०  
विसे० । पुरिस०-हस्म-रदि-देवगदि-जस०-उच्चा० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० ।  
सादा०-इत्थि०--मणुमग० उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । तिरिक्खग०-आंरालि०  
उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । एवुंसगादिपंच-णिरयगदि--वेउव्वि०-तेजा०-क०-  
अजम०-णीचा० उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । उवरि ओघं । एवंपंचिंदिय-  
तिरिक्ख० ३ ।

६४२. पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तगेमु सव्वन्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उ०ट्टि० ।  
यट्ठि० विसे० । पुरिस०--उच्चा० उ०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । इत्थि०

६४०. सातर्था पृथिवीमें तिर्यञ्चायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मनुष्यगति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध  
असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेद, हास्य, रति,  
यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है । इससे सातावेदनीय और स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेद आदि पाँच, तिर्यञ्चगति, तीन शरीर,  
अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है । इससे आगेका अल्पबहुत्व ओघके समान है ।

६४१. तिर्यञ्चोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ।  
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक  
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, यशः  
कीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है । इससे सातावेदनीय, स्त्रीवेद और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्चगति और औदारिक  
शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।  
इससे नपुंसकवेद आदि पाँच, नरकगति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर,  
अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है । इससे आगेका अल्पबहुत्व ओघके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय  
तिर्यञ्चिकमें जानना चाहिए ।

६४२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थिति  
वन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेद और उच्च-

उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । जसगि० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । मणु-  
सग० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । सादा०--हस्म--रदि० उक्क०द्वि० विसे० ।  
यद्वि० विसे० । पंचणोक०--तिरिक्खगदि--तिण्णमरीर--अजस०--णीचा० उक्क०द्वि०  
विसे० । यद्वि० विसे० । पंचणा०-एवदंसणा०--असादा०-पंचंत० उ०द्वि० विसे० ।  
यद्वि० विसे० । सोलसक० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । एवं सव्वअपज्जत्तगाणं  
सव्वएइंदिय--सव्वविगल्लिदिय--पंचकायाणं च । एवरि सव्वएइंदिय--विगल्लिदिय०  
णीचागोदादा सादावे० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । पच्छा एणावरणीयं  
भाणिदव्वं ।

६४३. मणुसेसु०३ ओघं । एवरि तिरिक्खगदि--ओरालि० तिरिक्खभंगो ।  
देवेषु याव सहस्सार त्ति एरइगभंगो । आणद याव एवगेवज्जा त्ति सव्वत्थोवा  
मणुसायु० उ०द्वि० । यद्वि० विसे० । पुरिस०--हस्म--रदि--जसगि०--उच्चा० उ०द्वि०  
असंखेज्ज० । यद्वि० विसे० । सादावे०--इत्थि० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० ।  
पंचणोक० मणुसग०-तिण्णसरीर-अजस०-णीचा० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० ।  
एवरि एरइगभंगो ।

गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा हैं । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।  
इससे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक  
है । इससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है । इससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीय, हास्य और रतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक हैं । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति,  
तीन शरीर, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे  
यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावे-  
दनीय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है । इससे सोलह कपायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे  
यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब एकेंन्द्रिय, सब विकले-  
न्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सब  
एकेंन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें नीचगोत्रके सातावेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । तथा इसके वाद ज्ञानावरणदिक कहने  
चाहिए ।

६४३. मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति और  
औदारिक शरीरका भङ्ग तिर्यञ्चोंके समान है । देवोंमें सहस्सार कल्पतक नागक्रियोंके  
समान भङ्ग है । आनत कल्पसे लेकर नौ त्रैवेयक तकके देवोंमें मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थिति-  
बन्ध सबसे स्तोके है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेद, हास्य,  
रति, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यन्स्थिति-  
बन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीय और स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है । इससे यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोकपाय, मनुष्यगति, तीन  
शरीर अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे  
यन्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे आगेका भङ्ग नागक्रियोंके समान है ।

६४४. अणुदिस याव सव्वट्ति सव्वत्थोवा मणुसायु० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । हस्स--रदि--जसगि० उ०ट्टि० [अ] संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सादा० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणोक०-मणुसग०-तिण्णसरीर--अजस०-उच्चा० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणा०--द्धंसणा०--असादा०--पंचंत० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । वारसक० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६४५. पंचिदिय-तसपज्जत्त०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-इत्थिवे०-पुरिस०-एणुंस०-कोधादि०-४-चक्खुदं०--अचक्खुदं०-भवसि०--सण्ण--आहारए त्ति मूलोघं । ओरालियकायजोगि० मणुसिण्णभंगो ।

६४६. ओरालियमि० सव्वत्थोवा दोआयु० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । देवगदि-वेउव्विय० उ०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पुरिस०-उच्चा० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । इत्थि० उट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । [सेसा०] अपज्जत्तभंगो ! वेउव्वियका०-वेउव्वियमि० देवोघं ।

६४७. आहार०--आहारमि० सव्वत्थोवा देवायु० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । हस्स--रदि--जसगि० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सादा० उ०ट्टि० विसे० ।

६४४. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोत्र है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकपाय, मनुष्यगति, तीन शरीर, अशयःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानवरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे बारह कपायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

६४५. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पाँचों, मनोयोगी पाँचों वचनयोगी, काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, चक्षु-दर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है। औदारिक-काययोगी जीवोंमें मनुष्यिनियोंके समान भङ्ग है।

६४६. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें दो आयुओंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोत्र है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे देवगति और वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुष-वेद और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है। वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है।

६४७. आहारक काययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोत्र है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

यद्वि० विसे० । पंचणोक०--देवगदि--तिणिणसरीर-अजस०-उच्चा० उ०द्वि० विसे० ।  
यद्वि० विसे० । पंचणा०--द्वंदसणा०--असादा०--पंचंत० उ०द्वि० विसे० । यद्वि०  
विसे० । चदुसंज० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० ।

६४८. कम्मइ० सव्वत्थोवा देवगदि-वेउत्वि० उ०द्वि० । यद्वि० विसे० । पुरिस०-  
हस्स-रदि--जसगि०--उच्चा० उ०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । सादा०--इत्थिवे०-  
मणुसग० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । पंचणोक०--तिरिक्खग०--तिणिणसरीर-  
अजस०-णीचा० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-  
पंचंत० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । सोलसक० उ०द्वि० विसे० । यद्वि०  
विसे० । मिच्छ० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० ।

६४९. अवगदवेदे सव्वत्थोवा चदुसंज० उ०द्वि० । यद्वि० विसे० । पंचणा०-  
चदुदंस०--पंचंत० उ०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । जसगि०--उच्चा० उ०द्वि०  
'संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । सादा० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० ।

हे । इससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोकापाय, देवगति, तीन शरीर, अयशःकीर्ति और उच्च-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे चार संज्वलनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

६४८. कामणकाययोगी जीवोंमें देवगति और वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीय, स्त्रीवेद और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोकापाय, तिर्यञ्च-गति, तीन शरीर, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता-वेदनीय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे सोलह कपायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

६४९. अपगतवेदी जीवोंमें चार संज्वलनोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

१ मूलप्रती उ०द्वि० असंखेज्ज० इति पाठः ।

६५०. मदि०-सुद० सव्वन्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । देवायु० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । णिरयायु० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पुरिस०-हम्म-रदि-देवगदि-जसगि०-उच्चा० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सादा०-इत्थि०-मणुस० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । उवरि ओघं । एस भंगो विभंगे असंज०-क्किएणले०-अभवसि०-मिच्छा० । एवरि किएणे णिरयायु० संखेज्जगु० ।

६५१. आभि०-सुद०-ओधिणा० सव्वन्थोवा मणुसायु० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० । देवायु० उ०ट्टि० [अ-] संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । आहार० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । हम्म-रदि-जसगि० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सादावे० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणोक०-दोगदि-चदुमरीर-अजस०-उच्चा० उ०ट्टि० संखेज्जगु० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-अदंसणा०-असादा०-पंचंत० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । वाग्गसक० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । एवं एस भंगो ओधिदंस०-सम्मदि०-खड्ग०-वेदगस०-उवसम०-सम्मामिच्छादिट्टि ति ।

६५०. मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इसमें यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीय, स्त्रीवेद और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसमें यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे आगेका अल्पबहुत्व ओघके समान है। यही अल्पबहुत्व विभङ्गज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कृष्णलेश्यावाले जीवोंमें नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।

६५१. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इसमें यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे आहारक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इसमें यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नाकपाय, दो गति, चार शरीर, अयशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे बारह कपायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार यह अल्पबहुत्व अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, वेदक-सम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेष-

एवमि स्वङ्गे पंचणोक०--दोगदि--चदुमरीर--अजमगिति--उच्चा० उ०द्वि० विसे० ।  
यद्वि० विसे० ।

६५२. मणपञ्जव० सव्वन्थोवा देवायु० उ०द्वि० । यद्वि० विसे० । आहार०  
उ०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । हस्स-रदि-जसगि० उ०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि०  
विसे० । सादा० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । पंचणोक०-देवगदि-तिणिणसरीर-  
अजस०-उच्चा० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । अथवा पदाओ संखेज्जगुणाओ ।  
उवरिं ओधिभंगो । एवं संजद-सामाइ०-त्तेदो० परिहार०-संजदासंजदा० ।

६५३. एील-काऊए सव्वन्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उ०द्वि० । यद्वि० विसे० ।  
देवायु० उ०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । णिरयायु० उ०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि०  
विसे० । देवगदि० उ०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । णिरयग०-वेउच्चि० उ०द्वि०  
विसे० । यद्वि० विसे० । पुरिस०-हस्स-रदि-जसगि०-उच्चा० उ०द्वि० संखेज्ज० ।  
यद्वि० विसे० । सादावे०--इत्थि०--मणुसग० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । पंच-  
णोक०-तिरिक्खग०-तिणिणसरीर-अजस०-एीचा० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० ।  
उवरिं ओधिं ।

पता है कि क्षाधिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच नोकपाय, दो गति, चार शरीर, अयशःकीर्ति और  
उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।

६५२. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोका है। इससे  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे आहारक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा  
है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट  
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेद-  
नीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे  
पाँच नोकपाय, देवगति, तीन शरीर, अयशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। अथवा इनका उत्कृष्ट स्थिति-  
वन्ध संख्यातगुणा है। इससे आगेका अल्पबहुत्व अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। इसी  
प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत  
जीवोंके जानना चाहिए।

६५३. नीललेश्या और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट  
स्थितिवन्ध सबसे स्तोका है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका  
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नर-  
कायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे  
देवगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।  
इससे नरकगति और वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे  
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका  
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे साता-  
वेदनीय, स्त्रीवेद और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थिति-  
वन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, तीन शरीर, अयशःकीर्ति और  
नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।  
इससे आगेका अल्पबहुत्व ओघके समान है।

६५४. तेऊए सव्वत्थोवा निरिक्ख-मणुसायु० उ०ट्टि० । यट्ठि० विसे० । देवायु० उ०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । आहार० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । देवगदि०-वेउव्वि० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । पुरिस०-हस्स-रदि-जस०-उच्चा० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । सादावे०-इत्थि०-मणुस० उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । पंचणोक०-तिरिक्खग०-तिण्णिसरीर-अजस०-णीचा० उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । उवरिं ओघं । एवं पम्माए त्ति ।

६५५. सुक्काए सव्वत्थोवा मणुसायु० उ०ट्टि० । यट्ठि० विसे० । देवायु० उ०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । आहार० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । देवगदि-वेउव्वि० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । पुरिस०-हस्स-रदि-जस०-उच्चा० उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । सादावे०-इत्थि उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । पंचणोक०-मणुसगदि-तिण्णिसरीर-अजस०-णीचा० उ०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । उवरि एवगेवज्जभंगो ।

६५६. सासणे सव्वत्थोवा निरिक्ख-मणुसायु० उ०ट्टि० । यट्ठि० विसे० ।

६५४. पीतलेश्यावाले जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे आहारकशरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवगति और वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीय, स्त्रीवेद और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, तीन शरीर, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे आगेका अल्प-बहुत्व ओघके समान है। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए।

६५५. शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे आहारक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवगति और वैक्रियिक-शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीय और स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकपाय, मनुष्यगति, तीन शरीर, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे आगेका अल्पबहुत्व नौत्रैवेयकके समान है।

६५६. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थिति

देवायु० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पुरिस० [-हस्स-रदि-] देवगदि०-  
वेउच्चि०-जसगि०-उच्चागो० उ०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सादावे०-मणुसग०-  
उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणोक०-तिरिक्खग०-तिण्णिसरीर-अजस०-  
णीचा० उट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-पंचंत०  
उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सोलसक० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६५७. असण्णीसु सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उ०ट्टि० । यट्टि० विसे० ।  
देवायु० उ०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । णिरयायु० उ०ट्टि० संखेज्ज० ।  
यट्टि० विसे० । पुरिस०-देवगदि-उच्चागो० उ०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० ।  
इत्थि० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । जसगि० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।  
मणुसग० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । हस्स-रदि उ०ट्टि० विसे० । यट्टि०  
विसे० । तिरिक्खगदि-ओरालि० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणोक०-णिग्ग-  
गदि-तिण्णिसरीर-अजस-णीचा० उ०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सादा० उ०ट्टि०  
विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-पंचंत० उ०ट्टि० विसे० ।

बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीय और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नाक-पाय, तिर्यञ्जगति, तीन शरीर, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे सोलह कपायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

६५७. असंखी जीवोंमें तिर्यञ्जायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोत्रक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेद, देवगति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे हास्य और रतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्जगति और औदारिकशरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नाक-पाय, नरकगति, तीन शरीर, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।



यद्वि० विसे० । सोलसक० उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । मिच्छ० उ०द्वि० विसे० ।  
यद्वि० विसे० । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं उक्कस्सपरत्थाणद्विद्विअप्पावहुगं समत्तं

६५८. जहणण्ण पगदं । दुवि०--आघे० आदे० । आघे० सब्वत्थोवा तिरिक्ख-  
मणुमायूणं जहणण्णो द्विद्वंधो । यद्वि० विसे० । लोभसंज० ज०द्वि० वं० संखेज्जु० ।  
यद्वि० विसे० । पंचणा०--चहुदंसणा०--पंचंत० ज०द्वि० संखेज्जु० । यद्वि० विसे० ।  
जस०-उच्चा० ज०द्वि० संखेज्जु० । यद्वि० विसे० । सादा० ज०द्वि० विसे० । यद्वि०  
विसे० । मायासंज० ज०द्वि० संखेज्जु० । यद्वि० विसे० । माणसंज० ज०द्वि० विसे० ।  
यद्वि० विसे० । क्रोधसंज० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । पुरिस० ज०द्वि० संखेज्जु० ।  
यद्वि० विसे० । णिरय-देवायु० ज०द्वि० संखेज्जु० । यद्वि० विसे० । हस्स-रदि-भय-  
दुगुं०--तिरिक्ख-मणुमगदि-आरालि०-तेजा०-क०--णीचागो० ज०द्वि० असंखेज्जु० ।  
यद्वि० विसे० । अरदि-सांग-अजग० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । इत्थि०  
ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । एवुंस० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । पंचदंस०

इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे सोलह कपायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाय-योगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट परस्थान स्थितिअल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

६५८. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे निर्यञ्जायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोका है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्नरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे माया संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकायु और देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, निर्यञ्चगति, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, तंजम शरीर, कार्मण शरीर और नीचगात्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । असादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । बारसक०  
ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । मिच्छ० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । देवगदि-  
वेउव्वि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । णिरयग० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि०  
विसे० । आहार० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० ।

६५६. णिरएसु सव्वत्थोवा दोरणं आयु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । पंचणोक०-  
मणुसग०--तिणिएसरीर--जसगि०--उच्चा० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० ।  
अरदि--सोग--अजस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । इत्थि० ज०ट्टि० विसे० ।  
यट्टि० विसे० । णवुंस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । एीचा० ज०ट्टि० विसे० ।  
यट्टि० विसे० । तिक्खिखग० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-णवदंसणा०-  
सादावे०-पंचंत० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । असादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि०  
विसे० । सोलसक० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । मिच्छ० ज०ट्टि० विसे० ।  
यट्टि० विसे० । एवं पढमाए ।

है । इससे पाँच दर्शनावरणका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे वारह कपायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवगति और वैक्रियिक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे आहारक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

६५९. नारकियोंमें दो आयुओंका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इनमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोकपाय, मनुष्यगति, तीन शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें त्रीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यङ्गगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय और पाँच अन्तगायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें बालह कपायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार पहिली पृथिवीमें जानना चाहिए ।

६६०. विद्यादि याव द्द्वि ति सव्वत्थोवा दोआयु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । पंचणोक्क०--मणुसग०--तिणिणसरीर--जसगि०--उच्चा० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अरदि-सोग-अजम० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-द्वदंसणा०-सादा०-पंचंत० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । असादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । बारगक० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । थीणगिद्धि०३ ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अणंताणुवंधि०४ ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । भिच्छ० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । इत्थि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । एणुंस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । एीचा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । निरिक्खग० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सत्तमाए पुढवीए एसेव भंगो । एवरि सव्वत्थोवा निरिक्खवायु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । एवं याव बारसकसा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । निरिक्खगदि-एीचा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । थीणगिद्धि०३ ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । अणंताणुवंधि०४ ज०ट्टि० विसे० ।

६६०. इसरीसे लेकर छुटवीं तक दो आयुओंका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोकपाय, मनुष्यगति, तीन शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे बारह कपायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे ओवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । सातवीं पृथिवीमें यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार बारह कपाय तक जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्चगति और नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

यट्टि० विसे० । मिच्छ० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । इत्थि० ज०ट्टि० संखेज्ज० ।  
यट्टि० विसे० । एवुंस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६६१. तिरिकखेसु सवत्थोवा दोआयु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । णिरय-  
देवायु० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणोक०--दोगदि--तिण्णिसरीर-  
जसगि०-णीचागो०-उच्चा० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अरदि--सोग-  
अणस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । इत्थि० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि०  
विसे० । एवुंस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-एवदंसणा०-सादा०-  
पंचंत० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । असादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि०  
विसे० । सोलसक० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । मिच्छ० ज०ट्टि० विसे० ।  
यट्टि० विसे० । देवगदि--वेउव्वि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । णिरयग०  
ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६६२. पंचिदिय--तिरिक्ख०२ सव्वत्थोवा तिरिक्ख--मणुसायु० ज०ट्टि० ।  
यट्टि० विसे० । दोआयु० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणोक०-देवगदि-  
तिण्णिसरीर--जस०-उच्चा० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अरदि--सोग-

इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा  
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

६६१. तिर्यञ्चामें दो आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थि-  
तिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकायु और देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा  
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोकपाय, दो गति, तीन शरीर,  
यशःकीर्ति, नोचगोत्र और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थि-  
तिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध  
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थिति-  
बन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदका  
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच  
ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे सोलह कपायका  
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।  
इससे देवगति और वैक्रियिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थि-  
तिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

६६२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च तीनमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध  
सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे दो आयुओंका जघन्य  
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोकपाय,  
देवगति, तीन शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ।

अजस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । मणुसग०-ओरालिय० ज०ट्टि० विसे० ।  
 यट्टि० विसे० । इत्थि० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । एणुंस० ज०ट्टि० विसे० ।  
 यट्टि० विसे० । एणीचा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । तिरिक्खवग० ज०ट्टि०  
 विसे० । यट्टि० विसे० । एणरयग० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-  
 एणवदंसणा०-सादा०-पंचंत० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । अमादा० ज०ट्टि०  
 विसे० । यट्टि० विसे० । सांलसक० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । मिच्छ०  
 ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६६३. पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तगेषु पढमपुढविभंगो । एवं सव्वअपपज्जत्तगाणं  
 सव्वविगलंदिद्य-पुढवि०-आउ०-वणप्फदि०-वादरवणप्फदिपत्तय०-सव्वणियोदाणं  
 पंचिंदिय-तसअपज्जत्ताणं च । एइदिणसु तिरिक्खोघं ।

६६४. तेउ०-वाउ० सव्वत्थोवा तिरिक्खायुः ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० ।  
 पंचणोक०-तिरिक्खवग०-तिणिसरीर-जस०-एणीचा० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि०  
 विसे० । अरदि-सोग-अजस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । उवरि अपज्जत्तभंगो ।

इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य  
 स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मनुष्यगति  
 और औदारिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष  
 अधिक है । इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध  
 विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
 यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।  
 इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष  
 अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध  
 विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्श-  
 नावरण, सातावेदनीय और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
 यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
 है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे सोलह कपायका जघन्य स्थितिबन्ध  
 विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य  
 स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

६६३. पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पहली पृथ्वीके समान भङ्ग है । इसी प्रकार  
 सब अपर्याप्तक, सब विकलेन्द्रिय, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, वादरवन-  
 स्पतिकायिक, सब निगोद, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंके जानना  
 चाहिए । एकेन्द्रियोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है ।

६६४. अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे  
 स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति,  
 तीन शरीर, यशःकीर्ति और नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे  
 यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थिति-  
 बन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे ऊपर अपर्याप्तकोंके  
 समान भङ्ग है ।

६६५. मणुस०३ सव्वत्थोवा तिरिक्ख'मणुसायु० ज०ट्टि० । यट्ठि० विसे० । लोभसंज० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंत० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । जस०-उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । सादावे० ज०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । मायासंज० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । माणसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । क्रोधसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । पुरिस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । दोआयु० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । हस्स-रदि-भय-दुगुं०-मणुसगदि-तिण्णसरिरं ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । अरदि-सोग-अजस० ज०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । इत्थि० ज०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । एवुंस० ज०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । एणीचा० ज०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । तिरिक्खग० ज०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । पंचदंस० ज०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । असादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । बारसक० ज०ट्टि० विसे० । यट्ठि० विसे० । मिच्छ० ज०ट्टि०

६६५. मनुष्यत्रिकमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे माया संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मान संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे क्रोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे दो आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति और तीन शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नीच गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच दर्शनावरणका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे बारह कपायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

विसे० । यद्वि० विसे० । देवगदि-वेउव्वि०--आहार० ज०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि०  
विसे० । णिरयग० ज०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० ।

६६६. देवा भवण०--वाणवेंत० णिरयोपं । जोदिसिय याव सहस्सार ति  
विदियपुढविभंगो । आणद याव एवगेवज्जा ति सो चव भंगो । एवरि तिरिक्खायु०-  
तिरिक्खगदी एत्थि । अणुदिस याव सव्वट्टा ति सव्वत्थोवा मणुसायु० ज०द्वि० ।  
यद्वि० विसे० । पंचणोक०-मणुसग०-तिणिएसरीर-जस०-उच्चा० ज०द्वि० असंखेज्ज० ।  
यद्वि० विसे० । अरदि-सांग-अजस० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । पंचणा०-  
द्धंसणा०-सादा०-पंचंत० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । असादा० ज०द्वि०  
विसे० । यद्वि० विसे० । बारसक० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० ।

६६७. पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्ता० सव्वत्थोवा तिरिक्ख०-मणुसायुग० ज०द्वि० ।  
यद्वि० विसे० । लोभसंज० ज०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । पंचणा०-चदुदंसणा०-  
पंचंत० ज०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । जस०-उच्चा० ज०द्वि० संखेज्ज० ।  
यद्वि० विसे० । सादा० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । मायामंज० ज०द्वि०

इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे देवगति, वैक्रियिक शरीर और आहारक शरीर-  
का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

६६६. सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है ।  
ज्योतिषियोंसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । आनतसे  
लेकर नौ त्रैवेयक तक वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहां तिर्यञ्चायु और तिर्यञ्चगति  
नहीं है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे  
स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पांच नोकपाय, मनुष्यगति, तीन  
शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे  
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थिति-  
बन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पांच ज्ञानावरण,  
छह दर्शनावरण, साता वेदनीय और पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध  
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे वारह कपायका जघन्य  
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

६६७. पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य  
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे लोभ संज्व  
लनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा  
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थिति-  
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीयका  
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे माया

संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । माणसंज० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । कोधसं-  
ज० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । पुरिस० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० ।  
दो आयु० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । चट्ठणोक०-देवगदि-तिणिसरीर०  
ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । उवरिं पंचिदियतिरिक्खभंगो ।

६६८. तस-तसपज्जत्तगोसु सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०ट्ठि० ।  
यट्ठि० विसे० । लोभसंज० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । उवरिं ओघं याव  
णिरय-देवायु० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । चट्ठणोक०-मणुसग०-तिणिस-  
सरीर० ज०ट्ठि० असंखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । अरदि-सोग-अजस० ज०ट्ठि०  
विसे० । यट्ठि० विसे० । इत्थि० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । एवुंस०  
ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । एणीचा० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० ।  
तिरिक्खग० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । पंचदंस० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि०  
विसे० । असादा० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । वारसक० ज०ट्ठि० विसे० ।

संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।  
इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है । इससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति-  
बन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे  
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे दो आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ।  
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार नोकपाय, देवगति और तीन शरीर  
का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
आगे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है ।

६६८. त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध  
सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे लोभ संज्वलनका जघन्य  
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे आगे  
नरकायु और देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इसके प्राप्त होने तक ओघके  
समान भङ्ग है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार नोकपाय, मनुष्यगति  
और तीन शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
है । इससे अरति, शोक और अयशःकीतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थिति-  
बन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच दर्शनावरणका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसमें  
असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है । इससे बारह कपायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति-

१ मूलप्रतौ ज० ट्ठि० विसे० । यट्ठि० इति पाठः ।



विसे० । यट्टि० विसे० । देवगदि-वेउव्वि०--आहार० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि०  
विसे० । णिरयग० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० ।

६६६. देवा भवण०--वाण्वंत० णिरयोघं । जोदिसिय याव सहस्सार त्ति  
विदियपुढविभंगो । आणद याव एवगेवज्जा त्ति सो चेव भंगो । एवरि तिरिक्खायु०-  
तिरिक्खगदी णत्थि । अणुदिस याव सव्वट्टा त्ति सव्वत्थोवा मणुसायु० ज०ट्टि० ।  
यट्टि० विसे० । पंचणोक०-मणुसग०-तिणिसरीर-जस०-उच्चा० ज०ट्टि० असंखेज्ज० ।  
यट्टि० विसे० । अरदि-सोग-अजस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-  
व्वदंसणा०--सादा०--पंचंत० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । असादा० ज०ट्टि०  
विसे० । यट्टि० विसे० । बारसक० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६६७. पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्ता० सव्वत्थोवा तिरिक्ख०-मणुसायुग० ज०ट्टि० ।  
यट्टि० विसे० । लोभसंज० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-चट्टुदंसणा०-  
पंचंत० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । जस०-उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० ।  
यट्टि० विसे० । सादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । मायामंज० ज०ट्टि०

इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे देवगति, वैक्रियिक शरीर और आहारक शरीर-  
का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
नरकगति का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

६६६. सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है ।  
ज्योतिपियोंसे लेकर सहस्सार कल्प तकके देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । आनतसे  
लेकर नौ प्रैवेयक तक वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहां तिर्यञ्चायु और तिर्यञ्चगति  
नहीं है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे  
स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पांच नोकषाय, मनुष्यगति, तीन  
शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे  
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थिति-  
बन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पांच ज्ञानावरण,  
छह दर्शनावरण, साता वेदनोय और पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध  
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे वारह कषायका जघन्य  
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

६६७. पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य  
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे लोभ संज्व  
लनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा  
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थिति-  
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीयका  
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे माया

संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । माणसंज० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । कोधसं-  
ज० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । पुरिस० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० ।  
दो आयु० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । चट्ठुणो०-देवगदि-तिण्णिसरीर०  
ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । उवरिं पंचिदियतिरिक्खभंगो ।

६६८. तस-तसपज्जत्तगेषु सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०ट्ठि० ।  
यट्ठि०विसे० । लोभसंज० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि०विसे० । उवरिं ओर्यं याव  
णिरय-देवायु० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । चट्ठुणो०-मणुसग०-तिण्णि-  
सरीर० ज०ट्ठि० असंखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । अरदि-सोग-अजस० ज०ट्ठि०  
विसे० । यट्ठि० विसे० । इत्थि० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । एवुंस०  
ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । एीचा० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० ।  
तिरिक्खग० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । पंचदंस० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि०  
विसे० । असादा० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । वारसक० ज०ट्ठि० विसे० ।

संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।  
इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है । इससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति-  
बन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे  
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे दो आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ।  
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार नोकपाय, देवगति और तीन शरीर  
का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
आगे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है ।

६६८. त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध  
सबसे स्तोके है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे लोभ संज्वलनका जघन्य  
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे आगे  
नरकायु और देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है इसके प्राप्त होने तक ओघके  
समान भङ्ग है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार नोकपाय, मनुष्यगति  
और तीन शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
है । इससे अरति, शोक और अयशःकीतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे खोवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्जगतिका जघन्य स्थिति-  
बन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच दर्शनावरणका  
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसमें  
असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है । इससे बारह कपायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति-

१ मूलप्रतौ ज० ट्ठि० विसे० । यट्ठि० इति पाठः ।

यट्टि० विसे० । मिच्छ० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । देवगदि-वेउन्वि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । णिरयग० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । आहार०-ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० ।

६६६. पंचमण०-तिण्णवचि० सच्चत्थावा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । लोभसंज० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-चदु-दंसणा०-पंचंत० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । जस०-उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । मायसंज० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । माणसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । क्रोधसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पुरिस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । दो आयु० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । देवगदि-वेउन्वि०-आहार०-तेजा०-क० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । णिदा-पचला० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अरदि-सोग-अजम० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । असादा० ज०ट्टि० विसे० ।

बन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवगति और वैक्रियिक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे आहारक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

६६९. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे सातान्वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे माया संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे दो आयुओंका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे हास्य, रति, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवगति, वैक्रियिक शरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर और कर्मणशरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे निद्रा और प्रचलाका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे असातान्वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति-

यट्टि० विसे० । पच्चक्खाणा०४ ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अपच्चक्खाणा०४ ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । मणुसगदि-ओरालि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । थीणगिद्धि०३ ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अणंताणु०४ ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । भिच्छ० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । तिरिक्खगदि-णीचा० ज० ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । इत्थि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । एवुंस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । णिरयग० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६७०. वचिजो-असच्चमोस० तसपज्जत्तभंगो । कायजोगि-ओरालियका-अचक्खुदं-भवसि-आहारग ति ओघं । ओरालियमि० तिरिक्खोप्रं । देवगदि-वंउव्वि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० सव्वुवरिं । एवं कम्मइ-अणा हारग ति ।

६७१. वेउव्वियका० सव्वत्थोवा दो आयु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । पंचणांक-मणुसग-तिणिसरीर-जस-उच्चा० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सेसं सत्तमाए पुढविभंगो । एवं वेउव्वियमि० आयु वज्ज० । एवरि तिरि-

बन्ध विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मनुष्यगति और औदारिक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्जगति और नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

६७०. वचनयोगी और असत्यमृपावचनयोगी जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग हैं । काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग हैं । औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्जोंके समान भङ्ग हैं । देवगति और वैक्रियिकशरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । ऐसा सबके अन्तमें कहना चाहिए । इसी प्रकार कर्मण काययोगी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

६७१. वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें दो आयुओंका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोका है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नाकपाय, मनुष्यगति, तीन शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । शेष अल्पबहुत्व सातवीं पृथिवीके समान है । इसी प्रकार आयुकर्मको

क्वग०-णीचा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । इत्थि० ज०ट्टि० विसे० ।  
 यट्टि० विसे० । एवुंस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । थीणगिट्टि०३ ज०ट्टि०  
 विसे० । यट्टि० विसे० । अणंताणुबंधि०४ ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।  
 मिच्छ० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६७२. आहार०--आहारमिस्सका० सव्वत्थोवा देवायु० ज०ट्टि० । यट्टि०  
 विसे० । पंचणोक०-देवगदि-तिणिसरीर०--जस०--उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि०  
 विसे० । अरदि-सोग-अजस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-द्धंसणा०-  
 सादा०-पंचंत० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । असाद० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि०  
 विसे० । चदुसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६७३. इत्थिवे० सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० ।  
 दोआयु० ज०ट्टि० संखेज्जु० । यट्टि० विसे० । पुरिस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि०  
 विसे० । चदुसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणा०--चदुदंस०--पंचंत०

छोड़कर वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति  
 और नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।  
 इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
 है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष  
 अधिक है । इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थि-  
 तिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
 हैं । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष  
 अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

६७२. आहारक काययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें देवायुका जघन्य  
 स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोकपाय  
 देवगति, तीनशरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे  
 यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थिति-  
 बन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण,  
 छह दर्शनावरण, सातावेदनीय और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।  
 इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष  
 अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थिति-  
 बन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

६७३. स्त्रीवेदी जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे  
 स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे दो आयुओंका जघन्य  
 स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
 पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक  
 है । इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध  
 विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य  
 स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यशःकीर्ति

ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । जस०--उच्चा० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । हस्म-रदि-भय-दुगुं० ज०ट्टि० अमंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । उवरिं पंचिदियभंगो ।

६७४. पुरिसेसु सच्चत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । पुरिस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । चदुसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । दोआयु० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणा०--चदुदंसणा०-पंचंत० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । जस०--उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । उवरिं इत्थिभंगो ।

६७५. एवुंस० सच्चत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । एारय-देवायु० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पुरिस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । चदुसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंचणा०--चदुदंस०-पंचंत० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । जसगि०--उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । उवरिं ओघभंगो ।

और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे आगे पञ्चेन्द्रियोंके समान भङ्ग है।

६७४. पुरुषवेदो जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोके हैं। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे दो आयुओंका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे आगे स्त्रीवेदी जीवोंके समान भङ्ग है।

६७५. नपुंसकवेदी जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोके हैं। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नर्कायु और देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे आगे ओघके समान भङ्ग है।

६७६. अवगदत्रे० सव्वत्थोवा लोभसंज० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । जस०-उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सादा० जट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । मायसंज० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । माणसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । कोधसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६७७. कोधकसा० सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । चदुसंज० ज०ट्टि० संखेज्ज० । [यट्टि० विसे० । ] पुरिस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । दोआयु० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । एवं जसगिच्छि० । सादावे० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । उवरि ओघभंगो ।

६७८. माणकसाइ० सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । तिण्णसंज० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । कोधसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पुरिस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । दोआयु० ज०ट्टि०

६७६. अपगतवेदी जीवोंमें लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे माया संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मान संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे क्रोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

६७७. क्रोधकपायवाले जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे दो आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार यशःकीर्तिका अल्पबहुत्व है । इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे आगे ओघके समान भङ्ग है ।

६७८. मानकपायवाले जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तीन संज्वलनोंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे

संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । जस०-उच्चा० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । सादा० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । उवरि ओघभंगो ।

६७६. मायाए सव्वत्थोवा तिरिक्ख--मणुसायु० ज०ट्ठि० । यट्ठि० विसे० । दोसंज० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । माणसंज० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । कोधसंज० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । पुरिस० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । दोआयु० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । जसगि०-उच्चा० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । सादा० ज०ट्ठि० विसे० । यट्ठि० विसे० । हस्स-रदि-भय-दुगुं-तिरिक्ख-मणुसगदि-ओरालिय०-तेजा०-क०-णीचा० ज०ट्ठि० असंखेज्ज० । यट्ठि० विसे० । उवरि ओघभंगो । लोभे मूलोघं ।

६८०. मदि०-सुद०-असंज०-तिण्णाले०-अभवमि०-मिन्हादि०-असण्ण ति तिरिक्खोघं । विभंगे सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०ट्ठि० । यट्ठि० विसे० ।

दो आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे आगे ओघके समान भङ्ग है ।

६९९. माया कपायवाले जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे दो संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे क्रोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे दो आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर और नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे आगे ओघके समान भङ्ग है । लोभकपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

६८०. मत्त्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें तिर्यंचायु और



दोआयु० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणोक०--देवगदि--तिणिएसरीर--  
जस०-उच्चा० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणा०--एवदंसणा०-सादा०-  
पंचंत० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । सोलसक० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि०  
विसे० । मिच्छ० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । तिरिक्खगदि-मणुसगदि-आरालि०-  
णीचा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अरदि-सोग अजस० ज०ट्टि० संखेज्ज० ।  
यट्टि० विसे० । असादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । इत्थि० ज०ट्टि०  
विसे० । यट्टि० विसे० । एवुंस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । णिरयग०  
ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६८१. आभि०-सुद०-ओधि० सन्वत्थोवा लोभसंज० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० ।  
पंचणा०--चदुदंसणा०--पंचंत० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । जस०-उच्चा०  
ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।  
मायसंज० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । माणसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि०

मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।  
इससे दो आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यागुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है । इससे पाँच नोकपाय, देवगति, तीन शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य  
स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञाना-  
वरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय ओर पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे सोलह कपायका जघन्य स्थिति-  
बन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका  
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्च-  
गति, मनुष्यगति, औदारिक शरीर और नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ।  
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य  
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे असातावेदनीय-  
का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे  
स्त्रोवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।  
इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष  
अधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध  
विशेष अधिक है ।

६८१. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें लाभसंज्वलनका  
जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच  
ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ।  
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थिति-  
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीयका  
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे माया-  
संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।  
इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष

विसे० । कोभसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पुरिस० ज०ट्टि० संखेज्ज० ।  
 यट्टि० विसे० । मणुसायु० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । देवायु० ज०ट्टि०  
 असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० ।  
 देवगदि--चदुसररीर० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । णिहा-पचलाणं ज०ट्टि०  
 संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अग्दि-सोग-अजस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० ।  
 असादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पच्चक्खाणा०४ ज०ट्टि० संखेज्ज० ।  
 यट्टि० विसे० । अपच्चक्खाणा०४ ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । मणुसग०-  
 ओरालि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । एस भंगो ओधिदंस०--सम्मादि०  
 खड्ग०-उवसम० ।

६८२. मणपज्जव० सव्वत्थोवा लोभसंज ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-  
 चदुदंस०-पंचंत० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । जस०-उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० ।  
 यट्टि० विसे० । सादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । मायसंज० ज०ट्टि०  
 मंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । माणमंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । कोभसंज०

अधिक है । इससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति-  
 वन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें  
 यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा  
 है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध  
 असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें हास्य, रति, भय और  
 जुगुप्साका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।  
 इससे देवगति और चार शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थिति-  
 वन्ध विशेष अधिक है । इसमें निद्रा और प्रचलाका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ।  
 इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य  
 स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें असातावेदनीय-  
 का जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें  
 प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष  
 अधिक है । इससे अप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे  
 यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मनुष्यगति और औदारिक शरीरका जघन्य  
 स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । यही भङ्ग अवधि-  
 दर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

६८२. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें लोभसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोत्र है ।  
 इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और  
 पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक  
 है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसमें  
 यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक  
 है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मायासंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध  
 संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें मानसंज्वलनका  
 जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसमें क्रोध-

ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पुरिस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । देवायु० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । देवगदि--चदुसररी० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । णिद्दा-पचलाणं ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अरदि-सोग-अजस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । असादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । एवं संजदा० ।

६८३. सामाइ०--छेदोव० सव्वन्थो० लोभसंज० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । पंचणा०--चदुदंस०--पंचंत० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । मायसंज० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । माणसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । कोधसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । जस०--उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पुरिस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । देवायु० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । उवरिं मणवज्जवभंगो ।

६८४. परिहार० सव्वन्थोवा देवायु० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पंच-

संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे हास्य, रति, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे देवगति और चार शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे निद्रा और प्रचलाका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसीप्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए ।

६८३. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें लोभसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मायासंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे आगे मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान रूपबहुत्व है ।

६८४. परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोकपाय, देवगति, चार शरीर,

लोक०-देवगदि-चत्तारिसरीर०-जस०--उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणा०--द्वंदंसणा०--सादा०--पंचंत० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । चदुसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । अरदि--सोग-अजस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । असादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६८५. सुहुमसंपरा० सव्वत्थोवा पंचणा०--चदुदंस०-पंचंत० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । जस०--उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । सादा० ज०ट्टि० [ विसे० ] । यट्टि० विसे० ।

६८६. संजदासंज० सव्वत्थो० देवायु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । पंचणोक०-देवगदि-तिणिणसरीर०-जस०-उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-द्वंदंस०--सादावे०--पंचंत० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । अट्टकसा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । अरदि--सोग-अजस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । असादा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० ।

६८७. तेउले० सव्वत्थो० तिरिक्ख--मणुसायु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० ।

यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

६८४. सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

६८६. संयतासंयत जीवोंमें देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकपाय, देवगति, तीन शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे आठ कपायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

६८७. पीतलेश्यावाले जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध

देवायु० ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणोक०-देवगदि-चदुसरीर०-जस०-  
 उच्चा० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-द्वंदंसणा०-सादा०-पंचंतरा०  
 ज०ट्टि० [ विसे० । ] यट्टि० विसे० । चदुसंज० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।  
 अरदि-सोग-अजस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । असादा० ज०ट्टि० विसे० ।  
 यट्टि० विसे० । पच्चक्खाणा०४ ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अप्पच्चक्खाणा०४  
 ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । मणुसगदि-आरालि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि०  
 विसे० । थीणगिद्धितियस्स ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अणंताणु-  
 वंधि०४ ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । मिच्छ० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।  
 इत्थि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । एवुंस० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि०  
 विसे० । णीचा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । तिरिक्खगदि० ज०ट्टि० विसे० ।  
 यट्टि० विसे० । एवं पम्माए ।

६८८. सुक्काए सन्वत्थो० लोभसंज० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । सेसं ओघं  
 याव कोधसंज० ज०ट्टि० [ विसे० । ] यट्टि० विसे० । मणुसायु० ज०ट्टि० संखेज्ज० ।

असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकपाय, देवगति, चार शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मनुष्यगति और औदारिक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्री-वेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यङ्गगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए।

६८८. शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार क्रोध संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है यहाँ तक शेष अल्पबहुत्व ओघके समान है। इससे मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध

यट्टि० विसे० । पुगिस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । देवायु० ज०ट्टि० असं-  
खेज्ज० । यट्टि० विसे० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० ।  
देवगदि-चदुसरी० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । णिहा-पचला० ज०ट्टि०  
संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । अरदि-सोग-अजस० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० ।  
असादा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । पच्चक्खाणा०४ ज०ट्टि० संखेज्ज० ।  
यट्टि० विसे० । अपच्चक्खाणा०४ ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । मणुसग०  
ओरालि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । थीणगिद्धितिग० ज०ट्टि० संखेज्ज० ।  
यट्टि० विसे० । अणंताणुबंधि०४ ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । मिच्छ० ज०  
ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । इत्थि० ज०ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । णवुंस०  
ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० । णीचा० ज०ट्टि० विसे० । यट्टि० विसे० ।

६८९. वेदगसम्मा० सव्वत्थो० मणुसायु० ज०ट्टि० । यट्टि० विसे० । देवायु०  
ज०ट्टि० असंखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणोक०-देवगदि-चदुसरीर-जस०-उच्चा० ज०-  
ट्टि० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । पंचणा०-छदंसणा०-सादा०-पंचंत० ज०ट्टि० [ विसे० ]

विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे हास्य, रति, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवगति और चार शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे निद्रा और प्रचलाका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शांति और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे असाता वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे प्रात्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मनुष्यगति और औदारिक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्नानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अनन्तानुवर्ती चारका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

६८६. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोमे मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नाकपाय, देवगति, चार शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष

यद्वि० विसे० । चदुसंज० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । अरदि-सोग-अजस० ज०-  
द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । असादा० ज०द्वि० धिसे० । यद्वि० विसे० । पच्च-  
क्खाणा०४ ज०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । अपच्चक्खाणा०४ ज०द्वि० संखेज्ज० ।  
यद्वि० विसे० । मणुसग०-ओरालि० ज०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० ।

६९०. सासणे सन्वत्थो० तिरिक्ख०-मणुसायु० ज०द्वि० । यद्वि० विसे० ।  
देवायुग० ज०द्वि० संखेज्ज० । यद्वि० विसे० । पंचणोक०-तिण्णिगदि-चदुसरीर-जस०-  
णीचा०-उच्चा० ज०द्वि० असंखेज्ज० । यद्वि० विसे० । अरदि-सोग-अजस० ज०द्वि०  
विसे० । यद्वि० विसे० । इत्थि० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । पंचणा०-णवदं-  
सणा०-सादा०-पंचंत० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । असादा० ज०द्वि० विसे० ।  
यद्वि० विसे० ।

६९१. सम्मामिच्छादिद्वि त्ति सन्वत्थोवा पंचणोक०-दोगदि-चदुसरीर-जसगित्ति-  
उच्चागो० जहण्णद्विदिबन्धो । यद्विदिबन्धो विसेसाधियो । पंचणाणावरणीयाणं छदंसणा-  
वरणीयाणं सादावेदणीयं पंचंतराङ्गं ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । बारसक० ज०-

अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका  
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अस्मातावेदनीय-  
का जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्या-  
नावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे  
अप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक  
है । इससे मनुष्यगति और औदारिक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थि-  
तिवन्ध विशेष अधिक है ।

६९०. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे  
स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा  
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नाकषाय, तीन गति, चार शरीर, यशः  
कीर्ति, नीचगोत्र और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।  
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।  
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय और  
पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक  
है । इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष  
अधिक है ।

६९१. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पाँच नाकषाय, दो गति, चार शरीर, यशःकीर्ति और  
उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे  
पाँच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय और पाँच अन्तराय का जघन्य स्थितिवन्ध  
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे बारह कषायका जघन्य स्थितिवन्ध

द्वि० विसे० । यद्वि० विसेसाधियो । अरति-सोग-अजसगिति० ज०द्वि० संखेज्ज० ।  
यद्वि० विसे० । असादा० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसेसाधियो । एवं जहण्णयं परत्थाण-  
अर्पाबहुगं समत्तं ।

एवं अर्पाबहुगं समत्तं

एवं चदुवीसमणियोगदाराणि समत्ताणि

विशेष अधिक हैं । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं । इससे अरति, शोक और अयशःकीतिका  
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हैं । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं । इससे असातावर्दनीय  
का जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं ।

इस प्रकार जघन्य परस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए ।





## भुजगारबंधो

६६२. एत्तो भुजगारबंधो त्ति । तत्थ इमं अट्टपदं मूलपगदिद्विदिभंगो कादव्वो । एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि तेरस अणियोगदाराणि णादव्वाणि भवंति । तं जहा—समुक्त्तिणा याव अप्पावहुगे त्ति [१३] ।

## समुक्त्तिणाणुगमो

६६३. समुक्त्तिणाए दुवि०-ओघे० आदे० । ओघेण पंचणाणावरणीयाणं अत्थि भुजगारबंधगा अप्पदरबंधगा अवद्विदबंधगा अवत्तव्वबंधगा य । चट्टुण्णं आयुगाणं अत्थि अवत्तव्व० अप्पदर० । सेसाणं मदियावरणभंगो । एवं ओघभंगो मणुसा०३-पंचिंदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजागि-ओरालिय०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-भवसिद्धि० सण्णि-आहारग त्ति ।

६६४. णिरएसु पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-भय-दु०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्टि० । सेसं ओघं । एवं सत्तसु पुढवीसु ।

६६५. तिरिक्खेसु पंचणा०-छदंसणा०-अट्टकसा०-भय-दुगुं०-तेजा०-कम्म०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्टि० । सेसाणं ओघं । एवं

## भुजगारबन्धप्ररूपणा

६६२. इममं आग भुजगारबन्धका प्रकरण है । उसके विषयमें यह अर्थपद मूलप्रकीर्तित्थितबन्धके समान करना चाहिए । इस अर्थपदके अनुसार यहाँ ये तेरह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य है यथा—समुक्तीर्तनासे लेकर अल्पवहुत्व तक १३ ।

## समुक्तीर्तनानुगम

६६३. समुक्तीर्तनाका अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंध और आदेश । आंधसे पांच ज्ञानावरण प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतर बन्धक जीव हैं, अवस्थित बन्धक जीव हैं और अवक्तव्य बन्धक जीव है । चार आयुओंके अवक्तव्य बन्धक जीव हैं और अल्पतर बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मतिज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार आंधके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चैन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

६६४. नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चैन्द्रिय-ज्ञान, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गापाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-चतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय इनके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं और अवस्थितबन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आंधके समान है । इसी प्रकार सातो पृथिवियोंमें जानना चाहिए ।

६६५. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपवाय, निर्माण और पाँच अन्तराय इनके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव है और अवस्थितबन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आंधके समान

पंचिदिय-तिरिक्ख ०३ । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता ० पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोल-  
सक ०-भय-दुगुं ०-ओरालि ०-तेजा ०-क ०-वण्ण ०४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचंत ० अत्थि  
भुज ०-अप्पद ०-अवट्ठि ० । सेस ओघं । एस भंगो सव्वअपज्जत्तगाणं एइंदिय-विगालिंदिय-  
पंचकायाणं च । णवरि तेउ ०-वाउ ० तिरिक्खगदितियस्स अवत्तव्वं णत्थि ।

६६६. देवेषु पंचणा ०-छदंसणा ०-वारसक ०-भय-दुगुं ०-ओरालिय ०-तेजा ०-क ०-वण्ण ०४-  
अगु ०४-वादर-पज्जत्त-पत्तेग ०-णिमि ०-तित्थय ०-पंचंतरा ० अत्थि भुज ०-अप्पद ०-अवट्ठि ० ।  
सेसं ओघं । एवं भवणादि याव सोधम्मीसाण त्ति । सणकुमार याव सहस्सार त्ति  
णिरयोघो । आणद याव णवगेवज्जा त्ति पंचणा ०-छदंसणा ०-वारसक ०-भय-दुगुं ०-मणु-  
सग ०-पंचिदि ०-ओरालि ०-तेजा ०-क ०-ओरालि ०-अंगो-वण्ण ०४-मणुसाणुपु ०-अगु ०४-  
तस ०४-णिमि ०-तित्थय ०-पंचंत ० अत्थि भुज ०-अप्पद ०-अवट्ठि ० । सेसाणं ओघो ।  
अणुदिस याव सवट्ठा त्ति पंचणा ०-छदंस ०-वारसक ०-पुरिसवे ०-भय-दु ०-मणुसग ०-पंचिदि ०-  
ओरालि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-ओरालि ०-अंगो ०-वज्जरि ०-मणुसाणु ०-वण्ण ०४-अगु ०४-  
पसत्थ ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज ०-णिमि ०-तित्थय ०-पंचंत ० अत्थि भुज ०-अप्पद ०-  
अवट्ठि ० । सेसं ओघं ।

हे । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चात्रिकके जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकामे पांच  
ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सालहकपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर,  
कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघान, निर्माण और पाँच अन्तराय इनके भुजगारबन्धक  
जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं और अवस्थितबन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघकं  
समान है । यही भङ्ग सब अपर्याप्त, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकार्यायक जीवोंके  
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अप्रिकायिक और वायुकार्यायक जीवोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकका  
अवक्तव्य भङ्ग नहीं है ।

६६६. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-  
शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण,  
तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय इनके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं और अवस्थि-  
तबन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समान है । इसी प्रकार भवनयामी देवोंमें लेकर  
मोक्षम और ऐशान कल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए । मनकुमार कल्पमें लेकर महम्भार कल्प-  
तकके देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । आनत कल्पमें लेकर नौघेवयक तकके देवोंमें  
पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारि-  
कशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक अङ्गोपाङ्ग, चार वर्ण, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघु  
चार, त्रस चार, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक  
जीव हैं और अवस्थितबन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समान है । अनुदिशसे लेकर  
सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा,  
मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रमंस्थान, औदारिक  
आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायागति  
प्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय इनके भुजगारबन्धक जीव हैं,  
अल्पतरबन्धक जीव हैं और अवस्थितबन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समान है ।

६६७. ओरालियमिस्से पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-देवगदि-ओरालि०-वेउव्विय०-तेजा०-क० वेउव्वि०अंगो०-वण्ण०४-देवाणुपु०-अगु०-उप०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । सेसाणं ओघं । वेउव्विय० देवोघं । णवरि तित्थयरस्स अवत्तव्वं अत्थि । वेउव्वियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-वादर-पञ्जत्त-पत्तेय० - णिमि० - तित्थय०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । सेसाणं ओघं । आहार०-आहारमिस्से धुविगाणं अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । सेसं ओघं । कम्मइगे० अणाहारगे० पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-देवगदि-ओरालि०-वेउव्विय०-तेजा०-क०-वेउव्वि०अंगो०-वण्ण०४ देवाणु०-अगु०-उप०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । सेसं ओघं ।

६६८. इत्थि-पुरिस० णवुंस० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । सेसं ओघं । अवगद० सव्वाणं अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि०-अव्वत्तव्वं० । एवं सुहुमसंप० । णवरि अवत्तव्वं णत्थि ।

६६९. कोधे पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० ।

६६७. आदारिकामिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, आँदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय इन्फे भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं और अवस्थितबन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समान है। वैक्रियिककायायोगी जीवोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्य पद है। वैक्रियिकामिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलहकषाय, भय, जुगुप्सा, आँदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, चारवर्ण, अगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय इनके भुजगारबन्धक जीव है, अल्पतरबन्धक जीव हैं और अवस्थितबन्धक जीव है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समान है। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं और अवस्थितबन्धक जीव है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समान है। कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, आँदारिक शरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय इनके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव है और अवस्थित बन्धक जीव है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समान है।

६६८. स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके भुजगारबन्धक जीव है, अल्पतरबन्धक जीव हैं और अवस्थितबन्धक जीव हैं। शेष भङ्ग आघके समान है। अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार बन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं, अवस्थितबन्धक जीव हैं और अवक्तव्यबन्धक जीव हैं। इसी प्रकार सूक्ष्मसाँपरायसंयत जीवोंमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है।

६६९. क्रोधकषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और

सेसं ओघं । माणे तं चेव । णवरि तिण्णि संज० । मायाए दोण्णि संज० । सेसं तं चेव ।  
लोभे पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । सेसं ओघं ।

७००. मदि०-सुद० पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०  
४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । सेसं ओघं । एस भंगो  
विभंगे । एवं चेव अब्भवसि०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति । णवरि मिच्छन्त० अवत्तव्वं णत्थि ।

७०१. आभि०-सुद०-ओधि०--मणपज्जव०-संजद-ओधिदं०-सुकले०-सम्मादि०-खड्ग-  
ग०-उवसम० ओघं । सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंस०-लोभसंज०-उच्चा०-पंचंत० अत्थि  
भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । सेसं ओघं । परिहार० आहारकायजोगिभंगो । संजदासंजद०  
पंचणा०-छदंसणा०-अट्टकसा०-पुरिसवे०-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-तिण्णिसरीर-समच-  
दु०-वेउच्चियअंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे-  
ज्ज०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । सेसं ओघं ।

७०२. असंजदे० पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दुगुं० तेजा०-क०-वण्ण०४-  
अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । सेसं ओघं । तिण्णि लेस्साणं

पाँच अन्तरायक भुजगार बन्धक जीव है, अल्पतरबन्धक जीव है और अवस्थितबन्धक जीव  
हैं। शेष भङ्ग आँघके समान है। मानकपायवाले जीवोंमें वही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि  
पहलें तीन संज्वलन कहना चाहिये। मायामे दो संज्वलन कहने चाहिये। शेष भङ्ग उन्नी प्रकार है।  
लोभकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके भुजगार बन्धक  
जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं और अवस्थितबन्धक जीव हैं। शेष भङ्ग आँघके समान है।

७००. मत्तज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह  
कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरलघु, उपघान, निर्माण और  
पाँच अन्तरायके भुजगार बन्धक जीव हैं, अल्पतर बन्धक जीव है और अवस्थित बन्धक जीव  
हैं। शेष भङ्ग आँघके समान है। यही भङ्ग विभङ्गज्ञानी जीवोंमें जानना चाहिये। तथा इसी  
प्रकार अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें  
मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद नहीं है।

७०१. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी मनःपर्ययज्ञानी, संयत, अवधि  
दर्शनी, शुक्लेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकं सम्यग्दृष्टि और उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें आँघके समान  
भङ्ग है। सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण,  
लोभ संज्वलन, उच्च गोत्र और पाँच अन्तरायके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव  
हैं और अवस्थितबन्धक जीव हैं। शेष भङ्ग आँघके समान है। परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें आहारक  
काययोगी जीवोंके समान भङ्ग है। संयतासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ  
कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, तीनशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रिय  
आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग,  
सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतर  
बन्धक जीव हैं और अवस्थितबन्धक जीव हैं। शेष भङ्ग आँघके समान है।

७०२. असंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस  
शरीर, कर्मणशरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपघान, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगारबन्धक  
जीव हैं। अल्पतर बन्धक जीव हैं और अवस्थित बन्धक जीव हैं। शेष भङ्ग आँघके समान है।

एवं चैव । णवरि किण्ण-णीलाणं तिथ्यय० अवत्तव्वं णत्थि ।

७०३. तेउए पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०  
४-वादर पज्जत्त-पत्तेय०-णिमि०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । सेसं ओघं ।  
एवं पम्माए वि । णवरि पंचिदिय० तस० धुवं कादव्वं ।

७०४. वेदगसम्मा० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-  
पंचिदि०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-  
उच्चा०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । सेसं ओघं ।

७०५. मासणे पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-  
वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । सेसं ओघं ।

७०६. सम्मामि० दोवेदणीय-चदुणोक०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० अत्थि  
भुज०-अप्पद०-अवट्ठि०-अवत्तव्वं० । सेसाणं अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० ।

एवं समुक्कित्ताणा समत्ता

### सामित्ताणुगमो

७०७. सामित्ताणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघेण पंचणा०-छदंसणा०-चदु-

नीनलेश्यावाले जीवोंम इसी प्रकार जानना चाहिये । इनकी विशेषता है कि कृष्ण और नीनलेश्या  
वाले जीवों में तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्य पद नहीं है ।

७०३. पतिलेश्यावाले जीवों में पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलच, भय,  
जुगुप्सा, नैजम शरीर, कामणशरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रयेक, निर्माण  
और पाँच अन्तरायके भुजगारवन्धक जीव हैं, अल्पतर वन्धक जीव हैं और अवस्थितवन्धक जीव  
हैं । शेष भङ्ग आघके समान हैं । इस प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये । इनकी  
विशेषता है कि इनमें पञ्चेन्द्रिय जाति और त्रस प्रकृतिका ध्रुव कहना चाहिये ।

७०४. वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुष वेद,  
भय, जुगुप्सा, नैजमशरीर, कामणशरीर, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरु-  
लघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगात्र और  
पाँच अन्तरायके भुजगारवन्धक जीव हैं, अल्पतरवन्धक जीव हैं और अवस्थितवन्धक जीव हैं ।  
शेष भङ्ग आघके समान हैं ।

७०५. मायादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कपाय, भय,  
जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, नैजमशरीर, कामणशरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क,  
निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगारवन्धक जीव हैं, अल्पतरवन्धक जीव हैं और अवस्थितवन्धक  
जीव हैं । शेष भङ्ग आघके समान हैं ।

७०६. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें दो वेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ,  
यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके भुजगारवन्धक जीव हैं, अल्पतरवन्धक जीव हैं, अवस्थितवन्धक  
जीव हैं और अवक्तव्यवन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंके भुजगारवन्धक जीव हैं, अल्पतरवन्धक  
जीव हैं और अवस्थितवन्धक जीव हैं ।

इस प्रकार समुक्कीर्तना समाप्त हुई ।

### स्वामित्वानुगम

७०७. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंध और आदेश । आंधसे

संज०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुजगा०-अप्पद०-  
 अवट्टिदबंधो कस्स ? अण्णदरस्स । अवत्तव्वबंधो कस्स ? अण्णदरस्स उवसमगस्स परि-  
 वदमाणस्स मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पढमसमए देवस्स वा । थीणगिद्धि० ३-अणंताणु-  
 बंधि०४ भुज०-अप्पद०-अवट्टि० कस्स ? अण्णद० । अवत्त० कस्स ? संजमादो संजमासं-  
 जमादो सम्मत्तादो सम्मामिच्छत्तादो वा परिवदमाणस्स पढमसमयमिच्छादिट्टिस्स  
 वा सासणसम्मदिट्टिस्स वा । मिच्छत्त० भुज०-अप्प०-अवट्टि० कस्स ? अण्णदरस्स ।  
 अवत्तव्व० कस्स ? अण्णद० संजमादो वा संजमासंज० समत्त० सम्मामि० सासण० वा  
 परिवदमाणस्स पढमसमयमिच्छादिट्टिस्स । अप्पच्चक्खाणा०४ तिण्णि पद० कस्स ?  
 अण्णद० । अवत्त० कस्स० ? संजमादो वा संजमासंज० परिवदमाणस्स पढमसमय-मिच्छा-  
 दिट्टि० सासण० सम्मामि० असंजदसं० । पच्चक्खाणा०४ भुज०-अप्पद०-अवट्टि०-कस्स० ?  
 अण्ण० । अवत्त०-कस्स० ? अण्णद० संजमादो परिवदमाण० पढमसमय-मिच्छादि० सासण०  
 सम्मामि० असंजदसं० संजदासंजद० । चदुण्णं आयुगारणं अवत्त० कस्स० ? अण्ण०  
 पढमसमय-आयुगबंध० । तेण परं अप्पदरबंधं । आहार०-आहार०-अंगो०-पर०-उस्तास०-  
 आदाउजो०-तित्थय० तिण्णिपद० कस्स० ? अण्ण० । अवत्तव्व० कस्स० ? अण्ण० पढम-

पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार मंज्वलन. भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कामंणशरीर, वर्ण  
 चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय इनके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित  
 बन्धकका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उनका स्वामी है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ?  
 अन्यतर गिरनेवाला उपशामक मनुष्य और मनुष्यनी या प्रथम समयवर्ती देव अवक्तव्यबन्धका  
 स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चारके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका  
 स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उनका स्वामी है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? संयमसे,  
 संयमासंयमसे, सम्यक्त्वसे और सम्यग्मि मथ्यात्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या मासादन  
 सम्यग्दृष्टि जीव अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । मिथ्यात्वके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका  
 स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त बन्धका स्वामी है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? संयमसे  
 संयमासंयमसे, सम्यक्त्वसे, सम्यग्मिमथ्यात्वसे या सामादनसम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवाला  
 मिथ्यादृष्टि जीव अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंका स्वामी कौन  
 है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? संयमसे या संयमा-  
 संयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, मासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिमथ्यादृष्टि और  
 असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अवक्तव्य पदका स्वामी है । प्रत्याख्यानावरण चारके भुजगार, अल्पतर  
 और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त बन्धका स्वामी है । अवक्तव्यबन्धका  
 स्वामी कौन है ? संयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सामादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मि-  
 मथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत अन्यतर जीव अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । चार  
 आयुओंके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती आयुर्कर्मका बन्ध करनेवाला अन्यतर  
 जीव अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । इससे आगे वह, अल्पतर बन्धका स्वामी है ; आहारक शरीर,  
 आहारक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंका स्वामी  
 कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? प्रथम समयमें

समयबन्ध० । सेसाणं तिण्णिपदा० कस्स० ? अण्ण० । अवत्तच्च० कस्स० ? अण्ण० परियत्त-  
माणपढमसमयबन्ध० ।

७०८. णिरएसु धुविगाणं तिण्णिपदा० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं ओघादो साधे-  
द्वं । णवरि सत्तमाए तिरिक्खग-तिरिक्खाणु०-णीचा० थीणगिद्धि०भंगो । मणुसग०-  
मणुमाणु०-उच्चा० तिण्णिपदा० कस्स० ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० मिच्छ-  
त्तादो परिद० पढमसमय सम्मामि० सम्मादिद्धि० ।

७०९. तिरिक्खेसु धुविगाणं तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं ओघादो साधे-  
द्वं । एवं पंचिदियतिरिक्ख०३ । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त० धुविगाणं तिण्णिपदा०  
कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं ओघं । एवं सच्चअपज्जत्तगाणं एइंदिय-विगलिंदिय-पंच-  
कायाणं च ।

७१०. मणुसा०३ ओघं । णवरि अवत्त० देवो त्ति ण भाणिद्वं ।

७११. देवाणं णिरयोधो याव उवरिमगेवज्जा त्ति । णवरि विसेसो णाद्वो ।  
उवरि पज्जत्तभंगो ।

७१२. पंचिदि०-तम०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-आमि०-सुद०-  
बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव अवक्तव्य पदका स्वामी है । शेष कर्मोंके तीन पदोंका स्वामी कौन  
है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है । परिवर्तमान प्रथम  
समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव अवक्तव्यपदका स्वामी है ।

७०८. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव  
उक्त पदोंका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके यथासम्भव पदोंका स्वामित्व ओघसे साध लेना चाहिये ।  
इतनी विशेषता है कि सानवीं पृथिवीमें नियञ्जगति, तियञ्जगत्यानुपूर्वा और नीचगात्रका भङ्ग स्त्या-  
नुगृद्धित्रिकके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वा और उच्चगात्रके तीन पदोंका स्वामी कौन  
है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? मिध्यात्वसे  
ऊपर चढ़नेवाला प्रथम समयवर्ती सम्यग्मिध्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि अन्यतर जीव अवक्तव्य  
पदका स्वामी है ।

७०९. तिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव  
उक्त पदोंका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व ओघके अनुसार साध लेना चाहिये । इसी  
प्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकके जानना चाहिये । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपयत्तिकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों  
के तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग  
ओघके समान है । इसी प्रकार मव अपर्याप्तक, एकेन्द्रिय, विकलत्रय और पाँच स्थावरकायिक  
जीवोंके जानना चाहिये ।

७१०. मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पदका  
स्वामी देव है यह नहीं कहना चाहिये ।

७११. देवोंमें उपरिम अवेयक तक नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वहाँ  
जो विशेष हो उसे जानकर कहना चाहिये । इससे आगे पर्याप्तके समान भङ्ग है ।

७१२. पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिक

ओधि० चक्रबुदं०-अचक्रबुदं०-ओधिदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मादि०-खड्गस०-उवसम०-  
सण्णि-आहारग ति ओघो । णवरि पंचमण०-पंचवचि०-ओरालिय० मणुसभंगो ।

७१३. ओरालियमि० धुविगाणं भुज०-अप्पद०-अवट्टि० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं  
ओघं । देवगदि०४-तित्थय० तिण्णिपदा० कस्स० ? अण्ण० । मिच्छ० तिण्णिपदा  
कस्स ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? सासण० परिवदमाण० पढमसमयमिच्छादिट्टिस्स ।

७१४. वेउच्चियका० देव-णेरइगभंगो । वेउच्चियमि० धुविगाणं तिण्णिपदा०  
कस्स० ? अण्ण० देवस्स वा णेरइय० । मिच्छत्तस्स ओरालियमिस्सभंगो । सेसाणं  
ओघो । आहार०-आहारमि० धुविगाणं तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण० । सेसं ओघं ।  
कम्मइय० धुविगाणं तिण्णि पदा० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं तिण्णि पदा० कस्स० ?  
अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० परियत्तमा० पढमसमयबं० । मिच्छ०-देवगदि०४-  
तित्थय० ओरालियमिस्सभंगो । एवं अणाहार० ।

७१५. इत्थि० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण० ।  
णिदा-पचला-भय-दुगुं०-तेजा०-क० याव णिमिण ति तिण्णि पदा कस्स० ?

काययोगी, आभिनिर्वाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुःदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अर्वाधि-  
दर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, श्लाथिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहा-  
रक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग हैं। इतनी विशेषता है कि पाँच मनायोगी, पाँच वचनयोगी  
और औदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्योंके समान भङ्ग हैं।

७१३. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और  
अवस्थित पदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके पदोंका  
स्वामी आघके समान है। देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंका स्वामी कौन है ?  
अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। मिथ्यात्वके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव  
उक्त पदोंका स्वामी है। अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? सामादन सम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम  
समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव अवक्तव्य पदका स्वामी है।

७१४. वैक्रियेककाययोगी जीवोंमें देवो और नारकियोंके समान भङ्ग हैं। वैक्रियिकमिश्रका-  
ययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी  
जीव उक्त पदोंका स्वामी है। मिथ्यात्वका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। शेष  
प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें  
ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है।  
शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। कर्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन  
पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका  
स्वामी कौन है। अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? अन्यतर  
परिवर्तमान प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला जीव अवक्तव्य पदका स्वामी है। मिथ्यात्व, देवगति चार  
और तीर्थङ्करका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके  
जानना चाहिए।

७१५. स्त्रीवदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्त-  
रायके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव तीन पदोंका स्वामी है। निद्रा, प्रचला, भय,



अण्ण० तिगदियस्स । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० उवसम० परिवदमा० मणुस० मणुसिणीए वा । सेसाणं ओघादो साधेदव्वं । णवरि तिगदियस्स । एवं पुरिस० । णवरि णिद्दा-पचलादंडयस्स ओघो । सेसाणं वि ओघो । णबुंसगे इत्थिभंगो । अवगदवे० भुज० अवत्त० कस्स० ? अण्ण० उवसम० परिवदमा० पढमसमय० । अप्पद०-अवट्ठि कस्स० ? अण्ण० उवसम० खवग० । एवं सव्वाणं ।

७१६. कोधे३ पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण० । कोधे चदुसंज० माणे तिण्णि संज० मायाए दो संज० णिद्दा-पचला-भय-दुगु० तेजइगादिणव० ओघो । सेसाणं ओघं । लोमे [१४] कोधभंगो । सेसं ओघं ।

७१७. मदि०-सुद० धुविगाणं तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण० । मिच्छ० अवत्त० ओरालियमिस्सभंगो । सेसाणं ओघेण साधेदव्वं । एवं विभंग०-अब्भवसि०-मिच्छादि० । णवरि दोसु मिच्छत्तस्स अवत्त० णत्थि ।

७१८. मणपज्जव०-संजदे धुविगाणं मणुसभंगो । एवं सेसाणं पि । सामाह०-

जुगुप्सा, तैजसशरीर और कार्मणशरीरसे लेकर निर्माण तक प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त पदोंका स्वामी है । अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य या मनुष्यनी अवक्तव्य पदका स्वामी है । शप प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व आंधसे साध लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तीन गतिके जीवके स्वामित्व कहना चाहिए । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके निद्रा और प्रचला दण्डकका भङ्ग ओघके समान है । शप प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व भी ओघके समान है । नपुंसकवेदी जीवोंमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । अपगतवेदी जीवोंमें भुजगार और अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? उपक्षमश्रेणिसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । अल्पतर और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक या क्षपक अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । इसी प्रकार सव प्रकृतियोंका स्वामित्व जानना चाहिए ।

७१६. क्रोध, मान और माया कपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव तीन पदोंका स्वामी है । क्रोध-कपायवाले जीवोंमें चार संज्वलन, मान कपायवाले जीवोंमें तीन संज्वलन और मायाकपायवाले जीवोंमें दो संज्वलन तथा निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा और तैजसशरीर आदि नौ प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । तथा शप प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व आंधके समान है । लोभ कपायवाले जीवोंमें चौदह प्रकृतियोंका भङ्ग क्रोध कपायवाले जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व आंधके समान है ।

७१७. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव तीन पदोंका स्वामी है । मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदका स्वामित्व औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंके समान है । शप प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व ओघसे साध लेना चाहिए । इसी प्रकार विभङ्गज्ञानी, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अभव्य और मिथ्यादृष्टि इन दो मार्गणाओंमें मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद नहीं है ।

७१८. मनःपर्ययज्ञानी और मंथत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्यके समान

छेदो० ध्रुविगाणं तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण० । णिहा-पचला-तिण्णिसंज०-पुरिस०-भय-  
दुगुं० देवगादि-पंचिदि०-तिण्णिसरीर-समचदु०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०  
४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय० तिण्णिपदा कस्स ? अण्ण० । अवत्तव्व० कस्स ?  
अण्ण० उवसम० परिवद० पढमसमय मणुस० मणुसिणीए वा । सेसाणं ओघो । परि-  
हार० आहारकायजोगिभंगो । [ सुहुमे भुज० कस्स० ? अण्ण० उवसम परिवद० । वेपदा  
कस्स० ? अण्ण० उवस० खवग० । ]

७१६. संजदासंज०-सम्मामि०-[ सासाद० ] अणुदिसभंगो । णवरि संजदासंजदस्स  
तित्थयरस्स अवत्तव्वं ओघेण साधेदव्वो । असंजदा० तिरिक्खोघं । एवं तिण्णिलेस्साणं । णवरि  
विण्णणीलाणं तित्थयरस्स अवत्तव्वं णत्थि । तेउए ध्रुविगाणं तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण० ।  
सेसाणं ओघादो साधेदव्वं । एवं पम्माए । वेदगे ध्रुविगाणं तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण० ।  
सेसं ओघं । असण्णीसु ध्रुविगाणं तिण्णिपदा कस्स० ? अण्णदरस्स । सेसाणं ओघादो  
साधेदव्वं । एवं सामित्तं समत्तं ।

### कालानुगमो

७२०. कालानुगमेण द्रुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद-

हैं । इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए । सामासिकमंत्र और छेदोपस्थापनासंयत  
जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी  
हैं । निद्रा, प्रचला, नील संवलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगाति, पञ्चन्द्रिय जाति, नील शरीर,  
समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति त्रसचतुष्क,  
मुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्कर इनके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव  
उक्त पदोंका स्वामी हैं । अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला प्रथम समय-  
वर्ती अन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनी अवक्तव्यपदका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके पदोंका भङ्ग ओघके  
समान है । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें आहारककाययांगी जीवोंके समान भङ्ग है । सूक्ष्मसाम्परायिक  
संयत जीवोंमें भुजगारपदका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला अन्यतर जीव भुजगार-  
पदका स्वामी है । अल्पतर और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक और क्षपक  
उक्त दो पदोंका स्वामी हैं ।

७१६. संयतासंयत, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका भङ्ग अनुदिशके समान  
है । इतनी विशेषता है कि संयतासंयत जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद ओघसे साध लेना  
चाहिए । असंयतोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इसीप्रकार तीन लेश्यावाले जीवोंके जानना  
चाहिए । इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यावाले जीवोंमें तीर्थङ्करका अवक्तव्य पद नहीं है ।  
पीन लेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त  
पदोंका स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व ओघसे साध लेना चाहिए । इसीप्रकार पद्म-  
लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका  
स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । शेषके प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व ओघके समान  
है । असंज्ञी जीवोंमें ध्रुव प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी  
है । शेष प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व ओघसे साध लेना चाहिए । इसप्रकार स्वामित्व समाम हुआ ?

### कालानुगम

७२०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पंच

णी०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-तिरिक्खग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-छस्संठा०-ओरालि०अंगो० छस्संघ०-वण्ण०४-अगु०४-तिरिक्खाणु० उज्जो०-दोविहा०-तस बादर-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय०-थिरादिछियुगल णिमि०-णीचा०-पंचंत० भुज० केवचिरं कालादो होदि? जह० एग०, उक्क० चत्तारि समय। अप्पद०केव०? जह० एग०, उक्क० तिण्णि सम०। अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० एग०, उक्क० एग०। चदुण्णं आयु-गाणं अवत्तव्व० जह० उक्क० एग०। अप्पद० जह० उक्क० अंतो०। वेउव्वियळ०-आहारदुग-तित्थय० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जहण्णु० एगस०। मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० भुज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम०। अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० उक्क० एग०। एइदिय आदाव थावर सुहुम-साधार० भुज० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम०। अवत्त०-अवट्ठि० देवगदिभंगो। बीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिं० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम०। अवट्ठि०-अवत्त० देवगदिभंगो। सेसाणं पगदीणं भुज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम०। अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम०। अवट्ठि० जह० एग०, उक्क०

ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नाकपाय, तिर्यचर्गात, पञ्च-न्द्रियजाति, आंदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, छह संस्थान, आंदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, उच्चांत, दो विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि छह युगल, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनके भुजगार-बन्धका कितना काल है? जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है। अल्पतरवन्धका कितना काल है? जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवस्थितपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्यपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल एक समय है। चार आयुओंके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अल्पतरपदका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। वैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थ-ङ्करके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अवस्थितपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके भुजगारपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है। अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अवस्थितपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। एकेन्द्रियजाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणके भुजगारपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अल्पतरपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवक्तव्य और अवस्थित पदका भङ्ग देवगतिके समान है। द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजात और चतुरिन्द्रियजातिके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग देवगतिके समान है। शेष प्रकृतियोंके भुजगारपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है। अल्पतरपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवस्थित पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट

अंतो० । अवत्त० जहण्णु० एगस० । एवं ओघभंगो कायजोगि-क्रोधादि०४-मदि०-  
सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि० ।

७२१. गिरएसु धुविगाणं भुज० अप्प० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवट्ठि०  
जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सेसाणं पि । णवरि अवत्तव्वगो यस्स अत्थि तस्स एय-  
समयं । एवं सव्वणिरयाणं ।

७२२. तिरिक्खेसु ओघो । णवरि धुविगाणं अवत्तव्वं णत्थि । मणुसग०-मणुसाणु०-  
उच्चा० देवगदिभंगो । पंचिं देयतिरिक्खेसु मणुसग०-चदुजादि-मणुसाणु०-थावर-आदाव-  
सुहुम-साधार०-उच्चा० देवगदिभंगो । सेसाणं भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिण्णि  
सम० । सेसं ओघं । पंचिंदियपज्जत्त-जोणिणीसु एवं चेव । णवरि अपज्जत्तणाम देवग-  
दिभंगो । पंचिंदिय०अपज्ज० धुविगाणं भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिण्णि  
सम० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सादासाद०-पंचणोक०-तिरिक्खग०-  
पंचिंदि०-हुंडसं०-ओरालि०अंगो०-असंप०-तिरिक्खाणु०-तस०-वादर-अपज्ज०-पत्ते०-अधि-  
रादिपंच-णीचा० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिण्णि सम० । अवट्ठि० ओघं ।  
सेसं गिरयभंगो ।

काल एक समय है । इसीप्रकार ओघके समान काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये ।

७२१. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । अवस्थितपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार शेष प्रकृतियोंके पदोंका काल जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि जिस प्रकृतिका अवक्तव्यपद है उसका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । इसीप्रकार सब नारकियोंके जानना चाहिये ।

७२२. तिर्यञ्चोंमें ओघके समान काल है । इतनी विशेषता है कि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यान्त्रपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग देवगतिके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें मनुष्यगति, चार जाति, मनुष्यगत्यनुपूर्वी, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, साधारण और उच्चगोत्रका भङ्ग देवगतिके समान है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है । शेष भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यञ्च और योनिनी जीवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें अपर्याप्त नामका भङ्ग देवगतिके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है । अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति; हुण्डसंस्थान, आदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तामृपाटिका मंहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, त्रस, वादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और नीचगोत्रके भुजागार और अल्पतरपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है । अवस्थितपदका काल ओघके समान है । शेष भङ्ग नारकियोंके समान है ।

७२३. मणुसा०३ सन्वाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अवट्टि०-अवत्तव्वं ओघं। एवं मणुसभंगो पंचमण०-पंचवचि०-ओरालि०-वेउच्चि०-वेउच्चियमि०-आहार०-आहारमि०-विभंग०-आभि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-ओधिदं०-तेउ०-पम्म०-सुकले०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसम०-सासण०-सम्मामि-सणि ति। मणुसअपज्ज० णेरइगभंगो। एवं देवाणं एइंदिय-विग-लिंदिय-पंचकायाणं च।

७२४. पंचिंदिय०२ चदुआयु० ओघं। वेउच्चियल्लक-आहारदुग-तित्थय०-चदुजादि-आदाव-थावर सुहुम-साधार० भुज० अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अवट्टि०-अवत्तव्वं ओघं। सेसाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिणिसम०। अवट्टि०-अवत्त० ओघं। मणुसग०-मणुसाणु० उच्चा० भुज० जह० एग०, उक्क० तिणिसम०। अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अवट्टि०-अवत्त० ओघं। पज्जत्त०-अपज्जत्तणामाणं देवगदिभंगो। पंचिंदियअपज्ज० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो। णवरि मणुसग०-मणुसाणु० भुज० जह० एग०, उक्क० तिणिसम०। अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अवट्टि०-अवत्त० ओघं।

७२३. मनुष्यत्रिकमें सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है। इसीप्रकार मनुष्योंके समान पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, आँदारिक काययोगी, वैक्रियिकयोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, विभङ्गज्ञानी आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुत-ज्ञानी अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतामंयत, अवधिदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है। इसीप्रकार देव, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थारकायिक जीवोंके जानना चाहिये।

७२४. पञ्चेन्द्रियद्विकमें चार आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। वैक्रियिक छह, आहारक-द्विक, तीर्थङ्कर, चार जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका काल ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके भुजगारपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है। पर्याप्त और अपर्याप्त नामका भङ्ग देवगतिके समान है। पञ्चेन्द्रिय अर्याप्तकोंमें तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके भुजकार पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अल्पतरपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है।

७२५. तस-तसपज्जत्त० वेउव्वियल्लक्क-एइंदि०-आहारदुग-आदाव-थावर-सुहुम-साधार-तित्थय० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अवट्ठि०-अवत्त० ओघं । बेइंदि० भुज० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिणिसम० । अवट्ठि० अवत्त० सेसाणं ओघं । पज्जत्ताणं अपज्जत्तणामाणं च देवगदिभंगो ।

७२६. तसअपज्ज० धुविगाणं भुज० जह० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिणिसम० । अवट्ठि० ओघं । दोवेदणीय०-पंचणोक०-तिरिक्खग०-पंचिंदि०-हुंडसं०-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-तिरिक्खाणु०-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अथि-रादिपंच-णीचा० भुज० जह० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिणिसम० । अवट्ठि०-अवत्त० ओघं । मणुसग०-मणुसाणु० भुज० जह० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेसम० । [अवट्ठि०-अवत्त०] तिणिविगलिंदि०-तसणामाणं च ओघं । णवरि बेइंदि० भुज० वेसम० । सेसाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क०-वेसम० । अवट्ठि०-अवत्त० ओघं ।

७२७. ओरालियमि० मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिणिसम० वेसम० । अवट्ठि०-अवत्त० ओघं । देवगदि०४-तित्थय० भुज०-अप्पद०

७२५. त्रस और त्रस पर्याप्त जीवामे वैक्रियिक छह, एकैन्द्रियजाति, आहारकादिक, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और तीक्ष्ण प्रकृतिके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका भङ्ग आघके समान है । द्वीन्द्रिय जातिके भुजगार पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समान है । पर्याप्त और अपर्याप्तका भङ्ग देवगतिके समान है ।

७२६. त्रस अपर्याप्तकोमें द्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है । अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है । अवस्थित पदका भङ्ग आघके समान है । दो वेदनीय, पांच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासम्पाटिकासंहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच और नीचगोत्रके भुजगार पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है । अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग आघके समान है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके भुजगार पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है । अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । अवस्थित और अवक्तव्य-पदका तथा तीन विकलेन्द्रिय और त्रस नामकर्मका भङ्ग आघके समान है । इतनी विशेषता है कि द्वीन्द्रियजातिके भुजगार पदका उत्कृष्टकाल दो समय है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका भङ्ग आघके समान है ।

७२७. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवामे मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके भुजगार और अल्पतरपद का जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल क्रमसे तीन समय और दो समय है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका भङ्ग आघके समान है । देवगति चार और तीर्थ-

जह० एग०, उक्क०, बेसम० । सेसाणं ओघं । णवरि जेसिं चत्तारि समयं तेसिं तिण्णि समयं ।

७२८. कम्मइ० धुविमाणं थावरपगदीणं च अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि सम० । अवत्त० [जहण्णु०] एगस० । सेसाणं अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० जहण्णु० एग० । देवगदिपंचग० अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० बेसम० ।

७२९. इत्थिवेदे पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज० पंचंतरा० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । पंचदंस०-दोवेदणी०-मिच्छ०-बारसक०-इत्थिवे०-हस्सरदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं-तिरिक्खग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-छस्संठाणं-ओरालि०-अंगो-छस्संध०-वण्ण०-४-तिरिक्खाणु०-अगु०-४-उजो०-दोविहा०-तस०-४-थिरादिछयुगल-णिमि०-णीचा० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम० । अवट्ठि०-अवत्त० ओघं । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० भुज० जह० एग०, उक्क० तिण्णिस० । अप्प०-अवट्ठि०-अवत्त० ओघं । सेसाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवट्ठि०-अवत्त० ओघं । पुरिसवेदे सो चेव भंगो । णवरि पुरिस०-दोपदा जह० एग०, उक्क० तिण्णिस० । अवट्ठि०-अवत्त० ओघं । णवुंसगे ओघं । णवरि इत्थि०-पुरिस० देवगदिभंगो । अवगदवे० सव्वपगदीणं भुज०-अप्प०-

ङ्कर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । शेष प्रकृतियोंके पदोंका काल आंधके समान है । इतनी विशेषता है कि जिनका आंधसे चार समय काल है उनका काल यहाँ तीन समय है ।

७२८. कार्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रुव और स्थावर प्रकृतियोंके अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है । अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । शेष प्रकृतियोंके अवस्थित पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । देवगतिपञ्चकके अर्वास्थित पदका जघन्य-काल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है ।

७२९. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार भंडवलन और पाँच अन्न-रायका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । पाँच दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, वारह कषाय, स्त्रीवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारि आङ्गापाङ्ग, छह संहनन, वणचतुष्क, तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह युगल, निर्माण और नीचगोत्रके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका काल आंधके समान है । मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके भुजगार पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है । अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य पदका काल आंधके समान है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका काव आंधके समान है । पुरुषवेदी जीवोंमें वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदके दो पदोंका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका काल आंधके समान है । नपुंसकवेदी जीवोंमें आंधके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद और पुरुषवेदका भङ्ग देवगतिके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थित

अवक्त० एग० । अवट्टि० ओघं ।

७३०. सुहुमसंप० सव्वाणं भुज०-अप्प० एग० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । [चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो० । णवरि तेइंदि०-चदुरिं० भुज० जह० एग० उक्क० वे० ।]

७३१. असणीसु वेउव्वियल्ल०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवट्टि०-अवत्त० ओघं । सेसाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम० । णवरि इत्थिवेदादिपंचिंदियसंजुत्ताणं पगदीणं उक्कस्सं अप्पदरं बेसमयं । अवट्टि०-अवत्त० ओघं । एइंदिय-आदाव-थावर-सुहुम-साधारणाणं ओघं ।

७३२. आहारगेसु चदुआयु०-वेउव्वियल्ल०-आहारदुग-तित्थय० ओघो । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० भुज० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम० । अप्प० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अवट्टि०-अवत्त० ओघं । एइंदिय-आदाव-थावर-सुहुम-साधारणं च ओघं । सेसाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिस० । अवट्टि०-अवत्त० ओघं । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं कालं समत्तं ।

## अंतराणुगमो

७३३. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पदका काल ओघके समान है ।

७३०. सूक्ष्मसाम्परायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त-मुहूर्त है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जातिके भुजगार पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है ।

७३१. असंज्ञी जीवोंमें वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका काल ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । इतनी विशेषता है कि खीवेद आदि पञ्चेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंके अल्पतर पदका उत्कृष्ट काल दो समय है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका काल ओघके समान है । एकेन्द्रियजाति, आतप, म्थावर, सूक्ष्म और साधारणका भङ्ग ओघके समान है ।

७३२. आहारक जीवोंमें चार आयु, वैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगति; मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके भुजगार पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका काल ओघके समान है । एकेन्द्रियजाति, आतप, म्थावर, सूक्ष्म और साधारणका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका काल ओघके समान है । अनाहारक जीवोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

## अन्तराणुगम

७३३. अन्तराणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघने पाँच



भय-दुगुं-तेजा-क-वण्ण-०४-अगु-उप-णिमि-पंचंत-भुज-अप्पद-अवट्टि-बंध-  
 तरं केव-? जह-एग, उक्क-अंतो-। अवत्त-जह-अंतो, उक्क-अद्धपोग्गल-।  
 थीणागिद्धि-३-मिच्छ-अणत्ताणुबंधि-०४ भुज-अप्प-अवट्टि-जह-एग, उक्क-  
 बेळावट्टि-देसू-। अवत्त-जह-अंतो, उक्क-अद्धपोग्गल-। सादासाद-चदुणोक-  
 थिराथिर-सुभासुभ-जस-अजस-तिण्णिपदा-जह-एग, उक्क-अंतो-। अवत्त-जह-  
 उक्क-अंतो-। एवमेदाणं याव अणाहारग ति एस भंगो-। अट्टक-तिण्णिपदा-जह-  
 एग, उक्क-पुव्वकोडी दे-। अवत्त-णाणावरणभंगो-। इत्थि-तिण्णिपदा-जह-एग,  
 उक्क-बेळावट्टि-देसू-। अवत्त-जह-अंतो, उक्क-बेळावट्टि-देसू-। पुरिस-  
 तिण्णिपदा-णाणा-भंगो-। अवत्त-जह-अंतो, उक्क-बेळावट्टि-सादिरे-। णवुंस-  
 पंचसंठा-पंचसंघ-अप्पसत्थ-दूभग-दुस्सर-अणादे-तिण्णिपदा-जह-एग, उक्क-  
 बेळावट्टि-सादि-तिण्णि पलिदो-देसू-। अवत्त-जह-अंतो, उक्क-बेळावट्टि-  
 मादि-तिण्णिपलिदो-देसू-। तिण्णिआयु-अवत्त-अप्पद-जह-अंतो, उक्क-अण-  
 तका-। तिरिक्खायु-अवत्त-अप्पद-जह-अंतो, उक्क-सागरोवमसदपुधत्तं-।  
 वेउव्वियळ-तिण्णिपदा-जह-एग, अवत्त-जह-अंतो, उक्क-अणंतका-।

ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजस शरार, कामणशरार, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकं भुजगार, अल्पतर और अवस्थितवन्धका अन्तर कितना है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । स्त्यानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नाकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार इन प्रकृतियोंका अनाहारक मार्गणानक यही भङ्ग है । आठ कपायोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । स्त्रीवेदके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है । पुरुषवेदके तीन पदोंका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त त्रिहायागनि, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासागर और कुछ कम तीन पत्य है । तीन आयुओंके अवक्तव्य और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त काल है । तिर्यञ्चायुके अवक्तव्य और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर भी सागरपृथक्त्व है । वैक्रियिक छहके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका

तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० तेवड्डिसागरोवमसद० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । मणुसगदितिगं तिण्णिप० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । चहुजादि-आदाव-थावरादि०४ तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचसीदिसागरोवमसदं । पंचिदि०-पर०-उ०-तस०४ तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसाग०सदं । ओरालि० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० सादि० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अणंतका० । आहारदुगं० तिण्णिप० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल० । समचहु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त०-जह० अंतो०, उक्क० बेछावड्डि० सादि० तिण्णिपलिदो० देसू० । ओरालि०अंगो०-वज्जरिस० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० सादि० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादिरे० । उज्जो० तिण्णिपदा० तिरिक्खगदिभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेवड्डिसागरोवमसदं । णीचागो० तिण्णिपद० णवुंसगभंगो । अवत्त० जह० उक्क० तिरिक्खगदिभंगो । तित्थय० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० ।

जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर सबका अनन्त काल है । तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानु-पूर्वकें तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रैसठ सागर है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक हैं । मनुष्यगति-त्रिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है । पञ्चन्द्रिय जाति, परधान, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त हैं । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है । औदारिक शरीरके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्थ हैं । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । आहारक द्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त हैं । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्थ हैं । औदारिक आज्ञापाङ्ग और वज्रपभनाराच संहननके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्थ हैं । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर हैं । उद्योतके तीन पदोंका अन्तर तिर्यञ्चगतिके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रैसठ सागर है । नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर तिर्यञ्चगतिके समान है ! तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त हैं । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर है ।

७३४. पिरएसु ध्रुविगाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक० वेसम० । पुरिस०-समचदु०-वज्जरिस० पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक० तेत्तीसं साग० देसू० । ध्रुवभंगो तित्थयरं । णवरि अवत्तव्वं णत्थि अंतरं । सेसाणं पि पगदीणं तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतोमु०, उक० तेत्तीसं साग० देसू० । दोआयु० दो पदा० जह० अंतो०, उक० छम्मासं देसूणं । एवं सत्तमाए । सेसाणं पि तं चेव पुढवि० । णवरि मणुसग०-मणुमाणु०-उच्चा० पुरिसवेदेण समं कादव्वं ।

७३५. तिरिक्खेसु ध्रुविगाणं भुज० अप्प० जह० एग०, उक० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक० चत्तारिसम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ० अणंताणुबंधि०४ तिण्णिपदा० जह० एग०, उक० तिण्णिपलिदो० देसू० । अवत्तव्वं ओघं । अपच्चक्खाणा०४-तिण्णिपदा० जह० एग०, उक० पुव्वकोडी० देसू० । अवत्त० ओघं । इत्थिवे० तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक० तिण्णिपलिदो० देसू० । णवुंस०-तिरिक्खग०-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संध०-तिरिक्खाणु०-आदा-उज्जो०-अप्पसत्थ० थावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० तिण्णिपदा० जह० एग०,

७३४. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ज्यभनाराचसंहनन, प्रशास्त विहायोगति, सुभग, मुस्वर और आदेयर तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्य पदका अन्तर नहीं है । शेष प्रकृतियोंके भी तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । दो आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । शेष पृथिवियोंमें भी यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके पदोंका अन्तर पुरुषवेदके साथ कहना चाहिए ।

७३५. तिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । अवक्तव्य पदका भङ्ग आंगके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अवक्तव्य पदका अन्तर आंगके समान है । खीन्दके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सबका कुछ कम तीन पत्य है । नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, चार जाति, औदारक शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशास्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीच गोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय

अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी० देसू० । णवरि तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-ओरालि०-णीचा० अवत्त० ओघं । पुरिस०-समचदु०-पंचिदि०-परघा०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-सुभग-मुस्सर-आदे० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी० देसू० । णवरि पुरिसवे० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देसू० । तिण्णिआयुगाणं दो पदा० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडि-तिभागं देसूणं० । तिरिक्खायु० दो पदा० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी सादिरे० । वेउव्वियल्लकं-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० ओघं ।

७३६. पंचिदियतिरिक्ख०३ धुविगाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देसू० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णपलिदो० पुव्वकोडिपुध० । अपच्चक्खाणा०४ तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुध० । इत्थि० तिण्णिपदा० मिच्छत्तमंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देसू० । णवुंस०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-ल्लस्संघ०-तिण्णिआणु०-आदाउज्जो० अप्प-

है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सवका कुछ कम एक पूर्वकोटि है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और नीचगोत्रके अवक्तव्य पदका भङ्ग आघके समान है। पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, पञ्चन्द्रिय जाति, परघात, उल्ल्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, मुस्वर और आदेयके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। तीन आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। तिर्यञ्जायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। वैक्रियिक लह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग आघके समान है।

७३६. पञ्चन्द्रियतिर्यञ्जत्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुन्धी चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है। अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है। स्त्रीवेदके तीन पदोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, औदारिक शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, लह मंहनन, तीन आयुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुभग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंका जघन्य

सत्थ०-थावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । पुरिस० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसू० । चदुआयु० तिरिक्खोघं । देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणुपु०-परघा०-उस्सा० पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-उच्चा० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० ।

७३७. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगे भुविगाणं दो पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम० । सेसाणं तिण्णिपदा जह० एग०, उक्क० अंतो०, अवत्त० जह० उक्क० अंतो । दोआयु० दोपदा० जह० उक्क० अंतो० । एवं सव्वअप-ज्जत्ताणं एइंदिय-विगल्लिंदिय-पंचकायाणं च । णवरि यो यस्स भुजगारकालो सो अवट्ठि-दस्स अंतरं होदि । यो अवट्ठिदकालो सो भुज०-अप्पद० अंतरं होदि । आयुगाणं दोण्णं पदाणं पगदिअंतरं कादव्वं । किंचि विसेसो ।

७३८. मणुसेसु पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं-णामणव-पंचंत० तिण्णि-पदा० ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्विकोडिपुध० । आहारदुगं तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्विकोडिपुधत्तं । तित्थय० तिण्णिपदा

अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सवका कुछ कम एक पूर्वकोटि है । पुरुषवदके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । चार आयुओंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, सम्-चतुरन्त्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशान्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, मुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है ।

७३७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो आयुओंके दो पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सव अपर्याप्तक, एकेन्द्रिय, विकलत्रय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो जिसका भुजगारबन्धका काल है वह उसके अवस्थितबन्धका अन्तरकाल होना है तथा जो अवस्थितबन्धका काल है वह भुजगार और अल्पतरबन्धका अन्तर काल होना है । तथा आयुओंके दोनों पदोंका प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान अन्तर करना चाहिए । कुछ विशेषता है ।

७३८. मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, नामर्कानों प्रकृतियाँ और पाँच अन्तरायके तीन पदोंका भङ्ग आघके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है । आहारकद्विकके तीन पदोंका

णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देख्ठ० । सेसाणं पंचिदिय-तिरिक्खभंगो । मणुसायु० तिरिक्खायुभंगो ।

७३६. देवेसु धुविमाणं णिरयभंगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ० दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० चदुण्णं पदानं जह० एग०, उक्क० एकत्तीसं० देख्ठ० । णवरि अवत्त० जह० अंतो० । पुरिस०-समच्चदु०-वज्जरिस० पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-उच्चा० तिण्णिपदा सादभंगो । अवत्तव्वं इत्थिवेदभंगो । दोआयु० णिरयभंगो । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, चदुण्णं पि अट्टारस साग० सादि० । मणुसग०-मणुसाणु०-तिण्णिपदा सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अट्टारस सा० सादि० । एइंदिय-आदाव थावर० तिण्णिपदा० जह० एगस०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेसागरोव० सादि० । पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-तस० तिण्णिपदा० सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेसाग० सादि० । तिथय० णाणावरणभंगो । एदेण कमेण सव्वदेवाणं अंतरं कादव्वं ।

७४०. पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्ता० तस०-तसपज्जत्ता० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-तेजइगादिणवणाम०-पंचंतराइ० तिण्णिप० ओघं । अवत्त० जह० अंता०,

जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सबका पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय निर्यञ्चोंके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग तिर्यञ्चायुके समान है ।

७३६. देवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार; स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहा-यांगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके चार पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायांगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक द्वां सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और त्रसके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक द्वां सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इसी क्रमसे सब देवोंमें अन्तर प्राप्त करना चाहिए ।

७४०. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस आदि नौ नामकर्म और पाँच अन्तरायके तीन

उक्क० संगड्ढिदी० । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि० ४ तिण्णिपदा० ओघं । अवत्त०  
 णाणावरणभंगो । एवं इत्थि० । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछावड्ढिसाग०  
 देसू० । अट्टक० तिण्णिपदा० ओघं । अवत्त० णाणावरणभंगो । णवुंस०-पंचसंठा०-पंच-  
 संघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० बेछा-  
 वड्ढि० सादि० तिण्णि पलिदो० देसू० । अवत्तव्वं तं चेव । णवरि जह० अंतो० । पुरिस०  
 तिण्णिपदा० णाणावरणभंगो । अवत्त० ओघं । तिण्णिआयु० दोपदा० जह० अंतो०,  
 उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं० । मणुसायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० सगड्ढिदी० ।  
 पज्जत्तगेसु चटुण्णं आयुगाणं दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । णवरि  
 तसपज्जते मणुसायु० जह० अंतो०, उक्क० बेसागरोवमसहस्सा० देसू० । णिरयगदि-  
 णिरयाणु०-चटुजादि-आदाव-थावरादि० ४ तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० पंचासीदि-  
 सागरोवमसदं । अवत्त० तं चेव । णवरि जह० अंतो० । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-  
 उज्जो० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० तेवड्ढिसागरोवमसदं । अवत्तव्वं तं चेव । णवरि  
 जह० अंतो० । मणुस०-देवगदि-वेउव्विय०-वेउव्वि०-अंगो०-दोआणु० तिण्णिपदा० जह०  
 एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । अवत्तव्वं तं चेव । णवरि जह० अंतो० । पंचिदि०-

पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थिति प्रमाण है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार खीवेदके पदोंका अन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है । आठ कपायोंके तीन पदोंका अन्तर ओघके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है । अवक्तव्य पदका वही अन्तर है । इतनी विशेषता है कि जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेदके तीन पदोंका ज्ञानावरणके समान भङ्ग है । अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है । तीन आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरप्रथक्त्व है । मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थिति प्रमाण है । पर्याप्तकोंमें चार आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरप्रथक्त्वप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि त्रसपर्याप्तकोंमें मनुष्यायुका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागर है । नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है । अवक्तव्य पदका वही अन्तर है । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रैसठ सागर है । अवक्तव्य पदका वही अन्तर है । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यगति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और दो आनुपूर्वीके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर है ।

पर० उस्सा०-तस०४ तिण्णिपदा० णाणावरणभंगो । अवत्तव्वं ओघं । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस० तिण्णिपदा० ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । आहारदुगं तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० काय-द्विदी० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णिपदा० णाणावरणभंगो । अवत्त० ओघं । तित्थय० ओघं । उच्चा० तिण्णिपदा देवगदिभंगो । अवत्त० समचदु०भंगो ।

७४१. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ० सोलसक०-भय-दुगुं०-तेज्जगादिणव-आहारदुग-तित्थय०-पंचंत० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं । चदुआयु० दोपदा० णत्थि अंतरं । सेसाणं पगदीणं तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । एस भंगो ओरालि०-वेउव्वि०-आहार० । णवरि ओरालिए ओरालि०-वेउव्विय-ळकं वज्ज परियत्तीणं अवत्त० जहण्णु० अंतो० । दोआयु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० पगदिअंतरं० ।

७४२. कायजोगीसु पंचणा०-ळदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-तेज्जगादिणव-वेउव्विय-

अवक्तव्य पदका वही अन्तर है । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । पञ्चन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है । औदारिक शरीर, औदारिक आज्ञापाङ्ग और वज्रर्षभ नाराच संहननके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेनीस सागर है । आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विह्वयोंगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिवत् भङ्ग ओघके समान है । उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग देवगतिके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग समचतुरस्र संस्थानके समान है ।

७४१. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिश्रयात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर आदि नौ, आहारकद्विक, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । चार आयुओंके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । यही भङ्ग औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगी जीवोंमें औदारिक शरीर और वैक्रियिक छहको छोड़कर परिवर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है ।

७४२. काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा,



छक-ओरालि०-तिथ्य०-पंचंत० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-बारसक०-आहारदुगं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक० चत्तारिस० । णवरि आहारदुग० अवट्टि० जह० एग०, उक० वेसम० । अवत्तव्व० णत्थि अंतरं । दोआयु० दोपदा० णत्थि अंतरं । तिरिक्खायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक० बावीसं वाससहस्साणि-सादि० । मणुसायु०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० ओघं । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचा० तिण्णिपदा साद-भंगो । अवत्तव्वं ओघं । दोवेदणी०-सत्तणोक०-पंचजादि-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-दोविहा०-त्स-थावरादिदसयुगलं तिण्णिप० जह० एग०, उक० अंतो० । अवत्त० जह० उक० अंतो० ।

७४३. ओरालियमि० धुविगाणं दोपदा० जह० एग०, उक० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक० तिण्णिसम० । दोआयु० अपज्जत्तभंगो । देवगदि०४-तिथ्य० दोपदा० जह० एग०, उक० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक० वेसम० । सेसाणं तिण्णिपदा० जह० एग०, उक० अंतो० । अवत्त० जह० उक० अंतो० । णवरि मिच्छत्तस्स अवत्त० णत्थि अंतरं ।

७४४. वेउव्वियमिस्सका० धुविगाणं दोपदा० जह० एग०, उक० अंतो० । अवट्टि०

नैजसशरीर आदि नौ, वैकियिकपट्क, औदारिकशरीर, तीर्थङ्कर और पांच अन्तरायके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, बारह कपाय और आहारद्विकके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय हैं । इतनी विशेषता है कि आहारद्विकके अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । दो आयुओंके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है । तिर्यञ्चायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष हैं । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग आंघके समान हैं । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग आंघके समान है । दो वेदनीय, मान नोकषाय, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, परघान, उच्छ्रवाम, आतप, उद्योत, दो विहायोगति और त्रस-स्थावर दस युगलके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

७४३. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । दो आयुओंका भङ्ग अपर्याप्तकों समान है । देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है ।

७४४. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर

जह० एग०, उक० बेसम० । एवं तित्थय० । सेसाणं तिण्णिपदा० जह० एग०, उक० अंतो० । अवत्त० जह० उक० अंतो० । एवं आहारमि० । कम्मइग० सव्वाणं अवट्ठि०-अवत्त० णत्थि अंतरं ।

७४५. इत्थिवे० पंचणा० चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० दोपदा० जह० एग०, उक० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक० तिण्णि सम० । थीणगिद्धि०-मिच्छ०-अणंताणुबंधि४ तिण्णि पदा० जह० एग०, उक० पणवण्णं पलिदो० देखू० । अवत्त० जह० अंतो०, उक० पलिदो० सदपुधत्तं० । णिहा-पयला-भय-दुगुं०-तेजइगादिणव तिण्णि पदा णाणावरण-भंगो । अवत्त० णत्थि अंतरं । सादादिवारस्मणं ओघं । अट्ठक० तिण्णि पदा ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक० पलिदोवमसदपुधत्तं० । इत्थि०-णवुंस०-तिरिक्खगदि-एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंध०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थि०-धावर-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक० पणवण्णं पलिदो० देखू० । एवं अवत्त० । णवरि जह० अंतो० । पुरिस०-पंचिदि०-समचदु०-पसत्थि०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक० पणवण्णं पलिदो० देखू० । णिरयायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक० पुव्वकोडितिभागं

एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिके पदोंका अन्तरकाल जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिये । कर्मणकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है ।

७४५. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायक दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्यप्रथक्त्व है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा और तैजसशरीर आदि नौ प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । साता वेदनीय आदि बारह प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । आठ कपायोंके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्यप्रथक्त्व है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकैन्द्रिय-जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्यान, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है । इसी प्रकार अवक्तव्य पदका अन्तरकाल है । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है । तरकायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर

देसू० । तिरिक्खायु मणुसायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० पलिदोवमसदपुधत्तं० । देवायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० अट्टावण्णं पलिदो० पुव्व षोडिपुधत्तेणब्भहियाणि । वेउव्वियल्ल०—तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्जत्त-साधार० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादिरे० । एवं अवत्त० । णवरि जह० अंतो० । मणुसगदि-पंचग० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसू० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसू० । णवरि ओरालि० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादि० । आहारदुग० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० सगट्टिदी० । एवं अवत्त० । णवरि जह० अंतो० । पर०-उस्सा०-वादर-पज्जत्त पत्तेय० तिण्णि पदा० जह० उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादि० । तित्थय० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं ।

७४६. पुरिसवे० अट्टारसण्णं इत्थिभंगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० बेछावट्टि० देसू० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सगट्टिदी० । णिहा-पचला-भय-दुगुंछ-तेजइगादिणव तिण्णि पदा ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायट्टिदी० । अट्टक० ओघं । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० काय-

एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्यपृथक्त्व प्रमाण है । देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक अट्टावन पल्य है । वैक्रियिक छह, तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । इसी प्रकार अवक्तव्य पदका अन्तरकाल है । इतनी विशेषता है कि उसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यगतिपञ्चकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है । इतनी विशेषता है कि औदारिक शरीरके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । आहारकट्टिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थिति प्रमाण है । इसी प्रकार अवक्तव्य पदका अन्तरकाल है । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । परधान, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके तीन पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है ।

७४६. पुरुषवेदी जीवोंमें अठारह प्रकृतियोंका भङ्ग खीविदी जीवोंके समान है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा और तैजस शरीर आदि नौ प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट

द्विदी० । इत्थि०-णवुंस० पंचसंठा० पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दूमग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० पंचिंदियपज्जत्तभंगो । पुरिस० तिण्णि पदा णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेळावट्ठि० सादि० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० पुरिस०भंगो । णिरय-तिरिक्ख-मणुसायूणं इत्थिभंगो । णवरि सागारोव०सदपुधत्तं० । देवायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । णिरय तिरिक्खग०-चदुजादि-दोआणु०-आदा०-उज्जो०-थावरादि०४ तिण्णि पदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेवट्ठिसागरो०सदं । देवगदि०४-आहारदुगं पंचिंदियपज्जत्तभंगो । मणुस०दुग०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादि० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ तिण्णि पदा० तेजइगभंगो । अवत्त० णिरयगदिभंगो । तित्थय० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० ।

७४७. णवुंसगे धुविगाणं अट्टारसण्णं दो पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । थीणगिट्ठि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि-णिवुंस-पंचसंठा०-पंचसंध०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूमग-दुस्सर-अणादे० तिण्णिपदा०

अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । आठ कपायोंका भङ्ग आवकें समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीच गोत्रका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है । पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छद्यासठ सागर है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान है । नरकायु, तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्व प्रमाण है । देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नरकगति, तिर्यञ्चगति, चार जानि, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत और स्थावर आदि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है । देवगतिचतुष्क और आहारकद्विकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है । मनुष्यगतिद्विक, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभ नाराचसंहननके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परवात, उच्छ्र्वास और त्रसचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग तेजस शरीरके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग नरकगतिके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुञ्ज कम एक पूर्वकोटि है ।

७४७. नपुंसकवेदी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली अठारह प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । स्त्यानगुट्टि तीन, मिथ्यात्व, अतन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके तीन

जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देसू० । एवं अवत्त० । णवरि जह० अंतो० । णवरि थीण-  
गिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ ओघं । पुरिस०-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर  
आदे० तिण्णिपदा सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० देसू० । णिद्दा-  
पचला-भय-दुगुं०-तेजइगादिणव तिण्णिप० णाणावरणभंगो । अवत्तव्व० णत्थि अंतरं ।  
तिण्णिआयु०-वेउव्वियल्ल०-मणुस०३-आहारदुगं ओघं । देवायु० दो पदा० जह० अंतो०,  
उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचागो० तिण्णि पदा०  
इत्थिभंगो । अवत्त० ओघं । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ तिण्णि पदा० जह० एग०,  
उ० तेत्तीसं सा० सादि० । एवं अवत्त० । णवरि जह० अंतो० । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-  
तस०४ तिण्णि पदा सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० ।  
ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी दे० ।  
ओरालि० अवत्त० ओघं । ओरालि०अंगो० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं०  
सादि० । वज्जरिस० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० देसू० । तित्थय० तिण्णिप०  
जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू० ।

पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । उमी प्रकार अवक्तव्य पदका अन्तरकाल है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इतनी और विशेषता है कि स्त्यानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका भङ्ग ओघके समान है । पुरुषवेद, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्न विहायोगति, सुभग, मुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा और तैजस शरीर आदि नौके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । तीन आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यत्रिक और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है । निर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानु-पूर्वी और नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग ऋग्वेदके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार अवक्तव्य पदका अन्तरकाल है । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराच संहननके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । औदारिक शरीरके अवक्तव्य पदका अन्तर ओघके समान है । औदारिक आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । वज्रर्षभनाराच संहननके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग-प्रमाण है । अपगतवेदवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य और

अवगदवे० सव्वाणं भुज०-अप्प० जह० उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं ।

७४८. कोधे धुविगाणं अट्टारसण्हं दोपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । थीणगिट्ठि०३-मिच्छ०-बारसक० दोपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । अवत्त० णत्थि अंतरं । णिहा-पचला-भय-दुगुं०-तेजइगादिणव-तित्थय०तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । चदुआयु० दोपदा० णत्थि अंतरं । सेसाणं तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । एवं माणे । णवरि धुवि-याणं सत्तारसण्णं । कोधसंज० णिहाए भंगो । एवं मायाए वि । णवरि दोसंज० णिहाए भंगो । एवं चेव लोभे । णवरि चत्तारि संज० णिहाए भंगो । आहारदुगं मणजोगिभंगो । सेसं कोधभंगो ।

७४९. मदि०-सुद० धुविगाणं दो पदा जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । सादासाद०-छण्णोक० ओघं सादभंगो । मिच्छ० णाणावरणभंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं । णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसरथ०-

उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है ।

७४८. क्रोधकपायवाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली अठारह प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । स्नानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और वारह कपायके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर आदि नौ और तीर्थकर प्रकृतिके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । चार आयुओंके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार मानकपायवाले जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके ध्रुवबन्धवाली सत्रह प्रकृतियोंका अन्तरकाल कहना चाहिए । क्रोधसंज्वलनका भङ्ग निद्राके समान है । इसी प्रकार मायाकपायवाले जीवोंके भी करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके दो संज्वलनका भङ्ग निद्राके समान है । इसी प्रकार लोभकपायवाले जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके चार संज्वलनका भङ्ग निद्राके समान है । आहारकट्टिकका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग क्रोधके समान है ।

७४९. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । सातावेदनीय, अस्मातावेदनीय और छह नोकपायका भङ्ग आघके सातावेदनीयके समान है । मिथ्यात्वका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर और

दूमग-दुस्सर-अणादे० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देख्ठ० । एवं अवत्त० । णवरि जह० अंतो० । चदुआयु०-वेउव्वियळ्ठ०-मणुसगदितिगं ओघं । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० एकत्तीसं० सादिरे० । अवत्त० ओघं० । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सादि० । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ तिण्णि पदा० सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । ओरालि० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देख्ठ० । अवत्त० ओघं । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णिप० सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देख्ठ० । ओरालि० अंगो०-[ वज्जरिस० ] ओरालियभंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । उज्जो० तिण्णि पदा० तिरिक्खगदिभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० एकत्तीसं सा० सादि० । णीचा० तिण्णिप० णवुंसगभंगो । अवत्तव्वं ओघं ।

७५०. विभंगे धुविगाणं दोपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । एवं मिच्छ० । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं । णिरय-देवायूणं दोपदा० णत्थि अंतरं । तिरिक्ख-मणुसायूणं दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं अनादेयके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । इसी प्रकार अवक्तव्य पदका अन्तरकाल है । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग आघके समान है । तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । अवक्तव्य पदका अन्तर आघके समान है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके तीन पदोंका अन्तर एक समय है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास और त्रस चतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । औदारिक शरीरके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अवक्तव्य पदका अन्तर आघके समान है । समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । औदारिक अङ्गोपाङ्ग और वज्ररूपभनाराच संहननका भङ्ग औदारिक शरीरके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । उद्योतके तीन पदोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग नपुंसक वेदके समान है । अवक्तव्यपदका अन्तर आघके समान है ।

७५०. विभङ्गज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार मिथ्यास्व प्रकृतिका जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्य पदका अन्तर काल नहीं है । नरकायु और देवायुके दो पदोंका अन्तर काल नहीं है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम

देह० । सेसाणं ओरालि०भंगो । णवरि तिण्णिजा०-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० तिण्णि पदा० जह० एग०, उ० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं ।

७५१. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा० तिण्णिपदा ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० छावट्ठि सा० सादि० । अट्ठक० तिण्णिप० ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । दोआयु० दो पदा० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । मणुसगदिपंचग० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोटि० सादि० । अवत्त० जह० पलिदो० सादि०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । देवगदि०४ तिण्णि प० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । आहारदुगं देवगदिभंगो । तित्थय० चत्तारि पदा ओघं । एवं ओधिदंस०-सम्मादि० ।

७५२. मणपज्जव० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-तिण्णिसरीर०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० तिण्णि प० जह० एग०,

छह महीना हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग औदारिक शरीरके समान है । इतनी विशेषता है कि तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका अन्तर काल नहीं है ।

७५१. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, ममचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायांगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और उच्चगोत्रके तीन पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छद्यासठ सागर है । आठ कपायके तीन पदोंका अन्तर ओघके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । दो आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । मनुष्यगतिपञ्चकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । देवगति चतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकट्टिकका भङ्ग देवगतिके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके चार पदोंका भङ्ग ओघके समान है । इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये ।

७५२. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गनापाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायांगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट



उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । देवायु० दोपदा० पगदिअंतरं । सेसाणं तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । एवं संजदा० ।

७५३. सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंसणा०-लोभसंज०-उच्चा०-पंचंत० दोपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । आहारदुग० मादभंगो । णिदा-पचला-तिण्णिसंज०-पुरिस०-भय-दु०-देवगदि-पसत्थपणुवीस-तित्थय० दो पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं । सेसाणं संजदभंगो ।

७५४. परिहार० धुविगाणं दो पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । आहारदुगं चत्तारि पदा० जह० अंतो०, उक्क० अंतो० । तित्थय० तिण्णि पदा० णाणावरणभंगो । अवत्त० णत्थि अंतरं । सुहुमसंप० सव्वाणं० भुज०-अप्प० जह० उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० एग० । संजदासंजदा० परिहारभंगो ।

७५५. असंजदे धुविगाणं दो पदा ओघं । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । थीणगिट्ठि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-णवु० स०-पंचसंठा०-पंचसंघ० उज्जो०-अन्तर अन्तमुहूर्तं हे । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्तं हे और उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम एक पूर्वकोटि है । देवायुके दो पदोंका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्तं है । अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्तं है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये ।

७५३. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, लोभ संज्वलन, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्तं है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आहारक द्विकका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । निद्रा, प्रचला, तीन संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त पच्चीस प्रकृतियाँ और तीर्थङ्कर इनके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्तं है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पदका अन्तर काल नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग संयतोंके समान है ।

७५४. परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्तं है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आहारकद्विकके चार पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्तं है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्तं है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका अन्तर काल नहीं है । सूक्ष्मसांपराय संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्तं है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । संयतासंयत जीवोंका भङ्ग परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके समान है ।

७५५. असंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायो-

अप्पसत्थ० दूभग-दुस्सर-अणादे० णवुंसगभंगो । पुरिस०-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-  
आदे० तिण्णि पदा सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देखू० ।  
ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस० तिण्णि पदा ओघं । अवत्त० णवुंसगभंगो ।  
सेसं मदिभंगो । चक्खु० तसपज्जतभंगो । अचक्खुदं ओघं ।

७५६. किण्ण-णील-काउलेस्सा० धुविगणं दो पदा जह० एग०, उक्क० अंतो० ।  
अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-  
इत्थि-णवंस०-दोगदि-पंचसंठा-पंचसंध०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर  
अणादे०-णीचुच्चागो० तिण्णि प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं  
सा० सत्तारस० सत्त साग० देखू० । पुरिस०-समचदु०-वज्जरिसभ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-  
आदे० तिण्णि पदा सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सत्तारस० सत्त-  
माग० देखू० । णिरय-देवायु० दोपदा० णत्थि अंतरं । तिरिक्ख-मणुसायु० णिरयगदिभंगो ।  
णिरय देवगदि-पंचजादि-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-तम-थावर-  
चदुयुगलं तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । वेउव्वि०-  
वेउव्वि०अंगो० तिण्णि पदा जह० एग०, उक्क० बावीसं सत्तारस० सत्त साग०

गति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । पुरुषवेद, सभचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेनीस सागर है । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रश्रुपभनाराचसंहननके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मत्तज्ज्ञानी जीवोंके समान है । चुल्लुदर्शनवाले जीवोंमें त्रमपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । अचल्लुदर्शनवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

७५६. कृष्ण, नील और कपांत लेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अर्वास्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । स्त्यानगुद्धि तीन, मिथ्यात्य, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्यांत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्र और उच्चगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम तेनीस सागर, कुछ कम सत्तरह सागर और कुछ कम सात सागर है । पुरुषवेद सभचतुरस्र संस्थान, वज्रश्रुपभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम तेनीस सागर, कुछ कम सत्तरह सागर और कुछ कम सात सागर है । नरकायु और देवायुके दो पदोंका अन्तर काल नहीं है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भङ्ग नरकगतिके समान है । नरकगति, देवगति, पाँच जाति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, परघात, उख्वास, त्रम स्थावर चार युगलके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका अन्तर काल नहीं है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक बाईस सागर, साधिक सत्तरह सागर और साधिक

सादि० । अवत्त० किण्णाए जह० सत्तारस० सादि०, उक्क० वावीसं० सादि० ।  
णीलाए जह० सत्तसाग० [ सादि०, उक्क० ] सत्तारस० सादिरे० । काऊए जह०  
दसवस्ससहस्साणि सादि०, उक्क० सत्त साग० सादि० । तित्थय० धुवभंगो । णवरि अवट्ठि०  
जह० एग०, उक्क० बेसम० । काऊए तित्थय० णिरयभंगो । णील-काऊए मणुस०-  
मणुसाणु०-उच्चा० पुरिसवेदभंगो ।

७५७. तेउले० धुविगाणं दो पदा जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह०  
एग०, उक्क० बेसम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि०-णवुंस०-तिरि-  
क्खग०-एङ्गि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०-थावर-  
दुभग-दुस्सर-अणादे० णीचा० तिण्णिप० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क०  
बेसाग० सादि० । पुरिस०-मणुसग०-पंचिंदि०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिस०-  
मणुसाणु०-पसत्थवि०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० सोधम्मभंगो । अट्ठक० [ओरालि०-]  
आहारदुग-तित्थय० दोपदा जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क०  
बेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं । देवायुग० दोपदा णत्थि अंतरं णिरंतरं । दोआयु०  
देवभंगो । देवगदिचदुक्क० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० बेसाग० सादि० । अवत्त०

सात सागर हैं । अवक्तव्य पदका कृष्णलेश्यामें जघन्य अन्तर साधिक सत्रह सागर हैं और उत्कृष्ट  
अन्तर साधिक वार्डस सागर हैं । नीललेश्यामें जघन्य अन्तर साधिक सात सागर हैं और उत्कृष्ट  
अन्तर साधिक सत्रह सागर हैं । कापोतलेश्यामें जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष हैं और  
उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात सागर हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान हैं ।  
इतनी विशेषता है कि अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर दो समय  
हैं । कपोतलेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका नारकियोंके समान भङ्ग हैं । नील और कपोतलेश्यामें मनुष्य-  
गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग पुरुषवन्दके समान हैं ।

७५७. पीतलेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय  
है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट  
अन्तर दो समय हैं । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवन्द, नपुंसकवेद, तिर्यञ्च-  
गति, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आनप, उद्योत, अप्रशस्त  
विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक  
समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सबका साधिक दो सागर  
हैं । पुरुषवन्द, मनुष्य गति, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गंपाङ्ग, वज्रपभनाराच  
संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका  
भङ्ग सौधर्मकल्पके समान हैं । आठ कषाय, औदारिक शरीर, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके  
दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य  
अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । देवा-  
युके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है, वे निरन्तर हैं । दो आयुओंका भङ्ग देवोंके समान है । देव-  
गति चतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर हैं ।  
अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिए । इतनी

णत्थि अंतरं । एवं पम्माए वि । णवरि ओरालि०-आहारदुग-ओरालि०अंगो०-अट्टक०-  
तित्थय० दोपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० बेसम० ।  
अवत्त० णत्थि अंतरं । देवगदि०४ तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अट्टारस साग०  
सादि० । अवत्त० णत्थि अंतरं० ।

७५८. सुक्काए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०  
४-अगु०४-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त०  
णत्थि अंतरं० । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि-णवुंसगवेदादि० णवगेवज्ज-  
भंगो । दोवेदणीय-चदुणोक०-आहारदुग-थिरादितिण्णियुगलं तिण्णिपदा० जह० एग०,  
उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । अट्टक०-मणुसगदिपंचगं दोपदा जह०  
एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं ।  
पुरिस०-समचदु०-वज्जरिस०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर आदे०-उच्चा० तिण्णिपदा सादभंगो ।  
अवत्तव्वं देवभंगो । देवगदि०४ तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० ।  
अवत्तव्वं जह० अट्टारस साग० सादि०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । भवसिद्धि०  
ओघं । अब्भवसि० मिच्छादि० मदि० भंगो ।

७५९. खड्गे ओधिभंगो । णवरि तेत्तीसं साग० सादि० । आयुग० पगदि अंतरं ।

विशेषता है कि औदारिक शरीर, आहारकद्विक, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आठ कपाय और तीर्थङ्कर  
प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित  
पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल  
नहीं है । देवगति चतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक  
अठारह सागर है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है ।

७५८. शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय,  
जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैस शरीर, कर्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, निर्माण,  
तार्थकर और पाँच अन्तरायके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-  
र्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार,  
खाँवेद और नपुंसकवेद आदिका भङ्ग नौप्रैवेयकके समान है । दो वेदनीय, चार नोकपाय, आहारक-  
द्विक और स्थिर आदि तीन युगलके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर  
अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कपाय और मनुष्य-  
गतिपञ्चकके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित  
पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है ।  
पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और  
उच्चगात्रके तीन पदोंका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग देवोंके समान है ।  
देवगति चतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर  
है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अठारह सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर है ।  
भव्यजीवोंका भङ्ग ओंघके समान है । अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंका भङ्ग मत्स्यज्ञानियोंके समान है ।  
७५९. क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इनकी विशेषता है

मणुसगदिपंचग० दोष्णिप० जह० एग० उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं । देवगदि०४-आहारदुगं तिष्णिपदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । तित्थय० ओघं ।

७६०. वेदगे धुविगाणं तिष्णिपदा परिहार० भंगो । अट्टक०-मणुसगदिपंचग० ओधि-भंगो । देवगदिचट्टक० तिष्णिप० ओधिभंगो । अवत्त० जह० पलिदो० सादि०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । दोआयु०-आहारदुगं ओधिभंगो । तित्थय० दोपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं ।

७६१. उवसम० पंचणा०-छदंसणा० वारसक०-पुरिस०-भय-दु० देवगदि०४-पंचि-दि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० तिष्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । मणुसगदिपंचग० दोपदा जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं । सादादिवारसं ओघं । एवं आहारदुगं ।

७६२. सासणे धुविगाणं णिरयोवं । तिष्णिआयु० दोपदा० णत्थि अंतरं । सेसाणं

कि यहाँ साधिक तेतीस सागर कहना चाहिए । आयुकर्मका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । देवगतिचतुष्क और आहारकट्टिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है ।

७६०. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके समान है । आठ कपाय और मनुष्यगतिपञ्चकका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । दो आयु और आहारकट्टिकका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है ।

७६१. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगतिचतुष्क, पञ्चेन्द्रिय जाति, नैजम शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । मनुष्यगतिपञ्चकके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । साता आदि वारह प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार आहारकट्टिकका भङ्ग है ।

७६२. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके

सादादीणं भुज०-अप्प० जह० एग०. उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं । सम्मामि० सादासाद०-चटुणोक०-थिरादितिणियुग० ओघं । सेसाणं धुविगाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बेसम० ।

७६३. सण्णि० पंचिदियपज्जत्तभंगो । असण्णी० धुविगाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि सम० । तिण्णिआयु० दो पदा० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देख्ठ० । तिरिक्खायु० दो पदा जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी सादि० । वेउव्विय०छ०-मणुस०तिग० ओघं । तिरिक्खगदि दुग-णीचा० तिण्णिपदा सादभंगो । अवत्तव्वं ओघं । ओरालि० तिण्णिपदा सादभंगो । अवत्तव्वं ओघं । सेसाणं सादभंगो । आहार० मूलोघं । णवरि जम्हि अणंतका० अद्ध-पोग्गलपरि० तम्हि अंगुलस्स असखेज्ज० । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं अंतरं समत्तं ।

### भंगविचयाणुगमो

७६४. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-

समान है । तीन आयुओंके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है । शेष साता आदि प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलका भङ्ग ओघके समान है । शेष ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है ।

७६३. संज्ञी जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है । असंज्ञी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । तीन आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है । तिर्यञ्चायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है । वैक्रियिक छह और मनुष्यगति त्रिकका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगतिद्विक और नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है । औदारिक शरीरके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । आहारक जीवोंका भङ्ग मूलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर अन्नकाल और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल कहा है वहाँ पर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण काल कहना चाहिए । अनाहारक जीवोंका भङ्ग कार्मणकाययोगी जीवोंके समान कहना चाहिए । इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

### भङ्गविचयानुगम

७६४. नाना जीवोंका आलम्बन लेकर भङ्ग विचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—

णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि० तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-  
णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प०-अवट्टि० णियमा अत्थि । सिया एदे य अवत्तगे य । सिया  
एदे य अवत्तगा य । तिण्णिआयुगाणं दो पदा भयणिज्जा । तिरिक्खायु० दो पदा  
णियमा अत्थि । वेउव्वियछ०-आहारदुग-तित्थय० अवट्टि० णियमा अत्थि । सेसाणि  
पदाणि भयणिज्जाणि । सेसाणं सव्वपगदीणं भुज०-अप्प०-अवट्टि०-अवत्त० णियमा  
अत्थि । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालियका०-णवुंस०-क्रोधादि०४  
मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अम्मवसि०-मिच्छा०-असण्णि  
आहारग ति ।

७६५. मणुसअपज्जत्त-वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-सुहुमसंप०-  
उवसम०-सासण०-सम्मामि० सव्वणं पगदीणं सव्वपदा भयणिज्जा ।

७६६. एइंदिएसु धुविगाणं तिण्णि पदा सेसाणं चत्तारि पदा तिरिक्खायु० दो  
पदा णियमा अत्थि । मणुसायु० दो पदा भयणिज्जा । एवं पुढवि०-आउ०-तेउ०-  
वाउ०-वादरवणप्फदिपत्तेय० एदेसिं वादराणं तेसिं चैव वादरअपज्ज० तेसिं सव्वसुहुम०  
वणप्फदि-णियोद एइंदियभंगो ।

७६७. ओरालियमि०-कम्मइग०-अणाहारगेसु देवगदि०४-तित्थय० तिण्णि पदा

ओघ और आदेश । आघमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीव नियमसे है । कदाचित् इन पदोंके बन्धक जीव हैं और अवक्तव्य पदका बन्धक एक जीव है । कदाचित् इन पदोंके बन्धक जीव हैं और अवक्तव्य पदके बन्धक नाना जीव हैं । तीन आयुओंके दो पदवाले जीव भजनीय हैं । तिर्यञ्चायुके दो पदवाले जीव नियमसे हैं । वैक्रियिक ब्रह्म, आहारक द्विक, और तीथङ्कर प्रकृतिके अर्वास्थित पदवाले जीव नियमसे हैं । शेष पदवाले जीव भजनीय हैं । शेष सब प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य पदवाले जीव नियमसे हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुःदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

७६५. मनुष्यअपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाय-  
योगी, अवगतवेदी, सूक्ष्माम्परायसंयत, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब पद भजनीय हैं ।

७६६. एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पद, शेष प्रकृतियोंके चार पद और तिर्यञ्चायुके दो पदवाले जीव नियमसे हैं । मनुष्यायुके दो पदवाले जीव नियमसे भजनीय हैं । इसी प्रकार पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, इनके वादर तथा इन्हींके वादर अपर्याप्त और इन्हींके सब सूक्ष्म, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके एन्द्रियोंके समान भङ्ग है ।

७६७. औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवों में देवगति चतुष्क

भयणिज्जा । सेसाणं ओघं । गिरयादि याव सणिं त्ति संखेज्ज-असंखेज्जरासीणं अवट्ठि०  
णियमा अत्थि । सेसाणि पदाणि भयणिज्जाणि । एवं भंगविचयं समत्तं ।

## भागाभागाणुगमो

७६८. भागाभागं दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-  
सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालिय०-तेजा० क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-  
अप्प० केवडियो भागो । असंखेज्जदिभागो ? अवट्ठि० केव० ? असंखेज्जा भागा । अवत्त०  
सव्व० केव० ? अणंतभागो । चटुण्णं आयु० अवत्त० सव्वजी० केव० ? असंखेज्ज० ।  
अप्प० सव्व० केव० ? असंखेज्जा भा० । आहारदुगं भुज० अप्प०-अवत्त० सव्व० केव० ?  
संखेज्जदि० । अवट्ठि० सव्व० केव० ? संखेज्जा भा० । सेसाणं सव्वपग० भुज० अप्प०-  
अवत्त० सव्व० केव० ? असंखेज्ज० । अवट्ठि० सव्व० केव० ? असंखेज्जा भागा ।  
एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-  
कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं० तिणिले०भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-  
असणिं-आहार०-अणाहारग त्ति । णवरि ओरानियमि०-कम्मइ०-अणाहारगेसु

और तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदवाले जीव भजनीय हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आंघ के समान है। नरक गति से लेकर संज्ञी मार्गणातक संख्यात और असंख्यात राशिवाली मार्गणाओंमें अवस्थित पदवाले जीव नियम से हैं। शेष पदवाले जीव भजनीय हैं। इस प्रकार भङ्गविचय समाप्त हुआ।

## भागाभागाणुगम

७६८. भागाभाग दो प्रकार का है—आंघ और आदेश। आंघ से पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अवस्थित पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। अवक्तव्य पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। चार आयुओंके अवक्तव्य पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ? अल्पतर पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। आहारकद्विकके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अवस्थितपदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। शेष सब प्रकृतियों के भुजगार अल्पतर और अवक्तव्य पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अवस्थितपदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मण काययोगी, नपुंसक वेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंपत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि औदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मण काययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगति पञ्चकके भुजगार



देवगदिपंचग० भुज०-अप्प० सव्व० केव० ? संखेज्जदिभा० । अवट्ठि० सव्व० केव० ? संखेज्जा भा० ।

७६९. अवगदवे० सव्वाणं भुज०-अप्पद०-अवत्त० सव्व० केव० ? संखेज्ज० । अवट्ठि० सव्व० केव० ? संखेज्जा भा० । सेसाणं णिरयादि याव सण्णि त्ति सव्वेसि असंखेज्जरासीणं ओघं सादभंगो कादव्वो । एसिं संखेज्जरासिं तेसिं ओघं आहारसरीर-भंगो कादव्वो । एवं भागाभागं समत्तं ।

### परिमाणानुगमो

७७०. पारिमाणानुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-अट्टक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप०-अवट्ठि० केत्तिया ? अणंता । अवत्त० केत्तिया ? संखेज्जा । थीणगिद्वि०३-मिच्छ०-अट्टक०-ओरालि० तिण्णिपदा केत्तिया ? अणंता । अवत्त० केत्तिया ? असंखेज्जा । तिण्णि आयु० दो पदा केत्तिया ? असंखेज्जा । तिरिक्खायु० दो पदा केत्तिया ? अणंता । वेउव्वियछ० चत्तारि पदा केत्ति० ? असंखेज्जा । आहारदुगं चत्तारि पदा केत्तिया ? संखेज्जा । तित्थय० तिण्णिपदा केत्तिया ? असंखेज्जा । अवत्त० केत्ति० ? संखेज्जा । सेसाणं सव्व-पगदीणं चत्तारि पदा केत्तिया ? अणंता । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालि-

और अल्पतर पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अवस्थित पदवाले जीव सब जीवोंके कि ने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभाग प्रमाण है ।

७६६. अपगत वेदवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार अल्पतर और अवक्तव्य पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अवस्थित पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । शेष नरक गतिसे लेकर संज्ञी मार्गणा तक सब असंख्यात राशिवाली मार्गणाओं में आंधसे सातावेदनीयके समान भङ्ग जानना चाहिये । तथा जिन मार्गणाओंकी संख्यात राशि है उन मार्गणाओंमें आंधसे आहारक शरीरके समान भङ्ग जानना चाहिये । इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

### परिमाणानुगम

७७०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंध और आदेश । आंधसे पाँच ज्ञानावरण, ब्रह्म दर्शनाधरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजागार, अल्पतर और अवस्थित पदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवक्तव्य पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कषाय और औदारिक शरीरके तीन पदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवक्तव्य पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तीन आयुओं के दो पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तिर्यञ्चायुके दो पदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । वैक्रियिक ब्रह्मके चार पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आहारकद्विकके चार पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तीर्थकर प्रकृतिके तीन पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अवक्तव्यपद वाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष सब प्रकृतियोंके चार पदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इस प्रकार आंधके समान सामान्य तिर्यञ्च

यका०-णवुं स० कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०- भवसि०-अब्भ-  
वसि०-मिच्छादि० सण्णि-आहारग ति एदे सव्वे असरिसा ओघेण साधेदव्वं । केसिं च  
धुविगाणं अवत्तव्वं अत्थि केसिं च णत्थि ।

७७१. ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहार० देवगदि०४-तित्थय० तिण्णिपदा के० ?  
संखेज्जा । सेसं । ओघं । ओरालिय०-वेउव्वियमि०-इत्थिवेद-संजदासंजद-किण्ण-णीलासु  
उवसमसम्मादिट्ठीसु तित्थय० चत्तारि पदा के० ? संखेज्जा । णवरि किण्ण-णीलासु अवत्त०  
णत्थि । सेसाणं णिरयादि याव सण्णि ति संखेज्ज-असंखेज्जरासीणं अणंतरासीणं च  
ओघेण साधेदव्वं । एवं परिमाणं समत्तं ।

## खेत्ताणुगमो

७७२. खेत्ताणुगमेण दुवि०-ओधे० आदे० । ओधे० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-  
सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजइगादिणव-पंचंत० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० केवडि  
खेत्ते ? सव्वलोगे । अवत्त० केवडि खेत्ते ? ला० असंखे० । वेउव्विय०-आहारदुग-  
तित्थय० चत्तारि पदा केव० खेत्ते ? लो० असंखे० । तिण्णिआयुगाणं [दोपदा०]केव० खेत्ते ?  
लो० असंखे० । सेसाणं सव्वपग० सव्वपदा केव० खेत्ते ? सव्वलोगे । एवं तिरिक्खोघं

काययांगी, औदारिक काययांगी, नपुंसक वंदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवों तक ये सब असदृश पदवाले जीव आंधके अनुसार साध लेना चाहिये । इनमेसे किन्हींके ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद है और किन्हींके नहीं है ।

७७१. औदारिक मिश्रकाययांगी, कर्मण काययांगी और अनाहारक जीवोंमें देवगति चतुष्क और तीर्थकर प्रकृतिके तीन पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष भङ्ग आंधके समान है । औदारिक मिश्रकाययांगी, वैक्रियिक मिश्रकाययांगी, स्त्रीवंदी, संयतासंयत, कृष्णलेश्यावाले, नील लेश्यावाले और उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें तीर्थकर प्रकृतिके चार पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यावाले जीवोंमें अवक्तव्य पद नहीं है । शेष नरक-गतिसे लेकर संज्ञी तक संख्यात, असंख्यात और अनन्त राशिवाली मार्गणाओंमें आंधके समान साध लेना चाहिये । इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ

## क्षेत्रानुगम

७७२. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंध और आदेश । आंधसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, नैजसशरीर आदि नौ और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । वैक्रियिकद्विक, आहारकद्विक और तीर्थङ्करके चार पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । तीन आयुओंके दो पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च, काययांगी,

कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४ - मदि०-सुद०-असंज०-  
अचक्खुदं०-तिणिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहार-अणाहारग ति ।  
णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहार०-देवगदि०४ तित्थय० सव्वपदा लोग० असंखे० ।

७७३. एइंदिएसु मणुसायु० ओघं । सेमाणं पगदीणं सव्वपदा सव्वलोगे । एवं  
सुहुम० । बादरपज्जत्त-अपज्जत्त० धुविगाणं सादादीणं च दसपगदीणं सव्वपदा सव्व-  
लोगे । इत्थि०-पुरिस०-चदुजादि-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-आदाउज्जो०-  
दोविहा०-तस-बादर-सुभग-दोसर०-आदे०-जसगि० चत्तारिपदा लोग० संखेज्ज० । एवं  
तिरिक्खायु० दोपदा० । मणुसायु०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० सव्वपदा लो० असंखे० ।  
णवुंस०-एइंदि०-हुंडसं०-पर०-उस्सा०-थावर सुहुम०-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तं०-साधार०-दूभग-  
अणादे०-अजस० तिण्णिप० सव्वलोगे । अवत्त० लो० संखेज्ज० । तिरिक्खग०-तिरि-  
क्खाणु०-णीचा० तिण्णिप० सव्वलो० । अवत्त० लोग० असंखे० ।

७७४. पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० सव्वसुहुमाणं च एइंदियभंगो । बादरपुढवि-  
आउ० तेउ०-वाउ०-तेसि अपज्ज० धुविगाणं तिण्णि प० सव्वलो० । सादादीणं दसण्हं पगदीणं

औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषाय-  
वाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिश्रयादृष्टि,  
असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिक  
मिश्रकाययोगी, कर्मण काययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगति चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिके  
सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

७७३. एकेन्द्रियोंमें मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक  
जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके जानना चाहिए। बादर एकन्द्रिय  
और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और साता आदि दस प्रकृतियोंके सब पदोंके  
बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। स्त्रावेद, पुरुषवेद, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गो-  
पाङ्ग, छह संहनन, आतप, उद्यात, दो विहायोगति, त्रस, बादर, सुभग, दो स्वर, आदेय और  
यशःकीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार तिर्य-  
ञ्चायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र जानना चाहिए। मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी  
और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। नपुंसकवेद,  
एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, परधात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधा-  
रण, दुर्भग, अनादेय और अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। अवक्तव्य  
पदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और  
नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र  
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

७७४. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक तथा इनके सब सूक्ष्म  
जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक बादर अग्निकायिक  
और बादर वायुकायिक तथा उनके अपर्याप्त जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक

चत्तारि पदा सव्वलो०। णवुंसं०-तिरिक्खग०-एइदि०-हुंडसं० तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-  
थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-साधार०-दुभग०-अणादे०-अजस०-णीचा० तिण्णिप० सव्वलो०।  
अवत्त० लो० असंखे०। सेसाणं सव्वपदा लो० असंखेज्ज०। एवं बादरवण०-णियोद-  
पज्जत्तापज्ज०। णवरि वाऊणं जम्हि लो०गस्स असंखेज्ज० तम्हि लो०गस्स संखेज्ज० कादव्वो।  
बादरवणफदिपत्तेय० तस्सेव अपज्ज० बादरपुढवि० अपज्जत्तभंगो। सेसाणं णिरयादि याव  
सण्णित्ति संखेज्ज-असंखेज्जरासीणं सव्वभंगो लो० अमंखे०। एवं खेत्तं समत्तं।

### फोसणाणुगमो

७७५. फोसणाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-अड्ढक०-  
भय-दु०-तेजइगादिणव-पंचंत० भुज०-अप्य०-अवड्ढि०-बंधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ?  
सव्वलो०। अवत्त० खेत्तं। थीणगिद्वि०-३-अणंताणुवधि०-४ तिण्णिपदा णाणावरणभंगो।  
अवत्त० अड्ढचो०। मिच्छ० तिण्णिपदा णाणा०भंगो। अवत्त० अड्ढ-बारह०। अपच्च-  
क्खाणा०-४ तिण्णिपदा णाणा०भंगो। अवत्त० छचोइ०। णिरयु देवायु०-आहारदुगं सव्व-

जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। सातावेदनीय आदि दस प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेंद्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, साधारण, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और नीच-गोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। इसी प्रकार बादर वनस्पतिकायिक, बादर निगोद और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वायुकायिक जीवोंके, जहाँ लोकका असंख्यातवाँ भागप्रमाण क्षेत्र कहा है, वहाँ लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिए। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और उनके अपर्याप्त जीवोंमें बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है। शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी मार्गणातक संख्यात और असंख्यात संख्यावाली राशियोंमें सब पदोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ।

### स्पर्शानुगम

७७५. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर आदि नव और पाँच अन्त-रायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदका भंग क्षेत्रके समान है। स्त्यानगुद्धि तीन और अन्नानुबन्धी चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका भंग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका भंग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका भंग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरकायु, देवायु और आहारक द्विकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार आहारक मार्गणा तक इन प्रकृतियोंके सब पदोंका स्पर्शन

पदा खेत्तभंगो । एवमेदानं याव आहारग ति । [ तिरिक्खायु० दोपदा सव्वलो० । ]  
मणुसायु० दोपदा अट्टचोद० सव्वलोगो० । गिरयगदि-देवगदि-दोआणुपु० तिण्णि प०  
छ्चोद० । अवत्त० खेत्तभंगो । ओरालिय० तिण्णिपदा सव्वलोगो । अवत्त० बारहचोद-  
स० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० तिण्णिपदा बारहचोदस० । अवत्त० खेत्तभंगो । तित्थय०  
तिण्णिप० अट्टचो० । अवत्त० खेत्त० । सेसाणं कम्माणं सव्वपदा सव्वलोगो ।

७७६. गिरएसु धुविगाणं तिण्णिपदा सादादीणं बारसणं चत्तारिपदा० छ्चोदस० ।  
दोआयु०-मणुसग० मणुसाणु०-तित्थय०-उच्चा० सव्वप० खेत्तभंगो । सेसाणं तिण्णिप०  
छ्चोद० । अवत्त० खेत्तभंगो । एवं सव्वगिरयाणं अप्पणो फोसणं कादव्वं । णवरि  
मिच्छ० अवत्त० पंचचोद० ।

७७७. तिरिक्खेसु धुविगाणं तिण्णिपदा० सव्वलोगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-  
अट्टक०-ओरालि० तिण्णिप० सव्वलो० । अवत्त० लो० असंखेज्ज० । णवरि मिच्छ०  
अवत्त० सत्तचो० । सेसाणं ओघे० ।

जानना चाहिए । तिर्यञ्च आयुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्य आयुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगति, देवगति और दो आनुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । औदारिक शरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आंगापांगके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तीर्थकर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

७७६. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने और साता आदि बारह प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, तीर्थकर प्रकृति और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार सब नारकियोंके अपना-अपना स्पर्शन करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछकम पाँचबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

७७७. तिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कपाय और औदारिक शरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है ।

७७८. पंचिदियतिरिक्ख ० ३ धुविगाणं तिण्णिपदा, सादादिदसण्णं, पगदीणं चत्तारि पदा ०  
 लोग ० असंखे ० सच्चलो ० । थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०-अट्टक ०-णवुंस ०-तिरिक्खग ० [ दुग- ]  
 एइंदि ०-ओरालि ०-हुंडसं ० - पर ०-उस्सा ०-थावर-सुहुम ०-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय ०-साधार ०-  
 दूमग ०-अणादे ०-अजस ०-णीचा ० तिण्णिप ० लोग ० असंखे ० सच्चलो ० । अवत्त ० लो ०  
 असंखे ० । गवरि मिच्छ ०-अजस ० अवत्त ० सत्तचो ० । इत्थिवे ० तिण्णिप ० दिवडुचोद ० ।  
 अवत्त ० खेत्त ० । पुरिस ०-णिरयगदि-देवगदि-समचदु ०-दोआणु ०-दोविहा ०-सुभग-दोसर-  
 आदेज्ज ०-उच्चा ० तिण्णिप ० छच्चो ० । अवत्त ० खेत्त ० । पंचिदि ०-वेउव्वि ०- वेउव्वि ०-  
 अंगो ०-तस ० तिण्णिप ० बारहचो ० । अवत्त ० खेत्त ० । उज्जो ०-जसगि ० चत्तारिप ० सत्तचो ० ।  
 चदुआयु ०-मणुसग ०-तिण्णिजादि-चदुसंठा ०-ओरालि ०-अंगो ०-छस्संध ०-मणुसाणु ०-आदावं  
 खेत्तमंगो । बादर ०-तिण्णिप ० तेरह ० । अवत्त ० खेत्त ० ।

७७९. पंचिदियतिरिक्ख अपज्जत्तेसु धुविगाणं तिण्णिपदा सादादीणं चत्तारिप ० लो ०  
 असंखे ० सच्चलो ० । णवुंस ०-तिरिक्ख ०-हुंडसं ०-एइंदि-तिरिक्खाणु ०-पर ०-उस्सा ०-थावर-  
 सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय ० साधार ०-दूमग ०-अणादे ०-णीचा ० तिण्णिपदा लो ० असंखे ०

७७८. पंचेन्द्रियतिर्यञ्च त्रिकमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने तथा साता आदि दस प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कपाय, नपुंसक वेद, तिर्यचगति-द्विक, एकेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, हुंडसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और नीच गात्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सबलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतही विशेषता है कि मिथ्यात्व और अयशःकीर्तिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पुरुषवेद, नरकगति, देवगति, समचतुरस्र संस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आंगोपांग और त्रस प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । उद्यात और यशःकीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार आयु, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, औदारिक आंगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और आतपके सब पदोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । बादर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम तेरहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

७७९. पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके और सातादि प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सबलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसक वेद, तिर्यचगति, हुण्ड संस्थान, एकेन्द्रिय जाति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीच-

सव्वलो० । अवत्त० खेत्त० । उज्जो०-जसगि० चत्तारिप० सत्तचोद्द० । बादर० तिण्णिप० सत्तचो० । अवत्त० खेत्त० । अजस० तिण्णिप० सादभंगो । अवत्त० सत्तचो० । सेसाणं इत्थिवेदादीणं चत्तारिप० खेत्तभंगो । एस भंगो सव्वअपज्जत्तगाणं विगल्लिदियाणं बादर-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदिपत्तेय०पज्जत्ताणं च ।

७८०. मणुस०३ पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । णवरि विसेसो णादव्वो । मिच्छ०-अवत्त० सत्तचोद्द० । दोआयु०-वेउन्वियच्छ०-आहारदुग्ग-तित्थय० सव्वपदा खेत्त० ।

७८१. देवेषु धुविगाणं तिण्णिपदा० अट्ट-णवचोद्द० । सादादीणं वारसण्णं मिच्छ०-उज्जो० चत्तारिपदा० अट्ट-णवचो० । एइंदिय-थावरसंजुत्त० [ तिण्णिपदा ] अट्ट-णवचोद्द० । [ अवत्त० ] सेसाणं [ सव्वपदा ] अट्टचो० । एदेण बीजेण णेदव्वं । सव्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदव्वं ।

७८२. एइदि०-सव्वसुहुम०-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदि-णियोद्द० मणु-सायुगं मोत्तूण धुविगाणं तिण्णिप० सेसाणं चत्तारिप० सव्वलो० । मणुमायु० दोपदा०

गात्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सवलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष स्त्रीवेद आदि प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । यही भंग सब अपर्याप्तक, विकलेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्नि-कायिक, बादर वायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर और इनके पर्याप्तक जीवोंके जानना चाहिए ।

७८०, मनुष्यत्रिकमें पंचेन्द्रिय तीर्थक अपर्याप्तकोंके समान भंग है । किन्तु यहाँ जो विशेष हो, वह जान लेना चाहिए । मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, वैक्रियिक छह, आहारक द्विक और तीर्थकर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

७८१. देवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम नववटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता आदिक वारह प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व और उद्योतके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछकम नौ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थावर सहित एकन्द्रिय जातिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम नव वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तव्य पदके तथा शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी बीजपदके अनुसार शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन भी जानना चाहिए । तथा सब देवोंके अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए ।

७८२. एकन्द्रिय, सब सूक्ष्म, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और निर्गोद जीवोंमें मनुष्यायुका छोड़कर ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके

लो० असं सव्वलो० । बादरएइंदिय-पज्जत्तापज्जत्त० ध्रुविगाणं तिण्णिप० सादादीणं दसण्णं चत्तारिप० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-चदुजादि-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-आदा-दोविहा०-तस सुभग-दोसर-आदे० चत्तारिपदा लो० संखेज्ज० । णवुंस०-एइंदि०-हुंडसं० पर०-स्सा०-थावर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेव० साधार०-दुभग०-अणादे० तिण्णिप० सव्वलो० । अवत्त० लोग० संखेज्ज० । मणुसासु० दोपदा० लोग० असंखेज्ज० । तिरिक्खायु० दोप० लो० संखेज्ज० । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० तिण्णिप० सव्वलो० । अवत्त० लोग० असंखे० । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० चत्तारिप० लोग० असंखे० । उज्जो०-जसगि० चत्तारिप० सत्तचो० । बादर० तिण्णिप० सत्तचो० । अवत्त० खेत्त० । अजस० तिण्णिप० सव्वलो० । अवत्त० सत्तचोद० । एस भंगो बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं च अपज्ज० । बादरवणप्फदि-णियोदाणं च पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदि-पत्तेय० तस्सेव अपज्ज० । णवरि विसेसो णादवो । जम्हि बादरएइंदि० लोग० संखेज्ज० तम्हि वाउ०-धज्जाणं लोग० असंखे० कादव्वं ।

बन्धक जावाने तथा शेष प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवाने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके और सातादि दस प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने सबलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवन्द, पुरुषवन्द, चार जाति, पांच संस्थान, आहारिक आंगोपांग, ब्रह्म संहनन, आतप, दो विहायांगति, त्रस, सुभग दो स्वर और आदेयके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवन्द, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड संस्थान, परवात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग और अनादेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यच आयुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यचगति, तियञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सबलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्यात और यशः कीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछकम सातबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । यही भंग बादर पृथिवीकायिक, बादरजलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक और उनके अपर्याप्तक जीवोंके जानना चाहिए । बादरवनस्पतिकायिक और निर्गोदजीव तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर तथा उनके अपर्याप्त जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इनमें जो विशेष हो वह जानना चाहिए । जिन बादर एकेन्द्रियोंमें लोकके संख्यातवें भाग स्पर्शन कहा है, उनमें वायुकायिक जीवोंको छोड़कर लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए ।



७८३. पंचिदिय तस०२ पंचणा०-छदंसणा०-अट्टक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क० वण्ण०-  
 ४-अगु०४-पञ्जत्त-पत्तेय०-णिमि०-पंचंत० तिण्णिप० लो० असंखे० अट्टचोद्द० सव्व लो० ।  
 अवत्त० खेत्त० । थीणगिद्धि०३-अणंताणुबंधि०४-णवुंस०-एइंदि०-तिरिक्ख०-हुंडसं०-  
 तिरिक्खाणु०-थावर-दुभग-अण्णादेज्ज०-णीचा० तिण्णिप० लोग० असंखेज्ज० अट्टचोद्दस०  
 सव्वलो० । अवत्त० अट्टचोद्द० । सादादीणं दसणं चत्तारिप० लोग० असंखे० अट्टचो०  
 सव्वलो० । मिच्छ० तिण्णिप० सादभंगो । अवत्त० अट्ट-बारह० । अपच्चक्खाणा०४  
 तिण्णिप० अट्टचो० सव्वलो० । अवत्त० छच्चोद्द० । इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-  
 ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर० आदे० तिण्णिप० अट्ट बारह० ।  
 अवत्त० अट्टचो० । णिरय-देवायु-तिण्णिज्ञा०-आहारदुगं खेत्तभंगो । दोआयु-मणुसग०-  
 मणुसाणु०-<sup>१</sup>आदाउच्चा० चत्तारिप० अट्टचो० । उज्जो०-जसगि० चत्तारिप० अट्ट-तेरह० ।  
 बादर० तिण्णिप० अट्ट-तेरह० । अवत्त० खेत्त० । ओरालि० तिण्णिप० अट्टचो०

७८३. पंचेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पांच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण, कुछ कम आठबटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । स्त्यानगृद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, एकन्द्रियजाति, निर्यञ्जगति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय, और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण, आठबटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता आदि दस प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण, आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आंगोपांग, छह संहनन, दो विहायांगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकायु, देवायु, तीन जाति और आहारक द्विकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उन्नांत और यशःकीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु क्षेत्रका

सव्वलो० । अवत्त० बारह० । सुहुम-अपज्ज०-साधार० तिण्णिप० लोग० असंखे०  
सव्वलो० । अवत्त० खेत्त० । अजस० तिण्णिप० सादभंगो । अवत्त० अट्ट-तेरह० ।  
वेउन्वियल्लक-तित्थय० ओधं । एस भंगो पंचमण०-पंचवचि०-विभंग०-चक्खुदं०-सण्णि  
त्ति । णवरि जोगेसु ओरालि० अवत्त० खेत्त० । विभंग० देवगदि-देवाणुपु० तिण्णिप०  
पंचचो० । अवत्त० खेत्त० । ओरालि०-वेउन्वि०-वेउन्वि०-अंगो०-तिण्णिप० एकारह० ।  
अवत्त० खेत्त० ।

७८४. कायजोगि०-ओरालि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति मूलोघं । णवरि  
किंचि विसेसो । ओरालिय० तिरिक्खोघं । वेउन्विय० धुविगाणं साददीणं बारसण्णं  
उज्जो० सव्वप० अट्ट-तेरह० । थोणगिद्धि०-३-अणंताणुबंधि०-४-णवुंस-तिरिक्खग० हुंड०-  
तिरिक्खाणु०-दूभग-अणादे०-णीचा० तिण्णिप० अट्ट-तेरह० । अवत्त० अट्टचो० । एवं  
मिच्छ० । णवरि अवत्त० अट्ट-वारह० । इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०

स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । औदारिक शरीरके  
तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और सबलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म  
अपर्याप्त और साधारण प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और  
सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।  
अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदके  
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । वैक्रियक छह और तीर्थकर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ओघके समान  
है । यही भंग पाँच मनायोगी, पाँच वचनयोगी, विभंगज्ञानी, चक्षुदर्शनी, और संज्ञी जीवोंके जानना  
चाहिए । इतनी विशेषता है कि योगोंमें औदारिक शरीरके अवक्तव्य पदका स्पर्शन क्षेत्रके समान  
है । विभंगज्ञानी जीवोंमें देवगति और देवगत्यानुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम  
पाँचबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके  
समान है । औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक भ्रागोपांगके तीन पदोंके बन्धक जीवों-  
ने कुछ कम ग्यारहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन  
क्षेत्रके समान है ।

७८४. काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें मूल  
ओघके समान भङ्ग है । किन्तु यहाँ पर कुछ विशेषता है । औदारिक काययोगी जीवोंमें सामान्य  
तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । वैक्रियिककायोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ, साता आदि बारह  
प्रकृतियाँ और उद्योतके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम  
तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्यानगृद्धि तीन, अनन्तानुवन्धी चार, नपुंसकवेव,  
तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, दुर्भंग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके  
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया  
है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी  
प्रकार मिथ्यात्वका स्पर्शन जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्य पदके बन्धक  
जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया

अंगो०-छस्संघ०-दोविहा० तस-सुभग-दोसर०-आदे० तिण्णिप० अट्ट-वारह० । अवत्त० अट्टचोद० । दो आयु दोपदा मणुसग०-मणुसाणु०-आदा०-उच्चा० सव्वप० अट्टचोद० । एइंदि०-थावर० तिण्णिप० अट्ट-णव० । अवत्त० अट्टचो० । तित्थय० ओघं ।

७८५. ओरालियमि०-वेउव्वियमि० आहार०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहार० खेत्त-भंगो । णवरि ओरालियमि० मणुसायु० दोप० लोग० असंखे० सव्वलो० । कम्मइ०-अणाहार० मिच्छत्तं अवत्त० एकारह० ।

७८६. इत्थिवेदे धुविगाणं तिण्णि० सादादीणं दसणं चत्तारिपदा अट्टचो० सव्वलो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-णवुंस-तिरिक्ख०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-दूभग-अणादे०-णीचा० तिण्णिप० अट्टचो० सव्वलो० । अवत्त० अट्टचो० । णवरि-मिच्छ० अ० अट्ट-णवचो० । णिहा-पचला-अट्टक०-भय-दुगुं-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० तिण्णिप० अट्टचो० सव्वलो० । अवत्त० खेत्त० ।

है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम वारह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछकम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयुओंके दो पदोंके बन्धक जीवोंने तथा मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगात्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकन्द्रियजाति और स्थावर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम नौवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है ।

७८५. औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारक-मिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, और अनाहारक जीवोंमें अपनी अपनी सब प्रकृतियोंके सब पदोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक है । कामणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

७८६. स्त्रीवेदी जीवोंमें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके और साता आदि दस प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सबलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसक वेद, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और नीचगात्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछकम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम नौवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका

[ णवरि ओरालि० अवत्त० दिवडुचोह० । इत्थि०-पुरिसवे०-पंचसंठा-ओरालि० अंगो०-  
छस्संघ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० चत्तारिपदा अट्टचो० । दो आयु०-तिण्णिजादि-  
आहारदुग-तित्थय खेत्त० । दोआयुगस्स दोपदा मणुसग०-मणुसाणु०-आदाव-उच्चा०  
चत्तारिप० अट्टचो० । एइंदि०-थावर० तिण्णिप० अट्टचो० सव्वलो० । अवत्त० अट्टचो० ।  
उज्जो०-जसगि० चत्तारिप० अट्ट-णवचो० । बादर तिण्णिप० अट्ट-तेरहचोह० । अवत्त०  
खेत्त० । सुद्धम-अपज्ज०-साधार० तिण्णिप० लो० असंखे० सव्वलो० । अवत्त० खेत्तमंगो ।  
वेउव्विय० ओघं । अजस० तिण्णिप० अट्टचोह० सव्वलो० । अवत्त० अट्ट-णव-  
चोह० । एवं पुरिस० वि । [ णवरि ] अपच्चक्खाणा०४-ओरालि० अवत्त० छचोह० ।  
तित्थय० ओघं ।

७८७. णवुंसगे अट्टारसण्णं तिण्णि पदा सव्वलोगो । पंचदंस०-मिच्छत्त०-चारसक०-  
भय-दुगुं-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०- [ णिमि० ] तिण्णिप० सव्वलो० ।

स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि औदारिकके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गपाङ्ग, छह संहनन, प्रशस्तविहायांगति, सुभग, सुस्वर, आदेयके चारपदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, तीन जाति, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयुओंके दो पदोंके और मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकेंद्रिय जाति और स्थावरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्यांत और यशः-कीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम नौबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सूद्धम, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । वैक्रियिक शरीरके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है । अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सबलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम नौबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरण चार और औदारिकशरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थकर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

७८७. नपुंसकवेदी जीवोंमें अठारह प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामर्ण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपघान और निर्माणके तीन पदोंके बन्धक

अवत्त० खेत्त० । णवरि मिच्छत्त० अवत्त० बारहचो० । ओरालिय० अवत्तव्वं छ्चोद्द० । दोआयु०-वेउव्वियल्लकं [ आहारदुग- ] तित्थय० ओरालियकायजोगिभंगो । सेसाणं चत्तारि पदा सव्वलो० ।

७८८. कोधादि०४-मदि०-सुद० ओघं । णवरि मदि०-सुद० देवगदि-देवाणुपु० तिण्णिप० पंचचो० । अवत्त० खेत्तभंगो । वेउव्वि०-वेउवि०-अंगो० तिण्णि पदा ओरालि० [ अवत्त० ] एकारह० । [ वेउवि०-दुग० ] अवत्त० खेत्तभंगो ।

७८९. आभि०-सुद०-ओघि० पंचणा०-छदंसणा०-अट्टक-पुरिस०-भय-दुगुं-मणुसगदिपंचग०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० तिण्णि पदा अट्टकोद्द० । अवत्त० खेत्तभंगो । णवरि मणुसगदिपंचग० अवत्त० छ्चोद्द० । सादादीणं बारस० चत्तारि पदा अट्ट० । मणुसायु० दो पदा अट्टकोद्द० । देवायु-आहारदुगं खेत्तभंगो । अपच-क्खाणा०४ तिण्णि पदा अट्टको० । अवत्त० छ्चोद्द० । देवगदि०४ तिण्णि पदा छ्चो० ।

जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । औदारिक शरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, वैक्रियिक छह, आहारक दो और तीर्थकर प्रकृतिके सब पदोंका भंग औदारिककाययोगी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

७८८. क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, और श्रुताज्ञानी जीवोंका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें देवगति और देवगत्यानुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम पांचवटे चौदहराजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआंगोपांगके तीन पदोंके तथा औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकद्विकके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

७८९. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छह-दर्शनावरण, आठ कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति पंचक, पंचेन्द्रियजाति, तैजसशरीर कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदहराजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति पंचकके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता आदि बारह प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और आहारकद्विकके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगति चारके तीन पदोंके

अवत्त० खेत्त० । मणपञ्जवादि याव सुहुमसंपराइगा त्ति खेत्तभंगो ।

७९०. संजदासंजदा० देवायु-तित्थय० खेत्त० । धुविगाणं तिण्णि पदा वि सेसाणं चत्तारि पदा छच्चो० । असंजदे ओधं । ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम० आमिणि०भंगो । णवरि खइगे उवसम० देवगदि०४ चत्तारिपदा मणुसगदिपंचग० अवत्त० खेत्त० ।

७९१. किण्ण०-णील०-काउसु धुविगाणं तिण्णि पदा सव्वलो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ तिण्णि पदा सव्वलो० । अवत्त० खेत्त० । णवरि मिच्छ० अवत्त० पंच-चत्तारि-वेचोद्द० । णिरय-देवायु-देवगदिदुगं खेत्त० । णिरयगदि-वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-णिरयाणु० तिण्णिपदा छ-चत्तारि-वेचोद्द० । अवत्त० खेत्त० । सेसाणं चत्तारि पदा सव्वलो० । तित्थय० चत्तारिपदा खेत्त० ।

७९२. तेऊए धुविगाणं तिण्णि पदा अट्ट-णवचोद्द० । थीणगिद्धि०३-अणंताणु-बंधि०४-णवुंस०-तिरिक्खग०-एइदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-थावर-दूमग-अणादे०-

बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवों तक स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

७९०. संयतासंयत जीवोंमें देवायु और तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने और शेष प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछकम छहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंयत जीवोंमें स्पर्शन ओधके समान है। अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें आभिनित्वाधिकज्ञानी जीवोंके समान भंग है। इनकी विशेषता है कि क्षायिक सम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवगति चतुष्कके चार पदोंके और मनुष्यगति पंचकके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

७९१. कृष्ण, नील और कापोन लेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इनकी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम पाँचबटे चौदह राजु, कुछ कम चारबटे चौदह राजु और कुछ कम दांबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरकायु, देवायु और देवगतिद्विकके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। नरकगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आंगोपांग और नरकगत्यानुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम छहबटे चौदह राजु, कुछ कम चारबटे चौदह राजु और कुछ कम दांबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदका भङ्ग क्षेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके चार पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

७९२. पीतलेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम नवबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानगृद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यक्खगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे

णीचा० तिण्णिप० अट्ट-णक्को० । अवत्त० अट्टचो० । सादादिवारह-मिच्छत्त-उज्जो०  
 चत्तारि पदा अट्ट-णवचो० । अपच्चक्खाणा०४-ओरालि० तिण्णि प० अट्ट-णवचोद० ।  
 अवत्त० दिवड्डुचोद० । इत्थिवे० चत्तारि पदा अट्टचोद० । एवं पुरिस० । मणुसगदि-  
 पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संध०-मणुसाणु०-आदाव-दोविहा०-[तस०]  
 सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा०-देवगदि०४ तिण्णि पदा दिवड्डुचोद० । अवत्त० खेत० ।  
 णवरि मणुसदुग०-वज्जरिस०-ओरालि०अंगो० दिवड्डुचो० । पच्चक्खाणा०४-आहारदुग-  
 तित्थय० ओघं । पम्माए तेउभंगो । णवरि याणि पदाणि दिवड्डुं तेसिं पंचचो० । सेसाणं  
 अट्टचो० । एवं सुक्काए वि । णवरि छुचोद० ।

७६३. सासणे धुगिगाणं तिण्णि पदा अट्ट-बारह० । इत्थि०-पुरिस०-पंचसंठा-पंच-  
 संघ०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे० तिण्णि पदा अट्ट-एकारह० । अवत्त० अट्टचो० ।  
 तिरिक्खगदिदुग दूभग अणादे० णीचागो० तिण्णिपदा अट्ट-बारह० । अवत्त० अट्टचो० ।

चौदह राजु और कुछ कम नववटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता आदि बारह प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व और उद्योतके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम नववटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्याख्यानावरण चार और औदारिक शरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछकम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम नववटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पुक्कषवेदके चार पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन जानना चाहिए । मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय चाति, पाँच संस्थान, औदारिक आंगोपांग, ब्रह्म संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहा-यांगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय, उच्चगोत्र और देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिद्विक, वज्रपभनाराचसंहनन और औदारिक आंगोपांगके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछकम डेढ़वटे चौदहराजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । प्रत्याख्यानावरण चार, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । पद्मलेश्यावाले जीवोंमें पीतलेश्यावाले जीवोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि जिन पदोंका कुछ कम डेढ़वटे चौदह राजु स्पर्शन कहा है उनका कुछ कम पाँचवटे चौदह राजु क्षेत्र प्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए । शेष पदोंका कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्र प्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए । इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँपर कुछकम ब्रह्मवटे चौदहराजु क्षेत्र प्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए ।

७६३. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम बारहवटे चौदहराजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो विहायांगति, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम ग्यारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नित्यञ्जगनिद्विक, दुर्भग, अनादेय और नीचगात्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे

सादादीणं परियत्तमाणियाणं उज्जो० चत्तारिप० अट्टु-वारह० । दोआयु०-मणुसग०-  
मणुसाणु०-उच्चा० चत्तारिपदा अट्टुचोदस० । [ देवायु० खेत्तभंगो ] देवगदि०४ तिण्णि-  
पदा पंचचोदस० । अवत्त० खेत्त० । ओरालि० तिण्णिपदा अट्टु-वारह० । अवत्त०  
पंचचोद० ।

७६४. सम्मामि० धुविगाणं तिण्णिपदा अट्टुचो० । सादादीणं चत्तारिपदा अट्टुचो० ।  
[ णवरि देवगदि४ लो० असंखे० । ] असण्णीसु णिरय देवायु०-वेउन्विय०- [ छ ]  
ओरालि० खेत्तभंगो । सेसाणं एइंदियभंगो । एवं फोसणं समत्तं ।

### कालाणुगमो

७६५. कालाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० भुज०-अप्पद०-अवत्त० एसिं  
परिमाणे अणंता असंखेज्जा लोगरासीणं तेसिं सन्वद्धा । असंखेज्जरासिं जहण्णेण एस०,  
उक्क० आवलियाए असंखेज्ज० । जेसिं संखेज्जजीवा तेसिं जह० एग०, उक्क० संखेज्ज  
समय० । अवट्ठि० सन्वेसिं सन्वद्धा० । णवरि जेसिं भयणिज्जरासिं तेसिं अवट्ठिद-

चौदह राजु और कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक  
जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता आदि परिवर्तमान प्रकृतियों  
और उद्योत प्रकृतिके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम बारह  
वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्च-  
गोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु-  
के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । देवगति चतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछकम  
पाँचवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके  
समान है । औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ  
कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच-  
वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

७६४. सम्यग्मिध्याहृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ  
कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता आदि प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक  
जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि देवगति  
चतुष्कके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
असंज्ञी जीवोंमें नरकायु, देवायु, वैक्रियिक छह और औदारिक शरीरके सब पदोंके बन्धक जीवोंका  
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन एकैन्द्रिय जीवोंके  
समान है । इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

### कालानुगम

७६५. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे जिन मार्ग-  
णाओंमें भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका परिमाण अनन्त और असंख्यात  
लोक प्रमाण है, उनका काल सर्वदा है । जिनका परिमाण असंख्यात है उनका जघन्यकाल एक समय  
है और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । जिनका परिमाण संख्यात है उनका  
जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है । अवस्थितपदवाले सब जीवोंका काल



कालो अप्पप्पणो पगदिकालो कादव्वो । णवरि जह० एग० । तिण्णिआयुमाणं अवत्त-  
व्वगा जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अप्पद० ज० अंतो०, उक्क० पलिदो०  
असंखे० । तिरिक्खायु० दोपदा सव्वद्धा । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

एवं कालं समत्तं ।

## अंतराणुगमो

७९६. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-  
सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत०  
भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० णत्थि अंतरं । अवत्त० ज० एग०, उक्कस्सेण थीणगिद्धि०३-  
मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ सत्त रादिंदियाणि । अपच्चक्खाणा०४ चोद्दस रादिंदियाणि ।  
पच्चक्खाणा०४ पण्णारस रादिंदियाणि । ओरालि० अंतो० । सेसाणं वासपुधत्तं०, ।  
वेउव्वियल्ल०-आहारदुगं भुज०-अप्पद०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि०  
णत्थि अंतरं । तिण्णि आयुमाणं अवत्त०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० चदुवीस मुहु० ।  
तिरिक्खायुगस्स दोपदा० णत्थि अंतरं । तित्थय० दो पदा जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

सर्वदा है । इतनी विशेषता है कि जिन मार्गणाओंकी राशि भजनीय है, उनके अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका काल अपने अपने प्रकृतिबन्धके कालके समान कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जघन्यकाल एक समय है । तीन आयुओंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल आबलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तिर्यच आयुके दो पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

## अन्तरानुगम

७९६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंघ और आदेश । आंघसे पाँच ज्ञानावरण; नव दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका सात दिनरात है । अप्रत्याख्यानावरण चारका चौदह दिनरात है । प्रत्याख्यानावरण चारका पन्द्रह दिनरात है, औदारिकशरीरका अन्तर्मुहूर्त है और शेष प्रकृतियोंका वर्षपृथक्त्व है । वैक्रियिकल्लह, आहारकद्विकके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । तीन आयुओंके अवक्तव्य और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है । तिर्यच आयुके दो पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक

अवट्टि० णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं० । सेसाणं चत्तारि पदा णत्थि अंतरं ।

७६७. णिरएसु धुविगाणं दो पदा जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० णत्थि अंतरं । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ तिण्णिपदा णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० एग०, उक्क० सत्त रादिदियाणि । तित्थय० दो पदा जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असं०भागो । अथवा जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं० । दो आयु० पगदिअंतरं । सेसाणं तिण्णिपदा जह० एग० उक्क० अंतो । अवट्टि० णत्थि अंतरं । एवं सव्वणिरयाणं । णवरि सत्तमाए दोगादि-दोआणु०-दोगोदं थीणगिद्धिभंगो ।

७६८. तिरिक्खेसु ओघं । पंचिंदिय तिरिक्ख०३ धुविगाणं तिण्णिपदा णिरयगदिभंगो । थीणगि०३-मिच्छ०-अट्टक० ओघं । सेसाणं णिरयगदिभंगो । आयुगाणं पगदिअंतरं । पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज० णिरयोघं । एवं सव्वअपज्ज०-विगलिदि०-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदिपत्तेय०पज्जत्ता । णवरि मणुसअपज्ज० धुविगाणं

समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । शेष प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तर-काल नहीं है ।

७६७. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका भंग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, अथवा जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । दो आयुओंके दो पदोंके बन्धक जीवों का अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सब नारकियोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें दो गति, दो आनुपूर्वी और दो गोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धि प्रकृतिके समान है ।

७६८. तिर्यञ्चोंमें आघके समान भङ्ग है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग नरकगतिके समान है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और आठ कषायका भङ्ग आघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नरकगतिके समान है । आयुओंका भङ्ग प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, विकलेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

तिष्णि पदा ज० ए०, उ० पलिदो० असंखे० । सेसाणं चत्तारि प० ज० ए०, उ० पलिदो० असंखे० ।

७६६. मणुस०३ ध्रुविगाणं दो पदा ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि० णत्थि अंतरं । अवत्त० ओघं । सेसाणं तिष्णि प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि० णत्थि अंतरं । [ आउगाणं पगदिअंतरं । ] एवं पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-चक्खुदं० । देवेषु विभंगे णिरयभंगो । कायजोगि-ओरालिय०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिष्णिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-आहार० ओघं । णवरि ध्रुविगाणं विसेसो णादव्वो ।

८००. ओरालियमिस्से देवगदि०४ तिष्णि प० ज० ए०, उ० मासपुध० । तित्थय० तिष्णिप० ज० ए०, उ० वासपुध० । मिच्छ० अवत्त० ज० ए०, उ० पलिदो० असंखे० । सेसाणं सव्वपदा णत्थि अंतरं । एवं कम्मइ० । वेउव्वियका० णिरयभंगो । वेउव्वियमि० तित्थय० तिष्णिपदा जह० एग०, उक्क० वासपुध० । सेसाणं सव्वपदा जह० एग०, उक्क० बारस मुहु० । एइंदियतिगस्स चदुवीस मुहु० । मिच्छ० अवत्त० जह० एग०,

शेष प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

७६६. मनुष्यत्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्मुहूर्त है । अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल आघके समान है । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्मुहूर्त है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । आयुओंका भङ्ग प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय-द्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और चक्षुःदर्शनी जीवोंके जानना चाहिये । देवोंमें और विभङ्गज्ञानी जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुःदर्शनी, तीन लेख्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारकोंमें आघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका विशष जानना चाहिये ।

८००. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगति चतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर मास पृथक्त्व है । तीर्थकर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार कार्मण-काययोगी जीवोंके जानना चाहिये । वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तीर्थकर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है । एकेन्द्रियत्रिकका चौवीस मुहूर्त है । मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें

उक० पलिदो० असखे० । आहार०-आहारमि० सव्वाणं सव्वे भंगा जह० एग०,  
उक० वासपुध० ।

८०१. अवगदे० सव्वरुम्मा० भुज०-अवत० जह० एग०, उक० वासपुध० ।  
अप्पद०-अवट्टि० जह० एग०, उक० छम्मासं० । एवं सुहुमसंप० । णवरि अवत्तव्वं  
णत्थि अंतरं ।

८०२. आभि०-सुद०-ओधिणाणी० धुविगाणं तित्थय० मणुसभंगो । देगदि-  
दोसरीर-दोअंगो०-वज्जरिस०- [ दो आणु० ] दोण्णि पदा जह० एग०, उक० अंतो० ।  
अवत्त० जह० एग०, उक० मासपुध० । सेसाणं तिण्णि प० जह० एग०, उक० अंतो० ।  
सव्वाणं अवट्टि० णत्थि अंतरं । एवं आधिदंस०-सम्मादि०-वेदगसम्मा० । मणपज्ज०  
धुविगाणं मणुसि०भंगो । सेसाणं अ धिभंगो । एवं संजदा संजदासजदा ।

८०३. सामाइ०-छेदो० धुविगाणं विसेसो णादव्वो । परिहारे धुविगाणं भुज०-  
अप्प० ज० एग०, उक० अंतो० । अवट्टि० णत्थि अंतरं । सेसाणं पि एस भंगो० ।  
णवरि अवत्त० विसेसो ।

८०४. तेउए देवगदि०४ भुज०-अप्प० जह० एग०, उक० अंतो० । अवट्टि०

भाग प्रमाण है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है ।

८०१. अपगतवेदी जीवोंमें सब कर्मोंके भुजगार और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष प्रथक्त्व है । अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महिना है । इसीप्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है ।

८०२. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रनज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों और तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक जीवोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है । दो गति, दो शरीर, दो आज्ञापात्र, वज्रकृपभनाराचसंहनन और दो आनुपूर्विक दो पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर मास प्रथक्त्व है । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सब प्रकृतियोंके अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इसी प्रकार संयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये ।

८०३. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका विशेष जानना चाहिये । परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीवोंका भी यही भङ्ग है । किन्तु अवक्तव्य पदमें कुछ विशेषता है ।

८०४. पीतलेख्यावाले जीवोंमें देवगति चतुष्क के भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक

णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एग०, उक्क० मासपुध० । ओरोलिय० अवत्त० जह० एग०, उक्क० अडदालीसं मुहु० । मिच्छ० अवत्त० जह० एग०, उक्क० सत्त रादिदि-याणि । सेसाणं मणुसोवो । विसेसो णादव्वो । पम्माए देवगदि०४ तेउभंगो । ओरालि०-ओरालि०अंगो० अवत्त० जह० एग०, उक्क० दिवसपुध० । सेसाणं च तेउभंगो । सुक्काए मणुसगदि-देवगदि-दोसररी-दोअंगो०-दोआणु० ओधिभंगो । सेसाणं मणुसि०भंगो ।

८०५. खइगे धुविगाणं मणुसगदि-देवगदि-दोसररी-दोअंगो०-वज्जरिस०-दोआणु० अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुध० । सेसाणं ओधिभंगो । उवसम० पंचणाणावरणा० तिण्णि पदा जह० एग०, उक्क० सत्त रादिदिआणि । एवं सव्वणं । णवरिआहार०-आहार०अंगो०-तित्थय० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुध० । सेसाणं अवत्त० ओघं ।

८०६. सासणे धुविगाणं तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० । सेसाणं चत्तारि प० ज० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० । एवं सम्मामि० । सण्णि०

जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्त्व है । औदारिक शरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अड़तालीस मुहूर्त है । मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य मनुष्योंके समान है । यहाँ पर जो विशेष हो वह जानना चाहिये । पद्मलेश्यावाले जीवोंमें देवगति चतुष्कका भङ्ग पीत लेश्याके समान है । औदारिक शरीर और औदारिक आङ्गापाङ्गके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दिवस पृथक्त्व है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पीतलेश्याके समान है । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें मनुष्यगति, देवगति, दो शरीर, दो आङ्गापाङ्ग और दो आनुपूर्वीका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है ।

८०५. ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों, मनुष्यगति, देवगति, दो शरीर, दो आङ्गापाङ्ग, वज्ररूपभनाराचसंहनन और दो आनुपूर्वीके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि आहारक शरीर, आहारक आङ्गापाङ्ग और तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल ओघके समान है ।

८०६. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके

पंचिदियमंगो । असण्णीसु वेउव्वियल्ल०-ओरालि० तिरिक्खोषं । सेसाणं ओषं ।  
अणाहार० कम्मइगमंगो । एवं अंतरं समत्तं ।

### भावाणुगमो

८०७. भावाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा० चत्तारिपदा बंधगा  
त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं सव्वपगदीणं सव्वत्थ रोदंस्वं याव अणाहारग त्ति ।

एवं भावं समत्तं

### अप्पाबहुआणुगमो

८०८. अप्पाबहुगं दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा-मिच्छ०-  
सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत०  
सव्वत्थोवा अवत्तव्वबंधगा । अप्पद० अणंतगु० । भुजागारबंध० विसे० । अवट्ठि०  
असंखे० । दोवेदणी०-सत्तणोक०-दोगदि-पंचिदि०-छस्संठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संध०-  
दोआणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-दोविहा०-तस-बादर-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-थिरा-  
दिल्लयुग०-दोगोद० सव्वत्थोवा अवत्त० । अप्पद० संखेज्ज० । भुज० विसे० । अवट्ठि०  
असंखेज्ज० । चदुआयु० सव्वत्थोवा अवत्त० । अप्पद० असंखे० । वेउव्वियल्ल० सव्व-

चार पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें  
भाग प्रमाण है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । संज्ञियोंमें पञ्चेन्द्रियोंके  
समान भङ्ग है । असंज्ञियोंमें वैक्रियिक छह और औदारिक शरीरका भङ्ग सामन्य तिर्यञ्चोंके समान है ।  
शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आंधके समान है । अनाहारकोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

### भावानुगम

८०७. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंध और आदेश । ओघसे पाँच  
ज्ञानावरणके चार पदोंके बन्धक जीवोंका कौनसा भाव है ? औदयिक भाव है । इसी प्रकार सब  
प्रकृतियोंका सर्वत्र अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

### अल्पबहुत्वानुगम

८०८. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—आंध और आदेश । आंधसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्श-  
नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्ण-  
चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोके  
हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक  
हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दो वेदनीय, सात नोकषाय, दो गति, पञ्चे-  
न्द्रियजाति, छह संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास,  
उद्योत, दो विहायो गति, त्रस, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि छह युगल और दो  
गोत्रके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यात  
गुणे हैं । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव  
असंख्यातगुणे हैं । चार आयुओंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । इनसे अल्पतर

त्थोवा अवत्त० । भुज०-अप्पद० दो वि सरिसा संखेज्ज० । अवट्ठि० असंखे० । तिण्णि-  
जादी देवगदिभंगो । एइंदि०-आदाव-थावर-सुहुम-साधार० सव्वत्थो० अवत्त० ।  
भुज० संखेज्ज० । अप्पद० विसे० । अवट्ठि० असंखेज्ज० । [ आहार०-] आहार०अंगो०  
सव्वत्थो० अवत्त० । दोपदा० संखेज्ज० । अवट्ठि० संखेज्ज० । तित्थय० सव्वत्थो०  
अवत्त० । दोपदा असंखेज्ज० । अवट्ठि० असंखेज्ज० ।

८०६. णिरए धुविगाणं सव्वत्थोवा भुज०-अप्पद० । अवट्ठि० असंखे० । थीण-  
गिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-तित्थय० सव्वत्थोवा अवत्त० । भुज०-अप्पद०  
असंखेज्ज० । अवट्ठि० असंखे० । सेसाणं सव्वत्थोवा अवत्त० । भुज०-अप्पद० संखेज्ज० ।  
अवट्ठि० असंखेज्ज० । तिरिक्खायु० ओघं । मणुमायु० सव्वत्थो० अवत्त० । अप्पद०  
संखेज्ज० । एवं सत्तसु पुढवीसु । णवरि सत्तमाए दोगदी-दोआणु०-दोगोद०  
थीणगिद्धिभंगो ।

८१०. तिरिक्खेसु धुविगाणं सव्वत्थो० अप्पद० । भुज० विसे० । अवट्ठि० असं-  
खेज्ज० । सेसाणं ओघं । पंचिंदियतिरिक्खेसु धुविगाणं णिरयभंगो । थीणगिद्धि०३-  
पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । वैक्रियिक ब्रह्मके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक  
है । इनसे भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव दोनो ही समान होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे  
अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तीन जानियोंका भङ्ग देवगतिके समान है । एके-  
न्द्रिय जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे  
स्तोक हैं । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव  
विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकशरीर और  
आहारक आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनमें दो पदोंके बन्धक जीव  
संख्यातगुणे हैं । इनमें अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य  
पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे दो पदोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अव-  
स्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

८०६. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव सबसे  
स्तोक हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्ता-  
नुबन्धी चार और तीर्थंकर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे भुजगार  
और अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनमें अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यात  
गुणे हैं । शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे भुजगार और अल्प-  
तर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनमें अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।  
तिर्यञ्चायुका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यायुके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं ।  
इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिये ।  
इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें दो गति, दो आनुपूर्वी और दो गोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके  
समान है ।

८१०. तिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अल्पतर पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं ।  
इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यात  
गुणे हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका

मिच्छ०-अट्टकः-ओरालि० सव्वत्थो० अवत्त०। भुज०-अप्पद० असंखेज्ज०। अवट्ठि० असंखेज्ज०। सेसाणं सव्वत्थो० अवत्त०। दोपदा संखेज्जगु०। अवट्ठि० असंखेज्ज०। पंचिदियतिरिक्खपज्ज०-पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु धुविगाणं पंचिदियतिरिक्खोघं। णवरि ओरालि० सादभंगो। सेसाणं पि सादभंगो। पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगेसु धुविगाणं सेसाणं च णिरयोघं।

८११. मणुसेसु धुविगाणं ओरालि० सव्वत्थो० अवत्त०। भुज०-अप्पद० असंखेज्ज०। अवट्ठि० असंखेज्ज०। सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो। वेउव्वियल्ल०-आहारदुग-तित्थय० संखेज्जगुणं कादव्वं। मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु तं चेव। णवरि संखेज्ज०। मणुसअपज्ज०-सव्वएइंदि०-सव्वविगलिंदि०-पंचकायाणं पंचिदि०अपज्ज० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो। देवाणं णिरयभंगो।

८१२. पंचिदिएसु धुविगाणं ओरालि० सव्वत्थो० अवत्त०। भुज०-अप्प० दोपदा असंखे०। अवट्ठि० असंखे०। मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० ओघं। सेसं पंचिदियतिरिक्खभंगो। पंचिदियपज्जत्तगेसु ओरालि० सादभंगो। सेसं तं चेव।

भङ्ग नारकियोंके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कपाय और आँदारिक शरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोका हैं। इनसे भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोका हैं। इनमें दो पदोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चपर्याप्तक और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयानिनी जीवोंमें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि आँदारिक शरीरका भङ्ग साता वेदनीयके समान है। शेष प्रकृतियोंका भी भङ्ग साता वेदनीयके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली और शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है।

८११. मनुष्योंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों और आँदारिक शरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोका हैं। इनसे भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनमें अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। किन्तु वैक्रियिक छह, आहारकट्टिक और तीर्थङ्करके पदोंका संख्यातगुणा करना चाहिये। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें इसी प्रकारसे ही जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहाँ संख्यात गुणा कहना चाहिये। मनुष्य अपर्याप्तक, सब एकेंन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पाँच स्थावरकाय और पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है। देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है।

८१२. पञ्चेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों और आँदारिक शरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोका हैं। इनसे भुजगार और अल्पतर इन दो पदोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र का भङ्ग आघकं समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें आँदारिक शरीरका भङ्ग साता वेदनीयके समान है। शेष भंग उर्मी प्रकार है।



८१३. तसेसु वेउन्वियञ्ज०-आहारदुगं [ मणुसभंगो । ] आदाव-थावर-सुहुम-साधार० देवगदिभंगो । सेसाणं ओघं । णवरि यम्हि अणंतगुणं तम्हि असंखेज्ज० । एवं पज्जत्त० । णवरि ओरालि० सादभंगो ।

८१४. तसअपज्जत्त० धुविगाणं सव्वत्थो० भुज० । अप्प० विसे० । अवट्ठि० असंखेज्ज० । सादासादा०-पंचणोक०-तिरिक्खग०-पंचिदि०-हुंडसं०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-तिरिक्खाणु०-तस०-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच-णीचा० सव्वत्थो० अवत्त० । अप्पद० संखेज्ज० । भुज० विसे० । अवट्ठि० असंखे० । मणुसगदि-मणुसाणु० ओघं । वीहंदि० सव्वत्थो० अवत्त० । भुज० संखेज्ज० । अप्पद० विसे० । अवट्ठि० असंखेज्ज० । सेसं तिरिक्खभंगो ।

८१५. पंचमण०-तिण्णिवचि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-देवगदि-ओरालि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-वेउन्वि०अंगो० वण्ण०४-देवाणु०-अगु०-[ उप०-] बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० सव्वत्थो० अवत्त० । भुज०-अप्पद० असंखेज्ज० । अवट्ठि० असंखेज्ज० । चदुआयु०-आहारदुगं ओघं । सेसाणं सव्वत्थो०

८१३. त्रसोमें वैक्रियिक छह और आहारक द्विकका भङ्ग मनुष्योंके समान है। आतप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण प्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समान है। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर अनन्तगुणा कहा है वहाँ पर असंख्यातगुणा कहना चाहिये। इसी प्रकार पर्याप्त त्रसोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि औदारिक शरीरका भङ्ग सातावेदनीयके समान है।

८१४. त्रस अपर्याप्तकोंमें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदके बन्धक जीव सबसे स्तांक हैं। इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव विशेष अधिक है। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं। सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, पञ्चन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तसृपाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और नीचगात्रके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तांक हैं। इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं। मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वीका भङ्ग आघके समान है। द्वीन्द्रिय जातिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तांक हैं। इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चोंके समान है।

८१५. पाँच मनायोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नव दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सातह कपाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थकर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तांक हैं। इनसे भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं। चार आयु और आहारकद्विकका भंग आघके समान है। शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तांक हैं। इनसे भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। इनसे अवस्थित

अवत्त० । भुज०-अप्पद० संखेज्ज० । अवट्ठि० असंखेज्ज० । दोवचि० तसपज्जत्तभंगो ।  
णवरि भुजगार-अप्पदरं समं कादव्वं ।

८१६. कायजोगि० ओघं । ओरालिय० तिरिक्खोघं । णवरि भुज०-अप्पद०  
सरिसं० । णवरि तित्थय० मणुसिभंगो । ओरालियमि० धुविगाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो ।  
एइदि०-आदाव-थावर-सुहूम-साधार० सव्वत्थो० अवत्त० । भुज० संखेज्ज० । अप्पद०  
विसे० । अवट्ठि० असंखे० । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० ओघं० । सेसाणं पंचिदियति-  
रिक्खभंगो । णवरि देवगदि०४ सव्वत्थोवा भुज० । अप्पद०-अवट्ठि० संखेज्ज० । एवं  
तित्थय० । अवत्त० णत्थि ।

८१७. वेउच्चि०-वेउच्चियमिस्स० देवोघं । णवरि थोणगिद्धि०३-अणंताणुबंधि०४  
अवत्त० णत्थि । आहार०-आहारमि० सव्वट्ठभंगो । कम्मइ० ओरालियमिस्सभंगो । णवरि  
अत्थदो विसेसो० ।

८१८. इत्थिवे० धुवि० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । पंचदंस०-मिच्छ०-वारसक०-भय-  
दुगुं०-तेजा० क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० सव्वत्थोवा अवत्त०-भुज० । अप्पद०

पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दो वचनयोगी जीवोंका भंग त्रस पर्याप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें भुजगार और अल्पतरपदकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व एक समान कहना चाहिए ।

८१६. काययोगी जीवोंमें अल्पबहुत्व आघ्रके समान है । औदारिक काययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें भुजगार और अल्पतर पदकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व एक समान कहना चाहिए । उसमें भी इतनी विशेषता और है कि तीर्थंकर प्रकृतिका भंग मनुष्यनियोंके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भंग पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । एकेंद्रिय जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भंग आघ्रके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कके भुजगार पदके बन्धक जीव सबके स्तोत्रक हैं । इनसे अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृतिकी अपेक्षा अल्पबहुत्व जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसका अवक्तव्य पद नहीं है ।

८१७. वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अल्पबहुत्व सामान्य देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन और अनन्तानुबन्धी चारका अवक्तव्य पद नहीं है । आहारक काययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें स्वार्थसिद्धिके देवोंके समान अल्पबहुत्व है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि इस विषयमें वस्तुतः जो विशेषता हो वह जान लेनी चाहिये ।

८१८. स्त्रीवेदी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । पांच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वासू कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरु-लघु, उपघात और निर्माणके अवक्तव्य और भुजगार पदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्रक हैं । इनमें अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे

असंखे० । अवट्टि० असंखेज्ज० । आहारदुग्-तित्थय० मणुसभंगो । सेसाणं पंचिदियभंगो । एवं पुरिसवेदे वि । णवरि तित्थयरस्स ओघं ।

८१९. णवुंसगे धुविगाणं सव्वत्थो० अप्प० । भुज० विसे० । अवट्टि० असंखे० । पंचदंस०-मिच्छ० बारसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४ अगु०-उप०-णिमि० सव्वत्थो० अवत्त० । अप्पद० अणंतगु० । भुज० विसे० । अवट्टि० असंखेज्ज० । इत्थिवे०-पुरिस० णिरयभंगो । सेसाणं ओघं । अवगदवे० सव्वपगदीणं सव्वत्थो० अवत्त० । भुज० संखेज्ज० । अप्पद० संखेज्ज० । अवट्टि० संखेज्ज० ।

८२०. कोधकसाए धुविगाणं णवुंसगभंगो । सेसाणं ओघं । एवं माण-माया-लोभाणं ।

८२१. मदि०-सुद० धुविगाणं तिरिक्खेघं । मिच्छ०-ओरालि० सव्वत्थो० अवत्त० । अप्पद० अणंतगु० । भुज० विसे० । अवट्टि० असंखेज्ज० । सेसाणं ओघं । विभंगे धुविगाणं देवोघं । मिच्छ०-देवगदि०-ओरालि०-वेउव्वि०-वेउव्विअंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा०-बादर-पज्जत्त-पत्तेय० सव्वत्थो० अवत्त० । भुज०-अप्प० असंखेज्जगु० । [अवट्टि०

हे । आहारकद्विक आर तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्याके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चान्द्रियोंके समान है । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंमें भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग आंधके समान है ।

८१६. नपुंसकवेदी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अल्पतर पदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेद और पुरुष-वेदका भङ्ग नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आंधके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

८२०. क्रोध कषायवाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नपुंसकोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आंधके समान है । इसी प्रकार मान, माया और लोभ कषायवाले जीवोंके जानना चाहिये ।

८२१. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । मिथ्यात्व और औदारिक शरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आंधके समान है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । मिथ्यात्व, देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष

असंखे०। सेसाणं पंचिदियमंगो ।

८२२. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-पुरिस०-भय०-दु०-  
दोगदि-पंचिदि०-चत्तारिसरीर-समचदु०-दोअंगो० वज्जरि०-वण्णा०४-दोआणु०-अगु०४  
पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० सव्वत्थो० अवत्त०।  
भुज०-अप्पद० असंखे० । अवट्ठि० असंखे० । सादादिवारस० मणुसमंगो । मणुसायु०-  
देवायुग-आहारदुगं ओघं ।

८२३. मणपज्जव० सव्वकम्माणं सव्वत्थो० अवत्त० । दोपदा० संखेज्ज० ।  
अवट्ठि० संखेज्ज० । दो आयु० मणुसि०मंगो । एवं संजद० ।

८२४. सामाइ० छेदोव० धुविगाणं सव्वत्थो० भुज०-अप्पद० । अवट्ठि० संखेज्ज० ।  
सेसाणं मणपज्जवमंगो । परिहार०[ आहार-] कायजोगिमंगो । णवरि आहारदुगं अत्थि ।  
सुहुमसंप० सव्व्वाणं सव्वत्थो० भुज० । अप्प० संखेज्ज० । अवट्ठि० संखेज्ज० । संजदा-  
संजद० धुविगाणं सव्वत्थो० भुज०-अप्पद० । अवट्ठि० असंखेज्ज० । सेसाणं ओधिमंगो ।  
णवरि तित्थय० मणुसि०मंगो । असंजद० सव्वपगदीणं ओघं ।

प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है ।

८२२. आभिनिवाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, चार शरीर, ममचतुरस्रसं-  
स्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रत्रयभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त  
विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, मुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगात्र और पाँच अन्नरायके  
अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्र हैं । इनसे भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव  
असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । माता आदि बारह  
प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है । मनुष्यायु, देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके  
समान है ।

८२३. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सब कर्मोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्र हैं ।  
इनसे दो पदोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।  
दो आयुओंका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये ।

८२४. सामाधिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार  
और अल्पतर पदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्र हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे  
हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । परिहारविशुद्धि संयत जीवोंका भङ्ग आहारक  
काययोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें आहारकद्विक है । नूत्नमाम्परायिक  
संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार पदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्र हैं । इनमें अल्पतर पदके  
बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । संयतसंयत  
जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्र हैं । इनमें  
अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान  
है । इतनी विशेषता है कि तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । असंयतोंमें सब  
प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

८२५. चक्रवुदंस० तसपज्जत्तभंगो । अचक्रवुदंस० ओघं । ओघिदंस० ओघि-  
णाणिभंगो ।

८२६. किण्ण नील-काऊसु तिरिक्खोघं । णवरि किण्ण-णीलासु तित्थय० मणुसि-  
भंगो । काऊए णिरयभंगो ।

८२७. तेऊए धुविगाणं सव्वत्थो० भुज०-अप्प० । अवट्ठि० असंखेज्ज० । थीण-  
गिद्धि०३-मिच्छ०-बारसक०-देवगदि०४-ओरालि०-तित्थय० सव्वत्थो० अवत्त० ।  
भुज०-अप्प० असंखे० । अवट्ठि० असंखे० । सेसाणं सव्वत्थोवा अवत्त० । भुज०-  
अप्प० संखेज्ज० । अवट्ठि० असंखेज्ज० । आहारदुगं ओघं । तिरिक्ख-देवायु० विभंग-  
भंगो । मणुसायु० देवभंगो । एवं पम्माए वि । णवरि ओरालि०अंगो देवगदिभंगो ।

८२८. सुक्काए पंचणा०-णवदंस०-मिच्छत्त०-सोलसक०-भय-दुगुं०-दोगदि-पंचिदि०-  
चदुसरीर-दोअंगो०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० सव्वत्थोवा  
अवत्त० । भुज०-अप्पद० असंखेज्ज० । अवट्ठि० असंखेज्ज० । सेसाणं पम्माए भंगो ।  
दोआयु० मणु०सिभंगो ।

८२५. चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । अचक्षुःदर्शनवाले जीवोंमें  
ओघके समान भङ्ग है । अवधिदर्शनवाले जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है ।

८२६. कृष्ण, नील और कापांत लेश्यावाले जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है ।  
इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यावाले जीवोंमें तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यनियोंके  
समान है । कापांत लेश्यावाले जीवोंमें तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

८२७. पीत लेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके  
बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । स्त्यानगुद्धि  
तीन, मिथ्यात्व, बारह कपाय, देवगति चतुष्क, औदारिक शरीर और तीर्थकर प्रकृतिके अवक्तव्य  
पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे  
हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक  
जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे  
अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चायु  
और देवायुका भङ्ग विभङ्गज्ञानियोंके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है । इसी प्रकार  
पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि औदारिक आङ्गोपाङ्गका भङ्ग  
देवगतिके समान है ।

८२८. शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय,  
भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चन्द्रिय जाति, चार शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी,  
अगुरुलघु चतुष्क, निर्माण, तीर्थकर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक  
हैं । इनसे भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक  
जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पद्म लेश्याके समान है । दो आयुओंका भङ्ग मनुष्य-  
नियोंके समान है ।

८२६. भवसि० ओषं । अन्भवसि० मदि०भंगो । णवरि मिच्छ० अवत्तव्वं णत्थि ।

८३०. सम्माइ०-खइयस० ओधिभंगो । णवरि खइगे देवायु०मणुसि०भंगो । वेदगे धुविगाणं सव्वत्थो० भुज०-अप्पद० । अवट्ठि० असंखेज्ज० । सेसं ओधिभंगो । उवसम० ओधिभंगो । णवरि तित्थय० मणुसि०भंगो । सासणे धुविगाणं देवभंगो । सेसाणं साद-भंगो । णवरि ओरालि०-ओरालि०अंगो० सव्वत्थो० अवत्त० । भुज०-अप्पद० असंखेज्ज० । अवट्ठि० असंखेज्ज० । सम्मामि० सासण०भंगो । किंचि विसेसो । मिच्छादिट्ठि० मदि०भंगो ।

८३१. सण्णि० मणजोगिभंगो । असण्णीसु ओरालि०-ओरालि०अंगो० ओषं । सेसं मदि०भंगो । आहार० ओषं । अणहार० कम्मइगभंगो ।

एवं अप्पाबहुगं समत्तं ।

एवं भुजगारबंधो समत्तो ।


८२६. भव्य जीवोंके आघके समान भङ्ग है । अभव्य जीवोंमें मन्यज्ञानियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद नहीं है ।

८३०. सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवायुका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । वेद-सम्यग्दृष्टि जीवोंमें भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्र हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । सामादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग देवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भंग साता वेदनीयके समान है । इतनी विशेषता है कि औदारिक शरीर और औदारिक आङ्गापाङ्गके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्र हैं । इनमें भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं । इनमें अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान भङ्ग है । किन्तु यहाँ कुछ विशेषता है । मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है ।

८३१. संज्ञी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है । असंज्ञी जीवों में औदारिक शरीर और औदारिक आङ्गापाङ्ग का भङ्ग आघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । आहारक जीवोंमें आघके समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार भुजगारबन्ध समाप्त हुआ ।



## पदणिक्खेवो

८३२. पदणिक्खेवे तिण्णि अणियोगदाराणि । तत्थ इमाणि समुक्कित्तणा सामित्तं अप्पावहुगे त्ति ।

## समुक्कित्तणा

८३३. समुक्कित्तणाए दुविधं—जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वाणं पगदीणं अत्थि उक्कस्सिया वड्डी उक्कस्सिया हाणी उक्कस्सय-मवट्ठाणं । एवं अणाहारग त्ति ।

८३४. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वाणं पगदीणं अत्थि जहण्णिया वड्डी जहण्णिया हाणी जहण्णयमवट्ठाणं । एवं याव अणाहारग त्ति ।

एवं समुक्कित्तणा समत्ता ।

## सामित्तं

८३५. सामित्तं दुविधं—जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०—णवदंसणा०—असादा०—मिच्छ०—सोलसक०—णवुंस०—अरदि—सोग-भय-दुगुं०—तिरिक्खगदि—एहं०—ओरालि०—तेजा०—क०—हुंडसं०—वण्ण०४—तिरिक्खाणु०—अगु०४—आदाउज्जो०—थावर बादर पज्जत्त-पत्ते०—अथिरादिपंच०—णिमि०—णीचा०—पंचंत०—उक्क०—वड्डी कस्स होदि? यो चदुट्ठाणिययवमज्झस्स उवरि अंतोकोडाकोडी द्विदिवंधमाणो तप्पाओग्ग-उक्कस्ससंकिलेसेण उक्कस्सयं दाहं गदो ततो उक्कस्सयं द्विदिवंधो तस्स उक्कस्सिया वड्डी ।

## पदनिक्षेप

८३२. पदनिक्षेपमे तीन अनुयांग द्वार हैं । जो ये हैं—समुक्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पवहुत्व ।

## समुक्कीर्तना

८३३. समुक्कीर्तना दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये ।

८३४. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार समुक्कीर्तना समाप्त हुई ।

## स्वामित्व

८३५. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता-वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय-जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, काम्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलक्ष चतुष्क, आतप, उग्रोत्, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है? जो चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपर अन्तःकोडाकोडी स्थितिका बन्ध करनेवाला तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे उत्कृष्ट दाहको प्राप्त

उक्कस्सिया हाणी कस्स० ? यो उक्कस्सयं द्विदिवंधमाणो मदो एहंदिए जादो तप्पाओग्ग-  
जहण्णए पडिदो तस्स उक्कस्सिया हाणी । उक्कस्सयमवट्ठाणं कस्स० ? यो उक्कस्सयं द्विदि-  
बंधमाणो सागारक्खयेण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्कस्सयमवट्ठाणं ।  
सादावे०-हस्स-रदि-थिर सुभ-जसगि एदाणं णाणावरणभंगो । णवरि तप्पाओग्गसंकिलिट्ठा  
त्ति भाणिदव्वं । इत्थि०-पुरिस०-मणुस० देवगदि-तिण्णिजादि ओरालियसरीरअंगोवंग-  
पंचसंठा०-पंचसंध०-दोआणु०-पसत्थ०-सुहुम-[ अ- ] पज्जत्त-साधार०-सुभग-सुस्सर-आदे०-  
उच्चा० उक्कस्सिया वड्डी कस्स० ? यो यवमज्झस्स उवरि अंतोकोडाकोडी द्विदिवंधमाणो  
तप्पाओग्गसंकिलेसेण तप्पाओग्गउक्कस्सदाहं गदो तप्पाओग्गउक्कस्सद्विदिवंधो तस्स उक्क-  
स्सिया वड्डी । उक्कस्सिया हाणी कस्स० ? यो उक्कस्सद्विदिवंधमाणो सागारक्खएण पडि-  
भग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्कस्सिया हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमव-  
ट्ठाणं । णिरयगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-वेउव्विअंगो०-असंपत्त०-णिरयाणु०-अप्पसत्थ०-  
तस-दुस्सर० उक्कस्सिया वड्डी कस्स० ? यो चदुट्ठाणिययवमज्झस्स उवरि अंतोकोडाकोडी  
द्विदिवंधमाणो उक्कस्सयं दाहं गदो तदो उक्कस्सयं द्विदिवंधो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क०  
हाणी० कस्स होदि ? यो उक्कस्सयं द्विदिवंधमाणो सागारक्खयेण पडिभग्गो तप्पाओग्ग-  
जहण्णए पडिदो तस्स उक्कस्सिया हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं । आहार०

होकर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन  
है ? जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला मरकर एकेंद्रियोंमें उपन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य  
स्थितिका बन्ध करने लगता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ?  
जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य  
जघन्य स्थितिका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । सातावेदनीय, हास्य, रति,  
स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इनका ज्ञानावरणके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहाँ तत्प्रा-  
योग्य संक्रिष्ट जीव स्वामी होता है ऐसा कहना चाहिए । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगति, देवगति,  
तीन जाति, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, प्रशस्त विहायो-  
गति, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी  
कौन है ? जो यवमध्यके ऊपर अन्तःकोडाकोडी स्थितिका बन्ध करनेवाला तत्प्रायोग्य मंक्केशके  
कारण तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट दाहका प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट  
वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला साकार  
उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका  
स्वामी है । तथा वही तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । नरकगति, पञ्चेंद्रियजाति,  
वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तमृपाटिका मंहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त  
विहायोगति, त्रस और दुःस्वरकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है । जो चतुःस्थानिक यवमध्यके  
ऊपर अन्तःकोडाकोडी स्थितिका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट दाहका प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध  
करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध  
करनेवाला साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है  
वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । आहारक



आहार०अंगो०-तिथ्य० उक्त० वड्डी कस्स० ? यो तप्पाओग्गजहण्णयं द्विदिबंधमाणो तप्पाओग्गजहण्णियादो संकिलेसादो तप्पाओग्गउक्तस्सयं संकिलेसं गदो तप्पाओग्गउक्त० द्विदि० तस्स उक्तस्सिया वड्डी । उक्त० हाणी कस्स० ? यो तप्पाओग्गउक्तस्सयं द्विदिबंधमाणो सागारक्खयेण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्तस्सिया हाणी । तस्सेव से काले उक्तस्सयमवट्ठाणं । एवं ओघमंगो कायजोगि-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-आहारग ति ।

८३६. गिरएसु पंचणाणावरणादीणं उक्तस्सयं संकिलिट्ठाणं ओघं गिरयगदिणाम-मंगो । सादादीणं तप्पाओग्गसंकिलिट्ठाणं ओघं इत्थिबेदमंगो । तिथ्य० ओघमंगो । एवं सव्वणिरयाणं । णवरि सत्तमाए मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० तिथ्यरमंगो ।

८३७. तिरिक्खेसु गिरयोघमंगो । मणुस०३-पंचिदि०२-तस०२-पंचमण०-पंच-वचि०-ओरालि०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-विमंग०-चक्खुदं०-पम्मले०-सण्णि ति एदाणं उक्तस्ससंकिलिट्ठाणं ओघं गिरयगदिमंगो । तप्पाओग्गसंकिलिट्ठाणं ओघं इत्थि०मंगो ।

८३८. सव्वअपज्जत्त० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण०४ - तिरि-क्खाणु०-अगु०-उप०-थावरादि०४-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्त० वड्डी०

शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थकर प्रकृतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला तत्प्रायोग्य जघन्य संक्लेशसे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशका प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

८३६. नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि उत्कृष्ट संक्लेशसे बंधनेवाली प्रकृतियोंका भङ्ग ओघमें कही गयी नरकगति नामकर्मकी प्रकृतिके समान है । तत्प्रायोग्य संक्लेशसे बंधनेवाली साताआदि प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके अनुसार कहे गये स्त्रीवेदके समान है । तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सब नारकियोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग तीर्थङ्कर प्रकृतिके समान है ।

८३७. तीर्थस्त्रोमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । मनुष्यत्रिक, पञ्चैन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, औदारिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, विभङ्गज्ञानी, चक्षुदर्शनी, पद्मालेश्यावाले और संज्ञा इनमें उत्कृष्ट संक्लेशसे बंधनेवाली प्रकृतियोंका भङ्ग ओघमें कही गई नरकगतिके समान है । तत्प्रायोग्य संक्लेशसे बंधनेवाली प्रकृतियोंका भङ्ग ओघमें कहे गये स्त्रीवेदके समान है ।

८३८. सब अपयाप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शाक, भय, जुगुप्सा, तीर्थस्त्रगति, एकैन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, हुण्डमंस्थान, वणचतुष्क, तीर्थस्त्रगत्यानुपूर्वी, अग्ररुलघु, उपघान,

कस्स० ? यो जहण्णादादो संकिलेसादो उक्कस्सयं संकिलेसं गदो उक्कस्सयं द्विदिं पि बंधो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स होदि ? यो उक्कस्सयं द्विदिवं० सागारक्खएण० पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णाए पदिदो तस्स उक्कस्सिया हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्सय-मवट्ठाणं । सेसाणं सादादीणं तं चेव । णवरि तप्पाओग्ग ति भाणिदव्वं । एवं आणदादि याव सव्वट्ठा ति सव्वएइंदि०-विगलिंदि०' पंचकायाणं च । देवा याव सहस्सार ति णिरयभंगो । ओरालियि०-वेउव्वियमि०-आहारमि० अपज्जत्तभंगो । वेऽव्विय०-आहारका० देवभंगो । कम्मइगा० ओरालियिमिस्सभंगो । णवरि अवट्ठाणं वादरएइंदियस्स कादव्वं ।

८३६. अवगदवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-जसगि०-उच्चा०-पंचंत०

उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्णद० उवसामगस्स अणियट्ठीवादरसांपराइगस्स दुचरिमादो द्विदिवंधादो चरिमे द्विदिवंधे वट्टमाणगस्स तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? अण्णदरस्स खवगस्स अणियट्ठी० पढमादो द्विदिवंधादो विदिए द्विदिवंधे वट्टमाण० तस्स० उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं ।

८४०. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-छदंसणा०-असादा० वारसक०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुग्ग०-दोगदि-पंचिदि०-चदुसरी०-समचदु०-[ दो ] अंगो०-वज्जरिस०

स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नाचगोत्र और पांच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हैं ? जो जघन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हैं ? जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्य बन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वह तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । शेष मातादि प्रकृतियोंका यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तत्प्रायोग्यके कहना चाहिए । इसी प्रकार आनन कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके तथा मद्य एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पांच स्थावरकायिक जीवोंके कहना चाहिए । सामान्य देव और सहस्रार कल्पतकके देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । औदारिक मिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकामिश्रकाययोगी जीवोंमें अपयांप्रकोके समान भङ्ग है । वैक्रियिक काययोगी और आहारक काययोगी जीवोंमें देवोंके समान भङ्ग है । कामणकाय-योगी जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अवस्थान वादर एकेन्द्रियके करना चाहिए ।

८३६. अपगतवेदी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, आतावेदनीय, चार संव्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हैं ? जो अन्यतर उपशामक अनिवृत्तिवादरसाम्परायिक जीव द्विचरम स्थितिवन्धसे अन्तिम स्थितिवन्धमें अर्थास्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हैं ? जो अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव प्रथम स्थितिवन्धसे द्वितीय स्थितिवन्धमें विद्यमान है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

८४०. आभिनिवाधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अर्थाधिज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, अर्थात् शोक, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चे-

वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-  
 अज०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो जहण्णयं द्विदिवंधमाणो  
 तप्पाओग्गजहण्णगादो संकिलेसादो उक्कस्सयं संकिलेसं गदो उक्कस्सयं द्विदिवंधो तस्स  
 मिच्छत्ताभिमुहस्स चरिमे उक्कस्सए द्विदिवंधे वट्टमाण० तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणो  
 कस्स० ? उक्कस्सयं द्विदिवंधमाणो सागारक्खयेण पडिभग्गो तप्पाओग्ग० जह० द्विदी०  
 तस्म उक्क० हाणी । वड्डीए चेव उक्कस्सयं अवट्टायं । सादावे०-हस्स-रदि-आहारदुग-थिर-  
 सुभ०-जसगि० आहार०भंगो । एवं मणपज्जव-संजद-सामाह्यच्छेदो०-परिहार०-संजदा-  
 संज०-ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम०-सम्मामिच्छा० । णवरि खइगे उक्क-  
 स्सयं संकिलेसं कादव्वं । सुहुमसंप० अवगद०भंगो । [ किण्ण० णील काउ० णिरयभंगो ।  
 तेउए सोधम्मभंगो । मुक्काए ] णवगेवज्जभंगो । सासणे णेरइगभंगो । असण्णि० तिरि-  
 क्खोवं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं उक्कस्ससामित्तं समत्तं

८४१. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-  
 मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-तिरिक्खदुग-पंचिदि०-ओरालि०-वेउत्वि०-तेजा०-क०-दो-  
 अंगो०-वण्ण०४-अगु०४-उज्जोव-तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० कस्स० ?

न्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुरस्र संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ; सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तत्प्रायोग्य जघन्य संक्लेशने उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है और जो मिथ्यात्वके अभिसुग्य होकर अन्तिम उत्कृष्ट स्थितिवन्धमे विद्यमान है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । और वृद्धिके होनेपर ही उत्कृष्ट अवस्थान होता है । सातावेदनीय, हास्य, रंति, आहारकद्विक, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिक भाङ्ग आहारकाययोगी जीवोंके समान हैं । इसी प्रकार मनःपर्यङ्गानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धि संयत, संयतासंयत, अधविदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, श्रायिक सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । इनकी विशेषता है कि श्रायिक सम्यक्त्वमे उत्कृष्ट संक्लेश करना चाहिये । सूक्ष्मसाम्प्रायिकसंयत जीवोंमे अपगन-वेदी जीवोंके समान भङ्ग है । कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंमे नारकियोंके समान भङ्ग है । पीतलेश्यावाले जीवोंमे सौधर्म कल्पके समान भङ्ग है । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमे नोप्रावेयकके समान भङ्ग है । सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमे नारकियोंके समान भङ्ग है । असंज्ञी जीवोंमे सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमे कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

८४१. जघन्यका प्रवरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चद्विक, पञ्चन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरु-

अण्ण० जो समयूणं उक्खस्सट्ठिदिं बंधमाणो पुण्णाए ट्ठिदिबंधगद्दाए उक्खस्सए संकिलेसं गदो तदो उक्खस्सयं ट्ठिदिं पबद्धो तस्स जह० वड्डी । जहणिया हाणी कस्स० ? यो समजुत्तरं सव्वजह० ट्ठिदि० पुण्णाए ट्ठिदिबंधगद्दाए उक्खस्सयं विसोधिं गदो तदो दाह० ट्ठिदि० तस्स जहणिया हाणी । एकदरत्थमवट्ठाणं । सादावे० पुरिस०-हस्स-रदि-दो-गदि-समचट्ठु०-वज्जरिस-दोआणु०-पसत्थ०-थिरादिछ०-उच्चा० जह० वड्डी कस्स ? यो समयूणं तप्पाओग्गउक्खस्सयं ट्ठिदिं बंध० तप्पाओग्गउक्ख संकिले० तदो उक्ख० ट्ठिदिबंध० तस्स जहणिया वड्डी । जह० हाणी कस्स० ? यो समजुत्तरं तप्पाओग्गजह० माणो उक्खस्सं विसोधिं गदो तदो सव्व जह० तस्स जह० हाणी । एकदरत्थमवट्ठाणं । असादा०-णवुंस०-अरदि-सोग-णिरयगदि-एइंदि०-हुंड०-असंपत्त०-णिरयाणु०-अप्प-सत्थवि०-आदाव-थावर-अथिरादिछ० जह० वड्डी कस्स० ? यो समयूणं उक्खस्सयं ट्ठिदिं बंध० पुण्णाए ट्ठिदि बंध० उक्खस्सयं संकिलेसं गदो तदो उक्ख० ट्ठिदि० तस्स जह० वड्डी । जह० हाणी० कस्स० ? या तप्पाओग्गजह० समजुत्तरं ट्ठिदि० तप्पाओग्ग विसोधिं गदो तदो जह० ट्ठिदि० तस्स जह० हाणी । एगदरत्थमवट्ठाणं । इत्थिवे०-त्तिण्णिजादि-चट्ठुसंठा०-चट्ठुसंध०-सुहुम-अपज्ज०-साधार० जह० वड्डी कस्स ? यो समयूणं तप्पाओग्गउक्ख० ट्ठिदि०माणो पुण्णाए ट्ठिदिबंधगद्दाए तप्पाओग्गउक्ख०

लघुचतुष्क, उद्योत, त्रस चतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र, और पाँच अन्नरायकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कालके पूर्ण हो जानेपर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो एक समय अधिक मद्यमे जघन्य स्थितिबन्ध करनेवाला स्थितिबन्धके कालके पूर्ण होनेपर उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर जघन्य स्थितिबन्ध करता है वह जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । आतावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, दो गति, समचतुरस्र संस्थान, वज्ररूपभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो एक समय कम तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो एक समय अधिक तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्ध करनेवाला जीव उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर सबसे जघन्य स्थितिबन्ध करता है वह जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । आतावेदनीय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, एकन्द्रियजाति, हुण्ड-संस्थान, अमम्प्रासृपाटिका संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्तविहायोगति, आतप, स्थावर और अस्थिर आदि छहकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव स्थितिबन्ध कालके पूर्ण हो जानेपर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो एक समय अधिक तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्ध करनेवाला जीव तत्प्रायोग्य विशुद्धिको प्राप्त होकर जघन्य स्थितिबन्ध करता है वह जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । र्त्वीवेद, तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, सूक्ष्म, अपर्याप्त और माधारणकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो एक समय कम तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला जीव स्थितिबन्ध

द्विदि० तस्स जह० वड्डी । जह० हाणी कस्स० ? समजुत्तरं तप्पाओग्गज० द्विदि० पुण्णाए द्विदिवं० तप्पाओग्गउक्क० विसोधिं गदो तप्पाओग्गजह० द्विदि० तस्स जह० हाणी । एकदरत्थमवट्ठाणं । आहार०-आहार०अंगो०-तित्थय० जह० वड्डी कस्स० ? यो समजुत्तरं तप्पाओग्गउक्क० द्विदि० पुण्णाए द्विदिवं० तप्पाओ० उक्कस्ससंकिले० तदो तप्पाओ० उक्क० द्विदि० तस्स जह० वड्डी । जह० हाणी कस्स० ? यो समजुत्तरं सब्व जह० द्विदि० पुण्णाए द्विदिवंधगट्ठाए उक्कस्सिया विसोधिं गदो तदो सब्व जह० बंधो तस्स जह० हाणी । एकदरत्थमवट्ठाणं । एवं ओघभंगो पंचिंदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-सण्णि-आहारग ति ।

८४२. णेरहएसु पंचणा०-णवदंदणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० जह० वड्डी-हाणी-अवट्ठाणं ओघं णाणावरणीयभंगो । साद०-पुरिस०-हस्स-रदि मणुसग०-समचदु०-वज्जरिस०-मणुसाणु०-पसत्थ०-थिरादिळ०-उच्चा० जह० वड्डी-हाणि-अवट्ठाणं ओघं । असादा०-णवुं स०-अरदि-सोग-तिरिक्खग०-हुंड०-असंपत्त०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-अप्प-

कालके पूर्ण हो जानेपर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो एक समय अधिक तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिवन्ध करनेवाला जीव स्थितिवन्ध कालके पूर्ण हो जानेपर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिवन्ध करता है वह जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थकर प्रकृतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो एक समय अधिक तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाला जीव स्थितिवन्ध कालके पूर्ण हो जानेपर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो एक समय अधिक सबसे अधिक जघन्य स्थितिवन्ध करनेवाला जीव स्थितिवन्ध कालके पूर्ण हो जानेपर उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर जघन्य स्थितिवन्ध करता है वह जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । इसी प्रकार ओघके समान पञ्चेन्द्रिय, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

८४२. नारकियोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियज्ञानि, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रम चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानका स्वामी ओघमे कहे गये ज्ञानावरणीयके समान है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रपभनाराचमहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायांगति, स्थिर आदि बृह और उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानका स्वामी ओघके समान है । अमातावेदनीय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, निर्यञ्जगति, हुण्डसंस्थान, अस-प्रामाम्पाटिका संहनन, निर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायांगति, अस्थिर आदि बृह और

सत्थ०-अथिरादिछ०-णीचा० ओघं असादभंगो । इत्थिवे०-चदुसंठा०-चदुसंघ० ओघं इत्थिभंगो । तित्थय० ओघं । एवं सव्वणिरयाणं । णवरि सत्तमाए मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० तित्थय०भंगो ।

८४३. तिरिक्खेसु ओघेण साघेदव्वं । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्त० पंचणा०-णवदं-सणा०-सोलसक०-मिच्छ०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०-४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत०-जहण्णि० तिण्णि वि ओघभंगो । साद०-पुरिस०-हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचिदि०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिस०-मणुसाणु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०-४-थिरा-दिछ०-उच्चा० ओघं आहारसररीरभंगो । असादा०-णवुंस०-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-एइंदि०-हुंडसं०-तिरिक्खाणु०-थावरादि०-४-अथिरादिछ०-णीचा० ओघं असादभंगो । इत्थिवे०-तिण्णिजादि-चदुसंठा०-चदुसंघ०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० ओघं इत्थि-भंगो । एवं सव्वअपज्जत्तगाणं आणद याव उवरिमाणं देवाणं । हेट्ठ्ठाणं णिरयभंगो ।

८४४. मणुस०३ तिरिक्खभंगो । एइंदिय-पंचकायाणं विगलित्तियाणं च अपज्जत्त-भंगो । ओरालियका०-ओरालियमि० तिरिक्खोघं । वेउव्विय० वेउव्वियमि० देवोघं । णवरि मिस्से आणदभंगो । आहार०-आहारमिस्स० णिरयभंगो । कम्मइग० अवट्ठ्ठाणं

नीचगोत्रका भङ्ग ओघमें कहे गये असातावेदनीयके समान हैं । स्त्रीवेद, चार संस्थान और चार मंहननका भङ्ग ओघके अनुसार कहे गये स्त्रीवेदके समान हैं । तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान हैं । इसी प्रकार सब नारकियोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मानवीं पृथिवीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भंग तीर्थंकर प्रकृतिके समान हैं ।

८४३. तिर्यञ्चोंमें ओघके अनुसार माध लेना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कपाय, मिथ्यात्व, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायके जघन्य तीनों ही ओघके समान हैं । मातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, ममचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गापाङ्ग, वर्रर्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्रका भङ्ग ओघमें कहे गये आहारक शरीरके समान हैं । असातावेदनीय, नपुंसकवेद, अरति, शांति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्रका भङ्ग ओघमें कहे गये असातावेदनीयके समान हैं । स्त्रीवेद, तीन जाति, चार संस्थान, चार मंहनन, आतप, उद्यान, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका भङ्ग ओघमें कहे गये स्त्रीवेदके समान हैं । इसी प्रकार सब अपर्याप्तकोंके तथा आनत कल्पसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देवोंके जानना चाहिए । नीचेके देवोंके नारकियोंके समान भङ्ग हैं ।

८४४. मनुष्यत्रिकमें तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग हैं । एकेन्द्रिय, पांच स्थावरकार्यिक और विकलेन्द्रियोंमें अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग हैं । औदारिक काययोगी और औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग हैं । वैक्रियक काययोगी और वैक्रियक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग हैं । इतनी विशेषता है कि वैक्रियक मिश्रकाययोगी जीवोंमें आनत कल्पके समान भङ्ग हैं । आहारक काययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें नारकियोंके

एहंदियभंगो । सेसाणि णत्थि ।

८४५. इत्थि०-पुरिस० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । णवुंसगे तिरिक्खोघं । अवग्दवे० सव्वकमाणं जह० वड्डी कस्स० ? अण्णदरस्स उवसमग० परिवद० पढमट्टिदिबंधादो विदिए द्विदिबंधे वट्टमा० तस्स जहणिया वड्डी । जह० हाणी कस्स० ? अण्णद० खवग० सुहुमसंप० दुचरिमादो द्विदिबंधादो चरिमे द्विदिबंधे वट्टमा० तस्स जह० हाणी । तस्सेव से काले जह० अवट्टाणं । चदुंसज० अवट्टिदस्स कादव्वं । एवं सुहुमसंप० । [ विभंगे णिरयभंगो ]

८४६. आभि०-सुद०-ओधि० मणपज्ज०-संजद-सामाह०-छेदो०-परिहार-संजदा-संजद-ओधिदंस०-सम्मदि०-खइग०-वेदगस०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० णाणा-वरणादि-सादासाद-आहारदुग-तित्थय० एदे अप्पणो द्विदिबंधेण ओषेण साधेदव्वं । किण्ण-णील-काउ० णिरयोघं । तेउ० सोधम्मभंगो । पम्माए सहस्सारभंगो । सुक्काए णवगेवज्जभंगो । असण्णि० तिरिक्खोघं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं जहणसामित्तं समत्तं ।

८४७. एत्तो जहण्णुकस्ससामित्तसाधणट्ठं जहण्णुकस्समद्वच्छेदादो उकस्स-संकिलिट्ठं तप्पाओग्गसंकिलिट्ठं उकस्सविसोधि-तप्पाओग्गविसोधीहि जहण्णुकस्स-

समान भङ्ग है । कर्मण काययोगी जीवोंमें अवस्थानका भङ्ग एकेंन्द्रियोंके समान है । शेष पद नहीं हैं ।

८४५. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । नपुंसकवेदी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भंग है । अपगतवेदी जीवोंमें सब कर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो गिरनेवाला अन्यतर उपशामक प्रथम स्थितिवन्धसे आकर द्वितीय स्थितिवन्धमें अवस्थित है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर क्षपक सूक्ष्म-साम्परायिक जीव द्विचरम स्थितिवन्धमें अन्तिम स्थितिवन्धमें अवस्थित है वह जघन्य हानिका स्वामी है । तथा वही तदनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है । चार संज्यलनका भंग अवस्थितके करना चाहिए । इसी प्रकार सूक्ष्म साम्परायिक संयत जीवोंके जानना चाहिए । विभंगज्ञानी जीवोंमें नारकियोंके समान भंग है ।

८४६. आभिनिवाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अधधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक-संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिक-सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशामसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यगिमथ्यादृष्टि जीवोंमें ज्ञानावरणादि, सातावेदनीय, असातावेदनीय, आहारकट्टिक और तीर्थङ्कर इन प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धिवन्ध आदिका स्वामित्व अपने अपने स्थितिवन्धका ध्यानमें रखकर ओघके अनुसार साध लेना चाहिए । कृष्ण, नील और कापातलेश्यावाले जीवोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । पीत-लेश्यावाले जीवोंमें सौधर्म कल्पके समान भङ्ग है । पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सहस्वार कल्पके समान भङ्ग है । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें नौग्रैवेयके देवोंके समान भङ्ग है । असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ ।

८४७. इसके आगे जघन्योत्कृष्ट स्वामित्वकी सिद्धि करनेके लिए जघन्य उत्कृष्ट अद्धाच्छेदके अनुसार उत्कृष्ट संक्लिष्ट, तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट, उत्कृष्ट विशुद्धि और तत्प्रायोग्य विशुद्धिको जहाँ जो

सामित्तं साधेदब्बं ।

एवं सामित्तं समत्तं ।

### अप्पाबहुगं

८४८. अप्पाबहुगं दुविधं-जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधं-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेदणी०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-चदुणोक०-भय-दु०-तिरिक्खग०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-आदाउज्जो०-थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-थिराथिर-सुभासुभ-दृभग-अणादे०-जस०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० सव्वत्थोवा उक्क० वड्डी । उक्क० अवट्टाणं विसे० । उक्क० हाणी विसे० । आहारदुगं सव्वत्थोवा उक्क० हाणी अवट्टाणं च । वड्डी संखेज्जगु० । तित्थय० सव्वत्थोवा उक्क० हाणी अवट्टाणं च । उ० वड्डी संखेज्जगु० । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क० वड्डी । हाणी अवट्टाणं च दो वि तुल्लाणि विसे० । एवं ओघभंगो कायजोगि-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-आहारग ति ।

८४९. अवगदवे०-सुहुमसंप० सव्वाणं सव्वत्थोवा उक्क० हाणी अवट्टाणं च दो वि तुल्ला । उक्क० वड्डी संखेज्जगु० । आभि०-सुद०-ओधि०-मणपज्जव-संजद-सामाह०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद०-ओधिदं०-सम्मदि०-खहग०-वेदग०-उवसम०-सम्मामि०

सम्भव हां ध्यानमं रखकर जघन्यात्कृष्ट स्वामित्व साध लेना चाहिए ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

### अल्पबहुत्व

८४८. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, चार नाकपाय, भय, जुगुप्सा, निर्यञ्जगति, पक्कं-न्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामणशरीर, हृण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, निर्यञ्जगत्यानु-पूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, आतप, उद्योत, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगात्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोत्र है । इससे उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है । इसमें उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । आहारकद्विककी उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोत्र है । इसमें उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोत्र है । इसमें उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोत्र है । इससे उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक है । इसी प्रकार आघके समान काय-योगी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

८४९. अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोत्र है । इनमें उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है । आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामाधिक संयत, छेदो-पस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि संयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, मग्यदृष्टि, ज्ञायिकमग्यदृष्टि,



सन्वत्थोवा उक्कस्सिया हाणी अवट्ठाणं च दो वि तुल्ला । उ० वड्डी संखेज्जगु० । सादादीणं एसिं सत्थाणं उक्कस्सियं तेसिं सन्वत्थोवा उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी अवट्ठाणं च दो वि तुल्ला विसे० । सेसाणं णिरयादि याव असण्णि त्ति सन्वत्थोवा उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी अवट्ठाणं च दो वि तुल्ला विसे० । णवरि कम्मइग-अणाहारगेसु सन्वत्थोवा उक्क० अवट्ठाणं । वड्डी संखेज्जगु० । उ० हाणी विसेसाहिया ।

एवं उक्कस्सयं समत्तं

८५०. जहण्णाए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सन्वकम्माणं जह० वड्ढि-हाणि-अवट्ठाणं च तिण्णि वि तुल्ला । एवं णेरइगादि याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । णवरि अवगदवे० सन्वत्थोवा जह० हाणी अवट्ठाणं च दो वि तुल्ला । जह० वड्डी संखेज्जगु० । एवं सुहुमसंप० ।

एवं अप्पावहुगं समत्तं ।

पदणिक्खेवे त्ति समत्तं ।

## वड्ढिवंधो

८५१. वड्ढिवंधे त्ति तत्थ इमाणि तेरसेव अणियोगद्वाराणि । तं यथा—समुक्कित्ताणा याव अप्पावहुगे त्ति ।

वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मध्यादृष्टि जीवोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोत्र हैं । इनमें उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी हैं । मातादिमेंसे जिनका अवस्थान उत्कृष्ट होता है उनकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोत्र हैं । इसमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक है । शेष नारकियोंसे लेकर असंज्ञी तककी मार्गणाओंमें उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोत्र हैं । इसमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक है । इतनी विशेषता है कि कामणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोत्र हैं । इसमें उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी हैं । इसमें उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

८५०. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश का प्रकार है—आघ और आदेश । आघमें सब कर्मोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान तीनों ही तुल्य हैं । इसी प्रकार नारकियोंसे लेकर अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपगत-वेदी जीवोंमें जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान दोनों ही तुल्य हो कर सबसे स्तोत्र हैं । इनसे जघन्य वृद्धि संख्यातगुणी हैं । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्प्रदायिक जीवोंके जानना चाहिए ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार पदान्तेप समाप्त हुआ ।

## वृद्धिवन्ध

८५१. अब वृद्धिवन्धका प्रकरण है । वहाँ ये तरह अनुयोगद्वार हैं । यथा—समुत्कीर्तनामे लेकर अल्पबहुत्व तक ।

## समुक्कित्तणा

८५२. समुक्कित्तणाए दुवि० ओघे० आदे० । ओघे० खवगपगदीणं अत्थि चत्तारि वड्ढी चत्तारिहाणी अवट्ठिद-अवत्तव्वबंधगा य । चटुण्णं आयुगाणं मूलपगदिभंगो । सेसाणं पगदीणं अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० अवत्तव्वबंधगा य । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिंदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-चक्खुदं०-अच-क्खुदं०-भवसि०-सण्णि-आहारग ति ।

८५३. णेरइएसु धुवियाणं अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठिद-बंधगा य । सेसाणं तित्थयरेण सह अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठिद-अवत्तव्व-बंधगा य । दो आयु० अत्थि असंखेज्जभागहाणि-अवत्तव्वबंधगा य । एवं सव्वणिरय सव्वतिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-सव्व-देव० पंचिंदिय-तसअपज्जत्तगाणं च ।

८५४. एहंदि-पंचकाएसु धुविगाणं अत्थि एकवड्ढि-हाणि-अवट्ठिद-बंधगा य । सेसाणं अत्थि एक-वड्ढि-हाणि-अवट्ठिद-अवत्तव्वबंधगा य । विगलंदि-पज्जत्त-अपज्जत्त-मु धुविगाणं अत्थि वे वड्ढि-हाणि-अवट्ठिद-बंधगा य । सेसाणं अत्थि वे-वड्ढि-हाणि-अवट्ठिद-अवत्तव्वबंधगा य ।

८५५. ओरालियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-देवगदि-ओरालि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-वेउव्वि०-अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०-उप०-णिमि०-

## समुत्कीर्तना

८५२. समुत्कीर्तनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे क्षपक प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । चार आयु-ओका भङ्ग मूल प्रकृतिबन्धके समान हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसाद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, मंझी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

८५३. नारकी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिके साथ शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । दो आयुओकी अमंख्यात भागहाणि और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । इसीप्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपयाप्त, सब देव, पञ्चेन्द्रिय अपयाप्त और त्रस अपयाप्त जीवोंके जानना चाहिए ।

८५४. एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव है । शेष प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव है । विकलेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपयाप्त जीवोंमें ध्रुव-बन्धवाली प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव है । शेष प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं ।

८५५. औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, नैजमशरीर, कर्मणशरीर, वैक्रियिकआ-

तित्थय०-पंचंत० अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढिद० । सादादीणं मिच्छत्तस्स च सव्व पगदीणं अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०-अवत्तव्ववं० ।

८५६. वेउव्वि० देवोधं । वेउव्वियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक० भय-दु०-ओरालि०-तेजा० क०-वण्ण०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्तेय०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० । सेसाणं० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढिद-अवत्तव्व-बंधगा य ।

८५७. आहार०-आहारमि० धुविगाणं अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढिदवं० । सेसाणं अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढिद अवत्तव्ववं० । कम्मइ० धुविगाणं देवगदि०४-तित्थय० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०वं० । सेसाणं अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढिद-अवत्त० ।

८५८. इत्थि-पुरिस-णवुंमगेषु अट्टारसण्णं अत्थि चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवड्ढिदवं० । सादावे०-पुरिस०-जस०-उच्चा० अत्थि चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०-अवत्त० । सेसाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०-अवत्त० । अवगदवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंत० अत्थि संखेज्जभागवड्ढि-हाणि-संखेज्जगुणवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०-अवत्त० । सादावे०-जसगि०-उच्चा० अत्थि संखेज्जभागवड्ढि-हा०-संखेज्जगुणवड्ढि-हाणि-असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०-अवत्त० ।

ज्ञापाङ्ग, वर्णचतुष्क, दवगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघु, उपघात, तानमाण, ताथङ्कर और पाच अन्तरायका तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । साता आदि और मिथ्यात्वसे लेकर सब प्रकृतियाँकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं ॥

८५६. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । वैक्रियिकमिस्त्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं ।

८५७. आहारकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । कर्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियों, देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं ।

८५८. स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें अठारह प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, और उच्चगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं ।

चदुसंज० अत्थि संखेअभागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० ।

८५६. कोधे पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० अत्थि चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० । सादावे०-पुरिस०-जस०-उच्चा० अत्थि चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० । सेसाणं ओघं । माणे पंचणा०-चदुदंस०-तिण्णिसंज०-पंचंत० अत्थि चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० । कोधसंजलण० सादभंगो । सेसं ओघं । मायाए पंचणा०-चदुदंस०-दोसंज०-पंचंत० अत्थि चत्तारिवट्ठि-हाणि अवट्ठि० । सेसाणं ओघं । लोभे ओघं । णवरि चोदस० अवत्तव्वं णत्थि ।

८६०. मदि०-सुद० धुविगाणं अत्थि तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० । चदुआयु० ओघं । मिच्छ० सेसाणं अत्थि तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० अवत्त० । एवं विभंग०-अवभवसि०-मिच्छादि० । णवरि अवभवसि०-मिच्छादि० मिच्छत्तस्स अवत्त० णत्थि ।

८६१. आभिणि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-जसगि०-उच्चा०-पंचंत० अत्थि चत्तारिवट्ठि-हाणि अवट्ठि०-अवत्त० । सेसाणं अत्थि तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० । एवं मणपज्ज०-संजद-ओधिदं०-सम्मादि०-सङ्ग०-उवसम० ।

चार संज्वलनकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं ।

८५६. क्रोध कपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, और उच्चगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समान है । मान कपायवाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण, तीन संज्वलन और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । क्रोध संज्वलनका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । माया कपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, दो संज्वलन और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समान है । लोभ कपायवाले जीवोंमें आघके समान है । इतनी विशेषता है कि चौदह प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद नहीं है ।

८६०. मत्यज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । चार आयुओंका भङ्ग आघके समान है । मिथ्यात्व और शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । इसी प्रकार विभङ्गज्ञानी, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद नहीं है ।

८६१. आभिनिवाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये ।

८६२. सामाह०-छेदो० पंचणा०-चदुदंस०-लोभसंज०-उच्चा०-पंचंत० अत्थि चत्तारिवट्टि-हाणि-अवट्टि० । सेसाणं ओघं । परिहार०-संजदासंजदा० आहारकाय-जोगिभंगो । सुहुमसंप० पंचणा०-चदुदंस०-सादावे०-जस०-उच्चा०-पंचंत० अत्थि संखे-ज्जभागवट्टि-हाणि-अवट्टि० । असंजदे पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-भय०-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० अत्थि तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० । सेसाणं अत्थि तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० । एवं किण्ण-णील-काऊणं । णवरि किण्ण-णीलाणं तित्थय० अवत्त० णत्थि ।

८६३. तेऊए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजासरीरादि-पंचंतरा० अत्थि तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० । सेसाणं अत्थि तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० । पम्माए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय०-दु०-पंचिंदियादिपण्णरस-पंचंत० अत्थि-तिण्णिवट्टि हाणी०-अवट्टि० । सेसाणं तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० । सुकाए ओघं ।

८६४. वेदगस० धुविगाणं अत्थि तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० । सेसाणं अत्थि तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० । सासणे धुविगाणं अत्थि तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० । सेसाणं० तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० । सम्मामिच्छा० पंचणा०-छदंसणा०-

८६२. सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, लोभ संज्वलन, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि, और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समान है । परिहारविशुद्धि संयत और संयनासंयत जीवोंमें आहारककाययांगी जीवोंके समान भङ्ग है । मूढमसाम्परायिक संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं । असंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । इसी प्रकार कृष्ण, नील और कापांतलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नीललेश्यावाले जीवोंके तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्य पद नहीं है ।

८६३. पीतलेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर आदि और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । पद्मलेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति आदि पन्द्रह और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें आघके समान भङ्ग है ।

८६४. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अव-

बारसक०-पुरिस०-भय०-दु०-दोगदि पंचिदि०-चदुसरीर-समचदु०-दोअंगो०-वज्ररिस०-  
वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-पंचंत०  
अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० । सेसाणं अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० ।

८६५. असण्णीसु धुविगाणं अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० । सेसाणं अत्थि  
तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं समुत्तिक्खणा समत्ता ।

### सामित्तं

८६६. सामित्ताणुगमेण दृवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंस०-  
चदुसंज०-पंचंत० असंखेज्जभाग-वड्ढि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्णद० एइंदियस्स वा  
बीइंदियस्स वा तीइंदि० चदुरिंदि० पंचिदि० सण्णि० असण्णि० वादर० सुहुम० पज्जत्ता  
अपज्जत्त० । संखेज्जभागवड्ढि-हाणिबंधो कस्स० ? अण्ण० बेइंदि० तीइंदि० चदुरिंदि०  
पंचिदि० सण्णि० असण्णि० पज्जत्त० अपज्ज० । संखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० कस्स० ? अण्ण०  
पंचिदि० सण्णि० असण्णि० पज्जत्त० अपज्जत्त० । असंखेज्जगुणवड्ढिबंधो कस्स० ? अण्ण०  
अणियड्ढिवादर० उवसमणादो परिवदमाणस्स मणुसस्स वा मणुसिएणी वा पढमसमय  
देवस्स वा । असंखेज्जगुणहाणिबंधो कस्स० ? अण्ण० उवसामगस्स वा खवगस्स वा

स्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । सम्यग्भिभ्यादृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्श-  
नावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रिय ज्ञानि, चार शरीर, समचतुरल्ल  
संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो आतुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त  
विहायांगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन  
हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित  
और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं ।

८६५. असंज्ञी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित  
पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके  
बन्धक जीव हैं । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

### स्वामित्व

८६६. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंध और आदेश । आंधसे  
पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्या  
तभागहानि और अवस्थित पदका स्वामी कौन है ? अन्यतर पञ्चेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरि-  
न्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, सांज्ञी, असंज्ञी, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त जीव स्वामी है । संख्यातभाग-  
वृद्धि और संख्यातभागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय,  
संज्ञी, असंज्ञी, पर्याप्त या अपर्याप्त जीव स्वामी है । संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका  
स्वामी कौन है ? अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी पर्याप्त या अपर्याप्त जीव स्वामी है । असंख्यात  
गुणवृद्धिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशमश्रेणिसं गिरनेवाला अनिवृत्तिवादरसाम्परायिक  
मनुष्य या मनुष्यनी अथवा प्रथम समयवर्ती देव स्वामी है । असंख्यातगुणहानिवन्धका स्वामी  
कौन है ? अन्यतर उपशामक या क्षपक अनिवृत्तिवादरसाम्परायिक जीव स्वामी है । अवक्तव्य

अणियद्विबादरसांपराङ्गस्स । अवत्त० कस्स होदि ? उवसमणादो परिवदमाणस्स मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पढमसमयदेवस्स वा । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० णाणावरणभंगो । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा सम्मामिच्छादो वा परिवदमाणगस्स पढमसमय-मिच्छादिद्वस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा । णवरि मिच्छत्तस्स सासणादो वा पढम समयमिच्छादिद्विस्स वा । साद०-पुरिस०-जस०-उच्चा० चत्तारिवद्धि हाणि-अवद्धि० णाणावरणभंगो । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० परियत्त० । णिहा-पचत्ता-भय०-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि०-अवत्त० णाणावरणभंगो । असाद०-इत्थि०-णवुस०-चदुणोके०-तिरिक्ख-मणुसग०-पंचजादि-उत्संठा०-उत्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-तस-थावरादिणवयुगल-अजस०-णीचा० तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० णाणावरण-भंगो । अवत्त० सादभंगो । अपचक्खाणा०४-तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० णाणावरणभंगो । अवत्त० संजमादो वा संजमासंजमादो वा परिवदमा० पढमस० मिच्छादि० सासण० सम्मामिच्छादिद्विस्स वा असंजद० वा । पचक्खाणा०४-तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० णाणा-वरणभंगो । अवत्त० संजमादो परिवदमा० पढम० मिच्छा० सासण० सम्मामि० असंज० संजदासंजदस्स वा । चदुआयु० अवत्त० कस्स० ? अण्ण० पढमसमय-आयुग० बंधमा-

बन्धका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणिमे गिरनेवाला मनुष्य या मनुष्यिनी अथवा प्रथम समयवर्ती देव स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, और अनन्तानुबन्धी चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर संयमसे संयमासंयमसे, सम्यक्त्वसे या सम्यग्मिथ्यात्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व प्रकृतिकी अपेक्षा अवक्तव्य बन्धका स्वामी संयमादि चार स्थानोंसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव तां है ही । साथ ही सासादनसम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि भी है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशः कीर्ति और उच्चगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवर्तमान जीव स्वामी है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है । असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार नाकपाय, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस और स्थावर आदि नौ युगल, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी संयम या संयमासंयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि या असंयतसम्यग्दृष्टि जीव है । प्रत्याख्यानावरण चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी संयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि या संयतासंयत जीव है । चार आयुओंके अवक्तव्यबन्धका

णस्स । तेण परं असंखेज्जभागहाणी । वेउन्वियल्लं तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धिं कस्सं ? अण्णं सण्णिं असण्णिं । णवरि संखेज्जगुणवद्धि-हाणिं सण्णिपज्जत्तं । अवत्तन्व्वं सादभंगो । आहारदुग-परं-उस्सां-आदाउज्जो-तित्थयं तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धिं कस्सं ? अण्णं । अवत्तं कस्सं ? अण्णदं पढमसमयबंधमां । ओरालिं-ओरालिं-अंगो तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धिं णाणावरणभंगो । अवत्तं कस्सं ? अण्णं पढमसमयबंधं । एवं ओघभंगो कायजोगि-अचक्खुं-भवसिं-आहारग ति ।

८६७. णेरइएसु धुविगाणं तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धिं कस्सं ? अण्णं । सेसं ओघादो साधेदव्वं । णवरि सत्तमाए तिरिक्खगं-तिरिक्खाणुं-णीचां थीणगिद्धिभंगो । मणुसं-मणुसाणुं-उच्चां तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धिं णाणावरणभंगो । अवत्तं कस्सं ? अण्णं मिच्छत्तादो परिवदं पढमं असंजं सम्मामिं ।

८६८. तिरिक्खेसु धुविगाणं तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धिं कस्सं ? अण्णं । सेसाणं ओघं । एवं पंचिदियतिरिक्खं ३ । पंचिदिं-तिरिक्खअपज्जत्तं धुविगाणं तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धिं कस्सं ? अण्णं । सेसं ओघं । एवं सव्वअपज्जं अणुदिसदेवाणं च । मणुसेसु

स्वामी कौन हैं ? अन्यतर प्रथम समयमें आयुकर्मका बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है । उसके बाद असंख्यातभागहानि होती है । वैक्रियिक छहकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर संज्ञी और असंज्ञी जीव स्वामी है । इतनी विशेषता है कि संख्यात-गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका स्वामी संज्ञी पर्याप्त जीव है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी साताबंधनीयके समान है । आहारकट्टिक, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्यांन और तीर्थकरकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है । औदारिकशरीर और औदारिकआङ्गापाङ्गकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, अचक्षुशरीर, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

८६७. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष ओघके अनुसार साध लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यात्वसे असंयत सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाला प्रथम समयवर्ती नारकी जीव स्वामी है ।

८६८. तिर्यञ्चोमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त और अनुदिश देवोंके जानना चाहिए । मनुष्योंमें ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इतने अवक्तव्य बन्धका स्वामी प्रथम समय-



ओषं । णवरि अवत्त० देवो त्ति ण भाणिदब्बं । एवं पंचमण०-पंचवचि० । देवेषु णिरयभंगो ।

८६६. एइंदिय-पंचकाएसु धुविगाणं एकवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्णद० । सेसाणं एकवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० परियत्त० पढम० । विगलिंदिएसु धुविगाणं दोवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० बंधो कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं दोण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० णाणावरणभंगो । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० परियत्त० पढम० । पंचिदि० तस्सेव पज्जत्ता ओषं । णवरि पंचिदि० सण्णि०-असण्णि०-पज्जत्त०-अपज्जत्त त्ति भाणिदब्बं । तस-तसपज्जत्ता ओषं । णवरि बीइंदि० तीइंदि० चट्ठुरिंदि० पंचिदि० सण्णि० असण्णि० पज्जत्ता अपज्जत्ता त्ति भाणिदब्बं ।

८७०. ओरालिका० ओषं । णवरि देवो त्ति ण भाणिदब्बं । ओरालियमि० तिरि-क्खोषं । णवरि मिच्छ० कस्स० ? अण्ण० सासण० परिवद० पढम० मिच्छादिट्ठि० । देवगदि०४-तित्थय० अवत्त० णत्थि । देउव्विय०-वेउव्वियमि० देवोषं । आहार०-आहारमि० धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्णद० । सेसाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० णाणावरणभंगो । अवत्त० ओषं सादभंगो । कम्मइग० धुविगाणं देवगदि

वर्ती देव हांता है यह नहीं कहना चाहिए । इसी प्रकार पाँच मनोयांगी और पाँच वचनयांगी जीवोंके जानना चाहिए । देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है ।

८६६. एकेन्द्रियोंमें और पाँच स्थावर कायिक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवर्तमान प्रथम समयवर्ती जीव स्वामी है । विकलेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवर्तमान प्रथम समयवर्ती जीव स्वामी है । पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें आँधके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसा कहना चाहिए । त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें आँधके समान भंग है । इतनी विशेषता है दि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी पर्याप्त व अपर्याप्त ऐसा कहना चाहिए ।

८७०. औदारिक काययांगी जीवोंमें आँधके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य बन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती देव हांता है ऐसा नहीं कहना चाहिए । औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य निर्यञ्चोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर सासादन सम्यक्त्वसे गिरकर प्रथम समयमें मिथ्यावृष्टि हुआ जीव स्वामी है । देवगति चतुष्क और तीर्थकर प्रकृतिका अवक्तव्य बन्ध नहीं है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आंगोपांगका भंग सामान्य देवोंके समान है । आहारककाययांगी और आहारकमिश्रकाययांगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी आँधमें कहे गये सातावेदनीयके समान है ।

पंचागस्त च अवट्टि० कस्त० ? अण्ण० । सेसाणं अवट्टि०-अवत्त० कस्त० ? अण्ण० । एवं अणाहार० ।

८७१. इत्थि० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० कस्त० ? अण्ण० । णवरि असंखेज्जगुणवट्टि-हाणि० अणियट्टि० । णिहादंडस्स अवत्त० देवो त्ति ण भाणिदव्वं । सेसाणं ओघं । पुरिसेसु ओघं । णवुंसगे धुविगाणं इत्थिभंगो । सेसाणं ओघं । अवगदवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंत० संखेज्जभागवट्टि-संखेज्जगुणवट्टि-अवत्त० कस्त० ? अण्णद० उवसम परिवद० । तेसिं हाणि-अवट्टि० कस्त० ? अण्ण० उवसम० खवग० । सादावे०-जस०-उच्चा० संखेज्जभागवट्टि-संखेज्जगुणवट्टि-असंखेज्जगु०-अवत्त० कस्त० ? अण्ण० उवसम० परिवद० । तेसिं हाणि-अवट्टि० कस्त० ? अण्ण० उवसम० खवग० । चदुसंज० संखेज्जभाग०-अवत्त० कस्त० ? अण्ण० उवसाम० परिवद० । संखेज्जभागहाणि-अवट्टि० कस्त० ? अण्ण० उवसाम० खवग० ।

८७२. कोधेसु पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० तिण्णिवट्टि-हाणि-असंखेज्जगु-णवट्टि-हाणि-अवट्टि० ओघं । अवत्त० णत्थि । सेसाणं च ओघं । माणे तिण्णिसंजलणं,

कर्मणकाययांगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और देवगतिपञ्चकके अर्वास्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

८७३. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी हैं । इनकी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका स्वामी अनिवृत्तकरण जीव हैं । निद्रादण्डकके अवक्तव्य बन्धका स्वामी देव है ऐसा नहीं कहना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भंग आंधके समान है । पुरुषवेदी जीवोंमें आंधके समान भंग है । नपुंसकवेदी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भंग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भंग आंधके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, और अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर गिरनेवाला उपशामक जीव स्वामी हैं । उनकी हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक और क्षपक जीव स्वामी हैं । माता-वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, और अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर गिरनेवाला उपशामक जीव स्वामी हैं । उनकी हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक और क्षपक जीव स्वामी हैं । चार संज्वलनोंकी संख्यातभागवृद्धि और अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर गिरनेवाला उपशामक जीव स्वामी हैं । संख्यातभागहानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक और क्षपक जीव स्वामी हैं ।

८७४. क्रोधकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवस्थित बन्धका भंग आंधके समान है । यहाँ अवक्तव्य बन्ध नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भंग आंधके समान है । मानमें तीन संज्वलन और मायामें दो संज्वलनोंके तीन पद कहने चाहिये । शेष भङ्ग आंधके समान

मायाए दोसंज० तिण्णि भाणिदव्वं । सेसं ओघं । लोमे पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत०  
अवत्तव्वं णत्थि । सेसाणं ओघं ।

८७३. मदि०-सुद० धुविगाणं अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० तिरिक्खोघं ।  
सेसाणं ओघं । एवं विभंग०-अब्भवसि०-मिच्छा० । णवरि अब्भवसि०-मिच्छादि०  
मिच्छत्त० अवत्त० णत्थि ।

८७४. आभि०-सुद०-ओघि० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-उच्चा०-पंचंत०  
तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० कस्स० ? अण्ण० । असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि-अवत्त० ओघं ।  
मणुसगदिपंचगस्स तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० कस्स० ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ?  
अण्ण० पढमस० देवस्स वा णेरुग्गस्स वा । सादावे०-जस० असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि०  
ओघं । सेसाणं णाणावरणभंगो । णिहा पचलादीणं अवत्त० ओघं । सेसाणं णाणावरणभंगो ।  
णवरि अवत्त० कस्स० ? अण्ण० परियत्तमा० । णवरि देवगदि०४-तिण्णिवड्ढि-हाणि-  
अवड्ढि०-अवत्त० कस्स० ? अण्ण० । एवं ओधिदंस-सम्मादि०-खइग्ग०-वेदग्ग०-उवसम० ।  
णवरि वेदगे किंचि विसेसो । उवसमे वि असंखेज्जगुणवड्ढि० कस्स० ? अण्ण० उवसाम-  
गस्स परिवदमा० पढमस० देवस्स वा । असंखेज्जगुणहाणि० कस्स० ? अण्ण० उवसाम०

हैं । लोभ कपायचाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका अवक्तव्य  
बन्ध नहीं हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आंधके समान है ।

८७३. मत्यज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि  
और अवस्थितबन्धका स्वामी निर्यञ्चक समान हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आंधके समान है ।  
इसी प्रकार विभङ्गज्ञानी, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि  
अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मिथ्यात्वका अवक्तव्यबन्ध नहीं है ।

८७४. आभिनिबोधकज्ञानी श्रुतज्ञानी और अर्वाधज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार  
दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, उच्चगात्र और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और  
अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी हैं । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात-  
गुणहानि और अवक्तव्यबन्धका स्वामी आंधके समान हैं । मनुष्यगतिपञ्चककी तीन वृद्धि, तीन  
हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी हैं । अवक्तव्यबन्धका स्वामी  
कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती देव और नारकी जीव स्वामी हैं । सातावेदनीय और यशः  
कीतिकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका स्वामी आंधके समान हैं । शेष प्रकृतियोंका  
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । निद्रा और प्रचला आदिकके अवक्तव्यबन्धका स्वामी आंधके समान  
है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यबन्धका  
स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवर्तमान जीव स्वामी हैं । इतनी विशेषता है कि देवगति चतुष्ककी  
तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है । अन्यतर जीव स्वामी हैं ।  
इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, और उपशमसम्यग्दृष्टि  
जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यक्त्वमें कुछ विशेषता है । उपशमसम्यक्त्व  
में भी असंख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशमश्रेणीसे गिरकर प्रथम समयमें देव  
हृत्वा जीव स्वामी है । असंख्यातगुणहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशमक अनिवृत्तिकरण

अणियद्वि० । मणपञ्चव-संजदे ओधिभंगो । णवरि खड्गणं पगदीणं असंखेज्जगुणवड्ढि-  
हाणि-अवत्त० मणुसिभंगो ।

८७५. सामाई०-छेदोव० पंचणा०-चदुदंस०-लोभसंज०-उच्चा०-पंचंत० अवत्त०  
णत्थि । सेसाणं मणवज्जवभंगो । परिहार० आहारकायजोगिभंगो । सुहूमसंप० पंचणा०-  
चदुदंस०-सादावे०-जस०-उच्चा०-पंचंत० संखेज्जभागवड्ढि० कस्स० ? अण्णदरस्स उवसाम०  
परिवद० । संखेज्जभागहा०-अवट्ठि० कस्स० ? अण्णद० उवसाम० वा खवगस्स वा ।  
संजदासंजदेसु धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं परिहार-  
भंगो । असंजदे धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठिदं कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं तिरि-  
स्खोघं । णवरि तित्थयरं ओघं । एवं किण्ण-णील-काउ० ।

८७६. चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो । किंचि विसेसो । तेऊए पंचणा० छदंसणा०-  
चदुसंजल०-भय०-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्तेय०-णिमि०-  
पंचंत० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्ण० । थीणगिद्विदिग-मिच्छत्त-वारसक०  
अवत्तच्चं ओघं । सेसं णाणावरणभंगो । सेसाणं पगदीणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि०

जीव स्वामी है । मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी  
विशेषता है कि क्षायिक प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यबन्धका  
स्वामी मनुष्यिनियोंके समान है ।

८७५. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण,  
लोभ संज्वलन, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका अवक्तव्यबन्ध नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग  
मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें आहारककाययोगी जीवोंके समान  
भङ्ग है । सूक्ष्मसांप्रदायिक संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति,  
उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी संख्यातभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर गिरनेवाला उप-  
शामक जीव स्वामी है ? संख्यातभागहानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर  
उपशामक और क्षपक जीव स्वामी है । संयतासंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि,  
तीन हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका  
भङ्ग परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान है । असंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन  
वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ! अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका  
भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके  
समान है । इसी प्रकार कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये ।

८७६. चक्षुदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोके समान भङ्ग है । कुल्ल विशेषता है । पीनलेश्यावाले  
जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कर्मणशरीर,  
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि तीन हानि  
और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । स्नानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और  
वारह कषायके अवक्तव्यबन्धका स्वामी ओघके समान है । शेष ज्ञानावरणके समान भङ्ग है । शेष  
प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी  
है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी ओघके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिये ।

कस्स० ? अण्ण० । अवत्तव्वं ओघं । एवं पम्माए । सुक्काए खवगपगदीणं असंखेज्जगुण-  
वड्ढि-हाणि-अवत्तव्वं ओघं । सेसाणं तेउभंगो ।

८७७. सासणे धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं  
तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० विभंगभंगो । सम्मामि० धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-  
अवट्ठि० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्ण० ।  
अवत्त० कस्स० ? बंधगस्स पढमसम० ।

८७८. सण्णीसु पंचिदियभंगो । णवरि सण्णि त्ति भाणिदव्वं । असण्णीसु धुविगाणं  
दोवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं दोवड्ढि-हाणि-अवट्ठिदं कस्स० ? अण्ण० ।  
अवत्तव्वं कस्स० ? परिय० । मणुसगदिदुग-वेउव्विगळ्ठ०-उच्चागोद वज्जित्ता सेसाणं-  
संखेज्जगु० कस्स० ? अण्ण० । इइदि० विगलिंदियस्स वा विगलिंदिएसु असण्णिपंचिदिएसु  
उवव० पढमसम० । संखेज्जगुणहाणी कस्स० ? अण्ण० । विगलिंदि० असण्णिपंचिदि०  
इइदिएसु वा विगलिंदिएसु उवव० पढम० । णवरि इइदि० आदाव थावर-सुहुम-साधार०  
वड्ढी णत्थि ।

### एवं सामित्तं समत्तं

शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें त्रयक प्रकृतियोंकी अमंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-  
बन्धका स्वामी आंधके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पीतलेश्यावाले जीवोंके समान है ।

८७७. मासादनमस्यगृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और  
अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन  
हानि, अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका स्वामी विभङ्गज्ञानी जीवोंके समान है । सम्यग्मिथ्यागृष्टि  
जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ?  
अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी  
कौन है । अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है । प्रथम समयमें बन्ध करने-  
वाला जीव स्वामी है ।

८७८. संज्ञी जीवोंमें पञ्चन्द्रियोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि संज्ञी ऐसा कहना  
चाहिए । असंज्ञी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित बन्धका  
स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित  
बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान  
प्रथम समयवर्ती जीव स्वामी है । मनुष्यगतिद्विक, वैक्रियिक छह और उच्चगोत्रको छोड़कर शेष  
प्रकृतियोंकी संख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव मरकर  
जब विकलेन्द्रियों और असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है तो ऐसा जीव पहले समयमें स्वामी है ।  
संख्यातगुणहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर विकलेन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव जब मरकर  
एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है तब उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें वह स्वामी है ।  
इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियोंमें आतप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण प्रकृतिकी वृद्धि नहीं है ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

## कालो

८७६. कालागुणमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघेण खवगपगदीणं 'चत्तारिवड्ढि-  
तिण्णिहाणिवंधं० केवचि० ? जह० एग०, उक्क० बेसमयं । असंखेज्जगुण'हाणि-अवत्तव्वं  
केव० ? एग० । अवड्ढिदं० जह० एग०, उक्क० अंतो० । चदुण्णं आयुगाणं अवत्तव्वं एग० ।  
असंखेज्जभागहाणी जहणुक्कस्सेण अंतो० । सेसाणं तिण्णिवड्ढि-हाणी जह० एग०, उक्क०  
बेसमयं । अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्तव्वं एग० । एवं ओघभंगो  
पंचिदिय-तस० २-कायजोगि-पुरिस०-कोधादि० ४-आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खु०-अक्खु०  
ओधिदं०-सुकुले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि-आहारग ति । मणुस-  
तिण्णि-पंचमण०-पंचवचि०-ओगालिय० ओघं । णवरि असंखेज्जगुणवड्ढी वे समयं  
ण लमदि । एगसभयं भवदि । मणपज्जवमंजद-सामाइ०-छेदोवट्ठावण० मणुसभंगो ।

८८०. अवगदवेदे पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज० सव्वत्थ संखेज्जभागवड्ढि-हाणी  
संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी अवत्त० एग० । अवड्ढिदं ओघं । सादावे०-जस०-उच्चा० संखेज्ज-  
भागवड्ढि-हाणी संखेज्जगुणवड्ढि-हाणि असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणी अवत्तव्वं एग० । अवड्ढि०

## काल

८७६. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंध और आदेश । आंधमें क्षणिक  
प्रकृतियोंके चार वृद्धिवन्ध और तीन हानिवन्धोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और  
उत्कृष्ट काल दो समय है । असंख्यानगुणहानि और अवक्तव्यवन्धका कितना काल है ? जघन्य  
और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल  
अन्तर्मुहूर्त है । चारो आयुओंके अवक्तव्यवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । असंख्यान-  
भागहानिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन  
हानियोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अवस्थितवन्धका जघन्यकाल  
एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय  
है । इसी प्रकार आंधके समान पञ्चन्द्रियद्रिक, त्रसद्रिक, काययोगी, पुरुषवेदी, क्रोधादि चार कपाय-  
वाले, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, शुकु-  
लेश्यावाले, भ्रम्य, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि संज्ञी और आहारक जीवोंके  
जानना चाहिए । मनुष्यत्रिरु, पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी और आंदारिक काययोगी जीवोंमें  
आंधके समान काल है । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओंमें असंख्यानगुणवृद्धिका दो समय  
काल उपलब्ध नहीं होता । किन्तु जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । मनःपर्ययज्ञानी, संयत  
सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें मनुष्योंके समान भङ्ग है ।

८८०. अपगतवेदी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण और चार संख्यानकी सर्वत्र  
संख्यानभागवृद्धि, संख्यानभागहानि, संख्यानगुणवृद्धि, संख्यानगुणहानि और अवक्तव्य वन्धका  
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थित वन्धका काल आंधके समान है । सातावेदीय,  
यशाःकीर्ति और उच्चवर्गात्रकी संख्यानभागवृद्धि, संख्यानभागहानि, संख्यानगुणवृद्धि संख्यान  
गुणहानि, असंख्यानगुणवृद्धि, असंख्यानगुणहानि और अवक्तव्यवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल

१ मूलप्रतौ चत्तारितिण्णिवड्ढिहाणि इति पाठः । २ मूलप्रतौ गुणवड्ढिहाणि० इति पाठः ।

बं० ओघं । सुहृमसंप० सव्वपग० संखेज्जभागवद्धि-हाणी एगस० । अवट्ठि० ओघं ।

८८१. णिरएसु धुविगाणं सेसाणं च सव्वे भंगा ओघं णिरयगदीणामभंगो । णवरि पगदिविसेसं णादव्वं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । णवरि कम्मइ०-अणाहा० धुविगाणं अवट्ठिदं जह० एग०, उक्क० तिणिसमयं । देवगदिपंचगस्स अवट्ठिदं जह० एग०, उक्क० वेसमयं । सेसाणं थावरपगदीणं अवट्ठिदं जह० एग०, उक्क० तिणिसमयं । इत्थि०-पुरिस०-मणुसग०-चदुजादि-पंचसंठाण-ओरालि०-अंगो-छस्संघडण-मणुसाणु० दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदेज्ज०-उचागो० अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अवत्त० एग० ।

एवं कालं समत्तं ।

### अंतरं

८८२. अंतराणुगमेण द्दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंतरा० असंखेज्जभागवद्धि-हाणि-अवट्ठि० अंतरं केव० ? जह० एग०, उक्क० अंतो० । वेवद्धि-हाणीबंधं जह० एग०, उक्क० अणंतकालं । असंखेज्जगुणवद्धि-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्वपोग्गल० । णवरि असंखेज्जगुणव० जह०

एक समय है । तथा अवस्थितबन्धका काल ओघके समान है । मूहमन्मपराधिक संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थितबन्धका काल ओघके समान है ।

८८१. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली तथा शेष प्रकृतियोंके सब भङ्ग ओघके अनुसार नरकगति नामकर्मके समान है । इतनी विशेषता है कि प्रकृतिविशेष जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कामणकाययांगी और अनाहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । देवगति पञ्चकके अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । शेष स्थावरप्रकृतियोंके अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । खीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गापाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायेगति, त्रम, मुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके अवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ ।

### अन्तर

८८२. अन्तराणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित बन्धका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो वृद्धि और दो हानिबन्धोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य बन्धका

एग० । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ असंखेज्जभागवङ्गि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०,  
 उक्क० बेछावट्ठि० देसू० । बेवट्ठि-हाणि-अवत्तव्वं णाणावरणभंगो । णिहा-पचला-भय०-  
 दुगुं०-तेज्जगादिणव तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० णाणावरणभंगो । सादावेदणीय-  
 जसगि० चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठिदं णाणावरणभंगो । अवत्तव्वं जहणु० अंतो० । असाद०-  
 चदुणोक्कसाय-थिराथिर-सुभासुभ-अजस० तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठिद-अवत्तव्वं सादभंगो ।  
 अट्ठकसा० असंखे०भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० पुव्वको० देसू० । बेवट्ठि-  
 हाणि-अवत्तव्वं णाणावरणभंगो । इत्थिवे० तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० थीणगिट्ठिभंगो ।  
 अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्क० बेछावट्ठिसाग० सादि० । पुरिसवेदं चत्तारिवट्ठि-हाणि-  
 अवट्ठिदं णाणावरणभंगो । अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्क० बेछावट्ठिसाग० सादिरे० ।  
 णधुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० असंखेज्ज०वट्ठि-हाणि-अवट्ठि०  
 जह० एग०, उक्क० बेछावट्ठिसागरो० सादि० तिण्णिलिदोवमाणि देसू० । बेवट्ठि-  
 हाणि० णाणावरणभंगो । अवत्तव्वं जहणोण अंतो०, उक्क० बेछावट्ठि० सादि० तिण्णि-  
 पलिदो० देसू० । गिरय-मणुस-देवायुणं असंखेज्जभागहाणि-अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्क०

जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण हैं । इतनी विवेचना  
 है कि असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अ-  
 न्तानुबन्धी चारकी असंख्यतभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर  
 एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर हैं । दो वृद्धि, दो हानि और अव-  
 क्तव्यबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैं । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा और तेजमशरीर आदि  
 नौकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैं । साता-  
 वेदनीय और यशःकीर्तिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान  
 हैं । अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । असातावेदनीय, चार नोकपाय,  
 स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्तिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अव-  
 क्तव्यबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान हैं । आठ कपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभाग  
 हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्व-  
 कोटि है । दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैं । स्त्रीवेदकी  
 तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान हैं । अवक्तव्य बन्धका  
 जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर हैं । पुरुषवेदकी चार  
 वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैं । अवक्तव्य बन्धका जघन्य  
 अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर हैं । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान,  
 पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात  
 भागहानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ  
 सागर और कुछ कम तीन पल्य हैं । दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैं ।  
 अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर  
 और कुछ कम तीन पल्य हैं । नरकायु, मनुष्यायु और देवायुके असंख्यातभाग हानि और अव-  
 क्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल हैं जो असंख्यात



अणंतका० असं० । तिरिक्खायु० असंखेज्जभागहाणि-अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्क० सागरो०सदपुधत्तं । वेउव्वियच्छकं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अणंतका० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अणंतका० असंखे० परि० । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु० असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तेवट्ठिसागरो० सदं० । वेवड्ढि-हाणि० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । मणुसगदि-मणुसाणु० असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवट्ठिदं जह० अंतो०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा० । वेवड्ढि० वेहाणि० णाणावरणभंगो । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवट्ठिदं जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । वेवड्ढि-हाणी० णाणावरणभंगो । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० णाणावरणभंगो । अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । ओरालि० असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवट्ठिदं जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदोवमाणि सादि० । वेवड्ढि०-हाणि० णाणावरणभंगो । अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालमसं० । आहारदुगं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०,

पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है । तिर्यञ्चायुकी असंख्यात भागहाणि और अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है । वैक्रियिक छहकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वाकी असंख्यात भागवृद्धि, अग्न्यात भागहाणि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रैस्रसागर है । दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वाकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहाणि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहाणि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर इन सबका एक सौ पचासी सागर है । दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पद्मोन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास और वस चतुष्कके तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है । औदारिकशरीरकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहाणि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर इन सबका एक सौ पचासी सागर है । औदारिकशरीरकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहाणि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्व है । दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । आहारकद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है । अवक्तव्य बन्धका

३६० अद्रुपोग्गल० । समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-मुस्सर-आदे० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०  
णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछावड्ढि० सादि० तिण्णिपलिदो० देसू० ।  
ओरालि०अंगो०-वज्जरि० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० ओरालियसरीरभंगो । अवत्त-वं  
जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । उज्जो० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० तिरि-  
क्खगदिभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेवड्ढिसागरो०सदं । तित्थपरं तिण्णिवड्ढि-  
हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं  
साग० सादि० । उच्चागो० तिण्णिवड्ढि-हाणि अवड्ढि० मणुसगदिभंगो । अवत्तव्वं तं चेव ।  
असंखेज्जगुणवड्ढि हाणि० णाणावरणभंगो । णीचागो० असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि अवड्ढि०  
जह० एग०, उक्क० बेछावड्ढिसाग० सादि० तिण्णिपलिदोवमाणि देसू० । वेवड्ढि हाणी०  
णाणावरणभंगो । अवत्तव्वं जहण्णेण अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।

८८३. गिरएसु धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवड्ढि०  
जह० एग०, उक्क० बेसम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-  
दोगदि०-पंचमंठा०-पंचसंध०-<sup>१</sup>दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थवि०-दूभग-दुस्सर अणादे०  
णीचुच्चागोदं तिण्णिवड्ढि-हाणि अवड्ढि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क०

जवन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हे और उत्कृष्ट अन्तर इन सबका अधपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । सम-  
चतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, मुस्वर और आदेयकी, तीन वृद्धि, तीन हानि और  
अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जवन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है  
और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है । आँदारिक आङ्गा-  
पाङ्ग और वज्रपभनाराचसंहननकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग आँदारिक  
शरीरके समान है । अवक्तव्य बन्धका जवन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक  
तेतीस सागर है । उद्योतकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके  
समान है । अवक्तव्य बन्धका जवन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रैमठ  
सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जवन्य अन्तर एक  
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवक्तव्य बन्धका जवन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और  
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित  
बन्धका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । अवक्तव्य बन्धका वही भङ्ग है । असंख्यातगुणवृद्धि और  
असंख्यातगुणहानिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । नीचगोत्रकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात  
भा .हानि और अवस्थित बन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो  
छ्यासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है । दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान  
है । अवक्तव्य बन्धका जवन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है ।

८८३. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जवन्य अन्तर  
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितबन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और  
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो  
गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुस्वर, अनादेय,

तेत्तीसं साग० देसू० । सादादिबारस० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डिदं जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । पुरिस०-समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णिवड्डि-हाणि अवड्डि० सादभंगो । अवत्तव्वं इत्थिभंगो । दोआयु० दोपदा जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं देसू० । तित्थय० तिण्णिवड्डि-हाणि० ज० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० वेसमयं । अवत्त० णत्थि अंतरं । एवं तीसु पुटवीसु तित्थक० । णवरि पढमाए अवत्त० णत्थि । छसु उवरिमासु मणुस०-मणु-साणुपुव्वीणं उच्चा० पुरिसभंगो । सेसाणं अप्पणो अंतरं भाणिदव्वं । सत्तमाए णिरयोघं ।

८८४. तिरिक्खेसु धुविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणि० ओघं । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं । थीणणिद्वि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ असंखेज्ज०-वड्डि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसू० । वेवड्डि-हाणि-अवत्त० ओघं । सादादिबारस ओघं । इत्थिवे० तिण्णिवड्डि हाणि-अवट्टि० थीणगिद्विभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसू० । अपच्चक्खाणा०४-णवुंस०-पंचसंठा-

नाचगात्र और उच्चगात्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर इन सबका कुछ कम तेतीस सागर है । साता आदि बारह प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रऋषभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायांगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यबन्धका भङ्ग ऋग्वेदके समान है । दो आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । तीर्थकर प्रकृतिकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्यबन्धका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार तीन पृथिवियोंमें तीर्थकर प्रकृतिका अन्तर काल है । इतनी विशेषता है कि पहली पृथिवीमें अवक्तव्यपद नहीं है । आगेकी छह पृथिवियोंमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगात्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान है । शेष प्रकृतियोंका अपना अपना अन्तर काल कहना चाहिये । सातवीं पृथिवीमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है ।

८८४. तिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्यबन्धका अन्तर काल ओघके समान है । साता आदि बारह प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । ऋग्वेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, आतप,

ओरालिअंगो०-छस्संधडण-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०-दुभग-दुस्सर-अणादे० असंखेज्ज-  
भागवद्धि-हाणि-अवद्धिदं जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । वेवद्धि-हाणी० ओघं । अवत्त०  
जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडि० । णवरि अपच्चक्खाणा० अवत्त० उक्क० अद्धपोग्ग०  
लपरि० । पुरिस० तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०,  
उक्क० तिण्णि पलिदो० देसू० । तिण्णिआयुगाणं दोपदा जह० अंतो०, उक्क० पुव्वको-  
डितिभागं देसूणं । तिरिक्खायुगस्स दोपदा जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी० सादि० ।  
वेउव्वियल्लक-मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चागो० ओघं । पंचिदि० समचदु० पर०-उस्सा०-  
पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० पुरिसबेदभंगो । अवत्तव्वं  
जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसूणं । तिरिक्खग०-चदुजादि-ओरालि०-तिरिक्खाणु०-  
थावरादि०४-णीचागो० णवुंसगभंगो । णवरि तिरिक्खगदि-ओरालि०-तिरिक्खाणु०-  
णीचा० अवत्तव्वं ओघं ।

८८५. पंचिदि०तिरिक्ख०३ धुविगाणं वेवद्धि हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।  
संखेज्जगुणवद्धि हाणी० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अवद्धि० जह० एग०, उक्क०  
तिण्णिसम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धिदं जह०

उद्योत, अग्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-  
भागहानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक  
पूर्वकोटि है । दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर  
अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्याना-  
वरण चारके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । पुरुषवन्दकी  
तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य  
अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । तीन आयुओके दो पदोंका जघन्य  
अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है । निर्यञ्चायुके  
दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है । वैक्रियिक  
छद्म, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रियज्ञानि,  
समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर और आदेयकी  
तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग पुरुषवन्दके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य  
अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । निर्यञ्चगति, चार ज्ञानि  
औदारिकशरीर, निर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार और नीचगोत्रका भङ्ग नपुंसकवन्दके समान  
है । इतनी विशेषता है कि निर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, निर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके  
अवक्तव्यबन्धका भङ्ग ओघके समान है ।

८८५. पञ्चेन्द्रिय निर्यञ्चत्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य  
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका  
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है । अवस्थितबन्धका  
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । संख्यातगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और  
अगन्तानुबन्धी चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है

एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देसू० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देसू० पुव्वकोडिपुध० । अपच्चक्खाणा०४ णवुं सगभंगो । णवरि अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । सादादिवारस वेवड्ढि-हाणि अवट्ठि-अवत्त० णिरयभंगो । संखेऽगुणवड्ढि-हाणि-जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडिपुध० । इत्थिवे० तिण्णिवड्ढि-हा०-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देसू० । पुरिसवे० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलि० देसू० । णवुंसक्खे०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि० अंगो०-छस्संघ०-तिण्णिआणु०-आदा-उज्जो०-अप्पसत्थवि०-थावरादि०४-दुभग-दुस्सर-अणादे०-णीचागो०-वेवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी० देसू० । संखे० गुणवड्ढि-हाणि० णाणावरणभंगो । चदुण्णं आयुगाणं तिरिक्खोघो । देवगदि०४-पंचिदि०-समचदु० पर०-उस्सास-पसत्थवि०-तस०४-सुभग सुस्सर-आदे०-उच्चा० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० साद-भंगो । अवत्त० णवुंसगभंगो ।

८८६. पंचिदियतिरिक्खअपजत्तमेसु धुविगाणं तिण्णिवड्ढि हाणि० जह० एग०,

और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्नमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक कुछकम तीन पल्य है । अपत्याख्यानावरण चारका भङ्ग नपुंसक वेदके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्नमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है । साता आदि वारह प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि, अवस्थित और अवस्थितबन्धका भङ्ग नारकियोंके समान है । संख्यातगुणवृद्धि और संख्यात-गुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है । सातावेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है अवक्तव्य-बन्धका जघन्य अन्तर अन्नमुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । पुरुष-वेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्नमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिकआङ्गापांग, छह संहतन, तीन आनुपूर्वी, आनप उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्नमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर इन सबका कुछ कम एक पूर्वकोटि है । संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका भंग ज्ञानावरणके समान है । चार आयुओंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । देवगतिचतुष्क, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यबन्धका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोके समाज है ।

८८६. पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकों मे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्नमुहूर्त है । अवस्थितबन्धका

उक्त० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्त० तिष्णिसमयं । सेसाणं णिरयसादभंगो । एषं सव्वअपज्जत्ताणं ।

८८७. मणुस०३ पंचिंदियतिरिक्खभंगो । णवरि संखेज्जगुणवट्टि-हाणि० उक्त० अंतो० । खवियाणं असंखेज्जगुणवट्टि-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० पुव्वकोडिपुधत्तं । मणुसअप० धुवियाणं तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । णवरि अवट्टि० जह० एग०, उक्त० वेसम० । सेसाणं सादभंगो ।

८८८. देवेषु धुविगाणं णिरयभंगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग दुस्सर-अणादे०-णीचा० तिष्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० एकत्तीसं साग० देसु० । सादादि-वारस० णिरयभंगो । पुरिस०-समचटु०-वज्जरि०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-उच्चा० तिष्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० एकत्तीसं सा० देसु० । दोआयु० णिरयभंगो । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणुपु०-उज्जोवं तिष्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० अट्टारस सागरोवमाणि सादि० । मणुसगदि-मणुसाणु० तिष्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० सादभंगो । अवत्त० तिरिक्खगदिभंगो । इइंदिय-आदाव-थावर० तिष्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०,

जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंमें सातावेदनीयके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तक जीवोंके जानना चाहिये ।

८८७. मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । क्षणिक प्रकृतियोंकी असंख्यात-गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है । मनुष्य अपर्याप्तकोमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्च-अपर्याप्तोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग साता वेदनीयके समान है ।

८८८. देवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहा-योगति, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकनीस सागर है । साता आदि वारह प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्ररूपभनाराच संहनन, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकनीस सागर है । दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अट्टारह सागर है । मनुष्यगति, और मनुष्य-गत्यानुपूर्वीकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अव-क्तव्यबन्धका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । एकेन्द्रियजाति, आनप और स्थावरकी तीन वृद्धि, तीन

उक० बेसागरो० सादि० । पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-तस० तिणिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० सादभंगो । अवत्त० एइंदियभंगो । तित्थय० धुवभंगो । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो अंतरं कादव्वं ।

८८९. एइंदिएसु धुवियाणं एकवड्ढि-हाणी जह० एग०, उक० अंतो० । अवड्ढि० जह० एग०, उक० वेसम० । एवं सव्वएइंदियाणं णादव्वं । णवरि तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचा० अवत्त० जह० अंतो०, उक० असंखेज्जलोगा । बादरे कम्मड्ढिदी । पज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्साणि । सुद्धमे असंखेज्जा लोगा । मणुसगदिद्दुग-उच्चागो० एकवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक० असंखेज्जा लोगा । बादरे कम्मड्ढिदी । पज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्साणि । सुद्धमे असंखेज्जा लोगा । सेसाणं अपज्जत्तभंगो । णवरि दोआयुगं पगदिअंतरं । विगलिदि० दोआयु० पगदिअंतरं । सेसाणं मणुसअपज्जत्तभंगो ।

८९०. पंचिदिय०२ पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंतरा० वेवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, उक० अंतो० । संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी० जह० एग०, उक० पुव्वकोडि-पुधत्तं । असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि-अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक० कायड्ढिदी० । णवरि

हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्त-मुहूर्त है और इन सबका उकृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गो-पाङ्ग और त्रसकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य बन्धका भङ्ग एकेन्द्रियके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । इसी प्रकार सब देवोंके, अपना अपना अन्तर काल जान लेना चाहिये ।

८९१. एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उकृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उकृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार सब एकेन्द्रियोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उकृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । बादर एकेन्द्रियोंमें कर्मस्थिति प्रमाण है । पर्याप्तकोमें संख्यात हजार वर्ष हैं । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है । मनुष्यगति द्विक और उच्चगात्रकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और इन सबका उकृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । बादर एकेन्द्रियोंमें कर्मस्थिति प्रमाण है । पर्याप्तकोमें संख्यात हजार वर्ष हैं । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्तकोके समान है । इतनी विशेषता है कि दो आयुओंका भङ्ग प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । विकलेन्द्रियोंमें दो आयुओंका भङ्ग प्रकृति बन्धके अन्तरके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्य अपर्याप्तकोके समान है ।

८९०. पञ्चेन्द्रियाद्विकमें पाँच ज्ञानाधरण, चार दर्शनाधरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उकृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उकृष्ट अन्तर पूर्व-कोटि प्रथक्त्व प्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उकृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धिका

असंखजगुणवृद्धिं जह० एग० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणताणुबंधि०४ तिण्णिवृद्धि-  
हाणि-अवद्वि० जह० एग०, उक्क० बेळावद्विसाग० देसू० । अवत्त० णाणावरणभंगो ।  
सादा० जस० चत्तारिवृद्धि-हाणि-अवद्वि० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० ।  
णिहा-पचला-भय०-दुगुं०-तेजा०-कम्मइगादिणव० तिण्णिवृद्धि-हाणि-अवद्वि०-अवत्तव्वं च  
णाणावरणभंगो । असादादिदस० तिण्णिवृद्धि-हाणि-अवद्वि०-अवत्त० सादावे०भंगो ।  
अद्वक० दोवद्वि-दोहाणि०-अवद्वि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । संखजगुणवृद्धि-हा-  
अवत्तव्वं० णाणावरणभंगो । इत्थिवे० तिण्णिवृद्धि हाणि-अवद्वि० जह० एग०, अवत्त०  
जह० अंतो०, उक्क० बेळावद्वि० देसू० । पुरिस०४वृद्धि-हाणि-अवद्वि० णाणावरणभंगो ।  
अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेळावद्वि० सादि० दोहि पुव्वकोडीहि० । णयुंस०-पंचसंठा-  
पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दुभग दुस्सर-अणादे० तिण्णिवृद्धि-हाणि-अवद्वि० जह० एग०,  
अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेळावद्वि० सादिरे० तिण्णपल्लिदो देसू० । तिण्णियायु०  
दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० सागरो०सदपुध० । मणुसायु० दापदा० जह० अंतो०,  
उक्क० सागरोवमसहस्सा० पुव्वकोडिपुधत्तं । पज्जत्तगे चदुण्णआयुगाणं दोपदा० जह०  
अंतो०, उक्क० सागरो०सदपु० । णिरयगदि-चदुजादि-णिरयाणु०-आदाव-थावरादि०४  
तिण्णिवृद्धि-हाणि-अवद्वि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरो०-

जघन्य अन्तर एक समय हैं । स्थानगुद्धि तीन मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारकी तीन वृद्धि, तीन  
हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर  
हैं । अवक्तव्यबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय और यशःकातिकी चार वृद्धि, चार  
हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर  
अन्तमुहूर्त है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर और कामणशरीरादि नौ प्रकृतियोंकी तीन  
वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अगाता आदि दस  
प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान हैं ।  
आठ कपायोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट  
अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि और अवक्तव्यबन्धका भंग ज्ञाना-  
वरणके समान हैं । खीवेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय  
हैं, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ  
सागर हैं । पुरुषवेदकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितबन्धका भंग ज्ञानावरणके समान हैं ।  
अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर दो पूर्वकोटि अधिक दो छयासठ  
सागर हैं । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादे-  
यकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं, अवक्तव्यबन्धका जघन्य  
अन्तर अन्तमुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन  
पत्य हैं । तीन आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर  
पृथक्त्व प्रमाण हैं । मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि  
पृथक्त्व अधिक एक हजार सागर हैं । पर्याप्तकामे चारों आयुआक दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्त-  
मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण हैं । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वा,  
आतप और स्थावर आदि चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक



सद० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेवड्ढिसाग०सदं० । मणुसग०-देवग०-वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो०-वेआणु० तिण्णिवड्ढि-हा०-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । पंचिदि०-पर०-उस्सास-तस०४ तिण्णिवड्ढि-हा०-अवट्ठिणाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसाग०सदं० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० सादि० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । आहारदुगं तिण्णिवड्ढि-हा०-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायड्ढिदी० । समचदु०-पसत्थ० सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछावट्ठिसाग० सादि० तिण्णिपलिदो० देसु० । तिस्थय० ओघं । णीचा० णवुंसगभंगो । उच्चा० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० देवगदिभंगो । असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणी० सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछावट्ठि० सादि० तिण्णिपलिदो० देसु० । एवं तस-तसपज्जत्तगे । णवरि सगड्ढिदी भाणिदव्वा ।

८६१. तसअपज्जत्तगेसु धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर हैं । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है । मनुष्यगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकआंगोपाङ्ग, और दो आनुपूर्वीकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हैं । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्ककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैं । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौपचासी सागर है । औदारिकशरीर, औदारिआंगोपांग और वज्रभृषभनाराच संहननकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैं । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है तीर्थकर प्रकृतिका भंग आघके समान है । नीचगोत्रका भंग नपुंसकबेदके समान है । उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग देवगतिके समान है । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग सातावेदनीयके समान हैं । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है । इसी प्रकार त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिये ।

८६१. त्रस अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य

अवट्टि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि स० । सेसाणं तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

८९२. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०अट्टारस० तिण्णिवट्टि-हा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बेसमयं । असंखेज्जगुणवट्टि हाणि० जहण्णु० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । पंचदंस०-मिच्छ० वारसक०-भय-दुगु०-तेजग्गादिणव-आहारदुग-तित्थयर० तिण्णिवट्टि-हा०-अवट्टि०-अवत्त० णाणावरणभंगो । सादा०-पुरिस०-जस०-उच्चा० तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असंखे-ज्जगुणवट्टि-हा० जह० उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । इत्थि०-णवुंस०-हस्स रदि-अरदि-सोग-चदुगदि-पंचजादि-ओरालि०-वेउव्वि०-छस्संठाण-दोअंगो०-छस्संध०-चदुआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-दोविहा०-तस-थावरादिणवयुगल-अजस०-णीचा० तिण्णिवट्टि-हा०-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । चदुण्णं आयुगाणं दोपदा० णत्थि अंतरं । एवं ओरालि०-वेउव्वि०-आहार० । णवरि ओरालि० काईसु० विसेसो । परियत्तमाणिगाणं अवत्त० जहण्णु० अंतो० ।

८९३. कायजोईसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० तिण्णिवट्टि-हा०-अवट्टि० ओघं । असंखेज्जगुणवट्टि-हा० जह० उक्क० अंतो० । णवरि वट्टि० जह० एग० । अवत्त०

अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल चार समय है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग निर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

८९२. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि आठारह प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, दारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजमशरीर आदि नौ, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति और उच्चगात्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । असांख्यातगुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, चारगति, पाँच जाति, औदारिक-शरीर, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, परधान, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस और स्थावर आदि नौ युगल, त्रयशःकीर्ति और नीचगात्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । चार आयुओंके दो पदोंका अन्तर काल नहीं है । इसीप्रकार औदारिक काययोगी, वैक्रियिक काययोगी और आहारककाय-योगी जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगी जीवोंमें परिवर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है ।

८९३. काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्त-रायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग ओघके समान है । असंख्यातगुणवृद्धि

णत्थि अंतरं । थीणगिद्धितिग-मिच्छ०-वारसक० तिण्णिवड्ढिहा० णाणावरणभंगो । अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । णिहा-पचला-भय-दु० ओरालि०-तेजइगादि-णव असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । बेवड्ढि-हा० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं असंख० । अवत्त० णत्थि अंतरं । साद०-पुरिस०-जस० चत्तारिवड्ढि-हा०-अवड्ढि० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । आसाद०-छणो-कसाय-पंचजादि-उस्मंठा०-ओरानियंगो०-उस्संघ०-पर०-उस्सा० आदाउज्जो०-दोविहा०-तस-थावरादिणवयुगल अजस० तिण्णिवड्ढि-हाणि० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । णिरय-देवायुगस्स दोपदा० णत्थि अंतरं । तिरक्खायु० दोपदा० ज० अंतो०, उक्क० बावीसं वाससहस्सा० सादि० । मणुमायु० दो वि पदा ओधं । मणुसग०-मणुसाणु० ओधं । वेउव्वियलक्क-आहारदुग-तित्थयरं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० संखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । बेवड्ढि हाणि-अवत्त० मणुसगदिभंगो । उच्चा० मणुसगदिभंगो । णवरि असंखेज्जगुणवड्ढि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असं-

और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर काल एक समय है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । स्त्यानवृद्धि तीन, मिथ्यात्व और वारह कपायकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर और तैजसशरीरादि नौ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अपस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । सातावेदनीय, पुरुषवेद और यशःकीर्तिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असाता वेदनीय, छह नोकपाय, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस और स्थावर आदि नौ युगल और अयशःकीर्तिकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नरकायु और देवायुके दो पदोंका अन्तर काल नहीं है । तिर्यञ्चायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है । मनुष्यायुके दोनों ही पदोंका भङ्ग आधक समान है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्विका भङ्ग आधक समान है । वैकिक छह, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विका और नीचगोत्रकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य बन्धका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । उच्चगोत्रका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक

खेज्जगुणहा० जह० उक्क० अंतो० । एवं सव्वाणं असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणी० ।

८६४. ओरालियमिस्सका० धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि सम० । देवगदि०४-तित्थय० तिण्णिवड्ढि-हा० णाणावरणभंगो । अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । दोआयु० दोपदा० अपज्जत्त-भंगो । सेसाणं परियत्तमाणियाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जहण्णु० अंतो० ।

८६५. वेउव्वियमि० वेउव्वियकायजोगिभंगो । णवरि परियत्तमाणियाणं अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । एवं आहारमि० । कम्मइ० सव्वाणं णत्थि अंतरं । अथवा वेउव्वियमि०-ओरालियमि०-कम्मइ० अवत्त० णत्थि अंतरं ।

८६६. इत्थिवे० पंचणा०-चदुदंस०-चदुमंज०-पंचंत० वेवड्ढि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । संखेज्जगुणवड्ढि-हा० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडिपुध० । असंखेज्जगुणवड्ढि-हा० जह० उक्क० अंतो० । अवड्ढि० जह० एग० उक्क० तिण्णि समयं । थीणगिद्वि०३ मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ तिण्णिवड्ढि-हा०-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसू० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पलिदोवमसदपुध० । णिहा-

समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सब जीवोंके असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तर काल जानना चाहिये।

८६४. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। देवगति चार और तीथङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। दो आयुओंके दो पदोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है। शेष परिवर्तमान प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

८६५. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका भङ्ग वैक्रियिककाययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि परिवर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये। कर्मणकाययोगी जीवोंमें सब कर्मोंका अन्तर काल नहीं है। अथवा वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी और कर्मणकाययोगी जीवोंमें अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है।

८६६. स्त्रीवदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है। असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचारकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित

पचला-भय-दुगुं-तेजइगादिणव० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० णाणावरणभंगो । अवत्त० णत्थि  
 अंतरं । सादा०-जसगि० तिण्णि-वड्ढि-हा० णाणावरणभंगो । असंखेज्जगुणवड्ढि-हा०-  
 अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असादादिदस०  
 पंचिदियभंगो । अट्टकसा० बेवड्ढि-हा०-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० ।  
 संखेज्जगुणहाणी० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पलिदोवमसदपुधत्तं ।  
 इत्थि०-णवुंसं० तिरिक्खग०-एहंदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-  
 अप्पसत्थ०-थावर-दुभग-दुस्सर-अणादे० णीचा० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०,  
 अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसू० । णिरयायु० दोपदा० जह०  
 अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू० । तिरिक्ख-मणुसायु० दोपदा० जह० अंतो०,  
 उक्क० पलिदो० सदपुध० । [देवायु०] दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० अट्टावण्णं पलिदो०  
 पुव्वकोडिपुध० । मणुसगदिपंचगं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० [तिण्णि]  
 पलिदो० देसू० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसू० । णवरि ओर-  
 लियसरीर० पणवण्णं पलिदो० सादि० । वेउव्वियल्ल०-तिण्णिजादि-सुहूम-अपज्ज०-  
 साधार० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं

बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है । अवक्तव्य  
 बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्त सौ पत्य पृथक्त्व प्रमाण है । निद्रा, प्रचला,  
 भय, जुगुप्सा और तैजसशरीर आदि नौ प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका  
 भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । सातावेदनीय और यशः-  
 कीर्तिकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । असंख्यातगुणवृद्धि, असं-  
 ख्यातगुणहानि और अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित  
 बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असाता आदि दस प्रकृ-  
 तियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । आठ कपायोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित बन्धका  
 जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । संख्यातगुणहानिका  
 भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर  
 सौ पत्य पृथक्त्व प्रमाण है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच  
 संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय  
 और नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अव-  
 क्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है ।  
 नरकायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्व कोटिका कुछ कम त्रिभाग-  
 प्रमाण है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । और उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्य  
 पृथक्त्व प्रमाण है । देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्व  
 कोटि पृथक्त्व अधिक अट्टावन पत्य है । मनुष्यगतिपञ्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित  
 बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य  
 अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है । इतनी विशेषता है कि औदारिक-  
 शरीरका साधिक पचपन पत्य है । वैक्रियिक छह, तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणकी

पल्लिदो० सादि० । पुरिस०-उच्चा० चत्वारिवृद्धि-हाणि-अवट्टि० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पल्लिदो० देसू० । [ पंचिदि-समच०-पसत्थ०-तस०सुभग० सुस्सर०-आदे० ] तिण्णिवृद्धि-हाणि-अवट्टि० सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पल्लिदो० देसू० । आहारदुगं तिण्णिवृद्धि-हाणि-अवट्टि० जह०-एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सगट्टिदी० । पर०-उस्सा०-वादर-पज्जत्त-पत्ते० तिण्णिवृद्धि-हाणि-अवट्टि० सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पल्लिदो० सादि० । तित्थय० तिण्णिवृद्धि-हा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं ।

८६७. पुरिस० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० चत्वारिवृद्धि-हाणि-अवट्टि० पंचिदियपज्जत्तभंगो । णवरि अवट्टि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि सम० । अवत्त० णत्थि अंतरं । सेसाणं सव्वाणं पंचिदियपज्जत्तभंगो । यो विसेसो तं भणिस्सामो । पुरिसे अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेछावट्टिसाग० सादि० । णिरयायु० दोपदा० जह०-अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू० । देवायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं

तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्नमुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य है । पुरुषवेद और उच्चगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैं । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है । पञ्चेन्द्रिय-जाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, ब्रह्म, मुभग, मुस्वर और आदेयकी तीनवृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान हैं । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है । आहारकट्टिककी तीनवृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थिति प्रमाण है । परधान, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान हैं । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

८६७. पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । अवक्तव्यबन्धका अन्तर काल नहीं है । शेष सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके समान है । जो विशेषता है उसे कहते हैं—पुरुषवेदके अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर हैं । नरकायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है । देवायुके दो

१ मूलप्रती देसू० । सेसाणं ओघं । ओराळि०अंगो० तिण्णि० इति पाठः । २ मूलप्रती अवट्टि० मणुसगदिभंगो इति पाठः ।

साग० सादि० । मणुसगदिपंचगस्स तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादि० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछावट्ठि सा० सादि० तिण्णि पलिदो० देसू० । उच्चा० चत्तारि-वड्ढि-हाणि-अवट्ठि० सादभंगो । अवत्त० समचदु०भंगो । एसिं० असंखेज्जगुणहाणि-बंधंतरं कायट्ठिदी० तेसिं तेत्तीसं सा० सादि० पुव्वकोडी सादिरे० ।

८६८. णवुंस० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंजल०-पंचंत० तिण्णिवड्ढि-हाणी० ओघं । असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणी० जह० उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । थीणगिद्वि३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । बेवड्ढि-हाणि-अवत्त० ओघं । णिहा-पचला-भय-दुगुं-तेजहगादिणव० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० णाणावरणभंगो । अवत्त० णत्थि अंतरं । सादावे०-जसगि० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० ओघं । असंखेज्ज-गुणवड्ढि-हाणी० जह० उक्क० अंतो० । असादादिदस-अट्ठकसा०-तिण्णिआयु०-वेउ-व्वियल्ल०-मणुसगदिदुग०-आहारदुग० ओघं । देवायु० तिरिक्खभंगो । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा-पंचसंध०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० असंखेज्जभागवड्ढि-

पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । मनुष्यगति पञ्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, मुभग, सुस्वर और आदेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पल्य है । उच्चगोत्रका चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यबन्धका भङ्ग समचतुरस्र संस्थानके समान है । जिनके असंख्यात गुणहानिबन्धका अन्तर कायस्थिति प्रमाण है उनके वह पूर्वकोटि अधिक साधिक तेतीस सागर है ।

८६८. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका भङ्ग ओघके समान है । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्यबन्धका भङ्ग ओघके समान है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा और तैजसशरीर आदि नौ प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय और यशःकीर्तिकी तीन वृद्धि, तीन हानि अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असातावेदनीय आदि दस, आठ कषाय, तीन आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगतिद्विक और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । देवायुका भङ्ग तिर्यञ्चोके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच

हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देखू० । बेवट्टि-हाणी० ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देखू० । पुरि०-समच०-पसत्थ०-सुभग०-सुस्सर०-आदे० तिण्णिवट्टि-हाणि० सादभं० । अवत्त० जह० अंतो, उक्क० तेत्तीसं सा० देखू० । ] तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० असंखेज्जभागवट्टि-हाणि-अवट्टि० इत्थिवेदभंगो । बेवट्टि-हाणी-अवत्त० ओघं । चहुज्जादि-आदाव-थावरादि०४ एकवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । बेवट्टि-हा० ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस० असंखेज्जभागवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी० देखू० । बेवट्टि-हा० ओघं । ओरालि० अवत्त० ओघं । ओरालि०अंगो० अवत्त० जह०अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । वज्जरिस० देखू० । तित्थय० तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडि-तिभागं देखू० । उच्चा० मणुसगदिभंगो । णवरि असंखेज्जगुणवट्टि-हाणी० इत्थि०भंगो ।

संहनन, उज्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ओघके समान है अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । पुरुषवेद, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्यबन्धका भङ्ग ओघके समान है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रस चतुष्ककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्ररूपभनाराच संहननकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ओघके समान है । औकारिकशरीरका भङ्ग ओघके समान है । औदारिक आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तथा वज्ररूपभनाराच संहननका कुछ कम तेतीस सागर है । नीर्थक प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है । उरुचगोत्रका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है ।



८६६. अवगदवे० सव्वपगदीणं वड्ढि-हाणी० जह० उक्क० अंतो० । अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । एवं सुहुमसंपराइ० । णवरि अवड्ढि० जह० उक्क० एग० । अवत्त० णत्थि अंतरं ।

९००. कोधे पंचणाणावरणादिअट्टारसण्णं तिण्णिवड्ढि-हाणि०-असंखेज्जगुणवड्ढी जह० एग०, उक्क अंतो० । असंखेज्जगुणहाणी० जह० उक्क० अंतो० । अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं । थीणगिड्ढि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ तिण्णिवड्ढि-हाणि० अवड्ढि० णाणावरणभंगो । अवत्त० णत्थि अंतरं । चदुआयु-आहारदुगं मणजोगिभंगो । सेसाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । एसिं असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० तेसिं० णाणावरणभंगो । एवं माण-माया-लोभाणं । णवरि माणे कोधसंज० अवत्त० भाणिदव्वं । मायाए दो संज० अवत्त० । लोभे चदुसंज० अवत्त० भाणिदव्वं ।

६०१. मदि०-सुद० धुविगाणं तिरिक्खोघं । सादादिवारस०-इत्थि०-पुरिस० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० ओघं सादभंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । णवुंस०-पंचसंठा०-ऊस्संध०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०

८६६. अपगतवेदी जीवोंमें सत्र प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अर्वास्थितबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । अवक्तव्यबन्धका अन्तर काल नहीं है ।

६००. क्रोधकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि अठारह प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और शसंख्यात गुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यात गुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यबन्धका अन्तरकाल नहीं है । चार आयु और आहारकद्विकका भंग मनोयांगी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यबन्धका अन्तरकाल नहीं है । जिनका असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात-गुणहानि और अवस्थित बन्ध होता है उनका ज्ञानावरणके समान भङ्ग है । इसी प्रकार मान, माया और लोभ कषायवाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मानकषायवाले जीवोंमें क्रोध संज्वलनका अवक्तव्य कहना चाहिये । माया कषायवाले जीवोंमें दो संज्वलनोंका अवक्तव्य कहना चाहिये । और लोभ कषायवाले जीवोंमें चार संज्वलनोंका अवक्तव्य कहना चाहिये ।

६०१. मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्य-च्छोंके समान है । साता आदि बारह प्रकृतियाँ, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग श्रांघके अनुसार सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य

जह० एग०, उक० तिष्णिपलिदो० देख० । बेवड्डि-हाणी० णाणाव०भंगो । अवत्त०जह० अंतो०, उक० तिष्णि पलिदो० देख० । चदुआयु-वेउन्वियछ०-मणुसगदिदुग-उच्चा० ओघं । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु० असंखेज्जभागवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक० एकत्तीसं सा० सादि० । बेवड्डि-हाणी-अवत्त० ओघं । चदुजादि-आदाव-थाव-रादि०४ णवुंसगभंगो । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ णवुंसगभंगो । ओरालि०-ओरालि०अंगो० एकवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक० तिष्णि पलिदो० देख० । सेसं ओघं । समचदु०-[पसत्थ०-] सुभग-सुस्सर-आदे० अवत्त० जह० अंतो०, उक० तिष्णिपलिदो० देख० । सेसं सादभंगो । उज्जो० एकवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक० एकत्तीसं सा० सादि० । बेवड्डि-हाणी० ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक० एकत्तीसं सा० सादि० । णीचा० एकवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक० तिष्णि पलिदो० देख० । बेवड्डि-हाणि-अवत्त० ओघं । विभंगे भुजगारभंगो ।

९०२. आभि०सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-उच्चा०-पंचंत० तिष्णिवड्डि-हाणि अवड्डि० जह० एग०, उक० अंतो० । असंखेज्जगुणवड्डो जह० एग०,

और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । दो वृद्धि और दो हानियों का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । चार आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर हैं । दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य बन्धका अन्तर ओघके समान हैं । चार जाति, आनप और स्थावर आदि चारका भङ्ग नपुंसकवेदके समान हैं । पञ्चेन्द्रिय जाति, परधान, उच्छ्वास और त्रस चतुष्कका भङ्ग नपुंसकवेदके समान हैं । औदारिकशरीर और औदारिक आङ्गोपाङ्गकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ तीन पल्य है । शेष भङ्ग ओघके समान है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । शेष भङ्ग सातावेदनीयके समान है । उद्योगकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर हैं । दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर हैं । नीचगोत्रकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य बन्धका भङ्ग ओघके समान है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगार बन्धके समान है ।

९०२. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । असंख्यातगुण-

हाणी-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टि० साग० सादि० । सादावे०-असगि० चत्तारिवट्टि-हाणि-अवट्टि० णाणाव०भंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो । असादादिदस० सादभंगो । अट्टकसा० तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० मणुसभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । दोआयु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । मणुसग-दिपंचगस्स तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी सादि० । अवत्त० जह० पल्लिदो० सादि० । उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । देवगदि०४-आहारदुगं तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । [तेजइगादि-धुवि० तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० णाणावरणभंगो ] तिथ्य० ओघं । एवं ओधिर्द०-सम्मदि०-खइग० । णवरि खइग० 'मणुसायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं० देसू० । देवायु० दोपदा जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू० । मणुसगदिपंच-गस्स तिण्णिवट्टि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं । सेसाणं जम्हि छावट्टि० तम्हि तेत्तीसं सा० कादव्वं ।

९०३. मणपज्ज० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-उच्चा०-पंचंत०, तिण्णि-

वृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । सातावेदनीय और यशः कीर्तिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असाता आदि दस प्रकृतियोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । आठ कषायोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग मनुष्योंके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । दो आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । मनुष्यगति पञ्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । देवगति चतुष्क और आहारक द्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर इन सबका साधिक तेतीस सागर है । तैजसशरीर आवि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार अवधि दर्शनी, सम्यग्दृष्टि और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है, कि ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महिना है । देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्व-कोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है । मनुष्यगति पञ्चककी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । शेष प्रकृतियोंका जहाँ छयासठ सागर अन्तर काल कहा है वहाँ तेतीस सागर कइना चाहिये ।

९०३. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद,

१ मूलप्रती मणुसाणु० दो-इति पाठः । २ मूलप्रती कादव्वं मणुसपज्जे पंच-इति पाठः ।

बद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असंख्येजगुणवद्धि-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देस० । सादावे०-अस० णाणावरणभंगो । णवरि अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । णिहा-पचला-भय-दुगुं-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा० क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४ - सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय० तिण्णिवद्धि०-हाणि०-अवद्धि०-जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देस० । असादा०-चदुणोक०-थिराथिर-सुभासुभ-अजस० तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । देवायु० मणुसि०भंगो । एवं संजदा० ।

६०४. सामाह०-छेदो० पंचणा०-चहुदंस०-लोभसंज०-उच्चा०-पंचंत० तिण्णिवद्धि-हा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असंख्येजगुणवद्धि-हा० जह० उक्क० अंतो० । अवद्धि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । णिहा-पचला तिण्णिसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि० तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय० तिण्णिवद्धि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवद्धि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । णवरि तिण्णिसंज०-पुरिस०

उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । सातावेदनीय और यशःकीर्तिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमणि और तीर्थङ्करकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । असात वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्तिका तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । देवायुका भङ्ग मनुष्य नियोंके समान है । इसीप्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये ।

६०४. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, लोभ संज्वलन, उच्चगोत्र, और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । निद्रा, पचला, तीन संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चन्द्रिय-जाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्करकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर

असंखेजगुणवद्धि-हाणी० णाणावर० भंगो । सादावे०-जस० णाणाव० भंगो । णवरि अवत्त० ज० उक्क० अंतो० । सेसाणं णिदादीणं अवत्त० णत्थि अंतरं । असादादिदस-आहारदुगं तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० ज० ए०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । परिहारे धुविगाणं सेसाणं च भुजगारभंगो । एवं संजदासंजदे ।

९०५. असंजदे धुविगाणं मदि० भंगो । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि० ४-इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० णवुंसगभंगो । सादादिवारस मदि० भंगो । पुरिस०-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । सेसाणं सादभंगो । चदुआयु०-वेउन्विचल्ल०-मणुसगदिदुग-उच्चा० ओघं । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० णवुंस० भंगो । ओरालि०-ओरालि० अंगो०-वज्जरिस० ओघं । णवरि वज्जरी० अवत्त० उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । चदुजादिदंडओ पंचिदियदंडओ णवुंसगभंगो । तित्थय० णवुंस० भंगो ।

९०६. तिण्णिले० धुविगाणं तिण्णिवद्धि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवद्धि० ज० ए०, उ० चत्तारि सम० । णिरय-देवायु० दोपदा० णत्थि अंतरं । तिरिक्ख-

अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इतनी विशेषता है कि तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय और यशःकीर्तिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष निद्रा आदिकके अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । असाता आदि दस और आहारकद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारबन्धके समान है । इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये ।

९०५. असंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । साताआदिक वारह प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । चार आयु, बैक्रियिक छह, मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है । औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, और वज्रऋषयनाराचसंहननका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि वज्रऋषभनाराच संहननके अवक्तव्य बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । चार जातिदण्डक और पञ्चेन्द्रियदण्डकका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है ।

९०६. तीन लेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर

मणुसायु० गिरयभंगो । दोगदि-पंचिदि०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-दोआणु०-पर०-  
उस्सा०-आदाव-तस-थावरादिचदुयुगलं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क०  
अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०  
जह० एग०, उक्क० बावीसं सत्तारस सत्त सागरो० सादि० । अवत्त० किण्णाए जह०  
सत्तारससा० सादि०, उक्क० बावीसं सा० सादि० । णीलाए जह० सत्त साग० सादि०,  
उक्क० सत्तारस साग० सादि० । काऊए जह० दसवस्ससहस्सा० सादि०, उक्क० सत्त-  
साग० सादि० । तित्थय० तिण्णिवड्ढि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवड्ढि०  
जह० एग०, उक्क० बेसमयं । सेसाणं गिरयोधं । णवरि णील-काऊए मणुसग०-मणु-  
साणु०-उच्चा० पुरिसभंगो<sup>१</sup> । काऊए० तित्थय० अवत्त० णत्थि अंतरं ।

६०७. तेऊए धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवड्ढि०  
जह० एग०, उक्क० बेसमयं । अट्ठक०-ओरालि०-आहारदुग-तित्थय० धुविगाण भंगो ।  
णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं । देवायु० दोपदा णत्थि अंतरं । देवगदि०४ तिण्णिवड्ढि-  
हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० बेसाग० सादि० । अवत्त० णत्थि अंतरं । थीण-

एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । नरकायु और देवायुके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भङ्ग नारकियोंके समान है । दो गति, पञ्चान्द्रयजाति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, परधान, उच्छ्वास, आतप, त्रम और स्थावर आदि चार युगलकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआङ्गोपाङ्गकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक वाईस सागर, साधिक सत्तरह सागर और साधिक सात सागर हैं । अवक्तव्य बन्धका कृष्णलेश्यामें जघन्य अन्तर साधिक सत्तरह सागर और उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस सागर है । नीललेश्यामें जघन्य अन्तर साधिक सात सागर और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सत्तरह सागर है । कापोतलेश्यामें जघन्य अन्तर साधिक दसहजार वर्ष और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है ! इतनी विशेषता है कि नील और कापोत लेश्यामें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग पुरुषवन्दके समान है । कापोतलेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है ।

६०७. पीतलेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आठ कपाय, औदारिक शरीर, आहारकट्टिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिक भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । देवायुके दो पदोंका अन्तर काल नहीं है । देवगत वनस्पतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक

१ मूलप्रतौ-भंगो तित्थय० अवत्त० णत्थि अंतरं । काऊए० तेऊए इति पाठः ।

गिद्धि०३दंडओ साददंडओ इत्थिदंडओ पुरिसदंडओ तिरिक्ख०मणुसायुग० सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि । णवरि ओरालि०-ओरालि०अंगो० अट्टक०भंगो । सेसाणं सहस्सारभंगो ।

६०८. सुक्काए पंचणा०अट्टारसण्णं चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असंखेज्जगुणहाणी० जह० उक्क० अंतो० । अवत्त० गत्थि अंतरं । थीणगिद्धि०३ दंडओ णवगेवज्जवभंगो । णिहा-पचला-भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-तित्थय० तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० गत्थि अतरं । साद०-जस० णाणावरणभंगो । णवरि अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । असादादिदस-आहारदुगं तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० सादभंगो । णवरि आहारदुगं अवत्त० गत्थि अंतरं । अट्टकसा०-मणुसग०-ओरालि०-ओरालि० अंगो०-वज्जरिस०-मणुमाणु० सादभंगो । णवरि अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अवत्त० गत्थि अंतरं । पुरिस०-उच्चा० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० एकत्तीसं सा० देसू० । सेसाणं णाणावरणभंगो । देवगदि०४ तिण्णिवट्ठि-हाणी-अवट्ठि० जह० एग०,

दो सागर हैं । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । स्त्यानगृद्धिक्कदण्डक, सातावेदनीयदण्डक, स्त्रीवेददण्डक, पुरुषवेददण्डक, निर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भङ्ग सौर्धमकल्पके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंके भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि औदारिकशरीर और औदारिक अङ्गोपाङ्गका भङ्ग आठ कपायके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सहस्त्रारकल्पके समान है ।

६०८. शुक्लेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि आठरह प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । स्त्यानगृद्धिक्कदण्डकका भङ्ग नौ भैवेयिकके समान है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निमाण और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय और यशःकीर्तिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असातावेदनीय आदि दस और आहारकद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य बन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । इतनी विशेषता कि आहारकद्विकके अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है । आठ कपाय, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रऋषभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । पुरुषवेद और उच्चगोत्रके अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । देवगति चतुष्ककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर साधिक

उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अवत्त० जह० अट्टारस साग० सादि०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । सेसाणं भुजगारभंगो । भवसि० ओघं । अब्भवसि० मदि०भंगो ।

६०६. वेदगे धुविगाणं सादादिवारस० परिहारभंगो । अट्टक०—दोआयु०—मणुस-गदिपंचग—आहारदुगं ओधिभंगो । देवगदि०४ तिण्णिवट्ठि—हाणि—अवट्ठि० ओधिभंगो । अवत्त० जह० पलिदो० सादि०, उक्क० तेत्तीसं सादि० । तित्थय० तेउभंगो ।

६१०. उवसम० पंचणा०अट्टारस० चत्तारिवट्ठि—हाणि—अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । णवरि असंखेज्जगुणहाणी जह० उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । णिदा—पचला—भय-दुगुं०—देवगदि—पंचिदि०—वेउव्वि०—तेजा०—फ० समचदु०—वेउव्विय० अंगो०—वण्ण०४—देवाणु०—अगु०४—पसत्थ०—तस०४—सुभग—सुस्सर—आदे०—णिमि० तित्थय० णाणावरणभंगो । सादावे०—जस० अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । सेसाणं णाणावरणभंगो । असादा०—अट्टक०—चदुणोक्क०—आहारदुग—थिरादिपंच सादभंगो । मणुसगदिपंचग० तिण्णिवट्ठि—हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उ० वेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं ।

९११. सासणे धुविगाणं वेदगभंगो । सेसाणं मणजोगिभंगो । सम्मामि० धुविगाणं

अठारह सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हैं । शेष भङ्ग भुजगारके समान हैं । भव्य जीवोंमें आघके समान भङ्ग है । अभव्य जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है ।

६०६. वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और सातावेदनीय आदि बारह प्रकृतियोंका भङ्ग परिहारविशुद्धि संयतोंके समान है । आठ कपाय, दो आयु, मनुष्यगति पञ्चक और आहारकद्विकका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान हैं । देवगति चतुष्ककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक उल्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग पीतलेस्यावाले जीवोंके समान है ।

६१०. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि अठारह प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है । निद्रा, प्रचला, भय जुगुप्सा, देवगति, पञ्चन्द्रिय ज्ञानि, वैक्रियिक-शरीर, तैजसशरीर, कामिणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गापाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानु-पूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुम्बर, आदेय, निर्माण और तीर्थ-ङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय और यशःकीर्ति के अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । आसातावेदनीय, आठ कपाय, चार नोकपाय, आहारकद्विक और स्थिर आदि पाँचका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । मनुष्यगतिपञ्चककी तीन वृद्धि और तीन हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है ।

६११. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके



वेदगर्भंगो । सेसाणं तिण्णिवद्धि-हाणि-अवट्ठि० ज० ए०, उ० अंतो० । अवत्त० जह० एग०, उ० अंतो० । मिच्छ० मदि०भंगो । सण्णि० पंचिंदियपज्जतभंगो ।

६१२. असण्णीसु धुविगाणं असंखेज्जभागवद्धि-हाणि० जह० एग०, उ० अंतो० । संखेज्जभागवद्धि-हाणि० जह० एग०, उ० अणंतका० । एवं संखेज्जगुणवद्धि-हाणि० । णवरि जह० खुदा० समयू० । एसिं संखेज्जगुडवद्धि-हाणि० अत्थि तेसिं सव्वेसिं पि एवं चेव । अवट्ठि० जह० एग०, उ० बे-तिण्णि सम० । चदुआयु०-बेउव्वियच्छ०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० तिरिक्खोघं । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० असंखेज्जभागवद्धि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उ० अंतो० । संखेज्जभागवद्धि-हाणि० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उ० असंखेज्जा लोगा । सेसाणं असंखेज्जभागवद्धि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उ० अंतो० । संखेज्जभागवद्धि-हाणी० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० उ० अंतो० ।

६१३. अहारा० ओघं । णवरि यम्हि अणंतका० तम्हि अगुल० असंखेज्ज० कादव्वो । सेसं ओघं । अणाहार० कम्महगभंगो । एवं अंतरं समत्तं ।

समान हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मत्तोंयागी जीवोंके समान हैं । सभ्यगमभ्यादृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्स्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । संज्ञी जीवोंमें पञ्चेन्द्रियपयीत्र जीवोंके समान भङ्ग है ।

६१२. असंज्ञी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । संख्यात भागवृद्धि, और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । इसी प्रकार संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका अन्तर काल जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनका जघन्य अन्तर एक समय कम लुल्लक भवग्रहण प्रमाण है । जिनकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानि होती है उन सबके भी इसी प्रकार जानना चाहिये । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो तीन समय है । चार आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । संख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागहानिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

६१३. आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि जहाँ अनन्तकाल कहा है वहाँ अङ्गलका असंख्यातवों भाग प्रमाण अन्तर कहना चाहिये । शेष भङ्ग ओघके समान है । अनाहारक जीवोंका भङ्ग कर्मणकाययागी जीवोंके समान है । इसप्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ ।

## णाणाजीवेहि भंगविचओ

६१४. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-  
णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-  
णिमि०-पंचंत० असंखेज्जभागवड्ढि हाणि-अवट्ठि० बं० णियमा अत्थि । सेसाणि पदाणि  
भयणिज्जाणि । तिण्णिआयु० पदा० भयणिज्जाणि । वेउच्चियल्ल०-आहारदुग-त्तित्थय०  
अवट्ठि० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । सेसाणं असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-  
अवट्ठि०-अवत्त० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । एवं ओघभंगो कायजोगि-  
ओरालि०-ओरालि०मि० कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि० ४-मदि०-सुद०असंज०-अचक्खुदं०-  
तिण्णिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-आहार०-अणाहारग ति । णवरि ओरालियमि०-  
कम्मइ०-अणाहार० मिच्छ० अवत्त० देवगदिपंचग० अवट्ठि० भयणिज्जा । सेसाणं  
अवट्ठि० अवत्त० णियमा अत्थि ।

६१५. तिरिक्खेसु ओघं । मणुसअपज्जत्त०-वेउच्चियमि०-आहार०-आहारमि०-  
अवगदवे०-सुहुमसंप०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० सच्चपदा भयणिज्जा । एहंदिय-  
वण्णफ्फदि-णियोद-बादरपज्जत्तापज्ज०-पुट्ठवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-सच्चसुहुमबादरपुट्ठवि-  
आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवण्णफ्फदिपत्तेय० तेसिं अपज्ज० सच्चपदा णियमा अत्थि ।

## नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय

६१४. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश ।  
आघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, आँदारिक  
शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघान, निर्माण और पाँच अन्तरायकी  
असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव नियमसे हैं । शेष  
पद भजनीय हैं । तीन आयुओंके पद भजनीय हैं । वैक्यिक छद्म, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर  
प्रकृतिके अवस्थित पदके बन्धक जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । शेष प्रकृतियोंकी असं-  
ख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव नियमसे हैं ।  
शेष पद भजनीय हैं । इसी प्रकार आघके समान काययोगी, आँदारिककाययोगी, आँदारिक  
मिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी,  
असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भय, अभय, मिथ्यादृष्टि, आहारक और अनाहारक  
जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि आँदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और  
अनाहारक जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके और देवगति पञ्चकके अवस्थित पदके बन्धक  
जीव भजनीय हैं । शेष प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव नियमसे हैं ।

६१५. तिर्यञ्चोमें आघके समान भङ्ग है । मनुष्य अपर्याप्त, वैक्यिकमिश्रकाययोगी, आहारक  
काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सूक्ष्ममात्स्यसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादन  
सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब पद भजनीय हैं । एकन्द्रिय, वनस्पतिकार्यिक, निगोद  
और इनके बादर पर्याप्त और अपर्याप्त, पृथिवीकार्यिक, जलकार्यिक, अग्निकार्यिक, वायुकार्यिक, सब-  
सूक्ष्म, बादर पृथिवीकार्यिक, बादर जलकार्यिक, बादर अग्निकार्यिक, बादर वायुकार्यिक, बादर

सेसाणं गिरयादि याव सण्णि त्ति असंखेज्ज-संखेज्जरासीणं आयुगवजाणं अवट्ठि० णियमा  
अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । आयु० सव्वपदा भयणिज्जा ।

एवं भंगविचयं समच्चं

## भागभागो

६१६. भागाभागाणु० दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-  
पंचंत० असंखेज्जभागवट्ठि-हाणिवंधगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? असंखेज्ज०भागो ।  
तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवत्त०बंध० सव्वजी० अणंतभा० । अवट्ठि० सव्वजी० केव० ?  
असंखे०भा० । पंचदंसणा०-मिच्छ०-बारसक०-भय०-दु०-ओरालि०-तेज्जगादिणव०  
तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० णाणावरणभंगो । सादावे०-पुरिस०-जसगि०-उच्चा०  
असंखेज्जभागवट्ठि-हाणि-अवत्त० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जदिभा० । तिण्णिवट्ठि-हाणी०  
सव्व० केव० ? अणंतभाग० । अवट्ठि० सव्व० केव० ? असंखेज्जभा० । असादा०-इत्थि०-  
णवुंस०-चदुणोक०-दोगदि-पंचजादि०-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संध०-दोआणु०-पर०-  
उस्सा०-अदाउज्जो०-दोविहा०-तसथावरालिणवयुगल-अजस०-णीचा० सादभंगो । चदु-

वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर और इनके अपर्याप्त जीवोंमें सब पदवाले जीव नियमसे हैं । नरक-  
गतिसे लेकर संज्ञीतक शेष सब असंख्यात और संख्यात राशिवाली मार्गणाओंमें आयुकर्मको  
छोड़कर अवस्थित पदवाले जीव नियमसे हैं । शेष पदवाले जीव भजनीय हैं । आयुकर्मके सब  
पदवाले जीव भजनीय हैं ।

इस प्रकार भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

## भागभाग

६१६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे  
पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि और  
असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण  
हैं । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सब जीवोंके अन्तर्वें भाग प्रमाण  
हैं । अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण है ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण  
हैं । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर और तैजसशरीर  
आदि नौ प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका  
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी असंख्यातभाग-  
वृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण  
हैं । तीन वृद्धि और तीन हानियोंके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ?  
अन्तर्वें भाग प्रमाण हैं । अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण  
हैं । असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार नाकपाय,  
दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक आङ्गापाङ्ग, छह संहनन, दो आलुपूर्वी,  
परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्यांत, दो विहायोगति, त्रस और स्थावर आदि नौ युगल, अयशः-

आयु० अवत्त० सव्व० केव० ? असंखेज्जदिभागो । असंखेज्जदिभागहाणी सव्व० केव० ? असंखेज्जा भागा । वेउव्वियद्ध०-तित्थय तिण्णिवद्धि-हाणि-अवत्त० सव्व० केव० ? असंखेज्जदिभागो । अवद्धि० सव्व० केव० ? असंखेज्जा भागा । आहारदुगं तिण्णिवद्धि हा०-अवत्त० सव्व० केव० ? संखेज्जभागो । अवद्धि० सव्व० केव० ? संखेज्जा भागा । एवं तिरिक्खोर्धं कायजोगि-ओरालि-ओरालियमि-णवुंस-कोधादि०४-मदि-सुद-असंज-अचक्खुद-तिण्णिले-भवसि-अभवसि-मिच्छा-आहारग ति एदेसि ओषेण साघेदूण अप्पणो पगदी णादूण कादव्वं । एसिं असंखेज्जजीविगा तेसिं ओषे देवगदि-भंगो । ए संखेज्जजीविगा ते आहारसरीरभंगो । ए अणंतजीविगा ते असादभंगो । णवरि एइंदिय-वणप्फादि-णियोदाणं धुविगाणं असंखे० भागवद्धि-हाणी केव० ? असंखेज्जदिभागो । अवद्धि० असंखेज्जा भागा । सेसाणं एगवद्धि-हाणि-अवत्त० सव्व० केव० ? असंखेज्जदिभागो । अवद्धि० सव्व० केव० ? असंखेज्जा भागा ।

६१७. कम्मइगं परियत्तमणियाणि अवत्त० सव्व० केव० ? असंखेज्जदिभागो । अवद्धि० सव्व० केव० ? असंखेज्जा भागा । एवं अणाहारा० ।

कीर्ति और नीचगोत्रका भंग सातावेदनीयके समान है । चार आयुओंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यात भागहानिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण है । वैक्रियिक छद्म और तीर्थकर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । आहारकद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण है ? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचलुःदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारक इनके आंधसे साधकर अपनी अपनी प्रकृतियोंको जानकर भागाभाग कहना चाहिये । जिन मार्गणाओंका प्रमाण असंख्यात है उनमें आंधके अनुसार देवगनिके अनुमार भंग जानना चाहिये । तथा जिन मार्गणाओंका प्रमाण संख्यात है उनका आंधके अनुसार आहारक शरीरके समान भंग जानना चाहिये । और जिन मार्गणाओंका प्रमाण अनन्त है उनका असातावेदनीयके समान भंग जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि एकेंद्रिय, वनस्पतिकार्यिक और निगोद जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि और असंख्यात भागहानिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात बहु भाग प्रमाण हैं । शेष प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण है ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण है ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण है ।

६१७. कर्मणकाययोगी जीवोंमें परिवर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

६१८. अवगदवे० पंचणा०-चदुदंस० चदुसंज०-पंचंतरा० संखेज्जभागवड्ढि-हाणी संखेज्जगुणवड्ढि हाणि-अवत्त० सव्व० केव० ? संखेज्जदिभागो । अवड्ढि० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । सादावे०-जसगि०-उच्चा० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवत्त० संखेज्ज-दिभागो । अवड्ढि० संखेज्जा भागा । सुहुमसंप० सव्वाणं संखेज्जभागवड्ढि-हाणी संखे-ज्जदिभागो । अवड्ढि० संखेज्जा भागा ।

एवं भागाभागं समत्तं

### परिमाणं

६१९. परिमाणगुणमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुभंज०-पंचंत० असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० केवडिया ? अणंता । वेवड्ढि-हाणी केव० ? असंखेज्जा । असंखेज्जगुणवड्ढि हाणि-अवत्त० केव० ? संखेज्जा । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-अपचक्खाणा०४-ओरालिय० णाणाव०भंगो । णवरि अवत्त० असंखेज्जा । णिहा-पचला-पचक्खाणा०४-भय०-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० अणंता । वेवड्ढि-हाणि केव० ? असंखेज्जा । अवत्त० संखेज्जा । तिण्णियायु० दोपदा० असंखेज्जा । तिरिक्खायु० दोपदा अणंता ।

६१८. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण है ? संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अवस्थितपदके बन्धक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी संख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागहानिके बन्धक जीव संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अवस्थितपदके बन्धक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

### परिमाण

६१९. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, अप्रत्याख्यानावरण चार और आदारिक शरीरका भंग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यात हैं । निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरण चार, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, उपघात और निर्माणकी असंख्यात भाग-वृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्त हैं । दो वृद्धि और दो हानि पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं । तीन

वेउच्चियल्लकं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०-अवत्त० केव० ? असंखेज्जा । आहारदुगं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०-अवत्त० केव० ? संखेज्जा । तित्थय तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० असंखेज्जा । अवत्त० संखेज्जा । सेसाणं असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० केव० ? अणंता । सेसपदा केव० ? असंखेज्जा । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालि०-ओरालि-यमि०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-असण्णि-आहारगति । णवरि ओरालियमि० देवगदिपंचग० तिण्णिवड्ढि-हा०-अवड्ढि० केव० ? संखेज्जा । सेसाणं पि किंचि विसेसो णादब्बो ।

६२०. णिरएसु मणुसायु० दोपदा तित्थय० अवत्त० संखेज्जा । सेसाणं सव्वपदा असंखेज्जा । एवं सव्वणेरइय-देवाणं वेउवि० । णवरि सव्वट्ठे संखेज्जा ।

६२१. सव्वपंचिंदियतिरिक्ख० सव्वपगदीणं सव्वपदा असंखेज्जा । एवं मणुसअपज्जत्त-सव्वविगलिंदि०-सव्वपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदिपत्ते०-पंचिंदिय-तसअपज्जत्त-वेउच्चियमि०-विभंग० ।

६२२. मणुसेसु पंचणा० णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तेजा० क०-

आयुओंके दो पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । तिर्यञ्चायुके दो पदोंके बन्धक जीव अनन्त हैं । वैक्रियिक छहकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आहारकद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तीर्थकरकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि, असांख्यात भागहानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारि काययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असांख्य, अचक्षुदर्शनी, तीन लेख्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असांखी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेषमें भी कुछ विशेषता जाननी चाहिये ।

६२०. नारकियोंमें मनुष्यायुके दो पदोंके और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी, देव, और वैक्रियिककाययोगी जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थमिद्धिमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

६२१. सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथ्वी कायिक, सब जलकायिक, सब अप्रि-कायिक, सब वायुकायिक, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येकशरीर, सञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और बिभङ्गज्ञानी जीवोंमें जानना चाहिये ।

६२२. मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, मोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, नैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुलधु, उपघान, निर्माण और पाँच अन्तरायकी तीन-

वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० केव० ? असंखेज्जा । सेसपदा संखेज्जा । दोआयु०-वेउव्वियल्ल०-आहारदुग-तित्थय० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० अवत्त० संखेज्जा । सेसाणं सव्वपदा असंखेज्जा । णवरि साद०-जस०-उच्चा० असंखेज्जगु-णवड्ढि-हाणी केव० ? संखेज्जा । मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु सव्वपदा संखेज्जा । एवं एस भंगो आहार०-आहारमि०-अरगदवे०-मणपज्ज०-संजद-सामाह०-छेदो०-परिहार०-सुद्धम० ।

६२३. सव्वएइंदिय-वण्णफदि-णियोदेसु मणुसायुगस्स दोपदा असंखेज्जा । सेसाणं सव्वपदा अणता ।

६२४. पंचिंदिय-तस०२ पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणी-अवत्त० केव० ? संखेज्जा । सेसपदा असंखेज्जा । णिदा-पचला-भय-दु०-पच-क्खाणा०४-तेजइगादिणव-तित्थय० अवत्त० केव० ? संखेज्जा । सेसपदा असंखेज्जा । आहारदुगं ओघं । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वपदा केव० ? असंखेज्जा । एवं पंच-मण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-चक्खुदं०-सण्णि त्ति । णवरि इत्थि० तित्थय० सव्वपदा संखेज्जा० ।

९२५. कम्मइग०-अणाहार० देवगदिपंचगस्स अवट्ठि० केवडिया ? संखेज्जा । सेसाणि अवट्ठि०-अवत्त० केव० ? अणता । मिच्छत्त० अवत्त० असंखेज्जा ।

वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव कितने है ? असंख्यात हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं । दो आयु, वैक्रियिक दृष्ट, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित, और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियामे सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार यह भङ्ग आहारककाययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंके जानना चाहिये ।

६२३. सब एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव अनन्त हैं ।

६२४. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, प्रत्याख्यानावरण चार, तैजसशरीरादि नौ और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार पाँच मनायोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुःदर्शनी और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये ! इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

६२५. कर्मण काययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगति पञ्चकके अवस्थित पदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव असंख्यात हैं ।

१२६. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-उच्चा० पंचंत० तिणिवृद्धि-हाणि-अवट्टि० असंखेज्जा । असंखेज्जगुणवृद्धि-हाणि-अवत्त० केव० ? संखेज्जा । णिदा-पचला-पच्चक्खाणा०४-भय-दु०-देवगदि-पंचिदि०-वेउच्चि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउच्चि०-अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-त्तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय० तिणिवृद्धि-हाणि-अवट्टि० असंखेज्जा । अवत्त० संखेज्जा । सादावे०-जस० तिणिवृद्धि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० असंखेज्जा । असंखेज्जगुणवृद्धि-हाणी संखेज्जा । असादा०-अपच्चक्खाणा०४-चदुणोक०-मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०-अंगो० वज्जरिस०-मणुसाणु०-थिराथिर-सुभासुभ-अजस० तिणिवृद्धि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० असंखेज्जा । मणुसायु० दोपदा आहारदुगं सव्वपदा संखेज्जा । देवायु० दोपदा असंखेज्जा । एवं ओधिदंस०-सम्मादि० । संजदासंजदे तित्थय० सव्वपदा संखेज्जा । सेसा असंखेज्जा ।

१२७. तेऊए पच्चक्खाणा०४-देवगदि-तित्थय० अवत्त० संखेज्जा । सेसा असंखेज्जा । मणुसायु० दोपदा० असंखेज्जा । आहारदुगं ओधं । सेसाणं सव्वपदा असंखेज्जा । एवं पम्माए वि । सुक्काए वि असादवे०-थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अट्टक०-ल्लण्णोक०-ल्लसंठा०-ल्लसंध०-दोविहा०-थिरादिपंचयुगल-अजस०-णीचा० तिणिवृद्धि-

१२६. आभिनिवाधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनवरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यात हैं । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरण चार, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, तैजशशरीर, कार्मणशरीर, ममचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, व्रमचतुष्क, मुभग, गुम्ब्य आदेय, निर्माण और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यात हैं । मातावेदनीय और यशःकीर्तिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव असंख्यात हैं । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यात हैं । अमातावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरण चार, चार नोकपाय, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रवृषभनाराच मंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्तिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित, और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यायुके दो पदों और आहारकट्टिकके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं । देवायुके दो पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । संयतासंयत जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं ।

१२७. पीत लेश्यावाले जीवोंमें प्रत्याख्यानावरण चार, देवगति और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यायुके दोनों ही पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । आहारकट्टिकका भङ्ग आंचके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें असातावेदनीय, स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कपाय, छह नो कपाय, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, स्थिर आदि पाँच युगल, अयशःकीर्ति, और नोक-



हाणि-अवट्टि०-अवत्त० असंखेज्जा । सादावे०-जसगि०-उच्चा० ओधिभंगो । दोआयु०-आहारदुग० मणुसिभंगो । सेसाणं असंखेज्जगुणवट्टि-हाणि-अवत्त० संखेज्जा । सेसपदा असंखेज्जा ।

६२८. खइग० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज-पुरिस-उच्चा०-पंचंत-सादादिवारसओधि-भंगो । दोआयु०-आहारदुगं सव्वपदा संखेज्जा । सेसाणं अवत्त० संखेज्जा । सेसपदा असं-खेज्जा । वेदगे सादादिवारस-अपच्चक्खाणा०४-मणुसगदिपंचग० तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० असंखेज्जा । सेसाणं अवत्त० संखेज्जा । सेसाणं सव्वपदा असंखेज्जा । उवसम० पंचणा चदुदंस-चदुसंज-पुरिस-उच्चा० ओधिभंगो । सादावे०-जसगि० असंखेज्जगुणवट्टि-हाणी-संखेज्जा । सेसं असंखेज्जा । असादादिदस०-अपच्चक्खाणा०४ सव्वपदा असंखेज्जा । आहारदुग-तित्थय० सव्वपदा संखेज्जा । सेसाणं पगदीणं अवत्त० संखेज्जा । सेसं० असं-खेज्जा । सासणे मणुसायु० दोपदा संखेज्जा । सेसाणं सव्वेसिं सव्वपदा असंखेज्जा । सम्मामि०, सव्वेसिं सव्वपदा असंखेज्जा ।

एवं परिमाणं समत्तं ।

गोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव असंख्यात हैं । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । दो आयु और आहारकद्विकका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं ।

६२९. क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुष-वेद, उच्चगोत्र पाँच अन्तराय और साता आदिक पाँच प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । दो आयु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात है । शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें साता आदिक चारह, अप्रत्याख्यानावरण चार और मनुष्यगति पञ्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पुरुषवेद और उच्चगोत्रका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । सातावेदनीय और यशःकीर्तिकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । असातावेदनीय आदि दस और अप्रत्याख्याना-वरण चारके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । आहारकद्विक और तीर्थकर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं ।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

## खेत

६२९. खेत्ताणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज-  
पंचंत० असंखेज्ज-भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । सेसपदा लोगस्स  
असंखेज्जदिभागे । पंचदंस०-मिच्छ० बारसक०-भय-दुगुं०-तेजइगादिणव०णाणावरणभंगो ।  
सादावे०-पुरिस०-जस०-उच्चा० असंखेज्जभागवट्टि हाणि अवट्टि०-अवत्त० सव्वलोगे ।  
सेसपदा लोगस्स असंखेज्जदिभागे । तिण्णिआयु०-वेउव्वियच्छ०-आहारदुग-तित्थय०  
सव्वपदा लोगस्स असंखे० । तिरिक्खायु० दोपदा केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । सेसाणं  
असंखेज्जभागवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० सव्वलोगे । दोवट्टि-हाणी लोगस्स असंखे० ।  
एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-णवुंस०-कोधादि०४-  
मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहा-  
रग ति । तं पि खेतं ओघेण साधेदव्वं ।

६३०. एइंदिय-सुहुमएइंदिय-पज्जत्तापज्जत्ता पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं  
सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-वणप्फदि-णियोद० तेसिं च सुहुम पज्जत्तापज्जत्ताणं मणुसायु०  
दोपदा लोगस्स असंखे० । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वपदा सव्वलोगे । सव्वबादरेइंदिए

## क्षेत्र

६२६. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हैं—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच  
ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्नरायकी असंख्यात भागवृद्धि,  
असंख्यात भागहानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक  
क्षेत्र है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । पाँच दर्शनावरण,  
मिध्यात्व, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा और तेजसशरीरादि नौ प्रकृतियोंका भंग ज्ञानावरण समान है ।  
सातावंदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि,  
अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका  
लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । तीन आयु, वैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थकर  
प्रकृतिके सब पदोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । तिर्यञ्चायुके दो पदोंका कितना  
क्षेत्र है । सब लोक क्षेत्र है । शेष प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित  
और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंका  
लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी,  
औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मन्यहानी,  
श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और  
आहारक जीवोंके जानना चाहिये । यह क्षेत्र भी ओघके समान साध लेना चाहिये ।

६३०. एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, उनके पर्याप्त और अपर्याप्त पृथिवीकायिक, जलकायिक,  
अग्निकायिक, वायुकायिक तथा इनके सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, निर्गोद  
तथा इनके सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायुके दो पदोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें  
भाग प्रमाण है । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंका क्षेत्र सब लोक है । सब वादर एकेन्द्रिय जीवोंमें

ध्रुविगाणं असंखेज्जभागवट्टि-हाणि अवट्टि० सव्वलो० । सादादिदस० एकवट्टि-हाणि-  
 अवट्टि०-अवत्त० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-चदुजादि-पंचसंठा-ओरालि०अंगो०  
 छस्संघ०-आदाउज्जो०-दोविहा० तस-बादर-सुभग-दोसर० आदेज्ज०-जसगि० एकवट्टि-  
 हाणि-अवट्टि०-अवत्त० केवडि खेत्ते ? लोग० संखेज्ज० । णवुंस०-एइदि०-हुंड०-पर०-  
 उस्सा०-थावर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय०-साधार०-दूभग०-अणादे०-अजस० एक-  
 वट्टि-हाणि-अवट्टि० सव्वलो० । अवत्त० लोग० संखेज्ज० । तिरिक्खायु० दोपदा लोग०  
 संखेज्ज० । मणुसायु० दोपदा ओघं । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० एकवट्टि-  
 हाणि-अवट्टि०-अवत्त० लोग० असंखे० । मणुसगइदुग०-उच्चा० एकवट्टि-हाणि-अवट्टि०-  
 अवत्त० लो० असंखे० । एवं बादरवाउ०-बादरवाउ० अपज्ज० । णवरि तिरिक्खगइतिगं  
 ध्रुवं कादच्चं ।

९३१. बादरपुठवि०-आउ०-तेउ० तेसिं च अपज्ज० ध्रुविगाणं एकवट्टि-हाणि-  
 अवट्टि०-सादादिदसणं एकवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० सव्वलो० । णवुंस०-तिरिक्खग०-  
 एइदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-थावर-सुहुम पज्जत्तापज्ज०-पत्तेय०-साधार०-  
 दूभग०-अणादे०-अजस०-णीचा० एकवट्टि-हाणि-अवट्टि० सव्वलो० । अवत्त० लो०

ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । साता आदि दस प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, बादर, सुभ, दो स्वर, आदेय और यशःकीर्तिकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है । नपुंसकवेद, एकेंद्रिय जाति, हुण्ड-संस्थान, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और अयशःकीर्तिकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है । तिर्यञ्चयुके दो पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है । मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंका ओघके समान क्षेत्र है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है । मनुष्य-गतिद्विक, और उच्चगोत्रकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार बादर वायुकायिक और बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चगति त्रिकको ध्रुव करना चाहिये ।

९३१. बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक और बादर अग्निकायिक तथा इनके अपर्याप्तक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका तथा साता आदि दस प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेंद्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । अवक्तव्य

असंखे० । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वपवदा लो० असंखे० । एवं । बादरवणप्फदिणियोद-पज्जत्त-अपज्जत्त बादरवणप्फदिपत्तेय० तेसिं अपज्जत्त० ।

९३२. कम्मइ० अणाहारगेषु देवगइपंचगस्स सव्वपदा लो असं० । सेसाणं सव्व-पगदीणं सव्वपदा सव्वलो० । सेसाणं णिरयादि याव सण्णि ति संखेज्ज-असंखेज्ज-जीविगाणं सव्वारिं पगदीणं सव्वपदा लोगस्स असंखेज्ज० ।

एवं खेत्तं समत्तं ।

### फोसणं

६३३. फोससाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंसणा-चदुसंज०-पंचंत० असंखेज्जभागवद्धि-हाणि-अवट्ठि०-बंधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलो० । वेवद्धि-हाणि० लोग० असंखे० अट्टचो० सव्वलोगो वा । असंखेज्जगुणवद्धि-हाणि-अवत्त० लो० असंखे० । थीणगिद्धि०३-अणंताणुबंधि०४ अवत्त० अवट्टचोदस० । सेसपदा णाणावरणभंगो । णिद्दा-पचला-पच्चक्खाणा०४-भय०-दु०-तेजइगादिणव० अवत्त० लोग० असंखेज्ज० । सेसपदा णाणावरणभंगो । सादावे० अवत्त० सव्वलो० । सेसपदा णाणा-

पदके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार बादर वनस्पतिकार्यिक, निगोद और इनके पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकार्यिक प्रत्येक शरीर और इनके अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये ।

६३२. कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगति पञ्चकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी मार्गणातक संख्यात और असंख्यात जीव राशि-वाली मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

इसप्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

### स्पर्शन

६३३. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । आघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यातभाग हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें-भाग प्रमाण, कुछ काम आठबटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने लोकसे असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्यानगृद्धि तीन और अनन्तानुबन्धी चारके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञाना-वरणके समान है । निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरण चार, भय, जुगुप्सा और तेजमशरीरादि नौ प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीयके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने

वरणभंगो । असादादिदस० अवत्त० सव्वलो० । सेसं णाणावरणभंगो । मिच्छ० अवत्त०  
 अट्ट-वारह० । सेसं णाणावरणभंगो । अपच्चक्खाणा०४ अवत्त० छ्चोद० । सेसाणं णाणा-  
 वरणभंगो । इत्थिवे०-पंचिदि० पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्सं०-दोविहा०-तस-सुभग-  
 दोसर-आदेय० असंखेज्जभागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० सव्वलो० । दोवट्ठि-हाणी०लो०  
 असंखे० अट्ट-वारहचो० । पुरिसवे० दोवट्ठि-हाणी इत्थिवेदभंगो । सेसपदा सादभंगो ।  
 णवुंस०-तिरिक्खग०-एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-थावर-पज्जत्त-पत्ते०दूम०-  
 अणादे०'-णीचा० एकवट्ठि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० सव्वलो० । दोवट्ठि-हाणि० अट्टचोद०  
 सव्वलो० । णिरय-देवायु० दोपदा खेत्त० । तिरिक्खायु० दोपदा सव्वलो० । मणुसायु०  
 दोपदा अट्टचोद० सव्वलो० । णिरय-देवगदि-दोआणु० तिणिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० छ्चोद० ।  
 अवत्त० खेत्त० । मणुसग०-मणुसाणु०-आदाव० एकवट्ठि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त०  
 सव्वलो० । दोवट्ठि-हाणि०-अट्टचोद० । बेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि० दोवट्ठि-हा० लोग०

सब लोक क्षेत्रका स्पर्शनकिया है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । असातावेदनीय आदि दस प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छत्रवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । स्त्रीवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गापाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, तस, सुभग, दो स्वर और आदेयकी असंख्यात भागवृद्धि असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातभंग भागप्रमाण, कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदकी दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । शेष पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । नपुसंकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग अनादेय और नीचगोत्रकी एक वृद्धि एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकायु और देवायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तिर्यञ्चायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है । मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक है । नरकगति, देवगति और दो आनुपूर्वीकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छत्रवटे चौदह राजु है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, और आतपकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है । दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठवटे चौदह राजु है । द्वीन्द्रिय जाति, त्रिन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जातिकी दो वृद्धि

असं० । सेसं णाणावरणभंगो । वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगोवंग० सव्वपदा केव० फो० ।  
लो० असं०भा० बारहचोदस० देख्ठ० । अवत्त० खेत्तं० । ओरालि० अवत्त० बारह० ।  
सेसपदा तिरिक्खगदिभंगो । आहारदुगं खेत्तं० । उज्जो०-बादर०-जस० दोवड्ढि-हा०  
अट्ट-तेरह० । सेसं सादभंगो । सुहुम-अपज्ज०-साधार० दोवड्ढि-हा० लो० असंखेज्ज०  
सव्वलो० । सेसं तिरिक्खगदिभंगो । तित्थय० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० अट्टचो० ।  
अवत्त० खेत्तं० । उच्चा० असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० सव्वलो० । वेवड्ढि-  
हाणि० अट्टचोद० । असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० खेत्तभंगो । एवं ओघभंगो कायजोगि-  
कोधादि०४-अचक्खुदं०-भवसि०-आहारग त्ति ।

६३४. णेरइएसु धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० सादादिवारस-उज्जो० सव्वपदा  
छ्चोद० । दोआयु०-मणुसगदिदुग-तित्थय०-उच्चा० सव्वपदा खेत्तं० । मिच्छत्त० अवत्त०  
पंचचोदस० । सेसाणं अवत्तं० खेत्तभंगो । सेसाणं सव्वपदा छ्चोद० । एवं सव्वणोरइगाणं

और दो हानियोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ज्ञानावरणके समान है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिकआङ्गोपाङ्गके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदका भङ्ग क्षेत्रके समान है । आहारिकशरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । आहारिकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है । उद्योत, बादर और यशःकीर्तिकी दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे छौदह राजु और कुछ कम तेरहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणकी दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । उच्चगोत्रकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यात-गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसीप्रकार आघके समान काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

६३४. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने तथा साताआदि बारह और उद्योतके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्यगतिद्विक, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँचवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहवटे

अप्यप्यणो फोसणं कादब्बं ।

६३५. तिरिक्खेसु धुविगाणं एकवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० सव्वलो० । वेवड्ढि हा० लो० असं० सव्वलो० । सादादिएकारह० एकवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०-अवत्त० सव्वलो० । वेवड्ढि-हा० लो० असं० सव्वलो० । थीणगिद्धि०३-अट्टक० अवत्त० खेत्त० । मिच्छ० अवत्त० सत्तचोद० । सेसपदा सादभंगो । इत्थिवे० वेवड्ढि हा० दिड्ढुचोद० । सेसाणं सादभंगो । पुरिस०-समचदु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० दोवड्ढि-हाणि लो० असं० छच्चोद० । सेसं इत्थिवेदभंगो । णवुंसं-तिरिक्खग०-एहंदि०-हुंडं-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साधार०-दूभग०-अणादे०-णीचागो० दोवड्ढि-हा० लो० असं० सव्वलो० । अवत्त० खेत्त० । सेसं सादभंगो । णिरय-देवायु०-वेउव्वियल्ल० ओषं । तिरिक्खायु० खेत्तभंगो । मणुसायुगस्स दोपदा लो० असंखे० सव्वलो० । मणुसगदिदुग-तिण्णिजादि-चदुमंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-आदाव० दोवड्ढि-हाणि० लोग० असंखेज्ज० । सेसं सादभंगो । उज्जोव-बादर-जसगित्ति० दोवड्ढि-हाणी सत्तचोद० । णवरि

चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार सब नारकियोंके अपना अपना स्पर्शन करना चाहिये ।

६३५. तिर्यञ्चोंमें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता आदि ग्यारह प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्त्य पदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धि तीन और आठ कपायके अवक्त्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । मिथ्यात्वके अवक्त्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सातावेदनीयके समान है । स्त्रीवेदकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, दो विहायागति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगात्रकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवेंभागप्रमाण और कुछ कम छहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीचगात्रकी दो वृद्धि, दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्त्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । नरकायु, देवायु और वैक्रियिक इहका भङ्ग शेषके समान है । तिर्यञ्चायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगतिद्विक, तीन जाति, चार संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहतन और आतपकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष भङ्ग सातावेदनीयके समान है । उयात, बादर और यशःकीर्तिको दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने

बादरे तेरह० । पंचंदि०-तस० दोवड्डि-हाणी० लो० असंखेज्ज० बारहचोद० । ओरालि० दोवड्डि-हाणि०सर्वेसिं अणंतजीवाणं असंखेज्जभागवड्डि-हाणि-अवड्डि०-अवत्त० सव्वलो० । ओरालियसरीर० अवत्तव्वं खेत्त० ।

९३६. पंचिंदियतिरिक्ख०३ धुविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० लोग० असंखे० सव्वलो० । थीणगिड्डि०३-मिच्छ०-अड्डक०-णवुंसग०-तिरिक्खग०-एइंदि०-ओरालि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-परघा०-उस्ता०-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार० दुभग०-अणादे०-अजस० णीचा० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० लोग० असंखे० सव्वलो० । अत्त० खेत्त० । णवरि मिच्छ०-अजस० अवत्त० सत्तचोद० । इत्थिवे० अवत्त० खेत्त० । सेसं दिवड्डुचोदस० । सादादिदस० सव्वपदा लोगस्स असंखे० सव्वलो० । पुरिसवे० णिरय-देवगदि-समचदु०-दोआणु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० अवत्त० खेत्त० । सेस-पदा छवोद० । चदुआयु० खेत्त० । मणुसगदि-तिण्णिजादि-चदुसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संध०-आदाव० सव्वपदा खेत्त० । पंचिंदि०-वेउविय०-वेउवियअंगो०-तस० अवत्त० खेत्त० । सेसपदा बारहचोद० । उज्जा०-जस० सव्वपदा सत्तचोद० । बादर० अवत्त०

कुछ कम सातबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि बादर प्रकृतिका अपेक्षा कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसकी दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और बारहबटे चौदह राजुक्षेत्रका स्पर्शन किया है । औदारिक शरीरकी दो वृद्धि और दो हानि तथा सब अनन्त जीवोंके असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भाग हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । औदारिकशरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

९३६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमं ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कपाय, नपुंसक वेद, तिर्यञ्चगति, एकन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित-पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और अयशःकीर्तिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शीघ्र स्पर्शन कुछ कम डेढ़बटे चौदह राजु है । साता आदि दस प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेद, नरकगति, देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायांगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छहबटे चौदह राजु है । चार आयुओंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन और आतपके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग और त्रसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन



खेत्तमंगो । सेसपदा तेरहचोद० ।

६३७. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगेषु धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० लोग० अमंखे० सव्वलो० । सादादिदस० सव्वपदा लोग० असंखे० सव्वलो० । णवुंस०-तिरिक्खग०-एहंदि०-हुंडसं०-तिरिक्खाणु०-परघादुस्सा०-थावर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय०-साधार०-दूमग-अणादे०-णीचा० अवत्त० खेत्त० । सेसपदा लोग० असंखे० सव्वलो० । उज्जो०-जसगि० सव्वपदा सत्तचोद० । बादर० अवत्त० खेत्त० । सेसपदा सत्तचोद० । अज० अवत्त० सत्तचो० । सेसं णवुंसगमंगो । सेसाणं सव्वपदा खेत्त० । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविगलिंदि०-पंचिदिय-तसअपज्ज०-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउकाइयपज्जत्त बादरवणफ्फदिपत्तेयपज्जत्त त्ति ।

६३८. मणुस०३ धुवियाणं असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि-अवत्त० खेत्त० । सेसाणं च पंचिदियतिरिक्खमंगो । तसपगदीणं खेत्त० ।

६३९. देवेषु धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० सादादिवारस०-मिच्छ०-उज्जोव० सव्वपदा अट्ट-णवचोदसभागा वा देसुणा । इत्थिवे०-पुरिसवे०-तिरिक्खायु०-मणुसायु०-

किया है । बादर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

६३७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकामे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सबलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता आदि दस प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीचगात्रके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, और यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अयशःकीर्तिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, बादरप्रतिविकारिक पर्याप्त, बादर जलकारिक पर्याप्त, बादर अप्रिकारिक पर्याप्त, बादर वायुकारिक पर्याप्त और बादर चनस्पतिकारिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये ।

६३८. मनुष्यत्रिकामं ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । शेष पदोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । त्रस प्रकृतियोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

६३९. देवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने तथा साता आदि बारह, मिथ्यात्व और उद्योतके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । जीवद, पुरुषवेद,

मणुसगदि-पंचिदिय०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-<sup>१</sup>आदाव०-दोवि-  
हा०-तस-सुभग-दोसर आदेज्ज०-तित्थय०-उच्चा० सव्वपदा अट्टचोह० । सेसपगदीणं  
अवत्त० अट्टचो० । सेसपदा अट्ट-णवचोह० । एवं सव्वदेवाणं अप्पणो फोसणं षेद्वं ।

६४०. एहंदि-वणप्फदि-णियोद पुठवीकाइय-आउ०-तेउ०-वाउ०-सव्वसुहुमाणं  
मणुसायु० तिरिक्खोघं । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वलो० । बादरएहंदिपज्जत्त-अपज्ज०  
धुविगाणं सादादीण दस० च सव्वपदा सव्वलो० । इत्थिवे०-पुरिस०-चटुजादि-पंचसंठा०-  
ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-आदाव-दोविहा०-तस सुभग दोसर आदेज्ज० सव्वपदा लोगस्स  
संखेज्जदिभागो । णवुंस०-एहंदि० हुंडसं० परघा० उस्सा०-थावर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्ज०-  
पत्तेप०-साधार०-दुभग० अणादे० एकवट्टि-हाणि-अवट्टि० सव्वलो० । अवत्त० लो०  
असंखे० । दोआयु०-मणुसगदिदुग-उच्चा० सव्वपदा खेत्त० । तिरिक्खगदितिगं अवत्त०  
लोग० असंखे० । सेसपदा असादभंगो । बादर उज्जो०-जसग्गि० सव्वपदा सत्तचोह० ।  
णवरि बादर-अवत्त० खेत० । अजस० अवत्त० सत्तचोह० । सेसपदा सव्वलो० । एवं

निर्यञ्चायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पांच संस्थान, आदारिक आङ्गापाङ्ग, छह संहनन,  
मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीर्थकर और उच्चगोत्रके  
सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके  
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके  
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम नौवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिये ।

६४०. एकेंद्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुका-  
यिक और सब सूक्ष्म जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । शेष सब प्रकृतियोंके सब  
पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर एकेंद्रिय पर्याप्त और बादर एकेंद्रिय  
अपर्याप्त जीवोंमें ध्रुवबन्धवाती प्रकृतियाँ और साता आदि दस प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने  
सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार जाति, पांच संस्थान, आदारिक आङ्गापाङ्ग,  
छह संहनन, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, और आदेयके सब पदोंके बन्धक  
जीवोंने लोकके संख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवेद, एकेंद्रियजाति, हुण्ड-  
संस्थान, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग और  
अनादेयकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
दो आयु मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।  
निर्यञ्चगतित्रिकके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग असातावेदनीयके समान है । बादर, उद्योत और यशः  
कीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनकी  
विशेषता है कि बादरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अयशःकीर्तिके  
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
शेष पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार बादर-

बादरबाउका० बादरबाउकाइयअपज्जत्त । बादरपुढवी०-आउका०-तेउका० तेसिं बादर-  
अपज्जत्त बादरवणप्फदिपत्तेय०अपज्जत्त बादरएइंदियभंगो । णवरि जम्हि लोगस्स  
संखेज्जदिभागो तम्हि लोगस्स असंखेज्जदिभागा कादव्वो ।

९४१. पंचिंदिय-तस०२ पंचणा०-चदुंसं०-चदुसंज० पंचंतराइगाणं तिण्णिवड्ढि-  
हाणि० अट्टचोद० सव्वलो० । असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि-अवत्त० खेत्तभंगो । थीणगिद्धि०  
३ मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-णवुंसं०-तिरिक्खग०-एइंदि० हुंडसं०-तिरिक्खाणु०-थावर-  
दूमग-अणादे०-णीचा० तिण्णिवड्ढि हाणि-अवट्ठि० अट्टचोद० सव्वलो० । अवत्त० अट्ट-  
चोद० । णवरि मिच्छ० अवत्त० अट्ट-बारहचोदस० । णिहा-पचला-भय-दुगुं०-तेजइगा  
दिणव-परघादुस्सा०-पज्जत्त-पत्ते० अवत्त० खेत्तभंगो । तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० अट्टचोद०  
सव्वलो० । सादावे० तिण्णिवड्ढि हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० अट्टचोद० सव्वलो० । असंखे-  
ज्जगुणवड्ढि-हाणी खेत्त० । असादादिदस० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० अट्टचोद०  
सव्वलो० । णवरि अजसगि० अवत्त० अट्ट-तेरह चोदस० । अपच्चक्खाणा०४ सव्वपइ  
णाणावरणभंगो । णवरि अवत्त० छचोद० । इत्थि०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-

वायुकायिक और बादरवायुकायिक अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये । बादर पृथिवीकायिक, बादर  
जलकायिक और बादर अग्निकायिक तथा उनके बादर अपर्याप्त और बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक  
अपर्याप्त जीवोंका भङ्ग बादर एकेंन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि जहाँ लोकका संख्यात-  
वाँ भाग कहा है वहाँ लोकका असंख्यातवाँ भाग करना चाहिये ।

९४१. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन  
और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि और तीनहानि पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु  
और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्यपदके  
बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । स्यान्गुद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद  
तिर्यञ्चगति, एकेंन्द्रियज्ञानि, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और  
नीच गोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह  
राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे  
चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक  
जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर आदि नौ, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त और प्रत्येकके  
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके  
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता-  
वेदनीयकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे  
चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिके  
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । असातावेदनीय आदि दसकी तीन वृद्धि, तीन हानि,  
अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक  
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि अयशःकीर्तिके अवक्तव्य पदके बन्धक  
जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । अप्रत्याख्यानावरण चारके सब पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता ।

छस्संघ०-दोविहा०-पंचिदि०-तस-सुभग-दोसर-आदे० तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० अट्ट-  
वारह० । अवत्त० अट्ट-चोदह० । पुरिसे तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवत्त० इत्थिभंगो । असंखे-  
ज्जगुणवट्ठि-हाणी० णाणावरणभंगो । णिरय-देवायुग-तिण्णिजादि-आहारदुगं खेत्त० ।  
तिरिक्ख-मणुसायु० दोपदा अट्टचोद० । वेउव्वियल्ल०-तित्थय० ओघं । मणुसगदि-मणु-  
साणु०-आदाव० सव्वपदा अट्टचोद० । उज्जो० सव्वपदा अट्ट-तेरह० । एवं बादर० ।  
णवरि अवत्त० खेत्त० । सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० लो०  
असंखे० सव्वलो० । अवत्त० खेत्त० । जसगि० असंखेज्जगुणवट्ठि-हाणी० खेत्त० ।  
सेसपदा अट्ट-तेरहचो० । [उच्चा० असंखेज्जगुणवट्ठि-हाणी खेत्त० । सेसपदा अट्टचो० ।] एवं  
पंचिदियभंगो पंचमण० पंचवचि०-चक्खुदं०-सण्णि ति ।

६४२. ओरालियकायजोगीसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० असंखेज्जभागवट्ठि-  
हाणि-अवट्ठि० सव्वलो० । दोवट्ठि-हा० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । असंखेज्जगुणवट्ठि-

है कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
स्त्रीवेद, पाँच संस्थान, औदारिक आगोपाङ्ग, छह संहतन, दो विहायागति, पञ्चेन्द्रियजाति, त्रम,  
सुभग, दो स्वर और आदेशकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम  
आठबटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके  
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषपदकी तीन वृद्धि,  
तीन हानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । असंख्यात गुणवृद्धि और  
असंख्यात गुणहानिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । नरकायु, देवायु, तीन जाति और आहारक-  
द्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तिर्यच्चायु और मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम  
आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैकिकिक छह और तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग आंधके  
समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्वानुपूर्वी और आतपके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम  
आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योतके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे  
चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार बादर  
प्रकृतिकी अपेक्षा स्पर्शन जानना चाहिये । इनकी विशेषता है कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका  
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित  
पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातचें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । यशःकीर्तिकी असंख्यात गुणवृद्धि और  
असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम  
आठबटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उच्चगात्रकी  
असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने  
कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियोंके समान पाँच मनो-  
योगी, पाँच वचनयोगी, चक्षुःदर्शनी और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये ।

६४२. औदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संवलयन और  
पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने  
सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्या-

हाणि-अवत्त० खेत्त० । पंचदंशणा०-वारसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-  
अगु०-उप०-णिमि० अवत्त० खेत्तभंगो । सेसपदा० णाणावरणभंगो । मिच्छ० अवत्त०  
सत्तचोद० । सेसपदा० णाणावरणभंगो । सादावे० असंखेज्जभागवट्ठि०-हाणि०-अवट्ठि०-  
अवत्त० सव्वलो० । सेसपदा० णाणावरणभंगो । असादादिक्कारस० सादभंगो । इत्थिवे०  
दोवट्ठि-हाणी दिवट्ठुचोद० । सेसाणं णाणावरणभंगो । पुरिस० दोवट्ठि-हाणी छचोद० ।  
सेसपदा सादभंगो । णवुंस०-तिरिक्खग०-एइदि०-हुंडसं०-तिरिक्खाणु०-परघादुस्सा०-  
थावर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय०-साधार०-दुभग-अणादे०-णीचा० सव्वपदा असाद-  
भंगो । चादुआयु०-वेउव्वियळु०-मणुसगदिदुग-चदुजादि-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-  
छस्संध०-आदाउज्जो० दोविहा०-तस-बादर-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० तिरिक्खोधं ।  
आहारदुग० तित्थय० खेत्त० ।

६४३. ओरालियमिस्से धुविगाणं दोवट्ठि-हा० लोग० असंखेज्ज० सव्वलोगो वा ।  
सेसपदा सव्वलोगो । णवरि मिच्छ० अवत्त० खेत्तभंगो । देवगदिपंचगस्स तिण्णिवट्ठि-  
हाणि-अवट्ठि० खेत्त० । सादादिक्कारसपगदीणं असंखेज्जभागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त०  
तवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि  
और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पाँच दर्शनावरण, बारह कषाय,  
भय, जुगुप्सा औदारिक शरीर, नैजस शरीर, कामण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और  
निर्माणके अवक्तव्यके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग  
ज्ञानावरणके समान है । मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह  
राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । साता-  
वेदनीयकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक  
जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान  
है । असाता आदि ग्यारह प्रकृतियोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । खीवेदकी दो वृद्धि और  
दो हानियोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके  
बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पुरुषवेदकी दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक  
जीवोंने कुछ कम छहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग  
सातावेदनीयके समान है । नपुंस वेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानु-  
पूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय  
और नीचगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग आसातावेदनीयके समान है । चार आयु, वैकि-  
यिक छह, मनुष्यगतिद्विक, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप,  
उद्यात, दो विहायोगति, त्रस, बादर, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके सब पदोंका  
भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका  
भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

६४३. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और औदारिक शरीरकी दो वृद्धि  
और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि  
मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । देवगति पञ्चककी तीन वृद्धि,  
तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । साता आदि ग्यारह

सव्वलो० । दोवड्ढि-हाणी लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलो० । णवुंस०-तिरिक्खग०-  
एइदि०-हुंडसं०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-थावर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय०-साधार०-  
दूमग०-अणादे०-णीचा० एकवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० सव्वलो० । दोवड्ढि-हाणी लो० असंखे०  
सव्वलो० । अवत्त० खेत्त० । दोआयु० तिरिक्खोषं । इत्थि०-पूरिस०-मणुसगदिदुग-  
चदुजादि-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संध०-आदाव-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदेज्ज-  
उच्चा० दोवड्ढि-हाणि० लोग० असंखे० । सेसं सव्वलो० । उज्जो०-जसगि०-वादर०  
दोवड्ढि हाणि० सत्तचोइ० । सेसाणं सव्वलो० ।

९४४. वेउव्वियकायजोगीसु धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० अट्ट-तेरह० । सादा-  
दिवारस०-उज्जोव० सव्वपदा अट्ट-तेरहचो० । थीणगिद्धि०-३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०-४-  
णवुंस०-तिरिक्खग०-हुंडसं०-तिरिक्खाणु०-दूमग-अणादे०-णीचा० तिण्णिवड्ढि-हाणि-  
अवड्ढि० अट्ट-तेरह० । अवत्त० अट्टचोइ० । णवरि मिच्छ० अवत्त० अट्ट-बारह० । इत्थि०-

प्रकृतियोंकी असंख्यातभाग वृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परधान, उच्छ्वास, स्थावर, मूत्तम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। दो आयुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगतिद्विक, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत, यशःकीर्ति और वादरकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

९४४. वैक्रियिकाययोगी जीवोंमें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सात आदि बारह और उद्योतके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्थान-गुद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुधन्धी चार, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इनकी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चन्द्रिय जाति,

पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोविहा०-तस०-सुभग-दोसर-  
आदेअ० तिण्णिवद्धि हाणि-अवद्धि० अट्ट-बारह० । अवत्त० अट्टचो० । दोआयु० दोपदा  
अट्टचोद० । मणुसग०-मणुसाणु०-आदा०-उच्चागो० सव्वपदा अट्टचोद० । एइदि०-  
थावर-अवत्त० अट्टचोद० । सेसाणं पदा अट्ट-णवचो० । तित्थय० अवत्त० खेत्त० ।  
सेसपदा अट्टचोद० ।

९४५. वेउत्विमि०-आहार०-आहारमि०-कम्मइ०-अवगदवे०-मणपञ्जव०-संजद-  
सामाह०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० खेत्त० । णवरि कम्मइ० मिच्छत्त० अवत्त०  
एकारह० ।

९४६. इत्थिवे० पंचणा-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० पंचिदियभंगो । णवरि अवत्त०  
णत्थि । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-णवुंस०-तिरिक्खग०-एइदि०-हुंडसं-  
तिरिक्खाणु०-थावर-दुभग-अणादे०-णीचा० अवत्त० अट्टचोद० । सेसपदा अट्टचोद०  
सव्वलो० । णवरि मिच्छत्त० अवत्त० अट्ट-णवचो० । णिदा-पचला-अट्टकसाय-भय०-  
पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायांगति, त्रस, सुभग, द स्वरो और  
आदेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह  
राजु और कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने  
कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयुओंके दो पदोंके बन्धक जीवोंने  
कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप  
और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया  
है । एकेंद्रिय जाति और स्थावरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु  
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ  
कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका  
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका  
स्पर्शन किया है ।

९४५. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाय-  
योगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि-  
संयत और सूत्रमसाम्परायसंयत जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि कर्मण-  
काययोगी जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारहवटे चौदह राजु  
क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

९४६. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्त-  
रायका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यहाँ इनका अवक्तव्य पद नहीं है ।  
स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, निर्यञ्जगति, एकेंद्रिय जाति, हुण्ड  
संस्थान, निर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके अवक्तव्य पदके बन्धक  
जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ-  
कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्या-  
त्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम नौबटे चौदह  
राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस-

दुर्गुं-ओरालिं-तेजां-क०-वण्ण०४-अगु०४-पज्जत्त-पत्तय०-णिमि० अवत्त० खोत्त० ।  
 सेसपदा णाणावरणभंगो । णवरि ओरालिय० अवत्त० दिवडुचोद्द० । सादावे० असंखो-  
 ज्जगुणवड्ढि-हा० खोत्त० । सेसं अट्टचो० सव्वलो० । असादादिणव० तिण्णिवड्ढि-हाणि-  
 अवड्ढि०-अवत्त० अट्टचोद्द० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-मणुसगदि-पंचसंठा०-ओरालिं-  
 अंगो०-लुस्संघं-मणुसाणु०-आदाव-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चागो० सव्वपदा  
 अट्टचो० । [णवरि उच्चा असंखो० गुणवड्ढि-हाणि० खोत्त० ।] दोआयुग०-तिण्णिजादि-आहारदुग-  
 तित्थय० खोत्त० । दोआयु० दोपदा अट्टचो० । वेउव्वियल्ल० ओर्धं । पंचिदि०-तस-  
 अप्पसत्थवि०-दुस्सर० तसभंगो । उज्जोव० सव्वपदा अट्ट-णवचो० । बादर० तिण्णिवड्ढि-  
 हाणि-अवड्ढि० अट्ट-तेरह० । अवत्त० खोत्त० । सुहुम-अपज्ज०-साधार० अवत्त० खोत्तं० ।  
 सेसपदा लो० असंखो० [सव्वलोग० ।] जसगि० उज्जोवभंगो । णवरि असंखोज्जगुणवड्ढि-  
 हाणी सादभंगो । अजस० अवत्त० अट्ट-णवचो० । सेसपदा सादभंगो । [एवं पुरिस० ।]

शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि औदारिकशरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़-बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीयकी असंख्यातगुण वृद्धि और असंख्यात-गुणहानिके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असाता आदि नौ प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गा-पाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्तविहायांगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो आयु, तीन जाति, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है। दो आयुओंके दो पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिक छहका भङ्ग आँधके समान है। पञ्चेन्द्रिय जाति, त्रस, अप्रशस्त विहायांगति और दुस्वरका भङ्ग त्रस जीवोंके समान है। उद्योतके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम नौबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वादर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। सूहुम, अपर्याप्त और साधारणके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। यशःकीर्तिका भङ्ग उद्योतके समान है। इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुण-वृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अयशःकीर्तिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम नौबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरण चार और औदारिक शरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक



णवरि अपञ्चक्खाणा०४-ओरालि० अवत्त० छच्चोद० । तित्थय० ओघं ।

६४७. णवुंसं० पंचणा०-चदुदंसं०-चदुसंजं०-पंचंतं० असंखेज्जभागवद्धि-हाणि-  
अवट्ठि० सव्वलो० । दोवट्ठि-हाणी लो० असंखे० सव्वलो० । असंखेज्जगुणवद्धि-हाणी  
खेत्तं० । अवत्तं० णत्थि । पंचदंसं०-मिच्छं०-वारसकं०-भयं०-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-  
कं०-वण्णा०४-अगुं०-उप०-णिमि० अवत्तं० खेत्तं० । सेसपदा णाणावरणभंगो । णवरि  
मिच्छं० अवत्तं० बारहचो० । ओरालि० अवत्तं० छच्चोद० । सादावे० अवत्तं० सव्वलो० ।  
सेसपदा णाणावरणभंगो । असादादिदसं० एकवद्धि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्तं० सव्वलो० ।  
बेवट्ठि-हाणि लोगस्स असंखे० सव्वल्लोगो वा । णवुंसं०-तिरिक्खगं०-एइदि०-हुंडसं०-  
तिरिक्खाणुं०-परं०-उस्सां०-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेयं०-साधारं०-दुभग-अणादे०-  
णीचां० दोवट्ठि-हाणी लोगं० असं० सव्वलो० । सेसपदा सव्वल्लोगो । इत्थिबे० दोवट्ठि-  
हाणि० लोगं० असं० सव्वलो० । सेसपदा सव्वलो० । चदुसंठां०-ओरालिअंगो०-  
छस्संघं० दोवट्ठि-हाणि० लोगं० असं० छच्चोद० । सेसपदा सव्वल्लोगो० । पुरिसं०  
समच्चदुं०-दोविहां०-सुभग-दोसर-आदेज्जं० बेवट्ठि-हाणी० बारहचोद० । सेसपदा  
जीवोंने कुल्ल कम छहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीथङ्करका भङ्ग आघकं समान है ।

६४७. नपुंसकवेदी जीवोंने पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संव्वलन और पाँच  
अन्तरायकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने सब  
लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग  
प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिके  
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अवक्तव्यपद नहीं है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व,  
बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, औकारिकशरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु,  
उपघात और निर्माणक अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष पदोंका भङ्ग  
ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुल्ल कम  
बारहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने  
कुल्ल कम छहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीयके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने  
सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । असाता आदि दसकी  
एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया  
है । दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका  
स्पर्शन किया है । नपुंसकवेद, तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, परघात  
उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रकी  
दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका  
स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद  
की दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक  
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार  
संस्थान, औदारिक आङ्गापाङ्ग और छह संहननकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके  
असंख्यातवें भागप्रमाण और कुल्ल कम छहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके  
बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, दो विहायोगति,  
मुभग, दो स्वर और आदेयकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने कुल्ल कम बारहबटे चौदह

सव्वलो० । चदुआयु०-वेउव्वियल्ल०-मणुसगदि-तिण्णिजादि-मणुसाणु०-आदाव०-उच्चा०  
तिरिक्खोघं । पंचिदिय-तस० दोवड्ढि-हाणी लोग० असखे० बारहचो० । सेसं सव्वलो० ।  
आहारदुगं तित्थय० खोत्तभंगो । उज्जोव० दोवड्ढि-हाणी तेरहचो० । सेसं सादभंगो ।  
एवं जसगित्ति-बादरणामं पि ।

६४८. क्रोधकसाइसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० एकवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०  
सव्वलो० । दोवड्ढि-हाणी अड्ढुचोद्द० सव्वलो० । असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणी खोत्त० । सेसं  
ओघं । माणे पंचणा०-चदुदंस०-तिण्णिसंज०-पंचंत० क्रोधभंगो । सेसं ओघं । मायाए  
पंचणा०-चदुदंसणा०-दोसंज०-पंचंत० क्रोधभंगो । सेसं ओघं । लोमे मूलोघं ।

९४९. मदि०-सुद० खवगपगदीणं असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि-अवत्तव्ववज्जाणिसेसाणि  
[य सव्वपदा] ओघं । णवरि देवगदि-देवाणुपु० अवत्त० खोत्त० । सेसपदा पंचचोद्द० । ओरालिय०  
अवत्त० एकारह० । वेउव्वि०-वेउव्वि० अंगो० सव्वपदा एकारहचो० । अवत्त० खेत्त० ।

राजु क्षत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकक्षत्रका स्पर्शन किया है । चार  
आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, तीन जाति, मनुष्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रका भङ्ग सामान्य  
तिर्यञ्चोंके समान हैं । पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके  
असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके  
बन्धक जीवोंने सब लोक क्षत्रका स्पर्शन किया है । आहारकद्विक और तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग  
क्षत्रके समान है । उद्योतकी दो वृद्धि और हानिके बन्धक जीवोंने कुछ कम तेरहवटे चौदह राजु  
क्षत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । इसी प्रकार यशःकीर्ति और  
बादर नामकर्मकी मुख्यतासे स्पर्शन जानना चाहिये ।

६४८. क्रोधकषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच  
अन्तरायकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षत्रका स्पर्शन  
किया है । दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक  
क्षत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन  
क्षत्रके समान है । शेष भङ्ग आंघके समान हैं । मान कषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना  
वरण, तीन संज्वलन और पाँच अन्तरायके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्रोधकषायवाले जीवोंके समान है ।  
शेष भङ्ग आंघके समान है । मायाकषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, दो संज्वलन  
और पाँच अन्तरायके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्रोधकषायवाले जीवोंके समान है । शेष भङ्ग आंघके समान  
है । लोभकषायवाले जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग मूल आंघके समान है ।

६४९. मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें क्षत्रक प्रकृतियोंकी असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात  
गुणहानि और अवक्तव्यपदका द्वाङ्कर तथा शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग  
आंघके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगति और देवगम्यानुपूर्वीके अवक्तव्यपदके बन्धक  
जीवोंका भङ्ग क्षत्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँचवटे चौदह राजु क्षत्रका  
स्पर्शन किया है । औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारहवटे चौदह राजु  
क्षत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआङ्गपाङ्गके सब पदोंके बन्धक जीवोंने  
कुछ कम ग्यारहवटे चौदह राजु क्षत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदके  
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षत्रके समान है ।

६५०. विभंगे ध्रुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० अट्टचोद० सव्वलो० । सादादि दस० सव्वपदा लोग० असंखे० अट्टचोद० सव्वलो० । मिच्छत्त० अवत्त० अट्ट-बारह० । सेसपदा गाणावरणभंगो । इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०ओरालि०अंगो०छस्संध०-दोविहा०-तस०-सुभग-दोसर आदे० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० अट्ट-बारहचो० । अवत्त० अट्टचो० । णवुस०-तिरिक्ख०-एइदि०-ओरालि०-हुंडसं-तिरिक्खाणु०-थावर-दूभग-अणादे०-णीचागो० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० अट्टचो० सव्वलो० । अवत्त० अट्टचोद० । णवरि ओरालि० अवत्त० खेत्त० । दोआयु०-तिण्णिजादि० खेत्त० । मणुसायु-मणुसगदि-मणुसाणु०-आदाव-उच्चा० सव्वपदा अट्टचोद० । वेउव्वियल्ल० मदिभंगो । उज्जोव-जसगि० सव्वपदा अट्ट-तेरहचो० । पर०-उस्सा०-पज्जत्त-पत्ते० सव्वपदा सादभंगो । णवरि अवत्त० खेत्त० । बादर० अवत्त० खेत्त० । सेसपदा अट्ट-तेरह० । सुहुम-अपज्जत्त-साधार० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० लोग०-असंखे०-सव्वलो० । अवत्त०-खेत्त० । अजस० अवत्त० अट्ट-तेरह० । सेसं सादभंगो ।

६५०. विभङ्गज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित-पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता आदि दस प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकआङ्गापाङ्ग, छह संहनन, दो विहायांगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम बारहवटे चौदहराजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु और तीन जातिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिक छहके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग मत्स्यज्ञानी जीवोंके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । परघात उच्छ्वास पर्याप्त और प्रत्येकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । बादर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अयशःकीर्तिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष भङ्ग सातावेदनीयके समान है ।

६५१. आमि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-सादा०-जसगि०-उच्चा०-पंचंत० तिणिवड्डि-हाणि-अवट्टि० अट्टचोद० । असंखेज्जगुणवड्डि-हाणि-अवत्त० खेत्त० । णवरि सादावे०-जसगि० अवत्त० अट्टचोद० । णिहा-पचला-पच्च-क्खाणा०४-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-त्तस०४-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-णिमि०-तित्थय० तिणिवड्डि-हाणि-अवट्टि० अट्टचो० । अवत्त० खेत्त० । अपच्चक्खाणा०४-मणुसगदिपंच० तिणिवड्डि-हाणि-अवट्टि० अट्टचो० । अवत्त० छच्चोद० । असादादिदस-[अपज्ज०] सव्वपदा अट्टचोद० । मणुसायु० दोपदा अट्टचोद० । देवायु-आहारदुगं खेत्त० । देवगदि०४ सव्वपदा छच्चोद० । अवत्त० खेत्त० । एवं ओधिदंस०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसम० । णवरि खइगे उवसमे च अपच्चक्खाणा०४-मणुसगदिपंचग० अवत्त० खेत्त० । देवगदि०४ सव्वपदा खेत्त० ।

९५२. संजदासंजदे देवायु०-तित्थय० सव्वपदा खेत्त० । सेसाणं सव्वपदा छच्चोद० ।

६५१. आभिनिवाधिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि साता वेदनीय और यशःकीर्तिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है। निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरण चार, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थकरकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अप्रत्याख्यानावरण चार और मनुष्यगतिपञ्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि, और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहवटे चौदह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असातावेदनीय आदि दस और अपर्याप्तके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। देवगतिचतुष्कके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहवटे चौदह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टि, और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि आर उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अप्रत्याख्यानावरण चार और मनुष्यगतिपञ्चकके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा देवगतिचतुष्कके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

६५२. संयतासंयत जीवोंमें देवायु और तीर्थङ्करके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रका समान है। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहवटे चौदह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंयतोंमें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है।

असंजदे धुवियाणं मदिभंगो । थीणगिद्धि०३-अणंताणुबंधि०४ अवत्त० अट्टुचो० ।  
सेसं ओघं ।

६५३. किण्ण-णील-काऊणं धुविगाणं एकवद्धि-हाणि-अवट्टि० सव्वलो० । वेवद्धि-  
हाणी लोग० असंखे० सव्वलो० । णिरयगदि-वेउव्वि०-[वेउव्वि०] अंगो०-णिरयाणु०  
अवत्त० खेत्त० । सेसपदा छ-चत्तारि-बेचोद्दस० । णिरय-देवायु०-देवगदि-देवाणुपु०-  
तित्थय० खेत्त० । सेसं तिरिक्खोघं । णवरि इत्थि-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०-  
अंगो०-छस्संध०-उज्जो०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदेज्ज० दोवद्धि-हाणी० छ-चत्तारि-  
बेचोद्दस० । मिच्छत्त० अवत्त० पंच-चत्तारि-बेचोद्दस० ।

६५४. तेऊए मिच्छत्त० सव्वपदा अट्टु-णवचो० । एवं उज्जो० । अपच्चक्खाणा०४  
अवत्त० दिवड्डुचोद्दस० । एवं ओरालि० । देवगदि०४ सव्वपदा दिवड्डुचोद्दस० । अवत्त०  
खेत्त० । सेसपदा सेसाणं पगदीणं सोधम्मभंगो ।

६५५. पम्माए अपच्चक्खाणा०४ अवत्त० पंचचोद्द० । सेसपदा अट्टुचोद्द० ।  
स्त्यानगुद्धि तीन और अनन्तानुबन्धी चारके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे  
चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका तथा शेष प्रकृतियोंके सब पदोंका भङ्ग ओघके  
समान है ।

६५३. कृष्ण; नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि,  
एक हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वृद्धि  
और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । नरकगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वीके अवक्तव्य  
पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम छह-  
बटे चौदह राजु, कुछ कम चारबटे चौदह राजु और कुछ कम दोबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । नरकायु, देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंका स्पर्शन  
क्षेत्रके समान है । शेष भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, पुरुष  
वेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, उद्योत, दो विहायोगति,  
त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहबटे  
चौदह राजु, कुछ कम चार बटे चौदह राजु और कुछ कम दोबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम पाँचबटे चौदह राजु, कुछ  
कम चारबटे चौदह राजु और कुछ कम दोबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

६५४. पीतलेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्वके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे  
चौदह राजु और कुछ कम नौबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार उद्योतकी  
मुख्यतासे स्पर्शन जानना चाहिये । अप्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने  
कुछ कम डेढ़बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार औदारिकशरीरकी मुख्यतासे  
स्पर्शन जानना चाहिये । देवगति चतुष्कके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़बटे चौदह राजु  
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके  
बन्धक जीवोंका तथा शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सौधर्म कल्पके समान है ।

६५५. पद्मलेश्यावाले जीवोंमें अप्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने

देवगदि०४ तिष्णिगवद्धि-हाणि-अवद्धि० पंचचोदस० । अवत्त० खोत्त० । ओरालि०-ओरालि०अंगो० अवत्त० पंचचो० । सेसपदा अद्धचो० । सेसाणं सव्वपगदीणं सहस्सारभंगो ।

६५६. सुक्काए अपच्चक्खाणा०४-मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-.....

### अप्पावहुअं

६५७.... पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवद्धि-हाणी दो वि तुल्ला । अवत्त० संखेज्जगुणा । सेसपदा धुवभंगो । णवुंस०-तिष्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संध०-तिष्णि-आणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावर०४-दुभग-दुस्सर-अणादे० सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवद्धि०-हाणी दो वि तुल्ला । अवत्त० असंखेज्जगु० । संखेज्जभागवद्धि-हाणी दो वि० संखेज्ज० । सेसाणं धुवभंगो । चदुआयु० ओघं ।

६५८. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगेषु धुविगाणं सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवद्धि-हाणी । संखेज्जभागवद्धि-हाणी दो वि० असंखेज्जगु० । असंखेज्जभागवद्धि-हाणी दो वि०

कुछ कम पाँचवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिचतुष्ककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँचवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । औदारिकशरीर और औदारिकआङ्गोपाङ्गके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँचवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष सब प्रकृतियोंका भङ्ग सहस्रार कल्पके समान है ।

६५६. शुक्कलेश्यावाले जीवोंमें अप्रत्याख्यानावरण चार, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकआङ्गोपाङ्ग.....

### अल्पबहुत्व

६५७.....परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायागति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुण-हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोके है । इनसे अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, औदारिक शरीर, पाँच संस्थान, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आंशुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायो-गति, स्थावर चतुष्क, दुभग, दुस्वर और अनादेयकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुण हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोके हैं । इनसे अवक्तव्य पदके बन्धक जीव असंख्यात-गुणे हैं । इनसे संख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । शेष पदोंका भङ्ग ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । चार आयुका भङ्ग ओघके समान है ।

६५८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोके हैं । इनसे संख्यात भागवृद्धि, और संख्यात भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यात भागवृद्धि और असंख्यात भाग

संखेज्ज० । अवट्टि० असंखेज्जगु० । सादादीणं परियत्तमाणियाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो ।

६५६. मणुसेसु पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखेज्जगुणवट्टी संखेज्जगु० । असंखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु० । संखेज्जगुणवट्टि-हाणी दो वि० असंखेज्जगु० । संखेज्जभागवट्टि-हाणी दो वि० संखेज्जगु० । असंखेज्जभागवट्टि-हाणी दो वि० संखेज्जगु० । अवट्टि० असंखेज्जगु० । पंचदंस०-मिच्छत्त०-वारसक०-भयदु०-ओरालि०-तेजइगादिणव० सव्वत्थोवा अवत्त० । संखेज्जगुणवट्टि-हाणी दो वि० असं०गु० । सेसपदा णाणावरणभंगो । सादावे०-पुरिस०-जसगि०-उच्चा० सव्वत्थो० असंखेज्जगुणवट्टी । असंखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु० । संखेज्जगुणवट्टि-हाणी दो वि सरि-साणि असंखेज्जगुणाणि । अवत्त० संखेज्जगु० । संखेज्जभागवट्टि-हाणी दो वि० संखेज्ज० । सेसपदा णाणावरणभंगो । वेउव्वियल्लक-आहारदुगं ओधं आहारसरीरभंगो । सेसाणं असादादीणं सव्वपगदीणं णिरयभंगो । णवरि तित्थय०...सव्वत्थो० संखेज्जगुणं कादव्वं । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु तं चेव । णवरि संखेज्जं कादव्वं । मणुसअपज्जत्तगेषु धुविगाणं सव्वत्थो० संखेज्जगुणवट्टि-हाणी दो वि० । संखेज्जभागवट्टि-हाणी दो वि

हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । साता आदि परिवर्तनमान प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोके समान है ।

६५६. मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संव्यलन और पाँच अन्तरायके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । इनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुण हानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर और तैजसशरीर आदि नौके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, और उच्चगात्रकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । इनसे असंख्यातगुण हानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । वैकियिक छह और आहारकट्टिकका भङ्ग आद्यमें कहे गये आहारकशरीरके समान है । शेष आसाता आदि सब प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्करप्रकृति.....सबसे स्तोके हैं इसके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिये । मनुष्य, पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहाँ असंख्यातगुणेके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिये । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें भ्रव बन्धवाली प्रकृतियोंकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे

तु० संखेज्ज० । असंखेज्ज० वृद्धि-हाणी दो वि तु० संखेज्ज० । अवट्टि० असंखेज्जगु०  
सेसाणं पगदीणं मणुसोघभंगो । देवाणं णिरयभंगो । णवरि विसेसो णादव्वो ।

६६०. सव्वएइंदिय-पंचकायाणं धुविगाणं सव्वत्थोवा असंखेज्जभागवट्टि-हाणी दो  
वि० । अवट्टि० असंखेज्ज० । सेसाणं परियत्तमाणियाणं पगदीणं सव्वत्थो० अवत्त० ।  
असंखेज्जभागवट्टि-हाणी दो वि० संखेज्ज० । अवट्टि० असंखे० । दो आयु० ओघं ।

६६१. सव्वविगल्लिंदिएसु धुविगाणं सव्वत्थोवा संखेज्जभागवट्टि-हाणी दो वि तु० ।  
असंखेज्जभागवट्टि-हाणी दो वि तु० संखेज्जगु० । अवट्टि० असंखेज्जगु० । सेसाणं  
सव्वत्थोवा अवत्त० । संखेज्जभागवट्टि-हाणी दो वि संखेज्जगु० । असंखेज्जभागवट्टि-  
हाणी दो वि तु० संखेज्ज० । अवट्टि० असंखेज्जगु० । आयु० मणुसअपज्जत्तभंगो ।

६६२. पंचिंदिएसु पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० सव्वत्थो० अवत्त० ।  
असंखेज्जगुणवट्टी संखेज्जगु० । असंखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु० । संखेज्जगुणवट्टि-हाणी  
दो वि० असंखेज्ज० । संखेज्जभागवट्टि-हाणी दो वि० असं०गु० । असंखेज्जभागवट्टि-हाणी

स्तांक हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर  
संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यात भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य  
होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंका  
भङ्ग सामान्य मनुष्योंके समान है । देवोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि  
यहाँ जो विशेष हो वह जान लेना चाहिये ।

६६०. सब एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकार्यिक जीवोंमें असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-  
भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोका हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक  
जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष परिवर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोका  
हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर  
संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दो आयुओंका भङ्ग  
ओघके समान है ।

६६१. सब विकलेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी संख्यातभागवृद्धि और संख्यात-  
भागहानिके बन्धक जीव तुल्य होकर सबसे स्तोका हैं । इनसे असंख्यात भागवृद्धि  
और असंख्यातभाग हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं ।  
इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष सब प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके  
बन्धक जीव सबसे स्तोका हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानि इन दोनों ही  
पदोंके बन्धक जीव तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभाग-  
हानि इन दोनों ही पदोंके बन्धक जीव तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक  
जीव असंख्यातगुणे हैं । आयुर्कर्मका भङ्ग मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है ।

६६२. पञ्चेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके  
अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सब स्तोका हैं । इनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।  
इनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यात-  
गुणहानि दोनों ही पदोंके बन्धक जीव तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि  
और संख्यातभागहानि दोनों ही पदोंके बन्धक जीव तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे



दो वि० संखेजगु० । अवट्टि० असंखेज० । पंचदंसणा०-मिच्छत्त०-बारसक०-भय-दु०-  
तेजइगादिणव० सव्वत्थो० अवत्त० । संखेजगुणवट्टि-हाणी दो वि० असंखेजगु० ।  
संखेजभागवट्टि-हाणी दो वि० असंखेजगु० । असंखेजभागवट्टि-हाणी दो वि० संखेजगु० ।  
अवट्टि० असंखेज० । सादावे०-पुरिस० जसगि०-उच्चागो० सव्वत्थोवा असंखेजगुणवट्टी ।  
असंखेजगुणहाणी संखेजगु० । संखेजगुणवट्टि-हाणी दो वि० असंखेजगु० । अवत्त०  
असंखेजगु० । संखेजभागवट्टि-हाणी दो वि० असंखेजगु० । असंखेजभागवट्टि-हाणी  
संखेजगु० । अवट्टि० असंखेजगु० । असादावे०-छण्णोक०-दोगदि-पंचजादि-ओरा-  
लिय०-छस्संठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-आदा-उज्जो०-दोविहा०-पर०-  
उस्सास०-त्तस-थावरादिणवयुगल-अजस०-णीचा० सव्वत्थो० संखेजगुणवट्टि-हाणी दो  
वि० । अवत्त० असंखेजगु० । सेसं णिहाए भंगो । चदुआयु० णिरय-देवगदि-वेउच्चि०-  
वेउच्चि०-अंगो०-दोआणु०-आहारदुग-तित्थयरं च ओघं ।

९६३. पंचिदियपजत्तगे पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० सव्वत्थो० अवत्त० ।  
असंखेजगुणवट्टी संखेजगु० । असंखेजगुणहाणी संखेजगु० । संखेजगुणवट्टि-हाणी दो

असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानि इन दोनों ही पदोंके बन्धक जीव तुल्य हाकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । पाँच दर्शनावरण, मिध्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा और तैजसशरीर आदि नौके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । इनसे संख्यातगुणवट्टि और संख्यातगुणहानि इन दोनों ही पदोंके बन्धक जीव तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवट्टि और संख्यातभागहानि इन दोनों ही पदोंके बन्धक जीव तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानि इन दोनों ही पदोंके बन्धक जीव तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी असंख्यातगुणवट्टिके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । इनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवट्टि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य हाकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्य पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवट्टि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य हाकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । असातावेदनीय, छह नोकषाय, दो गति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, परघात, उच्छ्वास, त्रस, स्थावर आदि नौ युगल, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रकी संख्यातगुणवट्टि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य हाकर सबसे स्तोके हैं । इससे अवक्तव्य पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष पदोंका भङ्ग निद्राके समान है । चार आयु, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है ।

९६३. पञ्चेन्द्रियपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अमतरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । इनसे असंख्यात गुणवट्टिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवट्टि

१ मूलप्रती जादि संखेजगु० ओरा०इति पाठः ।

वि तु० असंखेज्जगु० । संखेज्जभागवद्धि-हाणी दो वि० संखेज्जगु० । असंखेज्जभागवद्धि-  
हाणी दो वि तु० संखेज्जगु० । अवद्धि० असंखेज्जगु० । पंचदंसणा०-मिच्छ०-वारस०  
क०-भय-दु०-तेजइगादिणव० पंचिंदियओघो । असादावे०-छण्णोको०-तिण्णिगदि-दोजादि-  
ओरालि०-वेउव्वि०-हस्संठा-दोअंगो०-हस्संघ० तिण्णिआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-  
दोविहा०-त्तस-थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-धिरादिपंचयुगल०-अजस०-णीचा०-सव्वत्थो०  
संखेज्जगुणवद्धि-हाणी दो वि तु० । अवत्त० संखेज्जगु० । उवरि णाणावरणभंगो ।  
सादावे०-पुरिस०-जसगि०-उच्चा० सव्वत्थो० असंखेज्जगुणवद्धि । हाणी असंखेज्जगु० ।  
संखेज्जगुणवद्धि-हाणी दो वि तु० असंखेज्जगु० । अवत्त० संखेज्जगु० । उवरि णिहाए  
भंगो । णिरयगदि-तिण्णिजादि-णिरयाणु०-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० सव्वत्थोवा संखे-  
ज्जगुणवद्धि-हाणी । अवत्त० असंखेज्जगु० । उवरि णिहाए भंगो । चदुआयु०-आहारदुग-  
तित्थय० ओघं । पंचिंदियअपज्ज० पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । तसकाइय० पंचिदि  
यभंगो । पज्जत्ता पज्जत्तभंगो । अपज्जत्त० अपज्जत्तभंगो ।

९६४. पंचमण०-तिण्णिवच्चिजो० पंचणा०अट्टारस० पंचिंदियपज्जत्तभंगो । चदु-  
दंसणा०-मिच्छ०-वारसक०-भय०-दुगुं०-देवगदि-ओरालि०-वेउव्विय०-तेजा०-क०-

और संख्यात गुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । इनसे संख्यात  
भागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यात  
भागवृद्धि और असंख्यात भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे  
अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय,  
जुगुप्सा और तेजसशरीर आदि नौका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके ओघके समान है । असातावेदनीय, छह  
नोकषाय, तीन गति, दो जाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो आज्ञापाङ्ग, छह  
संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर  
पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि पाँच युगल, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रकी संख्यात गुणवृद्धि और  
संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक  
जीव संख्यातगुणे हैं । इससे आगेका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय, पुरुषवन्द, यशः-  
कीर्ति और उच्चगोत्रकी असंख्यात गुणवृद्धिके बन्धक जीव सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे असंख्यातगुण-  
हानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव  
दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इससे  
आगेका भङ्ग निद्रा प्रकृतिके समान है । नरकगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त  
और साधारणकी संख्यातगुणवृद्धि, और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे  
स्तोत्रक हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इससे आगेका भङ्ग निद्रा प्रकृतिके  
समान है । चार आयु, आहारकद्विक और तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय  
अपर्याप्तकोमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है । त्रसकायिक जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंके  
समान भङ्ग है । इनके पर्याप्तकोमें पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोके समान भङ्ग है । इनके अपर्याप्तकोमें पञ्चेन्द्रिय  
अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है ।

९६४. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि अठारह प्रकृतियोंका  
भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोके समान भङ्ग है । चार दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय,

वेउव्वियअंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-णिमि० सव्वत्थो०  
 अवत्त० । संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी दो वि० तु० असंखेज्ज० । उवरिमपदा णाणावरणभंगो ।  
 सादावे०-पुरिस०-जसगि०-उच्चा० पंचिदियपज्जत्तभंगो । असादा०-छण्णोक०-तिण्णिगदि-  
 पंचजादि-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-तिण्णिआणु०-आदाउज्जो०-दोविहायगदि-  
 तस-थावर-सुहुम०-अपज्जत्त०-साधार०-थिरादिपंचयुगल-अजस०-णाचा० सव्वत्थो०  
 संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी दो वि० । अवत्त० संखेज्जगु० । उवरि णिहाए भंगो । चदुआयु०-  
 आहारदुग-तिथय० ओघं । वचिजोगि-असच्चमोसवचि० तसपज्जत्तभंगो । ओरालियमि०  
 तिरिक्खोघं । णवरि देवगदिपंचगस्स सव्वत्थो० संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी दो वि० तु० ।  
 संखेज्जभागवड्ढि-हाणी दो वि० तु० संखेज्जगु० । असंखेज्जभागवड्ढि-हाणी दो वि० तु०  
 संखेज्जगु० । अवट्ठि० संखेज्जगु० ।

९६५. वेउव्वि०-वेउव्वियमिस्सका० देवोघं । णवरि वेउव्वियका० तिथय०  
 णिरयोघं । आहार०-आहारमिस्सका० सव्वट्ठभंगो । कम्मइगका० सव्वत्थो० मिच्छत्त०  
 अवत्त० । अवट्ठिद० अणंतगु० । सेसाणं परियत्तमाणियाणं पगदीणं सव्वत्थो० अवत्त० ।  
 अवट्ठि० असंखेज्जगु० । एवं अणाहारगे० ।

जुगुप्सा, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, वैक्रियिकआङ्गापाङ्ग,  
 वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके अवक्तव्यपदके  
 बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे संख्यातगुणवृद्धि, और संख्यातगुणहानिपदके बन्धक जीव  
 दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इससे आगेके पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । साता-  
 वेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका भङ्ग पञ्चन्द्रियपर्याप्त जीवोंके समान है । असाता-  
 वेदनीय, छह नोकषाय, तीन गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक आङ्गापाङ्ग, छह संहनन,  
 तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, सूक्ष्म अपर्याप्त, साधारण, स्थिर  
 आदि पाँच युगल, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक  
 जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।  
 इससे आगेका भङ्ग निद्रा प्रकृतिके समान है । चार आयु, आहाररुद्धिक और तीर्थकर प्रकृतिका  
 भङ्ग ओघके समान है । वचनयोगी और असत्यमृपा वचनयोगी जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके  
 समान भङ्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है ।  
 इतनी विशेषता है कि देवगतिपञ्चककी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव  
 दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक  
 जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके  
 बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

९६५. वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान  
 भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग सामान्य  
 नारकियोंके समान है । आहारककाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थ-  
 सिद्धिके देवोंके समान भङ्ग है । कामणकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव  
 सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । शेष परिवर्तमान प्रकृतियोंके  
 अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे  
 हैं । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

६६६. इत्थिवे० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० सव्वत्थो० असंखेज्जगुण-  
वड्ढी । असंखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु० । संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी दो वि० तु० असं०गु० ।  
सेसपदा पंचिदियपज्जत्तभंगो । पंचदंसणा०-मिच्छत्त०-बारसक०-भय०-दुगुं०-तेजइगादि-  
णव० पंचिदियपज्जत्तभंगो । सादावे०-पुरिस०-जमगि०-उच्चा० पंचिदियपज्जत्तभंगो ।  
असादा०-छण्णोकसा०-तिण्णिगदि-दोजादि-ओरालि०-वेउव्वि०-छस्संघा-दोअंगो०-  
छस्संघ०-तिण्णिआणु०-आदाउज्जो०-दोविहा०-तस-थावरादिपंचयुगल-अजस०णीचा०  
सव्वत्थो० संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी दो वि० तु० । अवत्त० संखेज्जगु० । संखे-  
ज्जभागवड्ढि-हाणी दो वि० तु० संखेज्ज० । असंखेज्जभागवड्ढि-हाणी० दो वि० तु०  
संखेज्जगु० । अवट्ठि० असंखेज्जगु० । चदुआयु० ओघं । णिरयगदि-तिण्णिजादि-  
णिरयाणु०-सुहुम-अपज्ज०-साधार० सव्वत्थो० संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी दो वि० । अवत्त०  
असंखेज्जगु० । संखेज्जभागवड्ढि-हाणी दो वि० संखेज्जगु० । असंखेज्जभागवड्ढि-हाणी  
दो वि० संखेज्जगु० । अवट्ठि० असंखेज्जगु० । आहारदुग-तित्थय० मणुसि०भंगो । पर०-  
उस्सा०-बादर-पज्जत्त-पत्ते० सव्वत्थोवा अवत्त० । संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी दो वि०  
संखेज्ज० । संखेज्जभागवड्ढि-हाणी दो वि० संखेज्जगु० । असंखेज्जभागवड्ढि-हाणी

६६६. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तराय-  
की असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव  
संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर  
असंख्यातगुणे हैं । शेष पदोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके समान है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व,  
बारह कपाय, भय, जुगुप्सा और तेजसशरीर आदि नौ का भङ्ग पञ्चेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके समान है ।  
सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका भङ्ग पञ्चेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके समान है ।  
असानावेदनीय, छह नाकषाय, तीन गति, दो जाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान,  
दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस और स्थावर  
आदि पाँच युगल, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक  
जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे  
संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे  
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं ।  
इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । चारों आयुओंका भङ्ग ओघके समान है ।  
नरकगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणकी संख्यातगुणवृद्धि और  
संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक  
जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही  
तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव  
दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहा-  
रकट्टिक और तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त  
और प्रत्येकके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यात-  
गुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यात-  
भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि और

दो वि० संखेज्जगु० । अवट्टि० असंखेज्जगु० । पुरिसेसु इत्थिभंगो । णवरि तित्थयरं ओघं ।

६६७. णवुंसगे० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज० पंचंत० सव्वत्थोवा असंखेज्जगुणवड्डी । असंखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु० । सेसपदा ओघं । पंचदंसणावरणादिगुणतीसं पगदीणं ओघं । ओरालि० सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवड्डी-हाणी दो वि० । अवत्त० असंखेज्जगु० उवरि ओघभंगो । वेउव्वियल्ल० ओघं णिरयगदिभंगो । सेसाणं पगदीणं ओघं ।

९६८. अवगदवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । संखेज्जगुणवड्डी संखेज्जगु० । संखेज्जभागवड्डी संखेज्जगु० । संखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु० । संखेज्जभागहाणी संखेज्जगु० । सादावे०-जसगि०-उच्चा० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखेज्जगुणवड्डी संखेज्जगु० । संखेज्जगुणवड्डी संखेज्जगु० । संखेज्जभागवड्डी संखेज्जगुण० । असंखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु० । संखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु० । संखेज्जभागहाणी संखेज्जगु० । अवट्टि० संखेज्जगु० । चदुसंज० सव्वत्थोवा अवत्त० । संखेज्जभागवड्डी संखेज्जगु० । संखेज्जभागहाणी संखेज्जगु० । अवट्टि० संखेज्जगु० ।

६६९. कोधकसाए० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० ओघं । णवरि अवत्त०

असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदी जीवोंमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है ।

६६७. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष पदोंका भङ्ग ओघके समान है । पाँच दर्शनावरण आदि उनतीस प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । औदारिक शरीरकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तव्य पदके बन्धक जीव असंख्यात गुणे हैं । इससे आगेका भङ्ग ओघके समान है । वैक्रियिक छह का भङ्ग ओघमें कहे गये नरकगतिके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

६६८. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तराय के अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साता वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगात्रके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । चार संज्वलनोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

६६९. क्रोधकषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण चार संज्वलन और पाँच

णत्थि । सेसाणं पि ओघं । माणे सत्तारणं पि अवत्त० णत्थि । सेसाणं पि ओघं ।  
मायाए सोल्लसणं पि अवत्त० णत्थि । सेसाणं पि ओघं । लोमे पंचणा०-चहुदंस०-  
पंचंत० अवत्त० णत्थि । सेसपदा ओघभंगो ।

६७०. मदि०-सुद० धुविगाणं मिच्छत्त० तिरिक्खोघं । सेसाणं ओघं । विमंगे  
धुवियाणं णिरयभंगो । मिच्छत्त०-देवगदि-पंचिदि०-ओरालिय०-वेउव्विय०-समचदु०-  
वेउव्विय०-अंगो०-देवाणुपु०-पर०-उस्सास-वादर-पज्जत्त-पत्तेय० सव्वत्थोवा अवत्त० ।  
संखेज्जगणवद्धि-हाणी दो वि० असंखेज्जगु० । उवरिमपदा धुवभंगो । सादासाद०-  
सत्तणोक०-तिण्णिगदि-चदुजादि-पंचसंठाण-ओरालि० अंगो०-छस्संघ०-तिण्णिआणु०-  
आदा० उज्जो०-दोविहाय० तस-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार०-थिरादिक्खुगल-दोगोद०  
सव्वत्थोवा संखेज्जगणवद्धि-हाणी दो वि० । अवत्त० संखेज्जगु० । उवरिमपदा धुवभंगो ।

६७१. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस-उच्चा०-पंचंत०  
सव्वत्थो० अवत्त० । असंखेज्जगणवद्धि संखेज्जगु० । असंखेज्जगणहाणी संखेज्जगु० ।  
संखेज्जगणवद्धि-हाणी दो वि० असं०गु० । संखेज्जभागवद्धि-हाणी दो वि० संखेज्जगु० ।

अन्तरायका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद नहीं है । शेष प्रकृ-  
तियोंका भङ्ग भी ओघके समान है । मान कपायवाले जीवोंमें सत्तरह प्रकृतियोंका भी अवक्तव्य भङ्ग  
नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । माया कपायवाले जीवोंमें सोलह प्रकृतियोंका  
अवक्तव्य पद नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भी भङ्ग ओघके समान है । लोभ कपायवाले जीवोंमें पाँच  
ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका अवक्तव्य पद नहीं है । शेष पदोंका भङ्ग  
ओघके समान है ।

६७०. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों और मिथ्यात्वका भङ्ग  
सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें ध्रुव  
बन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । मिथ्यात्व, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदा-  
रिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, परघात,  
उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्या-  
तगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इससे  
आगेके पदोंका भङ्ग ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात  
नोकषाय, तीनगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनु-  
पूर्वी, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, स्थिर आदि  
छह युगल और दो गोत्रकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यात गुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य  
होकर सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इससे आगेके पदोंका  
भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है ।

६७१. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार  
दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव  
सबसे स्तोक हैं । इनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुण-  
हानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव

असंखेजभागवङ्कि-हाणी संखेजगु० । अवट्टि० असं०गु० । णिहा-पचला-अट्टक०-भय०-  
दुगुं०-दोगदि-पंचिदि०-चदुसरीर०-समचदु०-दोअंगो०-वञ्जरिस०-वण्ण०४-दोआणु०-  
अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय० सव्वत्थोवा अवत्त० ।  
संखेजगुणवङ्कि-हाणी दो वि० असं०गु० । उवरिमपदा णाणावरणभंगो । सादादिबारस०  
मणजोगिभंगो । देवायु० ओघं । मणुसायु० देवोघं । आहारदुगं ओघं । एवं ओधिदंस०-  
सम्मादि०-खइग०-वेदगसम्मा० । णवरि खइगे दोआयु० मणुसि० भंगो ।

६७२. मणपज्ज० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-उच्चा०-पंचंत० ओधिभंगो ।  
सेसाणं आभिणि०भंगो । णवरि संखेज्जं कादव्वं । एवं संजद० ।

९७३. सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंसणा०-लोभसंज०-उच्चा०-पंचंत० अवत्त०  
णत्थि । सेसं मणपज्जवभंगो । परिहार० आहारकाय-जोगिभंगो । णवरि आहारदुगं ओघं ।  
सुहुमसंप० अवगदवेदभंगो । णवरि अवत्त० णत्थि । संजदासंजदे धुविगाणं सादादीणं  
च देवभंगो । णवरि तित्थय० इत्थिभंगो । अमंजदे धुविगाणं तिरिक्खोघं । सेसाणं

दोनो ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक  
जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके  
बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यात-  
गुणे हैं । निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रियजाति, चार शरीर,  
ममचतुरस्रसंस्थान, दो आज्ञोपाङ्ग, वञ्जरिपभनाराचसंहन्तन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघु-  
चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, मुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्करके अवक्तव्य  
पदके बन्धक जीव सबसे स्नांक हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव  
दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे आगेके पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ।  
माता आदि बारह प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । देवायुका भङ्ग ओघके समान  
है । मनुष्यायुका भङ्ग समान्य देवोंके समान है । आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है ।  
इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना  
चाहिये । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग मनुष्यनियोंके  
समान है ।

६७२. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद,  
उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग  
आभिनिबोधिज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिये । इसी-  
प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये ।

९७३. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण,  
लोभ संज्वलन, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका अवक्तव्य पद नहीं है । शेष भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी  
जीवोंके समान है । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें आहारकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।  
इतनी विशेषता है कि आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें  
अपगतवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद नहीं है । संयतासंयत  
जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और साता आदि प्रकृतियोंका भङ्ग देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि  
तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । असंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका

मूलोधं । चक्खुदंसं तसपज्जत्तभंगो ।

६७४. किण्णलेस्साए देवगदि०४ सव्वत्थो० संखेज्जगुणवङ्कि-हाणी दो वि० । अवत्त० असंखेज्जगु० । दोवङ्कि-हाणी संखेज्जगुणा कादव्वा । अवङ्कि० असंखेज्जगु० । ओरालि० सव्वत्थो० संखेज्जगुणवङ्कि-हा० दो वि० । अवत्त० असं०गु० । उवरिं धुवभंगो । तित्थय० इत्थिभंगो । णवरि अवत्त० णत्थि । सेसाणं पगदीणं असंजदभंगो । एवं णील-काऊए । णवरि काऊए तित्थय० णिरयभंगो । देवगदिचदुक्कस्स य अवत्त० संखेज्जगु० ।

६७५. तेऊए धुविगाणं देवभंगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-बारसक०-देवगदि-ओरालि०-वेउव्वि-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु०-तित्थय० सव्वत्थो० अवत्त० । संखेज्जगुण-वङ्कि-हाणी दो वि० असं०गु० । उवरिं धुवभंगो । सादासाद०-सत्तणोक०-दोगदि-दोजादि-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-आदाव० [उज्जो०- ] तस-थावर०-थिरादिछयुग०-णीचागो०-उच्चा० सव्वत्थो० संखेज्जगुणवङ्कि-हाणी दो वि० । अवत्त० संखेज्जगु० । सेसपदा धुवभंगो । [ आहादुगं ओधं । ] एवं पम्माए वि ।

भङ्ग सामान्य निर्यञ्चोकं समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मूल ओघके समान है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है ।

६७४. कृष्णलेश्यावाले जीवोंमें देवगतिचतुष्ककी संख्यात गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे करने चाहिये । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । औदारिकशरीरकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इससे आगेका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग स्त्रीवर्दी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग असंयतोंके समान है । इसीप्रकार नील और कापातलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कापातलेश्यावाले जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है तथा देवगति चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

६७५. पीतलेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग देवोंके समान है । स्त्यानगृद्धि नील, मिथ्यात्व, बारह कषाय, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियकशरीर, वैक्रियकआंगोपांग, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थेकरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्रक हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इससे आगेका भंग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । सातावेदनीय, असतावेदनीय, सात नाकषाय, दो गति, दो जाति, छह संस्थान, औदारिकआंगोपांग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, आतप, उद्यात, त्रस, स्थावर, स्थिर आदि छह युगल, नीचगोत्र और उच्चगोत्रकी संख्यागुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोत्रक हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष पदोंका भंग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि औदारिक-



णवरि ओरालि०अंगो० देवगदिभंगो । पंचिदिय-तस० ध्रुविगाण भंगो । णवरि तिण्णि-वेद०-समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० थोणगिद्धिभंगो ।

६७६. सुक्काए पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० सव्वत्थो० अवत्त० । असं-खेज्जगुणवड्ढी संखेज्जगु० । असंखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु० । संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी दो वि० असंखेज्जगु० । संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी दो वि० संखेज्जगु० । उवरिं देवगदिभंगो । पंचदंसणा०-मिच्छ०-बारसक०-भय-दुगुं०-दोगदि-पंचिदि०-चदुसरीर०-समचदु०-दोअंगो०-वज्जरिस०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय० सव्वत्थोवा अवत्त० । संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी दो वि तु० असंखेज्जगु० । उव-रिअपदा णाणावरणभंगो । सादावेद०-जसगि० उच्चा० ओधिभंगो । आसादवे०-इत्थिवे०-णवुंस०-चदुणोक०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-अजस०-णीचा० आणदभंगो । पुरिसवेद० ओधिभंगो । णवरि अवत्त० असाद-भंगो । [ आहारदुगं ओघं । ] अन्भवसिद्धिय-मिच्छा० मदि०भंगो ।

९७७. उवसमसं० पंचणा०-चदुदंसं०-चदुसंज०-पुरिस०-उच्चा०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणी संखेज्जगु० । संखेज्जगुणवड्ढी० विसे० । सेसपदा

आङ्गोपाङ्गका भङ्ग देवगतिके समान हैं । पञ्चन्द्रियजाति और त्रस प्रकृतिका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि तीन वेद, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, मुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धित्रिकके समान है ।

६७६. शुक्लेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । इनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इससे आगेका भङ्ग देवगतिके समान है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चन्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, मुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थकरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इससे आगेके पदोंका भंग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका भंग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार नोकषाय, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका भंग आनत कल्पके समान है । पुरुषवेदका भंग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदका भंग असातावेदनीयके समान है । आहारकद्विकका भंग ओघके समान है । अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भंग है ।

६७७. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, उच्च-गोत्र और पाँच अन्तरायके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । इनसे असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक

ओधिभंगो० । आहारदुग-तित्थय० एकत्थ भाणिद्व्वं । सेसाणं पगदीणं ओधिभंगो ।  
सासणे गिरयभंगो । सम्मामिच्छा० देव०भंगो । सण्णीसु मणजोगिभंगो ।

६७८. असण्णीसु धुविगाणं सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवद्धि-हाणी दो वि तु० । संखे-  
ज्जभागवद्धि-हाणी दो वि० असं०गु० । असंखेज्जभागवद्धि-हाणी दो वि तु० अणंतगु० ।  
अवद्धि० असंखेज्जगु० । सेसाणं परियत्तभाणियाणं पगदीणं सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवद्धि-  
हाणी दो वि० । संखेज्जभागवद्धि-हाणी दो वि० असंखेज्जगु० । अवत्त० अणंतगु० ।  
उवरिमपदा णाणावरणभंगो । णवरि चदुआयु०-वेउव्वियल्ल० तिरिक्खोषं । एहंदि०-  
आदाव-थावर०-सुहुम-साधार० सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवद्धि-हाणी दो वि० । संखेज्ज-  
भागवद्धिहाणी दो वि असं०गु० । उवरिमपदा धुवभंगो । मणुसगदिदुग-उच्चा०  
संखेज्जगुणवद्धि-हाणी णत्थि । सेसं च भाणिद्व्वं । एवं अप्पाबहुगं समत्तं ।

एवं वद्धिबंधो समत्तो

### अज्झवसाणसमुदाहारो

९७९. अज्झवसाणसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि-पगदिसमुदा-  
हारो द्विदिसमुदाहारो तिच्चमंददा त्ति ।

हैं । शेष पदोंका भङ्ग अवधिज्ञानां जीवोंके समान हैं । इतना विशेषता है कि आहारकद्विक और तीथेकर इनको एक जगह कहना चाहिये । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । सासादन-सम्यग्दृष्टि जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें देवोंके समान भङ्ग है । संज्ञी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

६७८. असंज्ञी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोत्र हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष परिवर्तनमान प्रकृतियोंकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोत्र हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्य पदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इससे आगेके पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि चार आयु और वैकियिक छहका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । एकेन्द्रियजाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोत्र हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इससे आगेके पदोंका भङ्ग ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । मनुष्यगत-द्विक और उच्चगोत्रकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानि नहीं है । शेष पद कहने चाहिये ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार वृद्धिबन्ध समाप्त हुआ ।

### अध्यवसानसमुदाहार

६७९. अध्यवसानसमुदाहारका प्रकरण है । उसमें ये तीन अनुयागद्वार होते हैं—प्रकृतिस-मुदाहार, स्थितिसमुदाहार और तीव्रमन्दता ।

## पगदिसमुदाहारो

६८०. पगदिसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदाराणि-पमाणाणुगमो अप्पाबहुगे त्ति ।

### पमाणाणुगमो

६८१. पमाणाणुगमो पंचणाणावरणीयाणं असंखेज्जा लोगा द्विदिवंधज्झवसाणट्ठाणाणि । एवं सव्वासिं पगदीणं याव अणाहारगे त्ति णादव्वं । णवरि अवगदे सुहुमसंपराइगेसु अंतोसुहुत्तमेत्ताणि अज्जवसाणट्ठाणाणि ।

एवं पमाणाणुगमो समत्तो ।

### अप्पाबहुअं

६८२. अप्पाबहुगं दुविहं-सत्थाणअप्पाबहुगं चैव परत्थाणअप्पाबहुगं चैव । सत्थाणअप्पाबहुगं पगदं । दुविधो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण पंचणाणावरणीयाणं सरिसाणि अज्जवसाणट्ठाणाणि । सव्वत्थोवाणि थीणगिद्धि०३ द्विदिवंधज्झवसाणट्ठाणाणि । णिहा-पचला० द्विदिवंधज्झवसाणट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । चदुदंसणा० द्विदिवंधज्झवसाणट्ठाणाणि विसे० । सव्वत्थोवा सादस्स द्विदिवंधज्झवसाणट्ठाण० । असादस्स द्विदिवंधज्झवसाणट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि । सव्वत्थोवा० हस्सरदि० द्विदिवंधज्झवसाण० । पुरिस० द्विदिवं० विसे० । इत्थि० द्विदिवं० असंखेज्जगुणाणि । णवुंस०

### प्रकृतिसमुदाहार

६८०. प्रकृतिसमुदाहारका प्रकरणं है । उसमें ये दो अनुयोगद्वारं हांते हैं—प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व ।

### प्रमाणानुगम

६८१. प्रमाणानुगम—पांच ज्ञानावरणीयके असंख्यातलाक प्रमाणस्थितिबन्धाध्यवसान स्थान हांते हैं । इसी प्रकार सभी प्रकृतियोंके अनाहारकमार्गणा तक जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति अध्यवसानस्थान हांते हैं । इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ ।

### अल्पबहुत्व

६८२. अल्पबहुत्व दो प्रकार का है—स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व । स्वस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार है—आघ और आदेश । आघमें पाँच ज्ञानावरणीयके अध्यवसानस्थान समान हांते हैं । स्थानगुद्धित्रिकके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोका हांते हैं । इनसे निद्रा और प्रचलाके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक हांते हैं । इनसे चार दर्शनावरणके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक हांते हैं । सातावेदनीयके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोका हांते हैं । इनसे आसातावेदनीयके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हांते हैं । हास्य और रतिके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोका हांते हैं । इनसे पुरुषवेदके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हांते हैं । इनसे स्त्रीवेदके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हांते हैं । इनसे नपुंसकवेदके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान असंख्या-

द्विदिवं० असंखे० । अरदि-सोग० द्विदिवं० विसे० । भय-दुगुं० द्विदिवं० विसे० ।  
 अणंताणुबंधि०४ द्विदिवं० असंखेज्ज० । अपच्चक्खाणा०४ द्विदिवं० विसे० । पच्चक्खा-  
 णा०४ द्विदिवं० विसे० । कोधसंज० द्विदिवं० विसे० । माणसंज० द्विदिवंधज्ज० विसे० ।  
 मायासंज० द्विदिवं० विसे० । लोभसंज० द्विदिवं० विसे० । मिच्छ० द्विदिवं० असंखे-  
 ज्जगुं० । सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायूणं द्विदिवं० । णिरयायुग० द्विदिवं० असंखेज्जगुणं० ।  
 देवायुग० द्विदिवं० विसेसा० । सव्वत्थोवा देवगदिणामाए द्विदिवं० । मणुसगदिणामाए  
 द्विदिवं० असंखेज्जगुं० । णिरयगदि० द्विदिवं० असंखेज्जगुं० । तिरिक्खगदि० द्विदिवं०  
 विसे० । सव्वत्थोवा चदुरिंदि० द्विदिवं० । तीइंदि० द्विदिवं० विसे० । बीइंदि० द्विदिवं०  
 विसे० । एइंदि० द्विदिवं० असंखेज्जगुं० । पंचिंदिय० द्विदिवं० विसे० । सव्वत्थोवा०  
 आहारसरीर० द्विदिवं० । ओरालि० द्विदिवं० असंखेज्जगुं० । वेउच्चिय० द्विदिवं०  
 विसे० । तेजइगादिणव० द्विदिवं० विसे० । सव्वत्थोवाणि समचदु० द्विदिवं० । णगगोद०  
 द्विदिवं० असंखेज्जगुं० । सादिय० द्विदिवं० असंखेज्जगुं० । खुज्ज० द्विदिवं० असंखे-

नगुणे होते हैं । इनसे अरति और शोकके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते हैं । इनसे भय और जुगुप्साके स्थिति बन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान असांख्यातगुणे होते हैं । इनसे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते हैं । इनसे प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते हैं । इनसे क्रोध संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते हैं । इनसे मान संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते हैं । इनसे मायासंज्वलनके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते हैं । इनसे लोभ-संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं । इनसे मिथ्यात्वके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असांख्यातगुणे होते हैं । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोका होते हैं । इनसे नरकायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असांख्यातगुणे होते हैं । इनसे देवायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं । देवगतिनामकर्मके स्थितिवन्धाध्यवसान-स्थान सबसे स्तोका होते हैं । इससे मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असांख्यातगुणे होते हैं । इनसे नरकगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असांख्यातगुणे होते हैं । इनसे तिर्यञ्चगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं । चतुरिन्द्रिय जातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोका होते हैं । इनसे त्रीन्द्रिय जातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं । इनसे द्वीन्द्रिय जातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं । इनसे एकेन्द्रिय जातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असांख्यातगुणे होते हैं । इनसे पञ्चेन्द्रिय जातिके स्थितिवन्धाध्यवसान-स्थान विशेष अधिक होते हैं । आहारकशरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोका होते हैं । इनसे औदारिकशरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असांख्यातगुणे होते हैं । इनसे वैक्रियिक शरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं । इनसे तैजसशरीर आदि नौ प्रकृतियोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं । समचतुरस्रसंस्थानके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोका होते हैं । इनसे न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान असांख्यात-गुणे होते हैं । इनसे स्वातिसंस्थानके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असांख्यातगुणे होते हैं । इनसे बुद्धकसंस्थानके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असांख्यातगुणे होते हैं । इनसे वामन संस्थानके

ज्जगु० । वामणसंठा० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । हुंडसं० द्विदिबं०-असंखेज्जगु० । सव्व-  
 त्थोवा० आहारसरीरअंगो० द्विदिबं० । ओरालिय०अंगो० द्विदिबं० असंखेज्जगु० ।  
 वेउव्विय०अंगो० द्विदिबं० विसे० । सव्वत्थोवा० वजरिस० द्विदिबं० । एवं यथा  
 संठाणं तथा संबडणं । यथा गदो तथा आणुपुव्वी । सव्वत्थोवा० पसत्थवि० द्विदिबं० ।  
 अप्पसत्थ० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । सव्वत्थोवा० थावरणामाए द्विदिबं० । तस०  
 द्विदिबं० विसे० । सव्वत्थोवा० सुहुम-अपज्जत्त-साधारण-थिर-सुम-सुस्सर-आदेज्ज-जसगि०-  
 उच्चा० द्विदिबं० । तप्पडिपक्खाणं द्विदिबं० असंखेज्जगु० । पंचंतरा० द्विदिबं० सरि-  
 साणि । एवं ओघभंगो कायजोगि-कोधादि०४-अचक्खुदं०-भवसि०-आहारगे ति ।

६८३. पेरइएसु सव्वत्थोवा थीणगिद्वि०३ द्विदिबं० । छदंसणा० विसे० । सादा-  
 सादा० ओघभंगो । सव्वत्थो० पुरिस० । हस्स रदि० द्विदिबं० असंखे० । [ इत्थि०  
 द्विदिबं० असंखेज्ज० । ] णवुंस० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । अरदि-सोग० द्विदिबं० विसे० ।  
 भय०-दु० द्विदिबं० विसे० । अणंताणुबंधि०४ द्विदिबं० असंखेज्जगु० । बारसक०  
 द्विदिबं० विसे० । मिच्छत्त० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । सव्वत्थो० मणुसग० द्विदिबं० ।

स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे होते हैं । इनसे हुण्डसंस्थानके स्थितिबन्धाध्यवसान-  
 स्थान असंख्यातगुणे होते हैं । आहारकशरीरआङ्गोपाङ्गके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक  
 हैं । इनसे औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे वैक्रि-  
 यिकशरीर आङ्गोपाङ्गके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । वज्रभृषभनाराचसंहननके  
 स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । ऐसे ही जिसप्रकार संस्थानोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व  
 कह आये हैं उसीप्रकार संहननोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व जानना चाहिये । तथा जिसप्रकार चारों-  
 गतियोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहा है उसीप्रकार आनुपूर्वियोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व जानना  
 चाहिये । प्रशस्तविहायोगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे अप्रशस्तविहा-  
 योगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । स्थावरनामकर्मके स्थितिबन्धाध्यवसान  
 स्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे त्रसनामकर्मके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । सूक्ष्म,  
 अपर्याप्त, साधारण, स्थिर, शुभ, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके स्थितिबन्धाध्यव-  
 सानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्या-  
 तगुणे हैं । पाँच अन्तरायोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सदृश हैं । इसी प्रकार ओघके समान  
 काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुःदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

६८३. नारकियोंमें स्थानगृद्धिकके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे  
 छह दर्शनावरणके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । सातावेदनीय और असाता  
 वेदनीयका भंग ओघके समान है । पुरुषवेदके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे  
 हास्य और रतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे स्त्रीवेदके स्थितिबन्धाध्य-  
 वसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे नपुंसकवेदके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात-  
 गुण हैं । इनसे अरति और शाकके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे भय और  
 जुगुप्साके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चारके स्थितिबन्धा-  
 ध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे बारह कषायोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक  
 हैं । इनसे मिश्र्यात्वके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके स्थितिबन्धाध्य-

तिरिक्खग० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । सेसाणं पगदीणं ओघं । एवं सत्तसु पुढवीसु० ।

६८४. तिरिक्खेसु दंसणावरणीय-वेदणीय-मोहणीय० गिरयभंगो । णवरि मोहणीय-अपच्चक्खाणा०४ द्विदिबं० विसे० । अट्टकसा० द्विदिबं० विसे० । मिच्छ० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । सव्वत्थोवा० तिरिक्ख-मणुसायूणं द्विदिबं० । देवायु० द्विदिबं० असंखे-ज्जगु० । गिरयायु० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । सव्वत्थो० देवगदि० द्विदिबं० । मणुसगदि० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । तिरिक्खगदि० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । गिरयगदि० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । सव्वत्थो० चतुरिदि० द्विदिबं० । तीइदि० द्विदिबं० विसे० । बेइदि० द्विदिबं० विसे० । एइदि० द्विदिबं० विसे० । पंचिदि० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । सव्वत्थो० ओरालि० द्विदिबं० । वेउच्चि० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । तेजा०-क० द्विदिबं० विसे० । सठाणं संघडणं ओघं । णवरि खीलियसंघडणादो असंपत्तसेवट्ट० विसे० । सेसाणं ओघं । एवं पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-जोणिणोसु ।

६८५. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगोसु सव्वत्थोवाणि सादावेद० द्विदिबं० । असादा० द्विदिबं० असंखेज्ज० । सव्वत्थोवा० पुरिस० द्विदिबं० । इत्थिवे० द्विदिबं० असंखे-ज्जगु० । हस्स-रदीणं द्विदिबं० असंखेज्जगु० । णवुंस० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । अरदि-वसानस्थान सबसे स्तोक है । इनसे तिर्यञ्चगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिये ।

६८४. तिर्यञ्चोमें दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीयका भंग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि मोहनीयमें अप्रत्याख्यानावरण चारके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे मिध्यास्वके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे देवायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे नरकायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । देवगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे तिर्यञ्चगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे नरकगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । चतुरिन्द्रियजातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे त्रीन्द्रियजातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे द्वीन्द्रिय जातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे एकेन्द्रियजातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे पञ्चेन्द्रिय-जातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे वैक्रियिकशरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे तैजस और कार्मणशरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । संस्थानों और संहननोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें कीलकसंहननसे असम्प्राप्तासृपाटिकासंहननके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चपर्याप्त और पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिनी जीवोंमें जानना चाहिये ।

६८५. पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चअपर्याप्त जीवोंमें सातावेदनीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे असातावेदनीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे स्त्रीवेदके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे हास्य और रतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे नपुंसकवेदके

सोग० द्विदिबं० विसे० । भय०-दुगुं० द्विदिबं० विसे० । सोलसक० द्विदिबं० असंखे-  
ज्जगु० । मिच्छत्त० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । सव्वत्थोवाणि मणुसगदि० द्विदिबं० ।  
तिरिक्खगदि० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । सव्वत्थोवाणि पंचिदि० द्विदिबं० ।  
चदुरिंदि० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । तीइंदि० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । बीइंदि० द्विदिबं०  
असंखेज्जगु० । एइंदि० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । संठाणं संघडणं विहायगदी ओघं ।  
सव्वत्थो० तसणामाए द्विदिबं० । थावर० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । सेसाणं ओघं ।  
एवं मणुसअपज्जत्त-सव्वविगल्लिंदिय-पंचिदिय-तसअपज्ज० सव्वएइंदि०-पंचकायाणं च ।

९८६. मणुसेसु हेद्विल्लियो ओघभंगो । गदिणामाए जादिणामाए च तिरिक्खोघं ।  
णवरि वेउन्विय० असंखेज्जगु० । सेसं तिरिक्खोघं ।

९८७. देवाणं णिरयभंगो । णवरि सव्वत्थोवा० एइंदि० द्विदिबं० । पंचिदिय०  
द्विदिबं० विसे० । एवं तस-थावराणं । भवणवा०-वाणवेत०-जोदिसि०-सोधम्मीसाणेसु  
सव्वत्थो० पंचिदिय० द्विदिबं० । एइंदि० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । एवं तस-थावराणं ।  
सव्वत्थोवा असंपत्तसेवट्ट० द्विदिबं० । खोलिय० विसे० । सेसाणं देवोघं । सणकुमार-

स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनमे अरति और शोकके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे भय और जुगुप्साके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे सोलह कपायोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्वके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोत्र हैं । इनसे तिर्यञ्चगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान संख्यातगुणे हैं । पञ्चेन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोत्र हैं । इनसे चतुरिन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे त्रीन्द्रिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे द्वीन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे एकेन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । मंस्थान, संहनन और विहायागतिका भङ्ग ओघके समान है । त्रसनामकर्मके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोत्र हैं । इनसे स्थावरनामकर्मके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार मनुष्यअपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियअपर्याप्त, त्रसअपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय और पांच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिये ।

९८६. मनुष्योंमें नीचेकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । गतिनामकर्म और जातिनामकर्मका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकशरीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । शेष भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है ।

९८७. देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोत्र हैं । इनमें पञ्चेन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार त्रस और स्थावर प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व जानना चाहिये । भवनवासी, व्यन्तर, ज्यातिपी और सौधमैशानकल्पके देवोंमें पञ्चेन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोत्र हैं । इनसे एकेन्द्रिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार त्रस और म्थावर प्रकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । असम्प्राप्तसृपाटिकासंहननके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोत्र हैं । इनसे कीलकसंहननके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष

याव० उवरिमगेवज्जा पढमपुढवीभंगो । अणुदिस याव सव्वट्टेसु सव्वत्थो० हस्स-रदीणं  
ट्टिदिबं० । अरदि-सोग० ट्टिदिबं० असंखेज्जगु० । पुरिस०-भय०-दुगुं० विसे० । बारमक०  
ट्टिदिबं० असं०गु० । सेसाणं णिरयभंगो । एवं एस भंगो आहार०-आहारमि०-आभि०  
सुद०-ओधि०-मणपज्जव०-सव्वसंजद-ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसमस०-  
सासण०-सम्मामिच्छा० ।

६८८. पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-पुरिस०-चक्खुदं०-सण्णि त्ति मूलोघं ।  
ओरालियका० मणुसिभंगो । ओरालियमि० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । णवरि देवगदि०४  
अत्थि । वेउव्वि० देवोघं । एवं चेव वेउव्वियमिस्स० । कम्मइ०-अणाहारगे तिरिक्ख-  
अपज्जत्तभंगो । विसेसो ओघेणेव साधेदव्वं । इत्थिवे० पंचिदियभंगो । किंचि विसेसो० ।  
णवुंसगेसु ओघं । जादिणामेसु विसेसो० । अवगदवेदे ओघेण साधेदव्वं । एवं सुहुम-  
संपरा० । मदि०-सुद०-विभंगणाणि-अब्भवसिद्धिय-मिच्छा० ओघं । णवरि सम्मत्तपगदीसु  
विसेसो । असंजदे ओघं । आयु० विसेसो । एवं तिण्णिले० । णवरि किंचि विसेसो ।

६८९. तेऊए मोहणीयो ओघो । सेसाणं सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि । णवरि

अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । सानत्कुमार कल्पसे लेकर उपरिम-  
प्रैत्र्यक तकके देवोंमें पहली पृथ्वीके समान भङ्ग है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें  
हास्य और रतिके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोत्र हैं । इनसे अरति और शाकके  
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान अस्तरुयातगुण हैं । इनसे पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके स्थिति-  
वन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कषायोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात-  
गुण हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसी प्रकार यह भङ्ग आहारककाययोगी आहा-  
रकमिश्रकाययोगी, आभिनिवाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, सब संयत, अवधि,  
दर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और  
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये ।

६८८. पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी और  
मंजू जीवोंमें मूल ओघके समान भङ्ग है । औदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्यिनियोंके समान भङ्ग है ।  
औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तिर्यञ्चअपर्याप्रकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें  
देवगतिचतुष्क है । वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । इसीप्रकार वैक्रियिक-  
मिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये । कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें तिर्यञ्चअपर्या-  
प्रकोके समान भङ्ग है । जो विशेष हो उसे ओघसे साध लेना चाहिये । स्त्रीवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रियके  
समान भङ्ग है । किन्तु कुछ विशेषता है । नपुंसकवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । किन्तु जाति-  
नामकर्मकी प्रकृतियोंमें कुछ विशेषता है । अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान साध लेना चाहिये ।  
इसीप्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिये । मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, अभव्य  
और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वसम्बन्धी प्रकृतियोंमें  
विशेषता जाननी चाहिये । असंयतोंमें ओघके समान भङ्ग है । किन्तु चार आयुओंमें विशेषता  
जाननी चाहिये । इसीप्रकार तीन लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये । किन्तु इनमें कुछ विशेषता है ।

६८९. पीतलेश्यावाले जीवोंमें मोहनीयका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग  
सौधर्मकल्पके समान है । इसीप्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है



सहस्सारभंगो । सुक्काए ओघं । णवरि णामे विसेसो । सव्वत्थोवा० मणुसगदि०  
द्विदिबं० । देवगदि० द्विदिबं० विसे० । अथवा देवगदि० बंध० थोवा० । मणुसगदि०  
द्विदिबं० असंखेज्जगु० । एवं सव्वणामाणं णेदव्वं । असण्णीसु मोहणीयं अपज्जत्तभंगो ।  
चदु० आयु० तिरिक्खोघं । सेसाणं तिरिक्खोघं । एवं सत्थाणअप्पाबहुगं समत्तं

६६०. परत्थाणअप्पाबहुगं पगदं । दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण  
सव्वत्थोवाणि तिरिक्ख-मणुसायूणं द्विदिबंघज्जवसाणट्टाणाणि । णिरयायुगस्स द्विदिबंघ-  
ज्जवसाणट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । देवायु० द्विदिबंघ० विसेसाहियाणि । आहार-  
सरीर० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । देवगदि० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । हस्स-रदीणं द्विदिबं०  
विसेसा० । पुरिस० द्विदिबं० विसे० । जस०-उच्चा० द्विदिबं० विसे० । सादावे० द्विदिबं०  
असंखेज्जगु० । मणुसगदि० द्विदिबं० विसे० । इत्थिवे० द्विदिबं० विसेसा० । णिरयगदि०  
द्विदिबं० असंखेज्जगु० । णवुंस० द्विदिबं० विसे० । अरदि-सोग०-अजस० द्विदिबं०  
विसे० । तिरिक्खगदि-णीचागो० द्विदिबं० विसेसा० । ओरालिय० द्विदिबं० विसे० ।  
वेउव्विय० द्विदिबं० विसे० । तेजा०-कम्म० द्विदिबं० विसे० । भय-दुगुं० द्विदिबं०

कि इनमें सहस्रारकल्पके समान भङ्ग है । शुक्लेश्यावाले जीवोंमें आंधके समान भङ्ग है । इतनी  
विशेषता है कि नामकर्ममें कुछ विशेषता जाननी चाहिये । मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान  
सबसे स्तोत्र हैं । इनसे देवगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । अथवा देवगतिके  
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोत्र हैं । इनसे मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असं-  
ख्यातगुण हैं । इसीप्रकार सब नामकर्मकी प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिये । असंखियोंमें मोहनी-  
यकर्मका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है । चारों आयुओंका भङ्ग सामान्य निर्यञ्चोंके समान है ।  
तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य निर्यञ्चोंके समान है ।

इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व ममाप्र हुआ ।

६६०. परस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दां प्रकारका है—आंध  
और आदेश । आंधमें निर्यञ्चायु और मनुष्यायु के स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोत्र हैं । इनसे  
नरकायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हैं । इनसे देवायुके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान  
विशेष अधिक हैं । इनसे आहारकशरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हैं । इनसे देवग-  
तिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हैं । इनसे हास्य और रतिके स्थितिवन्धाध्यवसान  
स्थान विशेष अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक हैं । इनसे  
यशःकीर्ति और उन्नगोत्रके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे सातावेदनीयके स्थिति-  
वन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हैं । इनसे मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक  
हैं । इनसे स्त्रीवेदके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे नरकगतिके स्थितिवन्धाध्य-  
वसानस्थान असंख्यातगुण हैं । इनसे नपुंसकवेदके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं ।  
इनसे अरति, शोक और अयशःकीर्तिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे निर्यञ्च-  
गति और नीचगोत्रके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे आंदारिकशरीरके स्थिति-  
वन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे वैक्रियिकशरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष  
अधिक हैं । इनसे तेजम और कार्माणशरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे

विसे० । असाद० द्विदिवं० असंखेज्जगु० । थीणगिद्धि०३ द्विदिवं० विसे० । णिदा-  
पचला० द्विदिवं० विसे० । पंचणाणा०-चदुदंसणा०-पंचंत० द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि  
विसेसा० । अणंताणुबंधि०४ द्विदिवंधज्जवसाण० असंखेज्जगु० । अप्पक्खाणा०४  
द्विदिवं० विसे० । पक्खखाणा०४ द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि विसेसा० । कोधसंज०  
द्विदिवं० विसे० । माणसंज० द्विदिवं० विसे० । मायासंज० द्विदिवं० विसे० । लोभसंज०  
द्विदिवंधज्ज० विसेसा० । मिच्छत्त० द्विदिवंधज्जव० असंखेज्जगु० । एवं ओघं पंचिदिय-  
तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-पुरिस०-क्रोधादि०४-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-  
भवसि०-सण्णि-आहारग ति । णवरि पुरिस० क्रोधादिसु च मोहणीए विसेसो ओघेण  
साधेदन्वं ।

६६१. णिरएसु सञ्चत्थोवाणि दोण्णं आयुगाणं द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि । पुरिस०-  
हस्स-रदि-जसगि०-उच्चा० द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि असंखेज्जगु० । सादावे० द्विदिवं०  
असंखेज्जगु० । इत्थिवे० द्विदिवं० विसेसा० । मणुसगदि० द्विदिवंधज्जव० विसे० ।  
णवुंस० द्विदिवंध० असंखेज्जगु० । अरदि-सोग-अजसगिति० द्विदिवं० विसेसा० ।  
तिरिक्खगदिणीचागो० द्विदिवंध० विसेसा० । भय-दुगुं०-ओरालिय-तेजा०-कम्मइय०

भय और जुगुप्साके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे असातावेदनीयके स्थिति-  
वन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे स्त्यानगुद्धि तीनके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष  
अधिक हैं । इनसे निद्रा और प्रचलाके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे पाँच-  
जानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं ।  
इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्कके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे अप्रत्याख्याना-  
वरण चारके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे प्रत्याख्यानावरण चारके स्थिति-  
वन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोध संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष  
अधिक हैं । इनसे मान संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे माया  
संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे लोभ संज्वलनके स्थितिवन्धा-  
ध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं ।  
इसी प्रकार ओघके समान पञ्चन्द्रियद्विक, त्रमद्विक, पाँच मनोयांगी, पाँच वचनयांगी, काययांगी,  
पुरुषवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, चक्षुःदर्शनी, अचक्षुःदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके  
जानना चाहिये । इनकी विशेषता है कि पुरुषवेदी और क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें मोहनीयकी  
विशेषता ओघके अनुसार साध लेना चाहिये ।

६६१. नारकियोंमें दो आयुओंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोत्रके हैं । इनसे पुरुष-  
वेद, हास्य, रति, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे  
सातावेदनीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनमें स्त्रावेदके स्थितिवन्धाध्यवसान-  
स्थान विशेष अधिक हैं । इनसे मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे  
नपुंसकवेदके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे अरति, शोक और अयशःकीर्तिके  
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे तिर्यञ्चगति और नीचगोत्रके स्थितिवन्धाध्यव-  
सानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, नैजसशरीर और कर्मणशरीरके

द्विदिवंध० विसेसा० । असादा० द्विदिवंध० असंखेज्जगुणाणि । थीणगिद्धि०३ द्विदिवंध० विसेसाहियाणि । पंचणा०-छदंसणा०-पंचंत० द्विदिवंधज्झवसाण० विसेसाहियाणि । अणं-ताणुबंधि०४ द्विदिवंध० असंखेज्जगु० । वारसक० द्विदिवंध० विसे० । मिच्छत्त० द्विदिवंध० असंखेज्जगु० । एवं पढमाए पुढवीए । णवरि मणुसगदि० द्विदिवंध० विसे० । तिरिक्खगदि० द्विदिवंध० असंखेज्जगु० । णीचागो० द्विदिवंध० विसे० । णवुंस० द्विदिवंध० विसे० । अरदि-सोग-अजस० द्विदिवंध० विसे० । उवरि णिरयोधं । एवं याव छट्ठि त्ति ।

६६२. सत्तमाए सव्वत्थोवा० तिरिक्खायु० द्विदिवंध० । मणुसगदि-उच्चागो० द्विदिवंध० असंखेज्जगु० । पुरिस०-हस्स-रदि-जसगित्ति० द्विदिवंध० असंखेज्जगु० । सादावे० द्विदिवंध० असंखेज्जगु० । इत्थिवे० द्विदिवंध०<sup>१</sup>.....

.....

### जीवसमुदाहारो

६६३. ....असादस्स चदुट्ठाणबंधगा जीवा । आभिणि० जहणियाए द्विदीए जीवेहिंतो तदो पलिदावमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणवड्ढिदा । एवं दुगुणवड्ढिदा

स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे असातावेदनीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणें हैं । इनसे स्त्यानगुद्धित्रिकके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण और पाँच अन्नरायके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चारके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणें हैं । इनसे वारह कपायोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणें हैं । इसी प्रकार पहली पृथ्वीमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे तिर्यञ्चगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणें हैं । इनसे नीचगोत्रके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवैदके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे अरति, शोक और अयशाःकीतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इससे आगे सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार छठवीं पृथिवी तक जानना चाहिये ।

६६२. सातवीं पृथिवीमें तिर्यञ्चायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोत्र हैं । इनसे मनुष्यगति और उच्चगोत्रके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणें हैं । इनसे पुरुषवैद, हास्य, रति और यशाःकीतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणें हैं । इनसे सातावेदनीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणें हैं । इनसे स्त्रीवैदके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान.....

.....

### जीवसमुदाहार

६६३. ....असाताके चतुःस्थानवन्धक जीव हैं । आभिनिबोधज ज्ञानावरणकी जघन्यस्थितिके वन्धक जीवोंसे पत्योपमके असंख्यातवैभागप्रमाण स्थान जाकर दूनी वृद्धिको

दुगुणवृद्धिदा याव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण  
दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा याव सादस्स असादस्स य उक्कस्सिया द्विदि  
त्ति । उवरि मूलपगदिभंगो ।

एवं जीवसमुदाहारे त्ति समत्तमणियोगहारं ।

एवं उत्तरपगदिद्विदिबंधो समत्तो ।

एवं द्विदिबंधो समत्तो ।

प्राप्त हुये हैं । इसीप्रकार सौ सागर पृथक्त्वतक दूनी दूनी वृद्धिको प्राप्त हुये हैं । उससे आगे पल्यके  
असंख्यातर्वेभाग प्रमाण जाकर दूने हीन हैं । इसप्रकार सातविदनीय और असातविदनीयकी उत्कृष्ट  
स्थितिके प्राप्त होने तक दूनें हीन होते गये हैं । इससे आगे भङ्ग मूलप्रकृतिवन्धके समान है ।

इस प्रकार जीवसमुदाहार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

इस प्रकार उत्तरप्रकृतिस्थितिवन्ध समाप्त हुआ ॥

इस प्रकार स्थितिवन्ध समाप्त हुआ ।





## ज्ञानपीठके सांस्कृतिक प्रकाशन

[ प्राकृत, संस्कृत ग्रन्थ ]

१. महावन्ध [ महाधवल सिद्धान्त शास्त्र ]-प्रथम भाग, हिन्दी अनुवाद सहित	१२)
२. महावन्ध—[ महाधवल सिद्धान्तशास्त्र ]-द्वितीय भाग	११)
३. करलक्खण[ सामुद्रिक शास्त्र ]-[ द्वितीय संस्करण ] हस्तरेखा विज्ञानका नवीन ग्रन्थ	॥१)
४. मदनपराजय [ भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना ]	८)
५. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थमूची	१३)
६. न्यायचिन्निश्चयविवरण [ प्रथम भाग ]	१५)
७. न्यायचिन्निश्चयविवरण [ द्वितीय भाग ]	१५)
८. तत्त्वार्थवृत्ति [ श्रुतसागर सूरिरचित टीका ] हिन्दी सार सहित	१६)
९. आदिपुराण [ भाग १ ] भगवान् ऋषभदेवका पुण्य चरित्र	१०)
१०. आदिपुराण* [ भाग २ ] भगवान् ऋषभदेवका पुण्य चरित्र	१०)
११. उत्तरपुराण वेडेस तीर्थङ्करोंका पुण्य चरित्र	१०)
१२. नाममाला सभाष्य [ कोश ]	३॥१)
१३. केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि [ प्रश्नसास्त्रका अद्वितीय ग्रन्थ ]	४)
१४. सभाष्यरत्नमंजूषा [ छन्दशास्त्र ]	२)
१५. समयसार—[ अंग्रेजी ]	८)
१६. थिरुकुरल—तामिल भाषाका पञ्चमवेद [ तामिल लिपि ]	४)
१७. वसुनन्दि-श्रावकाचार	५)
१८. तत्त्वार्थवार्तिक [ राजवार्तिक ] भाग १ [ हिन्दी सार सहित ]	१२)
१९. जातक [ प्रथम भाग ]	६)
२०. जिनसहस्रनाम	४)
२१. सर्वार्थसिद्धि	१२)

[ हिन्दी ग्रन्थ ]

२२. आधुनिक जैन कवि [ परिचय एवं कविताएँ ]	३॥१)
२३. जैनशासन [ जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना ]	३)
२४. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न [ अध्यात्मवादका अद्भुत ग्रन्थ ]	२)
२५. हिन्दी जैन साहित्यका मंदिप्र इतिहास	२॥१८)

भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ५

